

श्रीयुत्त्योन्मः

स्मृतिसुखाफलम् संमरुद्धिमुक्तापलम्

श्रीवैद्यनाथदीक्षितविरचितम्

द्वितीयो भागः

आदिकक्षण्डः

पूर्वक्षण्डः द्रविडलुगाद्युतः

இரண்டாம் பாகம் ஆஹ்நிக காண்டம்
பூர்வ பாகம்



శ్రీ గురుభ్యా నమః

స్మृతిముఖాఫలమ्

శ్రీవైఘనాథదీక్షితవిరచితమ्

ద్వితియో భాగః

ఆహికకాణడః

పూర్వఖణ్డః ద్రవిడానువాదయుతః

సంముఖీముక్తాపలమ்

శ్రీ వైతంయనాత తేషణితార ఇయర్ఱరియతు

ఇరణ్ణటామ పాకమ

అంహన్నిక కాణ్ణటమ

ముతలు పగుతి

తమిం ఉరయ్యటను

తొకుతుతణిపుపవరః

వైతయ S.V. రాత్మాకిరుష్ణు సాంస్కృతిఁ

వెளియిటుపవరః

వేత తార్మ సాంస్కృత పరిపాలన లపై

(కుమపకోణమ) సార్పిలు

శ్రీ కాంత్సీ కామకోణి పీటమ, ప్రీమటమ సమంస్తానమ

1, చాలైట్ టెక్న్, కాంత్సీపురమ-631 502

విక్రూతి-2011

SMRUTI MUKTHA PHALAM-2

ANHIKA KANDAM (Ist PART)

with Tamil translation

Edited by :

Vaidya S.V. Radhakrishna Sastri

Srirangam

Published on behalf of

Veda Dharma Sastra Paripalana Sabha

(Regd Office) Kumbakonam

by

Sri Kanchi Kamakoti Peetam

Srimatam Samsthanam

1, Salai Street,

Kanchipuram-631 502

Lasertypeset & Printed at :

V.K.N. Enterprises

164, R.H. Road, Mylapore, Chennai-4, Cell : 9840217036

Phone : 044-2722115
Fax : 044-27224305, 37290060

e:mail:skmkanci@md3.vsnl.net.in

Sri Chandramouleeswaraya Namaha:
Sri Sankara Bhagavazdpadacharya
Paramaparagatha Moolamnaya Sarvagnapeeta:
His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi

JAGADGURU SRI SANKARACHARYA SWAMIGAL
Srimatam Samasthanam
No.1, Salai Street, KANCHEEPURAM - 631 502.



मङ्कृत्वा सत्स्मृतिसागरे सुगहने लब्ध्वा वरं मौक्तिकं
श्रुत्यम्बागलभूषणं समतनोत् श्रीवैद्यनाथो महान् ।
भूयस्तद्विदानुवादकनकैस्तन्वन् सर्जं सुन्दरीं
राधाकृष्णसुधीस्सदा विजयतां श्रीचन्द्रमौलीक्षणात् ॥


अक्षैर्मा दीव्येति आम्नायामृताम्बुधिबिन्दुभिः निखिल-
स्मृतिनिचयेन च प्रभुसम्मिततया, इतिहासपुराणबृन्द-
माक्षिकधारया सुहृत्सम्मिततया, काव्यरसानुभूतीक्ष्वसारवर्णैः
कान्तासम्मिततया च प्रतिपादितः धर्मकलापः सूक्ष्मगतिको
विलसति । धर्म एव विशिनष्टि समाजं समजात् ।
मनीषिमनोगोचरस्य तस्य धर्मस्यावगतये परमकारुणिका ऋषयः
स्मृतिग्रन्थान् विलिख्य महदुपकारमतानिषुः ।
धर्मकलापापकलनकलापटौ कलौ मानवानां बोधनाय
वैद्यनाथदीक्षिताख्यो विद्वदग्रेगण्यः स्मृतिसागारं निर्मथ्य
पीयूषमाचिन्वन् स्मृतिमुक्ताफलाख्यं ग्रन्थमरीरचत् । सोऽयं ग्रन्थः

वर्णाश्रिमधर्मकाण्डः, आहिककाण्डः, आशौचकाण्डः,
 श्राद्धकाण्डः, तिथिनिर्णयकाण्डः तथा प्रायश्चित्तकाण्डश्चेति
 काण्डषट्केन निखिलमपि धर्मं प्रतिपादयति । यं वै रक्षसि धर्मं त्वं
 धृत्या च नियमेन च । स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभि-रक्षत्विति
 श्रीमद्रामायणवचनेन धर्मो रक्षति रक्षित इति सुष्टु अवगम्यते ।
 लोकानां धारणाद्धर्म इति सार्थाभिधां बिभ्रतो धर्मस्य सेवनं
 लोकव्यवस्थायाः स्थिरीकरणमिति न संशीतिः । सोऽपि धर्मः
 अनेन ग्रन्थरत्नेन सुष्टुववगम्यते । तस्यैतस्य ग्रन्थस्य
 वर्णाश्रिमधर्मकाण्डादिः भागशः वैद्यश्री
 शिवे, राधाकृष्णशास्त्रिभिः द्रविडानुवादेन सह परिष्कृत्य
 वेदधर्मशास्त्रपरिपालनसभाद्वारा प्रकाशयते इति ज्ञात्वा भृशं
 मोदामहे । सोऽयं यत्तः श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यम्बा-समेत
 श्रीचन्द्रमौलीश्वरकृपया सफलो भवत्विति ग्रन्थ-सम्पादकः
 एवमेव ग्रन्थरत्नानि प्रकाशयन्नैहिकामुष्मिकश्रेयो-विलासैः
 समेधतामिति प्रकाशने साहाय्यकर्तारश्च समस्त-मञ्जलानि
 अवाप्नुयुः पठितारश्च धर्मसेवनेन निखिलश्रेयांस्यधि-
 गच्छन्त्विति चाशास्महे ।

शङ्करसंवत्सरः २५२०

काश्चीपुरम्

नारायणस्मृतिः ।







ஸ்ரீ குருப்யோநம்:

நூல் அறிமுகம்

பிரும்ம ஸ்ரீ வைத்யநாத தீக்ஷிதர் என்ற மகான் தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த கண்டிரமாணிக்கத்தைச் சார்ந்தவர். சுமார் முன்னாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்தணர் மரபின் வழிகாட்டியான சாஸ்திரப் பேரறிஞர். அவர் அன்றுவரை கிடைத்த தர்ம சாஸ்திர நூல்களிலிருந்து கடைந்தெடுத்துத் தொகுத்து நூலாகத் தந்துள்ளது ஸ்ம்ருதிமுக்தாபலம். வர்ணாச்ரம தர்மகாண்டம் ஆந்ஹிக காண்டம், ஆசௌச காண்டம், ஶ்ராத்த காண்டம். திதி நிர்ணய காண்டம். பிராயச்சித்த காண்டம் என்ற அதன் ஆறு பகுதிகளில் வர்ணாச்ரம தர்ம காண்டம் வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலன ஸபையினரால் இதற்கு முன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆந்ஹிக காண்டம் இரு பகுதிகளாக வெளிவரவிருக்கிறது. அதன் முதற்பகுதி இது.

நல்லொழுக்கத்தையும் சமுதாய நன்னெறியையும் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியிலும் அதனைப் பின் பற்றித் தவறு நேராது பாதுகாப்பதாலேயே மனித சமுதாயம் பெருமை பெறும். தனி ஒவ்வொரு மனிதனின் சீர்கேடும் சமுதாயத்தைப் பாதிக்கும். சமுதாயத்தின் பொதுச் சீர்கேடும் தனி மனிதனின் வாழ்வைப் பாதிக்கும். தூய்மையும் நேர்மையும் சீர்மையும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஒவ்வொருவராலும் உள்ளும் வெளியும் பாதுகாக்கத் தக்கவை. இம்மூன்றையும் சீர்கெடச் செய்பவை நம்முடன் இணை பிரியாமல் சேர்ந்தே தோன்றியுள்ளன. அவற்றைக் கண்டறிந்து விலக்கி மறுபடியும் தூய்மையைப் பாதுகாப்பதே நம் பணிகளில் பேரிடம் பெறுகிறது.

தூய்மையும் - தூய்மையின்மையும் - (சௌசமும் ஆசௌசமும்) பிறருக்கு ஊறுவிளைவிக்காமல் தன்னளவில் தூய்மையைப் பெறுவது சௌசம். இந்த சௌசமே ஆந்ஹிக காண்டத்தின் உட்பொருள். தூய்மையின்மைக்குக் காரணம் பெரும்பாலும் அழுக்கு என்ற மலம், விழித்தெழுந்த பிறகும் படுக்கையில் நாட்டம். கொட்டாவி, கண்செறுகல், உடல் விரைப்பு - முறிப்பு தொடர, மனம் தெளியாமல் தமோ குணத்தின் ஆட்சி நீங்காமையை உணர்த்துகிறது. இது ஒரு அழுக்கு. விழித்ததும் சுறுசுறுப்பேற்று எழுந்து படுக்கையை அகற்றி காலாற வெளிநடப்பது தூய்மைக்கான முதற்படி. முற்பகலிலும் இரவிலும் நம்முள் தேங்கியுள்ள மல ஜலக்கழிப்பு அடுத்த சௌச முறை. தன்னலமிகுதியால் சுற்றுச் சூழலை இதனால் பாதிக்காதிருப்பதும் பாதிப்பிற்கான மாற்று தேடி சூழலின் தூய்மையைப் பாதிக்காதிருப்பதும் இதனுள் அடங்குகிறது. நாள் முழுதும் தரித்ததால் ஆடையில் சேர்ந்த மாசை நீக்கி, நீர் நிலையின் தூய்மை கெடாது நீராடி வெளி உடலை மாசற்ற தாக்கிக் கொள்வது எனத் தொடங்கிய சௌசம் இரவு படுக்கும்வரை ஒவ்வொரு கணமும் தொடர்கிறது. இது தனி மனித வாழ்க்கையில்.

மனிதன், தனித்து வாழ்வதில்லை. அவனுக்கென குடும்பம், வீடு, அடுத்து வாழ்கிற மக்களின் குடியிருப்பு, ஊர் எனச் சுற்றுச் சூழல் விரிய, ஊரோடு ஒத்து வாழ நேர்வதும் சூழலின் தூய்மையும் தேவை. ஒழுக்கத்தில் கட்டுப்பட்ட தனி மனிதன் அதே கட்டுப்பாடுள்ள குடும்பத்திலும் சூழலிலும் ஊரிலும் நாட்டிலும் அதே தூய்மை பாதுகாக்கப் பெறுவதன் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டியிருக்கிறது. எல்லோரும் இவற்றில் ஒரே

கட்டுப்பாட்டு முறையைப் பின்பற்றவேண்டியதும் அவச்யம்.

குறுகியபாதையில் தூய நிலையில் வருகிற அந்தணரும் அரசரும் எதிர்பட்டால் அரசர் அந்தணருக்கு முதலில் வழிவிட வேண்டும் என்பது ஒரு நியதி. நீராடித் தூய்மையுடன் வருகிற அந்தணர் எதிரே வருகிற வேளாளரிடம் அடுத்த ஊருக்கு எத்தனை தூரம் என விசாரித்தார். வேளாளர் எனக்காலை ஒரு காதம், உமக்காலை மூன்று காதம் என்றான். என் இப்படி எனக் கேட்டவருக்கு, நீர் தூய்மையை உற்றுப் பார்த்து ஒதுங்கி ஒதுங்கிச் செல்வீர். நான் ஒதுங்காமல் நேரே செல்வேன் என்றாராம். இது மக்கள் வழக்கில் தேர்ந்த தூய்மையின் மதிப்பு.

ஆஹ்நிக காண்டம் முழுவதும் தூய்மையை விரும்புகிற மூவர்ணத்தினர் தூய்மையைப் பாதுகாக்கிற தூய்மை முறையை விளக்குகிறது. (இன்று அது மற்ற இருவர்ணத்தினரிடம் மறைந்து அந்தணர் மரபினரில் வெகு சிலரின் நடைமுறையில் முற்றிலுமின்றி சிற்சில பகுதிகளில் அனுஷ்டானத்தில் உள்ள தெனலாம்). அது இரு பகுதிகளாக வெளிவருகிறது. அதன் முறைப்பகுதி இது. இதில் தூய்மைக்கான முக்கியச் சடங்கான திரிகால ஸந்தியாவந்தனத்தின் முற்பகுதிவரை இடம் பெறுகிறது.

இனி வரவிருக்கும் பிற்பகுதியில் முன்னிரவு வரை தொடர வேண்டிய நன்னடை முறை விளக்கம் பெறவள்ளது. ஆஹ்நிக காண்டத்துடன் முடிவுருத செளசம் மூன்றுவது ஆசௌச காண்டத்தில் தொடர்கிறது.

இட்டுதல் உள்ளவரை தான் தூயவனைக்கிறுப்பது மட்டும் போதாது. உற்றுர் உறவினரின் தூய்மையின்மையும்

இவனைப் பாதிக்கும். தன் மனைவி கருவற்றுப் பிரசவித்தால் பேறு நிலையில் வயிற்றிலுள்ள சிசுவிற்கு வாழ்வளித்த கருவறை நீரே தூய்மையைக் கெடுக்கிறதென தாயுடன் அது கொண்ட தொடர்பைக் தொப்புள்கொடியை நறுக்கிப் பிரித்து நீராட்டிக் கட்டிலிலிடுகின்றனர். தாயும் இதுவரை வயிற்றிலிருந்த சிசுவிற்கு ஊட்டமளிக்கப் பயன்படுத்திய தன் உடற்பகுதியை நீக்கிப் பெருமூச்சு விடுகிறார்கள். அசுசிப் பகுதி அகன்ற நிம்மதி. அசுசி முழுவதும் நீங்கித் தூய்மை பெற 30-40 நாட்களாகின்றன. இது காலவரைக்குட்பட்ட ஜனன - ஆசௌசம்:

பெண்ணிற் கென அவள் பருவமடைந்ததும் தொடர்கிற மாதவிடாயாலானதீட்டு, இந்த ப்ரஸவத் தீட்டு என்ற இரண்டும் பெண்ணிற்கு மட்டுமே எனினும் பிரஸவத் தீட்டில் கணவனுக்கும் அவரது உற்றுரை வினருக்கும் நிலைக்கேற்ப பங்கு உண்டு. தந்தையின் ஆசௌசம் அந்த சிசுவின் பிறப்பில் உண்டான பொறுப்பின் பங்காகும். இது நீராடலால் நீங்குவதல்ல. காலவரையால் நீங்குவது. அதனால் ஆசௌசம் என்ற தனி நிலை.

இதேபோன்று ஒருவர் இறந்ததும் அவரது உடல் அழுகி அசுசிப் படுத்துமுன் எத்தனை அன்புக்குரியதாயினும் விட்டிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டு நெருப்பிலோ பூமியிலோ அடக்கப் பெறுகிறது. அத்துடன் நில்லாமல் அதனைச் சார்ந்தவர்கள் வெவ்வேறு அடிப்படையில் 10 நாட்கள் வரை தீட்டு (ஆசௌசம்) காக்கின்றனர். தெருவினர் கூட உடலடக்கம் வரை சுசியின்மையை உணர்வர். இது மரணா சௌசம். இதுவும் நீராடலாலோ மற்ற முறைகளாலோ நீங்காது. காலவரை தீர்ந்த பிறகே விலகும். இதுவும் ஆஹ்நிக நடைமுறைகளில் தடை விளைவிக்கும். அதனால் ஆஹ்நிக காண்டத்தையொட்டி ஆசௌச காண்டம் இடம்

பெறுகிறது. தூய்மை பற்றிய விளக்கங்களை இவ்விரு காண்டங்களில் கண்டு கொள்ளலாம். ஜனனாசௌசம் குடும்பத்தைப் பேணிக்காக்க மற்றொரு ஜீவன் தோன்றியதை வரவேற்பதாக அமைவதால் உள்ளத்து நிறைவுக்காகிறது. மற்றது இதுவரை குடும்பத்தைப் பேணிக்காத்ததோரு ஜீவனின் மறைவால் துயரம் நிரம்பியது. ஆக அகத் தூய்மையையும் புறத் தூய்மையையும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஒவ்வொருவரும் எந்நிலையிலும் உறுதியுடன் இடையருமல் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை வற்புறுத்தி வழி காட்டுவது ஆஹ்நிகமும், ஆசௌசமும்.

ஸ்ரீவைத்யநாத தீக்ஷிதர் இதற்கு வழிகாட்டிய நூற்றுக் கணக்கான மூல நூல்களை இயற்றிய மகான்களின் உபதேச வாக்யங்களை நம்முன் வைத்து ஆதாரத்துடன் முன்னேரின் ஆசாரத்தைத் தொகுத்துத் தந்துள்ளார். அவரது ஸம்லக்ருத நூலை நடுக்காவேரி பிரும்மஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ் சாஸ்திரி அவர்கள் இயற்றிய தமிழரையுடன் வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலன ஸபை வெளியிட்டது. அதனையொட்டி தேவநாகரிலியில் மூலமும், தமிழில் உரையும் இப்போது மறுபதிப்பாக தொகுத்து அச்சிட்டு வெளிக் கொண்டுவருகிற வாய்ப்பை பரம பூஜ்யஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீகாஞ்சீகாமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்ரீ ஜயேந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ சரணர்களின் ஆஜ்ஞாயையும் அருளாசியையும் முன்னிட்டு வேததர்ம சாஸ்திர பரிபாலன ஸபை அடியேணிடம் தந்துள்ளது. தேவியின் அருளும் ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ சரணர்களின் அருளும் துணை நிற்க ஆஹ்நிக காண்டத்தின் முதற்பகுதி நன்மக்களின் முன் வைக்கப்படுகிறது.

ஸ்ரீரங்கம்

விக்ருதி தை வைத்ய S.V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரி

நூலாசிரியரால் தனக்கு வழிகாட்டியாகக் குறிப்பிடப் பெற்றவர்

அகஸ்தயர், அங்கிரஸ், அத்ரி, ஆச்வலாயனர், ஆபஸ்தம்பர், ஆக்னிவேச்யாயனி, உசநா, கண்வர், கர்கர், காச்யபர், காத்யாயனர், கார்க்யர், கார்ஷ்ணேஷினி, காலவர், கோபிலர், கெளசிகர், கெளதமர், சங்கர், சாண்டில்யர், சாதாதபர், சாலங்காயனர், சிவர், செளனகர், ச்லோகாபஸ்தபம்பர், தகஷ்ணர், தேவலர், நந்திஸுலமரி, நாரதர், நாராயணர், பகவான், பரத்வாஜர், பராசரர், பாரத்வாஜர், பாரஸ்கரர், பிதாமஹர், புலஸ்தயர், புலஹர், பைமநலி, போதாயனர், ப்ரகு, ப்ரகுஹஸ்பதி, ப்ரசேதஸ், ப்ரஜாபதி, ப்ரம்ஹா, ப்ரகுஹன்மனு, மரிசி, மனு, மஹாதேவர், மார்க்கண்டேயர், மேதாதிதி, யமன், யாக்ஞவல்க்யர், யோகயாக்ஞவல்க்யர், ருச்யச்ருங்கர், விகிதர், லோகாஷி, வளிஷ்டர், விச்வாமித்ரர், விஷ்ணு, விக்ஞானேசுவரர், விவஸ்வான், வையாக்ரபாதர், வ்யாக்ரபாதர், வ்ருத்தபராசரர், வ்ருத்தசங்கர், வ்ருத்தசாதாதபர், வ்ருத்தமனு, வ்ருத்தகார்க்யர், வ்ருத்தயாக்ஞவல்க்யர், வ்ருத்தவளிஷ்டர், ஜாதுகரணி, ஜாதுகரண்யர், ஜாபாலி, ஸங்க்ரஹகாரர், ஸத்யவரதர், ஸத்யதபஸ், ஸமந்து, ஸதர்சஞ்சார்யர், ஸகந்தர், ஹரதத்தர், ஹரி:, ஹாரீதர்.

—★—

ஆதார நூல்கள்

அகண்டாதர்சம், அங்கிரஸ் ஸ்ம்ருதி, அதர்வசிரஸ், அத்ரி ஸ்ம்ருதி, அபரார்க்கம், ஆஸ்வமேதிகம், ஆஸ்வலாயன ஸ்ம்ருதி, ஆதித்யபுராணம், ஆபஸ்தம்பதர்மம், ஆபஸ்தம்ப ஸ்ம்ருதி, உசநஸ் ஸ்ம்ருதி, கடசாகா, கண்வ ஸ்ம்ருதி, கர்மப்ரதீபம், காத்யாயன ஸ்ம்ருதி, காயத்ரீஸாரம், காருடம், காருடபுராணம், கால நிர்ணயம், காலாக்னி ருத்ரம், காலாதர்சம், கூர்ம புராணம், கோபில

ஸ்ம்ருதி, கெளசிக ஸ்ம்ருதி, கெளதம ஸ்ம்ருதி, கெளர்மம், க்ரியா ஸாரம், க்ருஹ்ய பரிசிஷ்டம், சக்ரோபநிஷத், சங்கர ஸ்ம்ஹிதா, சங்க ஸ்ம்ருதி, சதுர்விம்சதி மதம், சந்தோக ச்ருதி, சர்யா பாதம், சந்தரிகா, சாதாதப ஸ்ம்ருதி, சைவம், செளனக ஸ்ம்ருதி, ஜாதிநிர்ணயஸங்கரஹம், ஜாபாலோபநிஷத், தர்ம ஸார ஸ்தாநிதி, தக்ஷ ஸ்ம்ருதி, தேவல ஸ்ம்ருதி, தேவீ புராணம், தைத்திரீயகம், தைத்திரீயக ஸ்ருதி, நாரதியம், நிருக்த பாஷ்யம், ந்ருவிம்ஹ புராணம், பத்ததி, புராசர ஸ்ம்ருதி, பவிஷ்யத் புராணம், பவிஷ்யோத்தரம், பரத்வாஜ ஸ்ம்ருதி, பாகவதம், பாஞ்ச ராத்ரம், பாத்மம், பாரிஜாதம், பாராசரம், பாராசரோப புராணம், பாராசர்யம், புருஷார்த்த ப்ரபோதம், பைநெஸ ஸ்ம்ருதி, போதாயன ஸ்ம்ருதி, போதாயன தர்மம், ப்ரசேதஸ ஸ்ம்ருதி, ப்ரதீபிகா, ப்ரபஞ்ச ஸாரம், ப்ரயோக பாரிஜாதம், ப்ரஹ்ம புராணம், ப்ரஹ்மாண்ட புராணம், ப்ரஹ்ம கைவர்த்தம், ப்ரஹ்ம லித்தாந்தம், மந்த்ர தீபிகா, மந்த்ர தேவதா ப்ரகாசிகா, மரிசி ஸ்ம்ருதி, மஹாபாரதம், மனு ஸ்ம்ருதி, மஹோபநிஷத், மாத்யந்தின க்ருஹ்யம், மாதவீயம், மானவ புராணம், மானவம், மானவீய ஸ்ம்ஹிதா, மானவோபபுராணம், யம ஸ்ம்ருதி, யாக்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதி, ரத்னவளி, ருக்விதானம், லிகித ஸ்ம்ருதி, லைங்கம், லைங்க புராணம், வரதராஜீயம், வளிஷ்ட ஸ்ம்ஹிதா, வளிஷ்ட ஸ்ம்ருதி, வாமன புராணம், வாயு புராணம், வாஸிஷ்டம், வாஸிஷ்ட லைங்கம், வாஸ-தேவோபநிஷத், விக்ஞானேச்வரீயம், விஷ்ணு தர்மோத்தரம், விஷ்ணு புராணம், விஷ்ணு ஸ்ம்ருதி, வைகானஸ ஸ-தரம், வ்யாஸ ஸ்ம்ருதி, ஷட்தரிசன்மதம், ஸங்கரஹம், ஸாங்க்யாயன க்ருஹ்யம், ஸார ஸமுச்சயம், ஸார ஸங்கரஹம், ஸ-மந்து ஸ்ம்ருதி, ஸ-த ஸ்ம்ஹிதா, ஸெளர ஸ்ம்ஹிதா, ஸ்காந்தம், ஸ்ம்ருதி சந்தரிகா, ஸ்ம்ருதி சிந்தாமணி, ஸ்ம்ருதி தீபிகா, ஸ்ம்ருதி பாஸ்கரம், ஸ்ம்ருதி ப்ரதீபிகா, ஸ்ம்ருதி ரத்னம், ஸ்ம்ருதி ரத்னவளி, ஸ்ம்ருதி ஸங்கரஹம், ஸ்ம்ருதி ஸார ஸமுச்சயம், ஸ்ம்ருதி ஸாரம், ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரம், ஹாரீத ஸ்ம்ருதி.

ஆதிககாண்டபூர்வமாகவிஷயானுக்மணிகா

ஆல்நிக் காண்ட (முன்பகுதி) பொருளடக்கம்

எண்

஬ாகே முஹுரே ப்ரோதாடி -	1
விதியற்காலையில் எழுந்திருப்பது முதலியலை	
ப்ரோதானந்தரஜப்யானி	7
விழித்ததும் ஜபிக்க வேண்டிய மந்த்ரங்கள்	
பிரத்ரீநீயானி அத்ரீநீயானி	9
விழித்ததும் காணத் தக்கலை - தகாதலை	
஬ஹிர்வீர: ஶௌचங்ச -	10
வெளியில் ஸஞ்சாரம் செளசம்	
ஶௌசவிதி: - செளசவிதி	15
கண்டுகீழ (வாய் கொப்புளித்தல் முறை)	47
ஆசமனவிதி: - ஆசமனமுறை	48
ஆசமனப்ரஸ்ஸா - ஆசமனத்தின் பெருமை	73
குஶப்ரஸ்ஸா - குசத்தின் பெருமை	84
தம்ராரண காலனியம: - தர்ப்பம் கொணர காலநியமம்	100
வர்ஜனியத்ரம: - விலக்கத்தக்க தர்ப்பங்கள்	105
தம்ரஸ்ர்யா - தர்ப்பங்களின் ஸங்க்ஷேய	106
ஆசமனனிமித்தானி - ஆசமநநிமித்தங்கள்	106

द्विराचमननिमित्तानि - इरुमுறे आचमना निमित्ताङ्कां ...	113
आचमनापवादः - आचमनात्तीर्त्तुं विलक्षु 118	
दन्तधावनविधिः - पलं तुलकं कुम्मुरे 131	
दन्तधावनकाष्ठानि - पलं तुलकक्कुं कुस्मिकां 134	
स्नानविधिः - संनानवीति 149	
बासः परिधानम् - वस्त्रतारणाम् 174	
स्नानभेदाः - संनान प्रेताङ्कां 185	
माध्याहिकस्नानम् - मात्यान्त्यूर्विक संनानाम् 187	
स्नानार्हजलानि - संनानात्तीर्त्तुर्गुरीय ज्वलाङ्कां 189	
समुद्रस्नानम् - उमुत्तर संनानाम् 199	
वर्ज्योदिकम् - परिहृष्टिकक्तं तक्क ज्वलम् 203	
मृदाच्याहरणम् - मिरुत्तिकै मुत्तवियत्तेत्तुं चेकरीत्तलं 208	
नैमित्तिकस्नानम् - नैमित्तिक संनानाम् 229	
ग्रहणस्नानम् - क्रवृण्ण संनानाम् 259	
संक्रान्ति स्नानम् - उन्करान्ति संनानाम् 267	
रजस्वलास्नानम् - राजुं वलासंनानाम् 283	
आतुरस्नानम् - प्रिणीयाशारं संनानाम् 295	
काम्यस्नानम् - काम्य संनानाम् 297	
माघस्नानम् - माघ संनानाम् 300	
मलापकर्षणस्नानम् - मलापकर्षण संनानाम् 307	

नरकचतुर्दशीस्नानम् - नरकस्तुर्ताचैस्नानम्	317
क्रियास्नानम् - क्रियास्नानम्	322
नदीरजो दोषनिर्णयः - नदीकलीं रज्जोत्तोषि निर्णयम् ..	327
गौणस्नानानि - केळाणा स्नानांकां	335
जघ्निपुण्ड्रधारणम् - उनार्त्तवेपुण्टर तारणम्	347
त्रिपुण्ड्रधारणम् - त्रिपुण्टरतारणम्	386
सन्ध्योपासनम् - लन्त्येयोपासनम्	427
सन्ध्योपासनकालः - लन्त्येयोपासन कालम्	442
प्रातःसन्ध्या - प्रातस्लन्त्येया	450
जपदेशासनादिविधिः - ज्वपत्रेशासनात्मविधि	475
प्राणायामः - प्राणायामम्	484
गायत्र्यावाहन व्याहृत्यर्थौ	
कायत्रीं आवाहनम्, वियाहं ग्रुहीयिनं बेपारुणं	498
गायत्र्यर्थः - कायत्रीयिनं बेपारुणं	502
गायत्रीशिरसोऽर्थः - कायत्रीं कीरणीयिनं बेपारुणं	506
ऋषिच्छन्दो देवताः - ग्रुष्णि सन्त्तस्स त्रेवतेत	509
गायत्रीन्यासः - कायत्रीं नियासम्	518
मुद्राविधिः - मुत्त्राविधि	522
गायत्रीध्यानम् - कायत्रीं त्याणम्	528
गायत्रीमहिमा - कायत्रीयिनं बेपरुणमे	532

೭

ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯो ನಮಃ

ಶ್ರೀವैದ್ಯನಾಥದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತे

ಸ್ಮृತಿಮುಕ್ತಾಫಲे

ಆಹಿಕಕಾಣಡः

(ಪೂರ್ವಭಾಗः)

ಪ್ರೌಢವೆತ್ಯನಾಥ ತೀಕ್ಷಿತಾರ್ ಇಯರ್ಥಿಯ

ಸಂಮರ್ಗತಿಮುಕ್ತಾಪಲಮ்

ಆಹಂಕಿಕ ಕಾಣ್ಟಮ

(ಮಂಂ ಪಕುತಿ)

ಇಷಿ ಇಪ್ಪೆಬಾಘು ಆಹಂಕಿಕಾಣ್ಟಮ ಆರಮ್ಪಿಕಪಪಟ್ಟುಕಿರ್ತು. ವರಣಿಕರಮತರಮಕಾಣ್ಟಮ ಮುಧಿಂತ ಪಿರ್ಹಿ. ಅತೇ ಪತಮ ಕರಂತಾರಮಪತ್ತಿಲ ಚೆಯ್ಯಿಮ ಮಂಕಳಮೂಮಾಗುಮ. ಅಹಂ ಪಕಳುಮ, ರಾತ್ತಿರಿಯುಮ. ಅವೆವಕಳಿಲ ಚೆಯ್ಯ ವೆಣ್ಡಿಯ ಕಾರ್ಯಂಕಳಿ ಆಹಂಕಿಂಕಳಿಳಾನಪಪಟ್ಟಿಮ. ಆಹಂಕಿಂಕಳಿಸ ಶೊಲ್ಲಿಲುಮ ಕಾಣ್ಟಮ ಆಹಂಕಿಕಾಣ್ಟಮ. ಕಾಲೆಯಿಲ ವಿಶ್ವಿಪಪತ್ತ ಮುತಲ ಇರವಿಲ ಪಟ್ಟಕುಮ ವರಾಯಿಲುಳಿ ಕಾರ್ಯಂಕಳಿ, ಮಂವಾತಿ ತರಮಸಾಸ್ತರಂಕಳಿ ಅನುಸರಿತ್ತುಸ ಶೊಲ್ಲಿಲುಮ ಕರಂತಮಿತು.

ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಪ್ರಬೋಧಾದಿ ॥

ತತ್ ಮನುः— ‘ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಬ್ರಥ್ಯೇತ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿನುಚಿಂತಯೇತ् । ಕಾಯಙ್ಕೆಶಾಂಕ್ಷ ತನ್ಮೂಲಾನ್ ವೆದತತ್ವಾರ್ಥಮೈವ ಚೇ’ತಿ ॥ ವೆದತತ್ವಾರ್ಥः - ಪರಮಾತ್ಮಾ ॥

विषयग्रंकालत्तील एमुन्तीरुप्पत्तु मुत्तलियवेव

अन्त आहेणीकंकणून विषयग्रंकालत्तील एमुन्तीरुप्पत्तेयपर्नि मानु - प्रराम्भू मुलूर्गत्तत्तील एमुन्तीरुक्क क्वेण्टुम्. तर्मत्तेतयुम् अर्तत्तत्तेतयुम् चिन्तीक्क क्वेण्टुम्. अवेकाळालुज्जटाकुम् तेहूर्चरमंकज्ञायुम् वेतत्तीन्तु उज्जमेप बेपारुज्जान प्रमात्मावेयुम् चिन्तीक्क क्वेण्टुम्. इनी पकलिलुम् इरविलुम् इव्वितम् तर्मत्तेतच्चेय्य वेण्टुम् एन्ऱुम् इव्वितम् बेपारुज्जीत तेटवेण्टुमेन्ऱुम् चिन्तीक्क क्वेण्टुम्. अवेकाळील तेहूर्तत्तिन्त्कु चरममत्तिकमाकी, तर्मात्तंकाल अल्पप्रमाकामल, अल्पपर्चरमत्ताल अतिकतर्ममुम् अतिक अर्तत्तमुम् किटेक्कुम् वय्यियेच चिन्तीक्क क्वेण्टुम्. वेतत्तत्तवार्तत्तमेन्पत्तर्कु वेतत्तील वित्तित्तुज्जीक्क कर्मंकणूम्, प्ररव्नमम् एन्ऱुम् बेपारुज्जंक्तु.

तथा च व्यासः - 'ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय धर्मर्थञ्च चिन्तयेत्। कायक्षेशं तदुद्घूर्तं ध्यायीत मनसेश्वर' मिति ॥

व्यासः - प्रराम्भू मुलूर्गत्तत्तील एमुन्तु तर्ममम् अर्तत्तम् इवेकज्ञायुम्, अवेकाळालुज्जटाकुम् तेहूर्चरमत्तेतयुम् चिन्तीक्क क्वेण्टुम्, सक्वरैन्युम् मनताल त्रियाणीक्क क्वेण्टुम्.

याज्ञवल्क्यः - 'ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्। धर्मर्थकामान् स्वे काले यथाशक्ति न हापये' दिति ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते = पश्चिमेऽधर्षप्रहरे प्रबुद्धः आत्मनो हितं कृतं करिष्यमाणञ्च वेदार्थरूपं चिन्तयेत्। ततो धर्मर्थकामान् स्वोचिते काले यथा सम्बवं सेवेतेत्यर्थः' इति विज्ञानेश्वरः ॥

याक्कुवल्क्यार - प्रराम्भू मुलूर्गत्तत्तील एमुन्तु तनक्कु उत्तमाण कार्यत्तेतच्चिन्तीक्क क्वेण्टुम्. तर्ममम्, अर्तत्तम्, काममम् इवेकज्ञा अवेकणूक्कु उरीत्ताण

காலத்தில் தன் சக்திக்குத் தகுந்தவாறு விடாமல் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். ப்ராம்ஹமுஹ உர்த்ததில் - இராத்திரியின் கடைசி யாமத்தில் பின்பாகத்தில் விழித்தவனுய், தனக்கு ஹிதத்தை (முன் செய்ததையும் இனிச் செய்ய வேண்டியதையும்) வேதார்த்த ரூபமாயுள்ளதைச் சிந்திக்க வேண்டும். பிறகு தர்ம அர்த்த காமங்களை அதற்கு உசிதமான காலத்தில் யதாசக்தி வேவிக்க வேண்டும் என்று பொருள் என்கிறோர் விக்ஞாநேச்வரர்.

மாதாயீ பராಶரோऽபி - 'ஸ்ரோदியாத् ப்ரா஗்ர்ப்ரஹரே ஦्वௌ முஹாரோ । தत்ராதோ ஬்ராஹः । இதியோ ரௌதிரை । ஸ்மृத்யர்஥ஸரோऽபி - 'ப்ரமாத உத்஥ாயேஷ் ஦ைவத் மனसா நத்வா தத்வः கृத्यं ஸ்மரே' ஦ிதி ॥ । ஸ்மृதி஭ாஸ்கரே - 'ராத்ரேஸ்து பஶிமே யாமே முஹாரோ ஬்ராஹ உच்யதே' ஸதி ॥ । ஶௌநக: - 'ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् । गुरुं विष्णुं नमस्कृत्य मातापित्रोस्तथैव चेति ॥

மாதவீயவ்யாக்யானத்தில் பாரசரர் - ஸ-உர்யோதயத்திற்கு முன் கடைசி யாமத்தின் பாதி யில் இரண்டு முஹ உர்த்தங்களில் முதலாவது முஹ உர்த்தம் ப்ராம்ஹம், இரண்டாவது முஹ உர்த்தம் ரெளத்ரம் எனப்படுகிறது. ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலும்: - விடியற்காலத்தில் எழுந்து, இஷ்ட தெய்வத்தை மனத்தால் வணங்கி, வரும் பகவில் செய்ய வேண்டிய கார்யத்தைச் சிந்திக்க வேண்டும். ஸ்ம்ருத்திபாஸ்கரத்தில்: - இராத்திரியின் கடைசி யாமத்தில் உள்ள ஒரு முஹ உர்த்தம் ப்ராம்ஹ மென்று சொல்லப்படுகிறது. சௌநகர்: - ப்ராம்ஹ முஹ உர்த்தத்தில் எழுந்து குரு, விஷ்ணு, மாதாபிதாக்கள் இவர்களை நமல்கரித்துத் தனக்கு ஹிதமான கார்யத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டும்.

விஷ்ணுபுராண - 'ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय मनसा मतिमान् नृप । विष्णुश्चिन्तयेष्वर्मर्मर्थश्चाप्यविरोधिनः ॥ अपीड्यातयोः काममुभयोः परिचिन्तयेदिति ॥ । ஸ்மृத்யந்தரே - 'षोढா விமஜ்ய ரஜநீ சரமாஶே

प्रबोधितः । पद्म्या सह हरिं ध्यात्वा धर्ममर्थश्च चिन्तयेदिति
 स्मृतिरत्नावल्याम् – ‘गृहमेधिनि यत् प्रोक्तं स्वर्गभावनमुत्तमम् । ब्राह्मे
 मुहूर्तं उत्थाय सर्वं सम्यग्विचारयेत् ॥ ब्राह्मे मुहूर्तं वेदानां पितृणाश्च
 समागमः । जागरस्तत्र कर्तव्यः पितृसंमाननं हि तत् ॥ य इच्छेच्छाश्वर्तीं
 सिद्धिं यमस्यादर्शनं तथा । सततं तेन कर्तव्यो ब्राह्मे काले प्रजागरः ॥
 ब्राह्मे मुहूर्तं सेवेतां शयनं यत्र दम्पती । श्मशान तुल्यं तद्वेषम् पितृभिः
 परिवज्यते ॥ प्रत्यूषकाले निद्राश्च कुरुते सर्वदा तु यः । अशुचि तं
 विजानीयादनर्हसर्वकर्मसु ॥ ब्राह्मे मुहूर्तं या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी ॥
 तां करोति तु यो मोहात् पादकृच्छ्रेण शुद्धयतीति ॥

விஷ்ணுபுராணத்தில்:- ஒ அரசனே! நல்ல
புத்தியுள்ளவன் ப்ராம்ஹ முஹார்த்தத்தில் எழுந்து
விழித்துக் கொண்டு, தர்மத்தையும், அதற்கு
விரோதமில்லாத அர்த்தத்தையும் அவ்விரண்டிற்கும்
விரோதமில்லாத காமத்தையும் மனதால் சிந்திக்க
வேண்டும். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:- இராத்திரியை ஆரூகப்
பிரித்து, கடைசிப் பாகத்தில் விழித்துக் கொண்டு,
பத்னியுடன் ‘பத்னியாகிய லக்ஷ்மியுடன் கூடிய ஹரி’யை
விஷ்ணுவை தயானித்து’ தர்மம் அர்த்தம் இவைகளையும்
சிந்திக்க வேண்டும். ஸ்ம்ருதிரத்தினுள்ளியில்:- க்ருஹஸ்தன்
விஷயத்தில் ஸ்வர்க்க பிராப்திகரமாய்ச் சிறந்த கர்மம்
எதுசொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதை முழுவதும், ப்ராம்ஹ
முஹார்த்தத்தில் எழுந்து நன்றாய்ச் சிந்திக்க வேண்டும்.
ப்ராம்ஹ முஹார்த்தத்தில் தேவர்களும், பித்ருக்களும்
சேர்ந்து வருகிறார்கள். ஆகையால் அப்பொழுது விழித்துக்
கொள்ள வேண்டும். அது பித்ருக்களையும் தேவர்களையும்
மரியாதை செய்வதாகும். எவன் மோகஷ்தத்தையும், யமனைப்
பாராமலிருப்பதையும் வேண்டுகிறான், அவன்
பிரதிதினமும் ப்ராம்ஹ முஹார்த்தத்தில் விழித்திருக்க
வேண்டும். எந்த க்ருஹத்தில் தம்பதிகள் ப்ராம்ஹ
முஹார்த்தத்தில் படுக்கையிலிருக்கின்றார்களோ, அந்த

க்ருஹத்தைப் பித்ருக்கள் சமசானத்திற்குச் சமமாய்த் தள்ளிவிடுகிறார்கள். எவன் எப்பொழுதும் விடியற்காலத்தில் நித்திரை செய்கிறானே, அவனை அசுத்தனைகவும், ஸகலகர்மங்களிலும் தகுதி யற்றவனுகவும் அறிய வேண்டும். ப்ராம்ஹ முஹார்த்தத்தில் செய்யப்படும் நித்திரை புண்யத்தை நாசப்படுத்துவதாகும். அறியாமையால் அக்காலத்தில் நித்திரை செய்யவன் பிராஜாபத்யக்ருச்ரத்தின் நாவிலொரு பாகமாகிய பாதக்ருச்ரம் அனுஷ்டித்தால் சுத்தனைகிறுன்.

बृहन्मनुः - चत्वारीमानि कर्मणि सन्ध्यायां परिवजयेत् । आहारं
मैथुनं निद्रां स्वाध्यायञ्च तथैव च ॥ आहाराज्ञायते व्याधिः गर्भेधश्च
मैथुनात् । निद्रातो जायतेऽलक्ष्मीः स्वाध्यायादायुषः क्षय इति ॥ मनुरपि
- तच्चेदभ्युदियात्सूर्यशशायानं कामकारतः । निम्रोचे द्वाऽभ्यनु-
ज्ञानाज्जपञ्चपवसेद्विनम् ॥ सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः ज्ञानोऽभ्यदितश्च यः ।
प्रायश्चित्तमकुर्वणो युक्तः स्यान्महतैनसेति ॥ तस्मिन् यस्मिन्
कस्मिंश्चिदाश्रमिणि ज्ञाने सति सूर्योऽभिनिम्रोचेत् - अस्तमियात् ।
अभ्युनुज्ञानात् - ज्ञात्वा उपेक्षणात् । एवं वचना दशक्त्यज्ञानादिषु
प्रायश्चित्ताभावः सूचितः, अन्यथा तु प्रायश्चित्ताकरणे महान् प्रत्यवाय
इत्यर्थः ॥

ப்ரஹண்மனு - ஆஹாரம், ஸ்த்ரீஸங்கம், தூங்குதல், அத்யயனீம் (வேதமோதல்) இந்நான்கு கார்யங்களையும் ஸந்த்யாகாலத்தில் வர்ஜிக்க வேண்டும். அக்காலத்தில் சாப்பிடுவதால் வ்யாதியும், ஸ்த்ரீஸங்கத்தால் கர்ப்ப நாசமும், நித்திரையினால் மூதேவியும், அத்யயனத்தால் ஆயுளின் நாசமும் உண்டாகிறது. மனுவும்:- எந்த ஆச்ரமியானாலும் அறிந்தே தூங்கும் பொழுது ஸுர்யன் உதிக்கின்றானே, அல்லது அஸ்தமிக்கின்றானே அவன் பகல் முழுவதும் காயத்ரியை ஜபிப்பவனுய் உபவாஸமிருக்க வேண்டும். ஸுர்யாஸ்தமயகாலத்தில்

त्रांगकुमं अपीनिमं रुक्तनुमं, उत्यकालतंत्रिलं त्रांगकुमं
अप्युत्तितनं एन्पवनुमं मुनं चोल्लिय पिरायच्चित्तमं
चेय्यावीटिलं मल्हापापमुटेयवग्नवान्. इतु ऎल्ला
श्चरमिकानुक्तुमं सममं. मनुवचनतंत्रिलं 'कामकारतः'
अप्यनुज्ञानात्' एन्निरुप्पत्तालं असक्ति, अरिविन्मेम
मुत्तव्य कारणं कलालेन्पदुमं विषयतंत्रिलं
पिरायच्चित्तमिल्लियेण्तु लालिपिक्कप्पदुकिरतु.
सक्तियुलावनुक्तुमं, ज्ञानामुलावनुक्तुमं
पिरायच्चित्तमं चेय्यतु केळालावीटिलं मल्हातेऽवाशमं
एन्पतु बेपारुलं.

आपस्तम्बः - 'स्वपनभिनिमुक्तोऽनाश्वान्वाग्यतो रात्रिमासीत
शोभूत उदकमुपस्पृश्य वाचं विसृजेत् । स्वपनभ्युदितोऽनाश्वा-
न्वाग्यतोऽहस्तिष्ठेत् । आतमितोः प्राणमायच्छेदित्येक इति ॥ 'सुसे
यस्मिन्नस्तमेति सुसे यस्मिन्नुदेति च । अंशुमानभिनिमुक्ताभ्युदितौ तौ
यथाक्रमम् ॥ स्वपनभिनिमुक्तः अनाश्वान् - अभुज्ञानः, वाग्यतः तृष्णी
भूतो रात्रिं सर्वमासीत । न शयीता अथापरेद्युः प्रातः स्नात्वा वाचं
विसृजेत् ॥ अयमस्य निर्वेशः ॥ आतमितोः - यावदङ्गानां ग्लानिर्भवति,
तावत् प्राणायामं कुर्यादित्येके मन्यन्ते इत्यर्थः ॥ शक्त्यपेक्षो विकल्पः ॥

अुपस्तुम्परा - लालियालस्तमयकालतंत्रिलं नित्तिरे
चेय्यपवनं 'अपीनिमं रुक्तनं' एन्पप्पदुवान्. अवनं
इरात्तिरि मुमुवतुमं उपवालत्तुटनं मेलाणीयाय
उट्कार्नन्तिरुक्क वेण्णुमं, पदुक्कक्क कूटातु. मरुन्नालं
कालैयिलुमं स्नालं चेय्यत पिऱ्कु पेचवेण्णुमं. इतु
पिरायच्चित्तमं. लालियोत्यकालतंत्रिलं नित्तिरे
चेय्यपवनं 'अप्युत्तितनं' एन्पप्पदुवान्. अवनं अन्नृ
पकलं मुमुवतुमं उपवालत्तुटनं मेलाणीयाय
निन्नृकेळाण्णिरुक्क वेण्णुमं. 'अनंकनंकानुक्केळलामं
चोर्व उण्णटाकुमं वरे पिराण्णयाममं चेय्य
वेण्णुमं एन्सं चिलरं चोल्लुकिन्नरनारं. इन्त इरण्णु
पिरायच्चित्तनंकानुलं छन्नरे यनुष्टिक्कलामं एन्नृ

விகல்பம் சக்தியை அனுஸரித்துச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

விஷ்ணு: - உத்஥ாயोத்஥ாய ஬ோஜ்வங் கிமதி ஸுகுதஂ குதம் । ஦த்த வா ஦ாபிதம் வாடபி வாக்ஸத்யா வாடபி ஭ாषிதா ॥ உத்஥ாயोத்஥ாய ஬ோஜ்வங் மஹாஶ்யமுபஸ்திதம் । மரண வ்யாधிஶோகானாஂ கிமதி நிபதிஷ்வதீதி ॥ **வ்யாச:** - 'கிஞ்சு மே ஸ்யாடி஦ஂ கூத்வா கிஞ்சு மே ஸ்யாடகுர்வதः । இதி ஸ்விந்த்ய கார்யாணி ஧ீர: குர்வதீ வா ந வேதி ॥ ஸ்மृதிப்ரீபிகாயாம் - 'யஸ்யாஂ ராத்யாஂ வ்யதிதாயாஂ ந கிஂசிச்சும்மாசரேத் । தமேஷ வந்தயாஂ ஦ிவஸமிதி வி஦ாதிச்சக்ஷப' இதி ॥

விஷ்ணு: - ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்தெழுந்து, சென்ற தினத்தில் என்ன நற்கார்யம் செய்தேன்? என்ன தானம் செய்தேன்? கொடுக்கக்க் செய்தேன்? என்ன உண்மையான வார்த்தையைப் பேசினேன் என்று சிந்திக்க வேண்டும். எழுந்தெழுந்து மரணம், வியாதி, துக்கம் இவைகளுள் எந்த மறுாபயம் இப்பொழுது ஸமீபித்து வந்துவிடுமோ என்று சிந்திக்க வேண்டும். **வ்யாஸர்:** - புத்தியுள்ளவன் இக்கார்யத்தைச் செய்தால் என்ன பயனுண்டாகும், இக்கார்யத்தைச் செய்யாவிடல் என்ன கெடுதியண்டாகு மென்று ஆலோசித்துப் பலனுக்குத்தகுந்த படிகார்யங்களைச் செய்யவேண்டும், செய்யாமலும் இருக்க வேண்டும். **ஸ்மர்த்திப்ரதீபிகையில்:** - நற்கார்யமொன்றும் செய்யாமல் எந்தத் தினம் சென்றதோ அந்தத் தினத்தை வீணைதென்று அறியவேண்டும்.

பிரோதாநந்தரஜப்யானி ॥

தत्र ஜப்யாந்யாஹ ஦க्षः - 'ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिर्भानुशशशी
भूमिसुतो बुधश्च | गुरुश्च शुक्रशशनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ।
भूगुर्वसिष्ठः क्रतुरज्ञिराश्र मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः । रैभ्यो
मरीचिश्यवनोऽथ दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ सनत्कुमारश्च

सनन्दनश्च सनातनोऽप्यासुरिसिंहलौ च । सप्त स्वराः सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ सप्तार्षीवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त । भूरादिकूर्मौ भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् । पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाऽप्यः स्पर्शीच वायुज्ञलितश्च तेजः । नमः सञ्चादं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च तद्वत् । दुस्स्वप्नाशस्त्विह सुप्रभातं भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात्' इति ॥

विष्णुत्ता पिऱकु ज्ञपिक्कवेण्टिय मन्त्रीरंकंकं

विष्णुयर्कालत्तिलं ज्ञपिक्कवेण्टिय चेष्टालैकं चेष्टालैकं तुक्षारः:- प्ररम्मा, विष्णु, शिवन्, शमर्यन्, चन्द्रिरन्, अङ्गकारकन्, पुतन्, गुरु, सक्रन्, चनी, राकु, केतु इवर्कंकं एनक्कुच्च सपमान विष्णुयर्कालत्तिलं चेष्ट्यवेण्टियम्. प्रिरुकु, वलीष्टार, किरतु, अङ्गकिरस, मनु, पुलस्त्यर, पुलहर, केळातमर, रेरप्पर, मार्चि, च्यवनर, तक्षर इवर्कंकं एनक्कुच्च सपमान विष्णुयर्कालत्तिलं चेष्ट्यवेण्टियम्. शनत्कुमारर, शनन्त्तरनर, शनातनर, आशारी, शिम्हूलर, श्रमु श्वरंकंकं एमु किमुलकंकंकं इवर्कंकं एनक्कुच्च सपमान विष्णुयर्कालत्तिलं चेष्ट्यवेण्टियम्. ७-शमुत्तरंकंकं, ७-कुलपर्वतंकंकं, ७-रुषीकंकं, ७-तीवुकंकं, ७-वनांकंकं, पूलेकम, आत्किकूर्मम, ७-मेमुलुकंकंकं, इवेकंकं एनक्कुच्च सपमान विष्णुयर्कालत्तिलं चेष्ट्यवेण्टियम्. कन्तकुण्ठत्तुटनं कृष्ण षुमियुम, रसत्तुटनं कृष्ण ज्ञलमुम, श्वपर्कत्तुटनं कृष्ण वायुवुम. उरुवत्त्तुटनं कृष्ण तेज्ज्वल्लाम, श्वपत्तत्तुटनं कृष्ण आकाशमुम, महत्तत्त्वत्तुटनं कृष्ण एनक्कुच्च सपमान विष्णुयर्कालत्तिलं चेष्ट्यवेण्टियम्. इववितम् मरुरापरीकत्तमान इन्त श्वेतोत्तरत्तत्तकं कालैयिलं प्रतित्तालुम, श्वमरित्तालुम, केट्टालुम तुष्ट श्वप्पनपलनं नशिक्कुम. नल्ल विष्णुयर्कालमुम, पकवत्त प्रसोत्तालं एन्ऱुम उन्टाकुम.

स्मृतिरत्ने - 'महाभारतमाख्यानं क्षितिं गाञ्च सरस्वतीम् । ब्राह्मणान् केशवञ्चैव प्रातरुत्थाय कीर्तयेत् ॥ ब्राह्मणं शङ्करं विष्णुं यमं रामं दनुं बलिम् ॥ सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम् ॥ पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः ॥ पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥ कार्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्' इति ॥ शाणिडल्यः - 'उच्चैस्स्वरेण यः प्रातः स्तोतु मिच्छदनन्यधीः । वासुदेवादिदेवानां नामसङ्कीर्तनं चरेदिति ॥

संमिग्रुही रथं नात्तील - महापात्रतं तत्त्वायम्, प्रूपिण्ययुम्, पश्ववयुम्, लरस्वतिण्ययुम्, प्रराम्भौजानारं कौण्ययुम्, केचवजैयुम् विष्टयर्हकालतंत्रिलेघमुन्तु उच्चारीकंक वेण्णुम्. प्ररम्मामा, संकरणं, विष्टन्तु, यमनं, रामनं, तनु, पलि इन्त एमु पोर्कौण्ययुम् प्ररतितिनमुम् संमारीकंक वेण्णुम्. महापात्रकंकनुम् नक्षिकंकुम्. नौणेनानुम् अरचनुम्, युतिष्टिरनुम्, लौता तेवियुम्, ज्ञानरत्तननुम् पुण्यक्षेलाकर्कणेनप्पतु किन्नरनार. (इवर्कणीं कौरत्तिण्ययकं केटपतुम् पुण्यप्रतमेनंपत्ताम्) कारक्केतकणेनानुम् नाकनं, तमयन्ति, नौणं, गुतुपर्णेनानुम् राज्ञीषी इवर्कणीं नामतंत्र उच्चारीप्पतु कविण्यप्पे पोक्कुवत्ताकुम्, (कवियेनंपतु पापतंत्रायुम्, सन्तेष्टाययुम्, कवियकतंत्रायुम्, चेत्तलुम्.) काण्डिल्यरः - एवं विष्टयर्हकालतंत्रिलं संतुति चेष्य विरुम्पुकिन्नरुग्गेऽवन्तु उरत्त गुरुवृत्तं वासुदेवेन मुत्तलाण तेवर्कणीं नामनकौण उच्चारीकंक वेण्णुम्.

प्रातर्दर्शनीयान्यदर्शनीयानि च ।

अथ दर्शनीयान्यदर्शनीयानि च दर्शयति कात्यायनः - श्रोत्रियं सुभगं गाञ्च ह्यग्निमग्निचितं तथा । प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्धत्यः स प्रमुच्यते ॥ पापिष्ठं दुर्भगं मर्त्यं नग्नमुत्कृतनासिकम् । प्रातरुत्थाय यत्

स्मृतिमुक्ताफले - आकृतिकाण्डः पूर्व भागः
पद्येत् तत् कलेरुपलक्षणम् इति ॥ नग्रपदं बालव्यतिरिक्तविषयम् ॥
अथ वा - छन्दांसि - ग्राः, न विद्यन्ते ग्राः यस्य सः 'नग्र' इत्युच्तये ॥

विष्टियर्थकालत्तीलं पार्कक्त्तक्त्तक्त्तक्त्तवैवयुम्
पार्कक्त्तक्त्तक्त्तक्त्तवैवयुम्

पार्कक्त्तक्त्तवैवयुम्, पार्कक्त्तक्त्तक्त्तात्तवैवक्त्तैवयुम्
तेत्रीवीक्त्तक्त्तिन्ऱुर्. कात्त्यायनारः:- चरोत्तरीयन्,
अमुक्तैवयुन्, पक्ष, अक्त्तनि, चयनम् चेय्तवैव त्रिवर्क्तैव
विष्टियर्थकालत्तीलं एमुन्तु पार्पप्पवैव आपत्तुक्त्तक्त्तिनि
नीन्ऱुम् विटुप्पुवान्. पावी, कुरुपमुल्लावैव, नक्त्तन्न,
मुक्तैवयुप्पट्टवैव त्रिवर्क्तैव कालैयीलमुन्तवैवैन
पार्पप्पतु कलहृत्तक्त्तिन्ऱु लाशकमाकुम्. नक्त्तन्न एन्ऱ पतम्
वैस्तरमिल्लात्तवैनच चेऽल्लुक्त्तिन्ऱतु. आउलं
कुमुन्ततेक्तैत्त तवीर्तत्तु मर्त्तवर् विष्यमायच
चेऽल्लवैन्ऱुम्. अल्लतु वेतात्ययनम्
चेय्यात्तवैन्ऱुम् नक्त्तन्पत्तक्त्तिन्ऱुप बेपारुग्नैन्ऱु.

बहिर्विहारः शौचं च

तत्र व्यासः - 'नक्षत्रज्योतिराभ्य त्वासूर्योदयदर्शनात् । प्रातः
सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः ॥ ततः पूर्वं समुत्थाय
प्राचीभेवोपनिष्क्रमेत् । उदीर्चीं प्रागुदीर्चीं वा शौचाचारक्षमां दिशम् ॥
यत्रोदकं प्रभूतन्तु तद्वत्वा शौचमाचरेत्' इति ॥ माधवीये -
'नैऋत्याभिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः । दूरादावसथान्मूर्त्रं पुरीषञ्च
समाचरे' दिति ॥ आपस्तम्बः - 'आराच्चावसथान्मूर्त्रपुरीषे कुर्याद्
दक्षिणां दिशं दक्षिणापरां वेति ॥ गत्वेति शेषः । आरात् - दूरादित्यर्थः ।
व्यासः - 'प्रतिश्रयाद्वक्षिणपश्चिमेन क्षिप्रं गत्वा क्षेपमात्रं शरस्य ।
कुर्यात्पुरीषं स्वशिरोऽवकुण्ठन्य न च स्पृशेज्जातु शिरः करेण' इति ॥
प्रतिश्रयः - गृहम् ॥ मनुः - 'दूरादावसथान्मूर्त्रं दूरात् पादावसेचनम् ॥
उच्छिष्टान्नं निषेकञ्च दूरादेव समाचरे' दिति ॥ एतद्विविषयम् ।

அஸ்தமிதே ச ஬हி஗்ர்மாदாராதாவசதாநா மூன்புரிஷயोः கर்ம வர்ஜயேத् ।
‘ராதை மூன்புரிஷே து யூதாம்யாஶே ஸமாச்சரேத்’ இதி ஸ்மரணாத् ॥

வெளியில் ஸஞ்சாரம் - சௌசம்

வ்யாஸர்:- ஒ முனிவர்களே! நகஷத்ரங்களின் ஒளி இருக்கும் காலம் முதல் ஸமர்யோதயம் வரையிலுள்ள காலத்தைப் ப்ரராத்ஸ்ஸந்த்யா என்று வேதங்கள் சொல்லுகின்றன. அதற்கு முன்பே எழுந்து கிழக்கு, வடக்கு, வடகிழக்கு இவைகளுள் சௌசாசாரத்திற்கு யோக்யமான திசையை நோக்கிக் கூல்லவேண்டும். எந்த இடத்தில் ஜலம் அதிகமாயுள்ளதோ அந்த இடம் சென்று சௌசம் செய்து கொள்ளவேண்டும். மாதவீயத்தில்:- தென்மேற்குத் திக்கில் அம்புவிழும் தூரம், அல்லது அதிகமான ப்ரதேசத்தைக் கடந்து சென்று வீட்டிற்குத் தூரமான ஸ்தலத்தில் மூத்ரம், மலம் இவைகளை விடவேண்டும். ஆபஸ்தும்பர்:- தெற்கு, அல்லது தென்மேற்குத் திக்கில் சென்று, வீட்டிற்கு வெகுதூரத்தில் மல மூத்ர விஸர்ஜனம் செய்ய வேண்டும். வ்யாஸர்:- வீட்டிற்குத் தென்மேற்குத் திக்கில் அம்பு விழும் தூரத்தளவு சென்று தலையை வஸ்தரத்தால் மறைத்துக் கொண்டு, மலவிஸர்ஜனம் செய்ய வேண்டும். தலையைக் கையினால் தொடக்கூடாது. மனு:- மூத்ரம், கால் கழுவிய/ஜலம் எச்சிலன்னம், ரேதஸ் இவைகளை வீட்டிற்கு வெளியில் தூரத்தில் பரிஹுரிக்க வேண்டும். இது பகல் விஷயம். ஸமர்யாஸ்தமயத்திற்குப் பின் க்ராமத்திற் கோ, வீட்டிற்கோ வெகுதூரத்தில் மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்ய வேண்டுமென்பதில்லை. ஸமீபத்திலும் செய்யலாம். “ராத்திரியில் வீட்டிற்கு ஸமீபத்திலும் மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யலாம்” என்று ஸ்மர்த்தியிருப்பதால்.

அஜிரா:- ‘உத்஥ாய பஶ்சிமே யாமே ராத்ரோ சம்ய சோ ஦க்ம் । அந்஧ர்ய தூஷீமீமீஶிரः ப்ராவृத்ய வாஸஸா । வாஞ்ச நியம்ய யத்ரே ஷிவனோ ச்஛ாஸவர்ஜிதः । குயந்மூன்புரிஷே து ஶுசீ ஦ேஶே ஸமாஹித இதி । அனேன யத் ஸ்வாபாடிநா

निमित्तेनाचमनं प्राप्तम्, तत्राचम्यैव मूत्रपुरीषे कुर्यादित्युक्तं भवति ॥
 तृणानि - अयज्ञियानि ॥ तथा च कात्यायनः - 'शिरः प्रावृत्य कुर्वीत
 शकृन्मूत्रविसर्जनम् । अयज्ञियैरनाद्रैश्च तृणैः सञ्छाद्य मेदिनीमिति ॥
 तृणग्रहणं काष्ठादेरपि प्रदर्शनार्थम् ॥ अत एव मनुः - 'तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठं
 लोष्टं वर्णं तृणानि वा । नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवकुण्ठित' इति ।
 तिरस्करणम् - अन्तर्धानम् । उच्चारः - पुरीषोत्सर्गः । मूत्रस्याप्युप-
 लक्षणमेतत्, 'अयज्ञियैरनाद्रैश्च तृणैः सञ्छाद्य मेदिनीम् । घ्राणास्ये
 वाससाऽऽवेष्ट्य मलमूरं त्यजेद्बुध इति स्मरणात् ॥ संवीताङ्गः -
 आच्छादितदेहः । अवकुण्ठितः - प्रावृत्तशिराः ॥

आङ्कीरणः:- रात्तिरीयिणि कठेत्ति यामत्तिलं एमुन्तु
 कवनमुटेयवग्नेय आचमनम् चेय्तु, पुर्कलालं पूमिये
 मरेत्तु, वस्तर्तरत्तालं तैलये मरेत्तु,
 मेलानत्तुटन्न, तुप्पुतलं, बेरुमुक्सविटुतलं
 इवेकलील्लामलं सत्तमानि इटत्तिलं मलमुत्तर
 विसर्जनम् चेय्य वेण्टुम्. इन्कु आचमनम् चेय्तु
 ऎन्ऱिरुप्पत्तालं नित्तिरेयप्पेओलं वेऱु आचमन
 निमित्तम् नेर्नन्त्तालं आचमनम् चेय्त पिऱ्के मलमुत्तर
 विसर्जनम् चेय्य वेण्टु मेन्ऱु चेल्लियता
 याकिरतु. पूमिये मरेत्तकुम् पुर्कलं याकत्तिर्कु
 अर्हमिल्लातवेकलायिरुक्क वेण्टुम्. अव्वितमे
 वित्तिक्किण्ऱुर् कात्यायनारः - तैलये मरेत्तुकं
 केऊन्ऱु, याकत्तिर्कु येक्यमल्लाततुम्,
 उलर्नत्तमानि त्तरुणान्कलालं पूमिये मरेत्तु,
 मलमुत्तर विसर्जनम् चेय्य वेण्टुम्. इन्कु तिरुणम्
 (पुल) ऎन्ऱुम् पतम् कट्टेत मुत्तियवेयुम्
 काट्टुवत्तर्काकुम्. आकेयालेताऩ, मनुः - सत्तत्त्येयुम्,
 मेलानियायुम्, अन्कन्कलायुम् तैलयेयुम् वस्तरत्तालं
 मरेत्तुकं केऊन्ऱु, कट्टेत, मन्न कट्टि, इल, पुल
 इवेकलीलान्ऱिलं पूमिये मरेत्तु मलविसर्जनम्
 चेय्य वेण्टुम्. इन्कुण्ण 'उच्चरेत्' ऎन्ऱ पतम् मुत्तर

விஸர்ஜனத்தையும் சொல்லும், 'யக்ஞார்ஹமல்லாததும், உலர்ந்ததுமான புல்களால் பூமியை மறைத்து, மூக்கையும் வாயையும் வஸ்த்ரத்தால் மறைத்து, மலமுத்ரங்களை விடவேண்டும்' என்ற ஸ்மிருதியிருப்பதால்.

அன்றை விஷ்ணு: - 'அனார்஦்ரே ஸ்வாஸ்ஸா வேஷயித்வா மூர்஧ாந் ஶ்ரீவாயாமவசஜ்யோஞ்சரேதிதி ॥ ஹரீத: - 'அப்ராவृத்தாரா யஸ்து விண்மூர் ஸூஜதி டிஜ: । தச்சிரஶத்தா ஭ூயா ஦ிதி ஦ேவாஶபந்தி தமிதி ॥ ஬ோதாயன: - 'ஶுஷ்கஂ தூண்மயாஜிக்காஷ் லோஷ் வா திரஸ்கृத்யாஹோராத்-யோருடங்கிணாமுக: ப்ராவृத்ய ஶிர உஞ்சரேந்மேஹேதேதி ॥

இங்கு விஷ்ணு: - ஈரமில்லாத தன் வஸ்த்ரத்தினால் தலையை மறைத்துக் கொண்டு உபவீதத்தைக் கழுத்தில் சேர்த்து மலமுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். ஹாரீதர்: - ப்ராம்ஹணன்தலையை வஸ்த்ரத்தால் மறைத்துக் கொள்ளாமல் மலமுத்ர விஸர்ஜனம் செய்தால் அவன் தலை பல துண்டுகளாய்ப் போகவேண்டுமென்று தேவர்கள் அவனைச் சபிக்கின்றனர். போதாயனர்: - யாகார்ஹமல்லாத உலர்ந்த புல், கட்டை, மன்கட்டி இவைகளிலொன்றினால் பூமியை மறைத்து, தலையை மூடிக்கொண்டு பகவில் வடக்குமுகமாகவும், இரவில் தெற்கு முகமாகவும் மலமுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

மனு: - 'மூத்ராஞ்சரஸமுत்ஸர்஗்஦ிவா குர்யாடுடங்குல: । ஦க்ஷிணாமிமுखே ராதௌ ஸந்஧்யயோಶ் யथா ஦ிவா ॥ தாயாயாமந்஧காரே வா ராதாவஹனி வா டிஜ: । யதாஸுகமுக: குர்யாத் ப்ராண்஬ாधாமயேஷு சேதி ॥ 'தாயாய் மூத்ரபுரிஷயோ: கர்மவர்ஜயேதிதி ஸ்மரணாத्, அன்றை தாயாஶ஬்஦ேன அவர்ஜனீயோ மேघபர்வதாदிநா மஹதா வ்யவ஧ானேன ஸூர்யஸ்ய திரோभாவோ விவக்ஷித: । அந்஧காரஶ஬்஦ேன ராதௌ ஜ்யோதிஷாம் ॥ யத்து ஦ேவலேனோக்தம் - 'ஸ்தைவோடங்குல: ப்ராதஸ்ஸாயாஹ ஦க்ஷிணாமுக: । விண்மூர்஧ாஞ்சரேநித்யஂ ஸந்஧்யாஸு பரிவர்ஜயேதிதி, தத் திருஞ்சேதரவிஷய, 'நோபருஷ: கியா: குர்ய' ஦ிதி ஸ்மரணாத् ॥

ମନୁଁ:- ପକଲିଲ୍ ବଟକ୍ରୁମିକମାକବୁମ୍, ରାତ୍ତିରିଯିଲ୍ ତେରକୁ ମୁକମାକବୁମ୍, ଇରଣ୍ଣୁ ଲନ୍ତୁ ଯାକାଲଙ୍କଣିଲୁମ୍ ପକଲିଲ୍ ପୋଲବୁମ୍ ମଲମୁତ୍ତର ଵିଲର୍ଜୁନମ୍ ଚେଯ୍ୟବେଣ୍ଟୁମ୍. ନିମ୍ନଲିଖିତ, ଇରୁଟ୍ଟୁ ଇଷେବକଣିଲୁମ୍ ପ୍ରାଣ୍ୟବ୍ୟାମ ବରକ୍ଷୁଦ୍ୟ ଇଟଙ୍କଣିଲୁମ୍, ପକଳ ରାତ୍ତିରି ଯେଣ୍ଟର ନିୟମମିଲାମାଲି ଇଷ୍ଟପ୍ପଦି ଇରୁନ୍ତୁ ଚେଯ୍ୟଲାମ୍. ତିକକୁ ନିୟମମିଲିଲୈ. ‘ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଲମୁତ୍ତର ଵିଲର୍ଜୁନମ୍ ଚେଯ୍ୟକ୍ଷୁଟା’ ତେଣ୍ଟୁ ଲମ୍ବରୁତିଯିରୁ ପତାଳ ଇଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏଣ୍ଟର ପତତାଳ, ନମ୍ମାଳ ପରିହାରିକକ ମୁତ୍ତିଯାତତାଯ ମେକମ୍ ପରିବତମ୍ ମୁତ୍ତିଯାତତାଯ ଏଣ୍ଟର ଶେଳଲପ୍ପଦୁ କିନ୍ତୁ. ଅନ୍ତକାରମ୍ ଏଣ୍ଟପତାଳ ରାତ୍ତିରିଯିଲ୍ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କଣିଙ୍ ମରେବମ୍ ଶେଳଲପ୍ପଦୁ କିନ୍ତୁ. ‘ଏପିବୋମୁତୁ ମେ କାଲୀଯିଲ୍ ବଟକ୍ରୁମିକମାକବୁମ୍ ମାଲୀଯିଲ୍ ତେରକୁ ମୁକମାକବୁମ୍ ମଲମୁତ୍ତର ଵିଲର୍ଜୁନମ୍ ଚେଯ୍ୟବେଣ୍ଟୁମ୍. ଲନ୍ତୁ ଯା କାଲଙ୍କଣିଲ୍ ମଲମୁତ୍ତର ଵିଲର୍ଜୁନମ୍ ଚେଯ୍ୟକ୍ଷୁଟାତୁ’ ଏଣ୍ଟର ତେଵେଲାର ଶେଳଲି ଯିରୁକ୍ତିରେଣିଲ୍, ଅତୁ ଅଟକ୍କପ୍ପଟଟ ମଲମୁତ୍ତରଙ୍କଣିତ ତବିରତ୍ତବେକଣିଙ୍ ବିଷ୍ୟମ୍. ‘ମଲମୁତ୍ତରଙ୍କଣିଅଟକ୍କିକ୍ରେକାଣ୍ଟୁ, କରିଯେକଣିଅଚେଯ୍ୟକ୍ଷୁଟାତୁ’ ଏଣ୍ଟର ଲମ୍ବରୁତି ଇରୁ ପତାଳ. ଆକ୍ରୟାଳ ମୁଣିଵସନ ବିରୋଧମିଲିଲୈ.

ସୂତିସାରେ – ‘ଆଗମ୍ୟ ରାକ୍ଷସୀମାଶାଂ ନିବିତୀ ବାୟତୋ ଦିବା । ବିଷ୍ଣୁତ୍ରୋତସର୍ଜନଂ କୁର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଧୃତଶିଶନ ଉଦୟୁଖଃ ॥ ସନ୍ଧ୍ୟୋଶ ତଥା ରାତ୍ରୌ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୋ ଦ୍ଵିଜ’ ଇତି ॥ ଯତ୍ତ – ‘ପ୍ରତ୍ୟୁଷ୍ମାଖସ୍ତୁ ପୂର୍ବାହ୍ଲିପରାଳେ ପ୍ରାଙ୍ଗ୍ନାଖସ୍ତଥା । ଉଦୟୁଖସ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନିଶାୟାଂ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖ’ ଇତି ଯମବଚନମ୍, ତତ୍ସୂର୍ଯ୍ୟନିଷେଧପରମିତି ମାଧ୍ୟମୀୟେ ॥ ଯାଜାବଳକ୍ୟ: – ‘ଦିବା ସନ୍ଧ୍ୟାସୁ କର୍ଣ୍ଣସ୍ଥବ୍ରତସ୍ତୁ ଉଦୟୁଖଃ । କୁର୍ଯ୍ୟନ୍ମୂତ୍ରପୁରୀଷେ ତୁ ରାତ୍ରୌ ଚେଦକ୍ଷିଣାମୁଖ’ ଇତି ॥

ଲମ୍ବରୁତିଲାରତ୍ତିଲିଃ:- ନିରୁରୁତି ତିକକିନ୍ କେଣ୍ଟୁ ନିଲିତିଯାଯୁମ୍, ମେଳଣିଯାଯୁମ୍, ଚିକଣତତ୍ତପ ପିଣ୍ଡତତ୍କ

கொண்டு பகவில் வடக்கு முகமாகவும், ஸந்த்யா காலத்திலும் ராத்திரியிலும் தெற்கு முகமாகவும் மலழுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். மேற்கு முகமாயும், பிற்பகவில் கிழக்கு முகமாயும், நடுப்பகவில் வடக்கு முகமாயும், இரவில் கிழக்கு முகமாயும் மலழுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டுமென்ற யமவசனம், ஸார்யாபிமுகமாயிருந்து செய்வதை நிஷேதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளது என்று மாதவீயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாக்ஞவல்க்யர்:- பகவிலும், ஸந்த்யா காலங்களிலும், காதில் பூணாலைத் தரித்து வடக்கு முகமாயும், ராத்திரியில் தெற்கு முகமாயும் மலழுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்஬: - பிராஞ்சுக்கானி முஜித உச்சரேஹ்கிணாமுखः । உதங்குக்கோ மூந் குர्यात् பிரத்யக்பாடாவநேஜநமிதि ॥ அது விகல்போதெடிதவ்யः । அஜிரா: - 'கृत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कण्ठलम्बितम् । विष्मूनं तु प्रकुर्वीत यद्वा कर्णे समाहित इति ॥' ஆபஸ்தம்஬ோதபி - 'नोर्ध्वं नाधो न तिर्यक्च किञ्चिद्भीक्षेत बुद्धिमान् । नभोभूम्यन्तरं पश्येत् कृत्वा मूर्ध्युपवीतकमिति ॥' ஸ்மृத்யन்தரேதபி - 'सूनं तु दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मूनमुत्सृजेदिति ॥'

ஆபஸ்தம்பர்:- கிழக்கு முகமாய்ப் போஜனம் செய்யவேண்டும். தெற்கு முகமாய் மலவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். வடக்கு முகமாய் மூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். மேற்கு முகமாய்க் காலலம்பவேண்டும். இதில் விகல்பமுண்டு என்று அறியவேண்டும். **அங்கிரஸ்:-** பூணாலை நிவீதமாய்க் கழுத்திலிருந்து முதுகில் தொங்கும்படி செய்து, அல்லது காதில் தரித்து, மலழுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். **ஆபஸ்தம்பரும்:-** புத்தியள்ளவன் மேலேயும், கீழேயும், குறுக்கிலும் ஒன்றையும் பார்க்கக்கூடாது. ஆகாசம், பூமி இவைகளின் நடுவையே பார்க்கவேண்டும். பூணாலைத் தலையில்

तरीक्कवेण्टुम्. वेगिरुगुंसंमंगुतीयिलः - उपवीतत्तत्तवलतुकातिलं तरीत्तुकं केकाण्टु मलमुत्तरं विलर्जुनमं चेय्यवेण्टुम्.

अन्निराः - 'यज्ञोपवीतं कर्णे च दक्षिणे तु निधाय च । कुर्यान्मूत्रपरीषे तु शुचौ देशे समाहितः' इति ॥ दक्षिणकर्णनिधानं मेकवस्त्रविषयम् ॥ यदाह सुमन्तुः - 'यदेकवस्त्रस्याद्विप्रः कर्णे कृत्वोपवीतकम् । मूत्रोत्सर्गं गृही कुर्यादिति साङ्घचायनोऽब्रवीदिति ॥ साङ्घचायनगृहोऽपि - 'यदेकवस्त्रो यज्ञोपवीतं कर्णे कृत्वा मूत्रपुरीषोत्सर्गं कुर्यादिति ॥ स्मृतिसारे - 'कृत्वाऽवकुण्ठनं चात्र उत्तरीयेण वाससा । पवित्रं दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मूत्रमुत्सृजे' दिति ॥ पवित्रं - यज्ञोपवीतम् ॥

आङ्किरिसः - कवलमुलं लवण्यं, उपवीतत्तत्तवलतुकातिलं लवत्तुकं केकाळं लु, सत्तमानं इटत्तिलं मलमुत्तरं विलर्जुनमं चेय्यवेण्टुम्. वलतुकातिलं लवत्तुकं केकाळं लवेण्टुमेण्पतु ओरे वलस्तरमं तरीत्तिरुप्पवलेण्पं पर्नरीयताम्. एनेनीलं, लामन्त्तु - 'कंरुलहलस्तगुनं प्रराम्लहुनेन ओरे वलस्तरमुलेयवलु यिरुन्ततालं उपवीतत्तत्तवलतुकातिलं लुत्तरं विलर्जुनमं चेय्यवेण्टुमेण्ऱु लाङ्कंक्यायनं चेान्तुरं' लन्ऱु चेालंवतालं. लाङ्कंक्यायनं कंरुल्लयत्तिलुमः - ओरे वलस्तरत्तत्तुलेनीरुप्पागुकिलं यकंगेनोपवीतत्तत्तवलतुकातिलं लवत्तुकं केकाण्टु मलमुत्तरविलर्जुनमं चेय्यवेण्टुम्. लंमंगुती लारत्ततीलः - उत्तरीय वलस्तरत्तत्तवलतुकातिलं लोर्नरीकं केकाण्टु, पवित्रत्तत्तवलतुकातिलं लवत्तुकं केकाण्टु, मलमुत्तरविलर्जुनमं चेय्यवेण्टुम्. इङ्कु पवित्रमं पुण्यालं.

तथा च भरद्वाजः - 'चण्डालैरन्त्यजैरुक्तौ मलमूत्रविमोचने । दक्षिणश्रवणे विप्रो ब्रह्मसूत्रं विनिक्षिपेदति ॥ मूत्रपुरीषाधिकारे शङ्खः - 'नानुदको नामृत्तिको नापरिवेष्टिशिरा' इति ॥ स्मृतिदीपिकायाम् -

‘उद्धृतोदකමादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः । उद्भूखो दिवा कुर्याद्रात्रौ
चेदक्षिणामुखः ॥ त्यागान्मूत्रपुरीषस्य पूर्वं गृहीत मृत्तिकाम् । पश्चाद्बृल्लाति
यो विप्रः सचेलो जलमाविशेदिति ॥ पैठीनसिः - ‘अनुदकमूत्र-
पुरीषकरणे सचेलस्थानमिति ॥ स एव - ‘उद्धृत्यैव जलं पूर्वं
कुर्यान्मूत्रपुरीषके ॥ गृहीतोदकपात्रशेत्कुर्यान्मूत्रपुरीषके । तत्तोयं मूत्रतुल्यं
स्यात् पीत्वा चान्द्रायणश्वरेत् ॥ करस्थोदकपात्रशेत् कुर्यान्मूत्र पुरीषके ।
तज्जलं मूत्रसदशं सुरापानेन तत्सममिति ॥

அப்படியே பரத்வாஜர்:- சண்டாளருடனும்,
அந்தயஜருடனும் பேசும்பொழுதும், மலமுத்ர விஸர்ஜன
காலத்திலும் ப்ராம் ஹனன் பூணோலை வலது காதில்
வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். மலமுத்ரத்யாக
ப்ரகரணத்தில் சங்கர்:- சௌசத்திற்குரிய ஜலம், மண்
இவைகளை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளாமலும் தலையில்
வஸ்தரத்தைச் சுற்றிக் கொள்ளாமலும் மலமுத்ரங்களை
விடக்கூடாது. **ஸ்ம්‍රුතිதீபிகையில்:-** ஜலத்தையும்,
மருத்திகையையும் எடுத்துக்வைத்துவிட்டு, மெளனியாய்,
பகவில் வடக்குமுகமாகவும், இரவில் தெற்குமுகமாகவும்
மலமுத்ர விஸர்கம் செய்யவேண்டும். ப்ராம் ஹனன்
மலமுத்ர விஸர்க்கத்திற்கு முந்தியே மண்ணை எடுத்து வைக்க
வேண்டும். பிந்தி எடுத்தால் ஸ்ரேல ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். சுட்டிய வஸ்தரத்துடனே ஸ்நானம் செய்வது
ஸ்ரேலஸ்நானம். **பைஷநஸி:-** ஜலத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல்
ஸ்ரேலஸ்நானம் செய்யவேண்டும். **பைஷநஸியே:-**
ஜலத்தை முந்தி எடுத்துக்கொண்ட பிறகே முத்ர
புரீஷவிஸர்கம் செய்யவேண்டும். ஜலபாத்ரத்தைத்
தொட்டுக்கொண்டு விஸர்ஜனம் செய்தாலும் அந்த ஜலம்
முத்ரஸமமாகும். அதைக் குடிப்பது ஸராபானஸம
மாகும்.

भरद्वाजः - 'मलमूत्रं त्यजेद्यस्तु विस्मृत्यैबोपवीतधृत् । तत्सूत्रं
तु परित्यज्य दध्यादन्यत्पुनर्नवमिति ॥ अङ्गिराः - 'कृत्वा मूत्रं पुरीषं
वा यदा नैवोदकं भवेत् । स्नात्वा लब्धोदकः पश्चात् सचेलं तु विशुद्ध्यति ।
स्नानं कृत्वाऽऽद्रेबासास्तु विष्मूत्रे कुरुते यदि । प्राणायामत्रयं कृत्वा
पुनस्स्नानेन शुद्ध्यति ॥ तैलाभ्यज्ञे तथा वान्ते क्षुरकर्मणि मैथुने ।
अनाचम्योच्चरन् विप्रविशिरात्रमशुचिर्भवेदिति ॥

प्रत्थवाङ्गारः - मरुतियालं पूर्णालैल निवीतमं चेयंतु
केऽग्निं लोमामलं उपवीतियाकवेल मलमूत्रत्याकमं
चेयंतवनं अन्तपं पूर्णालैलं विट्टुविट्टुपं पुतिताणं
पूर्णालैलं तरीत्तुकं केऽग्निं लोवेण्टुम् । अङ्गकीरणः -
मूत्रलिलं ज्वलमें किटेककावीटिलं, मलमूत्र विसर्कमं
चेयंत प्रिऱकु, ज्वलमं किटेत्ततवीटत्तिलं चेणाशातिकीणां
चेयंतुकेऽग्निं, लोकेलसंन्नाणमं चेयंतालं
सुत्तत्ताणु किरुनं । लंनाणमं चेयंत प्रिऱकु
सरवसंत्तरत्तुटेनेये मलमूत्र विसर्कमं चेयंतालं,
मून्नरु प्रराणेयामन्कलं चेयंतु, मरुपटि लंनाणमं
चेयंतालं सुत्तत्ताणु किरुनं । एन्नेणाय तेयंत्तुकं केऽग्निं लोलं,
वान्ति, केऽग्निं लोलं, लंतरीलेन्कमं इवेवकलीलं अततरं कुरीय
सुत्तियेचं चेयंतु आशमनामं चेयंयामलं लुत्तरपूरीषं
विसर्कमं चेयंपवनं मून्नरु नाणं असुत्तत्ताणु किरुनं ।

आपस्तम्बः - 'शिरः परिवेष्टनं प्रथमं निवीतं द्वितीयं दिशावलोकनं
तृतीयमन्तर्छार्नं चतुर्थं मौनं पश्चामं पुरीषं षष्ठं मृत्तिकाग्रहणं
सासममुदकमष्टममिति । पुरीषकरणानन्तरं मृत्तिकोदकग्रहण
मनुद्घृतविषयम् - 'सजलं भाजनं स्थाप्य मृत्तिकां च परीक्षिताम् ।
कुर्यान्मूत्रं पुरीषं च नान्यथा शुद्धिमाप्यादिति व्यासस्मरणात् ॥ मनुः
- न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे । वाष्वग्निं विप्रमादित्यं अपः
पश्यंस्तथैव गाम् । न कदाचन कुर्वीत विष्मूत्रस्य विसर्जनम् । न फालकृष्टे
न जले न चित्यां न च पवतीत । न जीणदिवायतने न वल्मीके कदाचन । न

ससत्वेषु गर्त्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । न नदीतीरमासाद्य न च
पर्वतमस्तके ॥ प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् । प्रति गं प्रतिवातं
च प्रज्ञा नश्यति मेहतः इति ॥

ஆபஸ்தம்பர்:- தலையை வஸ்த்ரத்தால் சுற்றுவது முதலாவது, பூண்டை நிவீதம் செய்து கொள்வது இரண்டாவது, நான்கு திக்குகளையும் பார்ப்பது மூன்றாவது, புல் முதலியவற்றில் பூமியை மறைத்தல் நான்காவது, மௌனம் ஐந்தாவது, விஸர்ஜனம் ஆரூவது, மன்னை எடுப்பது ஏழாவது, ஐலத்தை எடுப்பது எட்டாவது. இந்த வசனத்தில் மல விஸர்ஜனத்திற்குப் பிறகு மன் ஐலமிழைகளை க்ரஹிப்பதைச் சொல்லியிருப்பது பூமியிலேயே இருக்கும் ஐலத்தில் செய்யப்படும் சௌசத்தின் விஷயமாகும். ஏனெனில் “ஐலத்துடனுள்ள பூத்ரத்தையும், சோதிக்கப்பட்ட மன்னையும் வைத்துவிட்டு மலமுத்ர விஸர்கம் செய்யவேண்டும். வேறு விதமானால் சுத்தனாவதில்லை” என்று வ்யாஸர் சொல்லியிருப்பதால். மனு:- வழியிலும், சாம்பவிலும், பசுக்கொட்டிலிலும், வாயு, அக்னி, ப்ராம்ஹணன், ஸுர்யன், ஐலம், பசு இவர்களைப் பார்த்துக் கொண்டும், கலப்பையால் உழுத பூமியிலும், ஐலத்திலும் ஆஹிதாக்னிகளின் செங்கற்களால் மந்த்ரத்துடன் கட்டப்படும் மேடையிலும் மலையிலும், ஜீர்ணமான தேவாலயத்திலும், புற்றிலும், ப்ராணிகள் வளிக்கும் வளைகளிலும், நடந்து கொண்டும் நின்று கொண்டும், நதியின் கரையிலும், மலையின் உச்சியிலும், மலமுத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது. அக்னி, ஸுர்யன், சந்தர்ன், ஐலம், ப்ராம்ஹணன், பசு, காற்று இவர்களுக்கு எதிராயிருந்து கொண்டு மலமுத்ர விஸர்ஜனம் செய்பவனுக்கு புத்தி குறைந்துவிடும்.

यमः - ‘प्रत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदात्मनश्शकृत् । दृष्टा सूर्यं
निरीक्षेत गामग्निं ब्राह्मणं तथेति ॥ विष्णुः - ‘न प्रत्यनिलानलेन्द्रक्षीर्णुर्

ब्राह्मणानिति ॥ बोधायनः - 'फालकृष्टे जले चित्यां बल्मीके गिरिमस्तके । देवालये नदीतीरे दर्भपृष्ठे तु शाद्वले । छायायां वृक्षमूले वा विष्मूत्रे न त्यजेद्धुधः । नान्यचित्तश्चिरं तिष्ठेन स्पृशेत् पाणिना शिरः ॥ न ब्रूयान् दिशः पश्येद्विष्मूत्रोत्सर्जने बुध इति ॥

यमनः:- लालार्यनुकुं एतिरायं मलमुत्तर विसर्जनम् चेय्यक्कटात् । तन्नुउत्तय मलत्तेतप् पारक्कक्कटात् । पारत्त्तालं लालार्यनेप पारक्क वेण्णुम् । अल्लतु पक्ष, अक्कनी, प्रामं हृणन्न इवर्कैनायावतु पारक्क वेण्णुम् । विष्णुः - कार्त्त्रु, अक्कनी, सन्तरन्, लालार्यन्, संतरी, कुरु, प्रामं हृणन्न, इवर्कैनुकुं एतिरायिरुन्तु केऽन्नु मलमुत्तर विसर्कम् चेय्यक्कटात् । **पोत्तायनरः:-** कलप्पेयालुमुत्त ष्ठलत्तिलुम्, ज्ञलत्तिलुम्, वेण्णवी मेष्टयिलुम्, पुर्निलुम् मैलयिनुक्षियिलुम्, तेवालयत्तिलुम्, नतीयिनं करारयिलुम्, तर्पपत्तिनं मेलुम्, पुल्लुण्णला तरारयिलुम्, निम्नलिलुम्, मरत्तिनात्तियिलुम् मलमुत्तर विसर्जनम् क्कटात् । मलमुत्तरविसर्जन कालत्तिलं वेऱु विष्यत्तिलं कवनमायं वेकुकालमिरुक्कक्कटात् । केयालं त्तैलयत्त तेऽतक्कटात् प्रेक्कक्कटात् । तुकुकैनाप पारक्कक्कटात् ।

पारिजाते - 'अग्नौच तिष्ठन्वै रथ्यातीर्थे श्मशानके । अज्ञारे गोमये नद्यां यज्ञभूमिषु सर्वदा ॥ बिले जले चित्यां च बल्मीके गिरिमस्तके । देवालये नदीतीरे दर्भपुष्पकुशस्थले ॥ सेव्यच्छायासु वृक्षेषु मार्गोष्टाम्बुमस्मसु । स्थानेष्वेतेषु वै कुर्यान् तु मूत्रादि किञ्चन ॥ तिष्ठेनातिचिरं तत्र नैव किञ्चिदुदीरयेत् इति ॥ यमः - 'तुषाज्ञारक-पालानि देवतायतनानि च । राजमार्गश्मशानानि क्षेत्राणि च खलानि च । उपरुद्धो न सेवेत छायादृश्यं चतुष्पथम् । उदकं चोदपानं च पन्थानं च विवर्जयेत् ॥ वृक्षमूलानि सर्वाणि चैत्यश्वभिलानि चेति ॥ हारीतः

- ‘சத்வரேபதாரயோந் மூற்புரிஷே குர்யநி ஗ோமயே ந ஗ோடை ந தீர்ஷே ந யஜ்ஞமூ
ந யஜ்ஞானாங் வृக்ஷாணாம஧ஸ்தாதிதி ॥ உபதார் - தாரஸமீபம் ॥

பாரிஜூதத்தில்:- அக்னியிலும், நடந்துகொண்டும், நின்று கொண்டும், வீதி யிலும், நதி யின் துறை யிலும், ச்மசானத்திலும், தணவிலும், சாணத்திலும், நதி யிலும் யாக பூமியிலும், வளையிலும், ஜலத்திலும் மயான மேடையிலும், புற்றிலும், மலையினுச்சியிலும், தேவாலயத்திலும், நதிக்கரையிலும், தர்ப்பம், புஷ்பம் குசம் இவைகளுண்டாகுமிடங்களிலும், இளைப்பாறக்கூடிய நிழல்களிலும், மரங்களிலும், வழியிலும், பசுக்கொட்டிலிலும், ஜலத்திலும், சாம்பவிலும் முத்ரம் முதவிய அசுத்தமொன்றையும் விடக்கூடாது. அங்கு வெகுநேரம் இருக்கக்கூடாது. ஒன்றும் பேசக்கூடாது. யமன்:- உமி, கரி, ஓடு, கோவில் ராஜமார்க்கம், மயானம், வயல், கள், நிழல், நாற்சந்தி, ஜலம் ஜலாதாரம், வழி, வருகூத்தினடி, தேவாலயம், பள்ளம், வளை இவைகளில் விஸர்ஜனம் செய்யக் கூடாது. ஹார்தர்:- வாசல், வாசற்படியின் ஸமீபம், சாணம், மாட்டுக்கொட்டில், துறை, யாகபூமி, யாகார்ஹமான விருக்ஷங்களினடி இவைகளிலும் விஸர்ஜனம் கூடாது.

விஷ்ணுரपி - ‘நாப்ரच்஛ாதிதாயா் மூஸை ந ஶாஷ்டை
நோதாநோடகஸமீபயோந்காஶ’ இதி ॥ வ்யாஸः - ‘புரிஷ் யதிவா மூன் யே
ந குர்வந்த மாநவா: । ராஜமார்஗் ஸமாம஧யே ஧ாந்யம஧யே ச தே ஶுभா: ।
வாய்யக்ரம்புநோவிப்ராந் பஶ்யநோஞ்சாரமுத்ஸுஜேத् । நாஸமமூல-
ப்ளாஜ்சாரைந்முஜ்யாநாத வஹிஷீ’ தி ॥ ஸ்முதிரத்தே - ‘ந ஸோபானத்பாடுகோ
வா த்ரி வா நாந்தரிக்ஷகே । ததைவாமிமுக: ஸ்திரீண் ஗ுருவாஹண-
யோர்஗வாமிதி ॥

விஷ்ணு:- மறைக்காத பூமியிலும், களர் பூமியிலும்,
புல் தரையிலும், பூந்தோட்டத்திலும், ஜல ஸமீபத்திலும்,

आकाशत्तिलुम् विसर्जनम् चेय्यक्षेत्रात्। व्याख्याः:-
राजमार्ककर्त्तिलुम्, लघुपयिनं नदुविलुम्, तांयन्यंकलीनं
नदुविलुम् विसर्जनम् चेय्यात्वर्कर्कन् नलवरावर.
कार्त्रु, अक्णी, लग्नर्यन्न, ज्ञलम्, पक्ष, प्रामल्लज्ञनं
शिवर्कलीप् पार्त्तुक् केऽन्दु विसर्जनम्
चेय्यक्षेत्रात्। कल, किमुंकु, करी, तर्पपम् शिवेकलालं
मलत्तेतत् तुटेक्कक्षेत्रात्। संमुक्तीरत्तन्त्त्विलः-
चेनुप्पु, पातुकेतीत्तवण्युम्, कुटेप्रियत्तवण्युम्,
आकायत्तिलुम्। संतरीकर्ण, कुरु, प्रामल्लज्ञन्, पक्ष
शिवर्कलुक्कु एतिरायुम् विसर्जनम् चेय्यक्षेत्रात्।

याज्ञवल्क्यः - 'न तु मेहेनदीच्छायावत्मगोषाम्बुभस्मसु। न
प्रत्यश्यर्कगोसोम सन्ध्याम्बुद्धिजन्मनः ॥ नेष्ठेतार्कन नग्नांस्तीन च
संसृष्ट मैथुनाम् । न च मूर्त्तं पुरीषं वा नाशुची राहु तारका इति ॥
उदयास्तमये आदित्यं नेष्ठेत, न हि सर्वदा । यथोक्तं मनुना -
'नेष्ठेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं
नभसो गतमिति ॥ उपमोगादन्यन्त न नग्नां, 'न नग्नां खियमीक्षेतान्यन्त
मैथुना' दित्याश्वलायनस्मरणात् ॥ मूर्त्तपुरीषेच न पश्येत् । तथा अशुचिः
राहुतारकाश्च न पश्येदित्यर्थः ।

याक्कुवल्क्यरः:- नति, निमुल, वप्पी, केऽट्टिलं
ज्ञलम्, साम्पलं शिवेकलीलुम्, अक्णी, लग्नर्यन्न, पक्ष,
सन्तरन्न, लन्तर्यय, ज्ञलम्, संतरी, प्रामल्लज्ञनं
शिवर्कलुक्कु केतीलुम् विसर्जनम् चेय्यक्षेत्रात्।
लग्नर्यन्नेप् पार्त्तक्कक्षेत्रात्। वसंतरमिल्लात
संतरीययुम्, लन्कमम् चेय्तु केऽन्दिरुक्कुम
संतरीययुम्, मुत्रम्, मलम् शिवेकलीयुम्, असत्तन्त्रय
राकुवेवयुम्, नक्षत्रंकरंकलीयुम् पार्त्तक्कक्षेत्रात्।
उत्यत्तिलुम् असंतमयत्तिलुम्, लग्नर्यन्नेप् पार्त्तक्कक्ष
क्षेत्रात्। एप्पेपामुतुम् पार्त्तक्कक्षेत्रा तेन्पत्तिल्लै.
एवेनानील, मनुः:- उत्यत्तिलुम्, असंमतयत्तिलुम्,
कर्मलज्ञकालत्तिलुम्, ज्ञलत्तिलुम्, आकाशत्तिलीनं नदुविलुम्

ஸ்மர்யைனப் பார்க்கக் கூடாது. நக்னஸ்தரீயைப் பார்க்கலாகாதென்பது போககாலம் தவிர மற்றகாலத்தில். 'மைதுஞகாலமின்றி மற்றகாலத்தில் நக்னஸ்தரீயைப் பார்க்கக்கூடாதென்று ஆச்வலாயனர் கூறியிருக்கிறார். மூத்ரம், மலம் இவைகளையும் பார்க்கக்கூடாது. அசுத்தனைய் ராகுவையும், நகஷத்ரங்களையும் பார்க்கக்கூடாது என்று பொருள்.

ஆபஸ்தம்஬ः - 'शिरस्तु प्रावृत्य मूत्रपुरीषे कुर्याद्भूम्यां
किञ्चिदन्तर्ज्ञाय छायायां मूत्रपुरीषयोः कर्म वर्जयेत् । स्वान्तु
च्छायामवमेहेत् । न सोपानन्मूत्रपुरीषे कुर्यात् कृष्टे पथ्यप्सु च । तथा
ष्टीवनमैथுनयोः कर्मप्सु वर्जयेत् । अग्निमादित्यमपो ब्राह्मणं गा
देवताश्चाभिमुखो मूत्रपुरीषयोः कर्म वर्जये' दिति ॥ தொயாயா
உபஜிவ்யச்஛ாயாயாம் । ந சோபஜிவ்யச்஛ாயாஸ்வितி ஸ்மரணாத् ॥ ஷ்டீவன் -
ஷ்லேஷனிரஸனம் ॥

ஆயஸ்தம்பார்: - தலையை வஸ்தரத்தால் மறைத்து, பூமியை புல் முதலியதால் மறைத்து, மலமுத்ர விஸர்ஜனம் செய்ய வேண்டும். நிழலில் விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது. தன்னுடைய நிழலில் செய்யலாம். பாதரகை தரித்து செய்யக்கூடாது. உழுத நிலத்திலும், வழியிலும், ஜலத்திலும், கூடாது. காரித்துப்புதல் மைதுனம் இவைகளை ஜலத்தில் செய்யக்கூடாது. அக்னி ஸ்மரியன், ஜலம், ப்ரராம்ஹணன், பசு, தேவதைகள் இவர்களுக்கு எதிராக மூத்ரமலங்களை விடக்கூடாது. நிழல் பிறருக்கு உபகாரமான நிழல். அவ்விதம் ஸ்ம்ருதி சொல்லுவதால்.

ஸ்மृத்யर்஥ஸாரே - 'मूत्रपुरीषं समुत्सृजन् अयज्ञियकाष्टृणपणीदिकं
गृहीत्वा शिरः प्रावृत्य निवीतं कण्ठलम्बितं कृत्वा एकवक्षश्चेत् दक्षिणे
कर्णेनिधाय, भुवं काष्टाघन्तर्हितं कुर्यान्मौनं ध्राणास्यपिधानं कृत्वा दिवा
सन्ध्ययोरुदङ்கुखो रात्रौ दक्षिणामुखो मूत्रपुरीषे कुर्यात् । ஫ாலகृষ்டே ஜலे

चित्यां बल्मीके गिरिमस्तके । देवालये नदीतीरे दर्भपुष्पेषु शाद्वले ॥
 सेव्यच्छायासु वृक्षेषु मार्गे गोषांबुभस्मसु । अग्नौ च गच्छस्तिष्ठंश्च विष्टां
 मूत्रश्च नोत्सृजेत् ॥ रथ्याचत्वरतीर्थेषु इमशाने गोमये जले । न सस्यमध्ये
 मेहेत जनसंसदि वर्त्मनि ॥ अज्ञारोद्यानसप्राणियज्ञभूमिषु नोत्सृजेत् ॥
 मारुताश्यर्कं गो सोम सन्ध्यांबुखीद्वि जन्मनः । पश्यन्नभि भिमुखश्चैव
 विष्टां मूत्रं च नोत्सृजेत् । सर्वे निषेधा नैव स्युः प्राणबाधाभयेषु तु ॥
 काष्ठादिना त्वपानस्थममेध्यं निमृजीत च । कन्दमूलफलाज्ञारेः नामेध्यं
 निमृजीत च ॥ अन्यासक्तमना नैव तिष्ठेदतिचिरं बुध इति ॥

संमंगुत्यार्त्त्त शारत्त्तीलः - मलमूत्रविसर्जनमं
 चेय्य विरुम्पियवन्यकंगुर्खूमल्लात कट्टेट, पुलं,
 इलै इवेकणीलेलाणंरेव वैवत्त्तु, तैलये
 वस्त्रत्तालं मरेत्त्तु, पूर्णालै निवीतमाय कमुत्तीलं
 तेऽन्कविट्टु, ओरु वस्त्रत्तुत्तनीरुन्तालं पूर्णालै
 वलतु कातिलं वैवत्त्तुकं केाण्टु, पूमिये कट्टेट
 मुतवियतालं मरेत्त्तु मेलाणमाय, औक्केयुमं,
 वायेयुमं वस्त्रत्तालं मरेत्त्तु, पकविलुमं
 सन्त्तयेकणीलूमं वटकंकु मुकमाकवुमं, इरविलं तेऱ्कु
 मुकमाकवुमं मलमूत्र विसर्जनमं चेय्यवेण्टुमं.
 उमुत पूमि, जलमं वेळविमेटे, पुर्णु, मलैयिनुस्चि,
 तेवोलयमं, नतिक्करे, तर्प्पमं, पुञ्चपमं, पुल्लुण्णां
 तरे, उपकारकमाण निघलं, मरमं, वழि, केाट्टिलं, जलमं,
 साम्पलं, अक्णी इवेकणीलूमं, नटन्तु केाण्टुमं, निन्ऱु
 केाण्टुमं मलमूत्र विसर्जनमं चेय्यक्कूटातु.
 राज्ञवीति, नार्चन्ति, इरन्कुमं तुरे, मयाणमं, साणमं,
 जलमं, पयीरकणीं नटुव, जनक्कूट्टमं, वழि, कारी,
 तेाट्टमं, प्राणीकणुण्णां इटमं, याकपूमि,
 इवेकणीलूमं, वायु, अक्णी, ल-मर्यन्न, पक, सन्तरन्न,
 सन्त्तये, जलमं, लत्तरी, प्राम्भूण्णन्न इवर्कैनाप
 पार्त्तत्तुमं एतिराकवुमं, मलमूत्र विसर्जनमं
 चेय्यक्कूटातु. प्राणपातेयुण्णां कालत्तीलूमं,

පයමුණ්ලා ඇටත්තිවුම එල්ලරා නිශේෂතන් කළුම් ප්‍රවර්තන්තිප්පතිල්ලේ. කට්ටෙ මුතලියතාල් ගුතත්තිවුණ්ලා මලත්තෙතත් තුළෙක්ක බෙවෙනුම්. කිඳුන්කු, බෝර්, පමුම්, කාරී ග්‍රීබෙක්ලාල් තුළෙක්කක් කුටාතු. බෙවරිටත්තිල් මණතුන් බෙවකුකාලම් ගිරුණ්කක්කුටාතු.

ප්‍රාණ - ‘දෙබාලයේ තු පරිති: ජතදණ්ඩාද්‍රහිමුනි | විණ්මූත්කරණ
කුරාත් ක්‍රිෂාද්‍රහිරථාපි බේ’ ති || බාරද්‍රාජ: - ‘අථාපකුඩ් විණ්මූත්
ලොඹකාස්තුපාදිනා | ඉදස්තබාසා ඉත්තිශේත් දුඛ විධුතමේහන ඇති || මෙහන
- ලිජ්‍යම् || රාහ්‍රිත: - ‘ලොඩෙන පරිමුඡිත ගුෂ්කකාසේන බාගුදමිති ||
ව්‍යාස: - ‘මාජ්‍යන් බාමහස්තොන බ්‍රිරණාද්‍යීරයඝියී: |
කුරාන්මූත්ප්‍රාණාමේවමාරුන් රුෂ්‍යියත ඇති ||

ප්‍රාණත්තිල්:- කොවිඩින් නාණ්ඩු ප්‍රහත්තිවුම නාරු
කොලභාවක්කප්පුරත්තිල්, අල්ලතු ඉරු ක්රොසත්තිර්කප
ප්‍රහත්තිල් මලඟුතර ඩිලාර්කම් ජේය්‍යබෙනුම්.
පාරත්වාජුර්:- ඩිලාර්ජුන්ම ජේය්‍යතපිරාකු, මණකට්ටි,
කට්ටෙ, ප්ල් මුතලියවත්රුල් මලඟුතරන්කොන්ත් තුළෙකාත්තු,
වැස්තරත්තෙ ඔයරත්තික කොණු, ආණ්ඩුරියේ නන්රුය
පියිත්තුක කොණු ගමුන්තිරුක්ක බෙවෙනුම්. රුඩාර්තා:-
මණකට්ටි අල්ලතු ඔලර්න්ත කට්ටෙයිලේ ගුතත්තෙතත්
තුළෙක්ක බෙවෙනුම්. බ්‍රාහ්‍මාලර්:- ඇටතු කෙකයිග්‍රෑල
යක්නාර්ඩුමල්ලාත කොඩර මුතලියඟවක්ලාල
සුතරමඟන්කොන්ත් තුළෙක්ක බෙවෙනුම්. ගිඛ්‍යිතම්
ජේය්‍යබෙනුක්ක ආයුණ් ගුරුවත්තිල්ලේ.

ආපස්තම්බ: - ‘අස්මාන් ලොඹමද්‍රානිශ්චිති මුත්‍රප්‍රාණාද්‍රානාච්චිය
මුත්‍රප්‍රාණාද්‍රානාච්චිය බ්‍රිජ්‍යාධිති අඩ්‍රානිති අඩ්‍රානිති මුත්‍රප්‍රාණාච්චිය
යේ අඩ්‍රානිති, තේ බනස්පතය: | ආද්‍රානිති බනනාත් ගුෂ්කේෂු න දොෂ: |
ඇඛ්‍රානිති බනනාද්‍රානාද්‍රානාච්චිය මුත්‍රප්‍රාණාච්චිය න දොෂ: | ඇතැම් අඩ්‍රානිති
මුත්‍රප්‍රාණාච්චිය මුත්‍රප්‍රාණාච්චිය න ගුරුදිත්‍යර්ථ: || ගැටම් මැට්පි - ‘න

पर्णलोषाश्मभिर्मूत्रपुरीषापकर्षणं कुर्यादिति ॥ अत्र लोषप्रतिषेध उक्तकाष्ठादि सम्बन्धे वेदितव्यः ॥ हारीतः - आहारं तु रहः कुर्याद्विहारं चैव सर्वदा । गुसाभ्यां लक्ष्मीयुक्तस्यात् प्रकाशो हीयते श्रियेति ॥

आपस्तुम्पारः:- कल्विणोलुम्, मण्कट्टियालुम्, सरमुल्लातुम्, उयर्नंतु निन्निरुप्पतुमाण ओष्ठिकौल्यम् वनस्पतिकौल्यम् **चेत्तित्तु** अवैवकूलालुम्, मुत्रपुरीषविंकौल्यत् तुटेक्कक्कूटातु. ओष्ठिकौल्यन्पवै कायत्तवृट्टन् अधीन्तु पोकुम् चेत्तिकूलाम्. वनस्पतिकौल्यन्पवै पूक्कौमल् कायक्कुम् चेत्तिकूलाम्. सरमुल्ला. एन्नरताल् उलर्नंतवैवकूलकूलतु तेऽष्टमिल्लै. उयर्नंतु निन्मुकु मेमन्पताल् कार्न्ऱ्यु मुतवियवैवकूलाल् ओष्ठित्तवैवकूलतु तेऽष्टमिल्लै. एन्पताम्. **केळातुमरुमः:-** इलै, मण्कट्टिय, कल्विवैकूलाल् मुत्रपुरीषविंकौल्यत् तुटेक्कक्कूटातु. इन्मुकु मण्कट्टिय निषेष्ठित्ततु, चेत्तिलियकृटेत मुतवियवै किटेक्कुम् पक्षुत्तिल् एन्ऱ्यु अन्नियवृम्. किटेक्काविष्टिल् मण्कट्टियाल् चेय्यलामेमन्पताम्. **हृर्वार्तारः:-** आहूराम्, मलमूत्ररथ्याकम् इवैवकौला एप्पेपामुतुम् रहूल्लस्यमाण इटत्तिल् चेय्यवेण्णुम्. रहूल्लस्यमाय्च चेय्ताल् लक्ष्मियुटन्कूवाण. पिरकाशमाय्च चेय्ताल् लक्ष्मियाल् विटप्पत्तिवाण.

शौचविधिः

तत्र देवलः - आशौचानोत्सृजेच्छशनं प्रसावोच्चारयोरपि । गुदं हस्तं च निर्मज्ज्यान्मृदंभोभिर्मुहुर्मुहुरिति ॥ स्मृत्यन्तरे - उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वाऽध्वनि मेहनम् । शौचदेशं समभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिरिति । याज्ञवल्क्यः - गृहीतशिशनशोत्थाय मृद्धिरभ्युद्घृतैर्जलैः । गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादत्तंद्रित' इति ॥ अभ्युद्घृतैः = कमण्डलवादिना उद्घृतैः ॥ तथा च देवलः - 'मूत्रोच्चारे कृते शौचं न स्यादन्तर्जलाशये । अन्यत्रोच्चृत्य तत्कुर्यात् सर्वदैव समाहित' इति ॥

சௌசவிதி:-

தேவலர்:- மலழுத்ர விஸர்கங்களில் சௌசம் வரையில் சிச்னத்தை விடக்கூடாது. மன்னைலும், ஜலத்தாலும் குதம், கை இவைகளை அடிக்கடி அலம்பவேண்டும்.

மற்றெருரு ஸ்மிருதியில்:- எழுந்து செல்லும்போது வழியில் இடதுகையால் சிச்னத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு, சௌசம் செய்யுமிடத்திற்கு வந்து, மன் ஜலமிவைகளால் சௌசம் செய்து கொள்ளவேண்டும். யாக்ஞவல்க்யர்:- சிச்னத்தை க்ரஹித்துக் கொண்டெடுமுந்து மன்களாலும், வெளியிலெடுத்த ஜலங்களாலும், சோம்பவில்லாதவனைய் நாற்றமும் பூச்சும் போகும் வரையில் சௌசம் செய்துகொள்ள வேண்டும். இங்கு எடுத்த ஜலமென்பதற்குக் கமண்டலு முதலியதாலெடுக்கப் பட்டதென்று பொருள். அவ்விதமே. தேவலர்:- மலழுத்ர விஸர்கம் செய்தபிறகு, குளம் முதலியதின் உட்புறத்தில் சௌசம் செய்யக்கூடாது. ஜலத்தை எடுத்து ஜலாசயத்திற்கு வெளியிலேயே செய்ய வேண்டும். எக்காலத்திலும் இதை மறக்கக்கூடாது.

दक्षोऽपि :- 'तीर्थे शौचं न कुर्वीति कुर्वीतोऽद्वृतवारिणा ।
मृत्तिकावारिदौचास्य शौचज्ञौ परिचारकौ' इति ॥ बोधायनः - 'प्राङ्गुख
उदङ्गुखो वाऽसीनशौचमारभेत इति । गौतमोऽपि - 'प्राङ्गुख उदङ्गुखो
वा शौचमारभेतेति ॥ 'शौचग्रहणं मूत्रपुरीषादिशौचेऽपि यथा स्यात् ।
आचमन एव माभूदिति हरदत्तेन व्याकृतम् ॥ तथा स्मृतिरत्ने -
'उद्वृतोदकमादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः । उदङ्गुखो दिवा कुर्याद्रात्रौ
चैद्वक्षिणामुख' इति ॥ यमः - ''आहरेन्मृत्तिकां प्राज्ञः कूलात्
ससिकतात्तु या । शुचौ देशे तु सा ग्राह्या शर्कराऽमविवर्जिता ॥ नाखुकृष्टान
वल्मीकात् पांसुतो न च कर्दमात् । न मार्गन्त्रोषराचैव शौचशिष्टात् परस्य
च । एतास्तु वर्जयेन्नित्यं वृथा शौचं हि तत् स्मृत' मिति ॥

तुष्णीरः :- ज्ञलाचयत्तिलं चेसाचमं चेय्यक्कूटातु. एतुत्तत्र ज्ञलत्तत्ता॒लं चेय्यवेण्टुम्. मण्णै॒ज्ञै॒युम् ज्ञलत्तत्तयुम् केा॒उक्कुम् इरु॒कैकै॒गुम् इवनुक्कु चेसाचत्तते अ॒र्निन्त परि॒चारकरै॒कौकिन्नै॒रनर. इ॒टतु॒कैया॒लं मण्णै॒ज्ञै॒युम् वलतु॒कैया॒लं ज्ञलत्तत्तयुम् चे॒र्त्ततु चेसाचमं चेय्यवेण्टुमेन्पत्ता॒म. **पोता॒यनरः** :- किमुक्कु अ॒ल्लतु व॒टक्कु मुक्मा॒य उ॒टका॒र्न्तु चेसाचमं चेय्तु केा॒न्ना वेण्टुम्. **केणै॒तमरुमः** :- किमुक्कु, अ॒ल्लतु व॒टक्कु मुक्मा॒यिरुन्तु चेसाचमं औ॒चमनम् चेय्यवेण्टुम्. इ॒न्कु चेसाचमेन्नै॒र पत्तत्तते करै॒हीत्ततु मलै॒मुत्तरा॒ति चेसाचन्कै॒न्युम् चेसा॒ल्लवै॒त्तर्हका॒क; औ॒चमनत्तिलं मट्टिलुम् एन्पत्ति॒लै॒ल एन्नै॒र हरै॒त्ततरी॒न व्या॒क्या॒नम्. अ॒व्वित्तमें स्मृतिरै॒त्तनत्ती॒लः - एतुत्तु॒वै॒त्तत ज्ञलत्तत्तयुम्, मण्णै॒ज्ञै॒युम् करै॒हीत्तुकु केा॒न्नु मेनै॒न्या॒य, पक्विलं व॒टक्कु मुक्मा॒कवुम्, रा॒त्तरी॒यिलं तेत्रै॒कु मुक्मा॒कवुम्, चेसाचमं चेय्तु केा॒न्ना वेण्टुम्. **यमनः** :- अ॒र्निन्तवै॒न मण्णै॒लुटै॒न कलन्त करै॒यिलिरुन्तु मण्णै॒न करै॒हीक्क क वेण्टुम्. सृ॒त्तमा॒न इ॒टत्तिलुै॒नै॒तेष्चै॒क्कौ॒न, कलं इ॒वै॒कौ॒ला॒मलं करै॒हीक्क वेण्टुम्. एवि पै॒रित्त इ॒टम्, पु॒त्रै॒, पु॒मुति॒, चे॒रु, व॒धि॒, कौ॒रन्ति॒लम्, पि॒रै॒न चेसाचमं चेय्तु मै॒न्ततु इ॒वै॒कौ॒लिरुन्तु मण्णै॒न करै॒हीक्कूटातु. करै॒हीत्तुै॒क्क चेय्ता॒लं अ॒न्त चेसाचमं वै॒ग्नेकुम्.

आश्वलायनः :- त्यागान्मूत्रपुरीषस्य पूर्वं गृहीत मृत्तिकाम्। न च प्रह्वो न चोत्तिष्ठनाशुचिनालिपन् द्विजः ॥ क्रमादद्यादिवाव्यन्तदिङ्गुखो नाहरेन्मृदम् । क्षेत्रात् इमशानाद्विलमीकान्मागद्विहाजलात् खलात् ॥ ऊषराद्वेवतास्थानान द्विजो मृदमाहरेत् । नाशुद्धभूमेश्वैत्याच्च न वेद्या गोव्रजान्मृदम् ॥ आहरेष्वेष्वूतां च जन्तुमिश्रां न कर्दममिति ॥ देवलः - 'अज्ञारतुष कीटास्थिसिकताशर्करान्विताम् । वल्मीकोषरतोयान्तः कुडचोद्भूतां इमशानजाम् ॥ आहृतामन्यशौचार्थमाददीत न

மृत्तिकामिति। तोयान्तः - जलमध्यात् । एतच्च वाप्यादिव्यतिरिक्त-
विषयम् ॥ अत एव मनुः - वापीकूपतटाकेषु बाह्यतो नाहरेन्मृदम् ।
आहरेजलमध्यात् परतो मणिबन्धनादिति ॥ एतत् आरण्यविषयम् ॥
स्मृतिरक्षे तु - अन्तर्जलगता ग्राह्या परतो मणिबन्धनात् । आरण्यकेषु
त्वेवं स्यात् ग्राम्येष्वाहरणं नत्विति ॥

ஆக்வலாயனர்:- மூத்ரபுரீஷ் விஸர்ஜனத்திற்கு
முன்பே ம்ருத்திகையை க்ரஹிக்க வேண்டும். குனிந்து
கொண்டும், நின்று கொண்டும், அசத்தனையும்,
பேசிக்கொண்டும், அக்னி திக்கு முதல் வாயுதிக்கு
வரையிலுள்ள திக்குகளை நோக்கியவனையும் ம்ருத்திகையை
க்ரஹிக்கக் கூடாது. வயல், மயானம், புற்று, வழி, வீடு,
ஜலம், களம் களர்நிலம், கோயில், அசத்தஸ்தலம்,
சைத்யம், யாகஸ்தலம், கொட்டில் இவைகளிலிருந்தும்
க்ரஹிக்கக் கூடாது. பற்றுள்ளதும், ஜந்துக்களுடன்
கூடியதும், சேருயமுள்ள மண்ணை க்ரஹிக்கக் கூடாது.
தேவலர்:- கரி, உமி, புழு, அஸ்தி, மணல்,, சுக்கான்
இவைகளுடன் கூடியதும், புற்று, களர்ப்புமி, ஜலத்தின்
நடுவு, சுவர், சமானம், பிறர் செளசத்திற்குக்
கொண்டுவந்தது. இவைகளிலிருந்து ம்ருத்திகையை
க்ரஹிக்கக் கூடாது. இங்கு 'ஜலத்தின் நடுவு' என்றது
நீரோடை முதலியதைத் தவிர்த்து மற்ற ஜலமத்ய விஷயம்.
மனு:- வாபீ, கூபம், தடாகம் இவைகளில் வெளியிலிருந்து
ம்ருத்திகையைக் கொண்டு வரக்கூடாது. அவைகளின்
ஜலத்தின் நடுவில் மணிக்கட்டு அளவு ஜலத்திற்கு
அப்புறமிருந்து ம்ருத்திகையை க்ரஹிக்க வேண்டும். இது
அரண்யத்திலுள்ளவைகளின் விஷயம். ஸ்ம்ருதி
ரத்னாத்தில்:- ஜலமத்யத்தில் மணிக்கட்டு அளவுக்கு
அப்புறமிருந்து க்ரஹிக்க வேண்டும். இவ்விதம்
சொல்லியது அரண்யத்திலுள்ளவைகளின் விஷயம்.
கராமத்திலுள்ளவைகளிலோ வெளில் முன் சொல்லியபடி
விதியில்லை.

मृदाहरणे शुक्लादिवर्णमाह मरीचिः - विप्रे शुक्ला तु मृच्छौचे रक्ता
क्षत्रे विधीयते । हारिद्रवर्णा वैश्ये तु कृष्णा स्त्रीशूद्यो स्तथेति ॥ यत्र पुनः
उक्तलक्षणा मृत् न लभ्यते, तत्र कथं शौचमित्यपेक्षिते मनुः - यस्मिन्
देशे तु यत्तोयं या च यत्रैव मृत्तिका । सैव तत्र प्रस्त्रास्ता स्यात् तथा शौचं
विधीयते इति ॥ यदा कथमप्युदकोद्धरणं न सम्भवति, तदा विशेषमाह
गिवस्वान् - अरतिमात्रं जलं त्यक्त्वा कुर्याच्छौचमनुद्धृते ।
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा ह्यशुचिभवेदिति ॥ जलाद्विहरतिमात्र प्रदेशं
तीरे त्यक्त्वा, जलपात्राभावेन उद्धरणासम्भवे दक्षिणहस्तेन उद्धृत्य वामेन
प्रक्षालयेदित्यर्थः ॥ तीर्थमत्र शौचस्थलम् ॥

मरुतंत्रिकै कर्णवीप्पतिलं वेगुप्पे मुतविय
वर्णान्कैला वित्तिकिंचिन्गुरार मरीचिः - चेळासतंत्रिलं,
प्रराम्भैरण्णानुक्तु वेगुत्तंत्रतुम, कृष्टरीयानुक्तु
चिवन्तत्रुम, वेवस्यानुक्तु मानुचैर्निरमुलानुम, लंतरी
कुर्तरर्कणुक्तुक करुतंत्रत्रुमान मरुतंत्रिकै वित्तिकप
पटुकिरतु. एवंविटत्तिलं मुनं चेळालविय
लक्षणान्कण्टेय माणं किटेक्कविल्लैयो
अवंविटत्तिलं एप्पटि चेळासमेनीलं माणुः - एन्ततं
तेचेत्तिलं एन्तत ज्ञलम, एन्त मरुतंत्रिकै किटेक्किंच्चेतो
अतु वेव अन्कु चलाक्यमाकुम. अतानु लेये चेळासम
चेय्तु केळांलाम.

एप्पेपामुतु एवंवित्तिलुम ज्ञलतंत्र
एन्ततु वेवप्पतु लात्यमिल्लैयो अन्कु विचेष्ठत्तेत्तच
चेळालुकिरुर. विवस्वान्नः - ज्ञलक्करयीलं मुमु अलाव
त्तारत्तिर्कु अप्पुरुत्तिलं चेळासम चेय्तु केळांला
वेण्णुम. पिऱकु अन्त इटत्तत्त चत्तमाक्कच चेय्य
वेण्णुम. चत्तमाक्कच चेय्याविटिलं अक्तत्तानुवान्न.
पात्तिरमिल्लात्तालं एन्तत्तुक चेळल मुट्याविटिलं
ज्ञलक्करयीलं ओरु मुमुत्तिर्कप्पुरुत्तिलं उट्कार्न्तु वलतु
केयालेलेन्तत्तु ज्ञलतंत्रक केळांनु इटत्तु केयालं
चेळासम चेय्तु केळांला वेण्णुमेन्पत्तु बेपारुलं.

இங்கு தீர்த்தமென்ற பதத்திற்குச் சௌகாஸ்தல மென்பது பொருள். (அரத்னி என்பது ஒரு அங்குலம் குறைந்த முழும்.)

தथா ச திருத்தங்கள் : - 'யस्मिंस्थाने कृतं शौचं वारिणा तत्तु शोधयेत्। न शुद्धिस्तु भवेत्तस्य मृत्तिकां यो न शोधयेदिति ॥ स्मृतिरत्ने - 'देशान्तरगतो विप्रः क्षालयेच्छौचभूतलम् ॥ शौचशेषमृदं तोयैर्नहि प्रक्षालयेद्यदि । अजोषास्तस्य पितरो भक्षयेयुर्न संशय' इति ॥ देवलः - 'धर्मविदक्षिणं हस्तमधशशौचे न योजयेत् । तथा च वामहस्तेन नाभेरूर्ध्वं न शोधयेदिति ॥ सञ्च हे - 'नाभेरधस्तात्सகलं क्षालयेद्वामपाणिना । कुर्यादाचमनादीनि सर्वणीतरपाणिनेति ॥ त्रित्यशूङ्गः - 'धाराशौचं न कर्तव्यं शौचसिद्धिमभीप्सता । चुलकैरेव कर्तव्यं हस्तशुद्धिविधानत इति । दक्षः - 'न शौचं वर्षधाराभिः आचरेत्तु कदाचनेति ॥'

அவ்விதமே ருச்யச்சருங்கரா : - எந்த இடத்தில் சௌகம் செய்யப்பட்டதோ அந்த ஸ்தலத்தை ஜலத்தினால் சுத்தமாக்க வேண்டும். மண்ணைச் சுத்தம் செய்யாதவனுக்குச் சுத்தி உண்டாவது லை. ஸ்மருதிரத்னத்தில் : - ப்ராம்ஹணன் வேறுப்ரதேசத்திலிருந்து கொண்டு சௌகாஸ்தல அலம்பவேண்டும். சௌகத்தில் மீந்த மண்ணை ஜலத்தால் சோதிக்காவிடில் அந்த மண்ணை அவனின் பிதருக்களைல் லோரும் பகவி ப்பார்கள். ஸந்தேஹமில்லை. தேவலர் : - தர்மமறிந்தவன் வலதுகையை இடுப்பிற்குக் கீழ்பாகத்துன் சௌகத்தில் உபயோகிக்கக் கூடாது. இடது கையால் தொப்புஞ்குக்கு மேல் உள்ள அவயவத்தைச் சோதிக்கக்கூடாது. ஸங்கரஹத்தில் : - நாபிக்குக் கீழுள்ள அங்கமெல்லாவற்றையும் இடது கையினுலலம்ப வேண்டும். ஆசமனம் முதலிய எல்லாவற்றையும் வலது கையினால் செய்ய வேண்டும். ருச்யச்சருங்கரா : - சௌகத்தால் சுத்தியை விரும்புகின்றவன் தாரையாய் விழும் ஜலத்தினால் சௌகம் செய்யக்கூடாது. கையாலெடுத்த ஜலங்களாலேயே செய்ய வேண்டும். கையால் சௌகம் செய்து கொள்ளும்படி விதியுள்ளது.

तुष्टीकारः:- ममैमूळेलत्तुनिं त्रावरकणालूल ओरुकालुम् चेळाचम् चेयत्तु लेकाळांकंकलान्तु।

मृत्सङ्घचामाह वसिष्ठः - 'पञ्चापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः। उभयोः पादयोः सप्त लिङ्गे द्वे परिकीर्तिं इति ॥ यमोऽपि - 'द्वे लिङ्गे मृत्तिके देये गुदे पञ्च करे दश । उभयोस्सप्त दातव्याः पुनरेका गुदे तथेति ॥ मनुः - 'एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकस्मिन् करे दश । उभयोस्सप्त दातव्या मृददशुद्धिमभीप्सता ॥ एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । त्रिगुणं तु वनस्थस्य यतीनां तु चतुर्गुणमिति ॥ दक्षः - 'पञ्चापाने दशैकस्मिन्नुभयोस्सप्त मृत्तिकाः । गृहस्थजौचमार्घ्यातं त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम् ॥ द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्थस्य चतुर्गुणं' मिति ॥ हारीतः - 'एका लिङ्गे तिस्रोऽपाने दद्यादश सव्ये षट् पृष्ठे सप्तोभाभ्यामिति पृष्ठे - सव्यस्य पश्चाद्दागे, तस्य प्रकृतत्वात् ॥

मण्णज्ञीनं संक्षेपययेयच चेळालुकिरुर्व वलिष्टारः:- अपाणत्तिल ज्ञन्तु, इटतु केयिल पत्तु, इरण्णु लेककलीलुम् तनीत्तनी एमु, काल्कलीलुम् तनीत्तनी एमु, शुरियिल इरण्णु मण्णकां उपयोकिकप्पत वेण्णुम्. यमनुमः:- शुरियिल इरण्णु, अपाणत्तिल ज्ञन्तु, इटतु केयिल पत्तु, लेककलील, तनीत्तनी एमु, मरुपाट अपाणत्तिल ओन्ऱु लेन्ऱ लेन्ऱ कणक्काल मंगुत्तिलेकये उपयोकिक वेण्णुम्. मनुः:- चेळाचत्ताल सत्तिलेय विरुम्पियवनं शुरियिल ओन्ऱु, अपाणत्तिल मुन्ऱु, इटतु केयिल पत्तु, इरुलेककलीलुम् तनीत्तनी एमु मण्णकाल उपयोकिक वेण्णुम्. इन्तक चेळाचम कंगुलूलस्तनुक्कु. इतेविट इरण्णु मटंकु परम्लूलचारीक्कुम, मुन्ऱु मटंकु वाणपरस्तनुक्कुम, नाण्णु मटंकु लेन्यरलीक्कुम वित्तिकप्पतुकिरतु. **तुष्टीकारः:-** अपाणत्तिल ज्ञन्तु, इटतु केयिल पत्तु, इरण्णु लेककलीलुम् तनीत्तनी एमु मंगुत्तिलेककल वित्तिकप्पतुकिन्ऱन. इतु कंगुलूलस्तनुक्कु. परम्लूलचारीक्कु इरण्णु मटंकुम,

வானப்ரஸ்தனுக்கு மூன்று மடங்கும், ஸன்யாஸிக்கு நான்கு மடங்கும் விதிக்கப்படுகின்றன. ஹார்தர்:- குறியில் ஒன்று, குத்தில் மூன்று, இடது கையில் பத்து, அதன் பின்புறத்தில் ஆறு, இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி ஏழு ம்ருத்திகைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

மரிசி: - ‘திஸுभிஶாதலாத்பாடை ஶோधயௌ ஗ுல்஫ாத்தைவ ச | ஹஸ்தை த்வாமணி஬ந்஧ாச்ச லேபங்ந்஧ாபக்ஷண’ மிதி ॥ ஶङ்க: - ‘மேஹநே முத்திகாஸ்ஸஸ லிங்கே ஹே பரிகிரித்தீ | எகஸ்மிந् விஞ்சதிர்ஹஸ்தே ஹ்யோர்஦ேயாஶ்துர்஦ஶ | ஷட்ந்யா ந஖ஶுஷ்டை து ஦ேயா: ஶௌசேப்ஸுநா மூட: | திஸ்ஸது முத்திகா ஦ேயா: கृத்வா து ந஖ஶோ஧நம் | திஸ்ஸது பாதயோர்஦ேயா: ஶௌசகாமஸ்ய நித்யஶ இதி ॥ விஷ்ணுபுராணे - ‘எகா லிங்கே ஹுடே திஸ்மோ ஦ஶ வாமகரே நூப | ஹஸ்தஹ்யே ச சஸ்தாந்யா மூட: ஶௌசோப்பாடிகா’ இதி ॥ ஸ்முதிஸாரே - ‘கராஶே கரபூஷே ச பஹிர்விஷாவிஶுஷ்டயே | ஷட்ஸஸ்த்யா ப்ரதாதந்யா முத்திகாஶ பூ஥க்’ இதி ॥ யம: - ‘பூஷீ ஜலேன பிரகால்ய மூடா பஶாத்தோऽம்஬ுமிஃ | எவ் ஹாதஶகுத்வஸ்து ஹுடஶௌசம் ஸமாசரேத் | பஞ்சகृத்வ: கரை க்ஷால்ய மூடா | மலகமாந்யா | திஃ கृத்வா லிங்கஶௌசம் ச ஹஸ்தம் க்ஷால்ய பத்தாயம் | ஸஂயோஜ்ய திர்மூடா க்ஷால்ய க்ஷாலயே ச்஛ௌசமூதலமிதி ॥

மார்சி: - மூன்று ம்ருத்திகைகளால் கால்களை உள்ளங்கால் முதல் கணுக்கால் வரையிலும், கைகளை உள்ளங்கை முதல் மணிக்கட்டு வரையிலும் பூச்சும் நாற்றமும் போகும்படி சோதிக்க வேண்டும். சங்கரர்: - குத்தில் ஏழு, குறியில் இரண்டு, இடது கையில் இருபது, கைகளில் தனித்தனி பதினான்கு ம்ருத்திகைகள், நகசுத்திக்காக மறுபடி ஆறு, நகசுத்தி செய்த பிறகு மூன்று, பாதங்களில் தனித்தனி மூன்று ம்ருத்திகைகளும் உபயோகிக்க வேண்டும். விஷ்ணுபுராணத்தில்: - குறியில் ஒன்று, குத்தில் மூன்று, இடது கையில் பத்து, இரண்டு கைகளிலும், தனித்தனி ஏழு ம்ருத்திகைகள் சுத்தியை

उंनेंटु पण्णेणु किंवर्णन. ंस्मंग्रुती शारात्त्वीलः - ईकयील उपरुत्तिलुम् वेवलीप्पुरुत्तिलुम् मलसत्तिक्काक तनीत्तनीये आरु मंग्रुत्तिकेककला उपयोगिक्क वेवेन्नेटुम्. यमनः - मुत्तवील ज्ञलत्तत्ताल अलम्पि, पिऱ्कु मण्णेणुल चेऽतित्तुप्प पिऱ्कु ज्ञलत्तत्ताल अलम्प वेवेन्नेटुम्. इव्वितम् पन्ननीरेन्नेटु तत्तवे तुत्तेचेसाचम् चेय्य वेवेन्नेटुम्. नेल्लीक्कनी यावली यावली मण्णनीलुल ईककला ज्ञन्तु तत्तवे अलम्पि, शुन्नेत्तु तत्तवे विंकुचेसाचम् चेय्तु ईकये अलम्पि, काल्लकलास चेर्त्तु वेवत्तु शुन्नेत्तु तत्तवे मण्णेणुल अलम्पि, चेसाचम् चेय्त लंत्तलत्तत्तक्षस्त्तम् चेय्य वेवेन्नेटुम्.

स्मृतिचन्द्रिकायाम् - 'आद्यन्तयोस्तु शौचानामन्दिः प्रक्षालनं स्मृतम्। सुनिर्णिकते मृदं दधान्मृदन्ते जलमेव च ॥ अन्तरा चान्तरा वामहस्तप्रक्षालनं चेदिति । अत्र न्यूनाधिकमृत्सङ्घचाप्रतिपादकवचनानां गन्धलेपतारतम्याभिप्रायो विकल्पो वेदितव्यः ॥ एवमुक्तशौचेऽपि यत्र गन्धो लेपश्च नापैति, तत्र उक्तसङ्घचातोऽधिकसङ्घचायामपि न विरोध इत्याह मनुः - 'विष्मूत्रयोस्समुत्सर्गं मृद्धायदियमर्थवत् । यावना-पैत्यमेध्याक्तात् गन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मृद्धारि चादेयं सवर्सु द्रव्यशुद्धिष्विति ॥ देवलोऽपि - 'यावत्तु शुद्धिं मन्येत तावच्छुद्धिर्विधीयते । प्रमाणं शौचसङ्घचाया न शिष्टैरुपदिश्यत इति ॥ आपस्तम्बोऽपि - 'मूत्रं कृत्वा पुरीषं वा मूत्रपुरीषलेपान् अब्लेपान्, उच्छिष्टलेपान् रेतसश्च ये लेपास्तानद्विर्मदा च प्रक्षाल्य पादौ चावम्य प्रयतो भवतीति' ॥

ंस्मंग्रुती सन्त्तरीकेयीलः - चेसाचंक्षकलीनं मुत्तवीलुम् मुष्टिवीलुम् ज्ञलत्तिलुल अलम्प वेवेन्नेटुम्. ज्ञलत्तिलुल अलम्पिय पिऱ्कु मंग्रुत्तिकेये उपयोगिक्क वेवेन्नेटुम्. पिऱ्कु ज्ञलत्तत्ताल चेऽतिक्क वेवेन्नेटुम्. छव्वेवान्नरीत्तकुम नेवील इट्तु ईकये अलम्पिक केलाली वेवेन्नेटुम्. इन्कु मण्णनीलं लंक्कयये अत्तिकमायुम् तुरैत्तत्तुम्

சொல்லும் வசனங்களுக்கு, மலத்தின் பற்று நாற்றமிவைகளின் தாரதம்யத்திற்குத் தகுந்தபடி விகல்பமென்றறிய வேண்டும். இவ்விதம் சௌசம் செய்தும், பற்றும் நாற்றமும் போகாவிடில், சொல்லிய கணக்கைவிட அதிகமாய்ச் செய்தாலும் விரோதமில்லை என்கிறூர். மனு:- மலழுத்ர விஸர்க்கத்தில் மண்ணையும் ஜலத்தையும் வேண்டிய அளவு க்ரஹிக்க வேண்டும். அகத்த வஸ்துவினால் பூசப்பட்ட பதார்த்தத்திலிருந்து அந்த அசுத்தத்தின் நாற்றமும் பற்றும் நீங்கும் வரையில் மண்ணையும் ஜலத்தையும் உபயோகித்துச் சுத்திசெய்ய வேண்டும். எல்லா த்ரவ்யங்களின் சுத்திகளிலும் இது ஸமானம். தேவலரும்:- எவ்வளவு செய்தால் மனதில் சுத்தியண்டாகிற தோ அவ்வளவு சௌசம் விதிக்கப்படுகிறது. சௌசத்தின் ஸங்க்ஷைக்கு அளவு சிஷ்டர்களால் சொல்லப்படுகிறதில்லை. ஆபஸ்தம்பர்:- மூத்ரவிஸர்கம், மலவிஸர்கம் செய்தாலும், மூத்ரத்தின் லேபம், மலத்தின் லேபம், அன்னத்தின் லேபம், எச்சிலின் லேபம், ரேதஸ்லின் லேபம் இவைகளையும் ஜலத்தாலும், மண்ணைலும் அலம்பி, கால்களையுமலம்பி, ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறுன். (லேபம் = பூச்சு)

யत்து ஦க्षेणोक्तम् – ‘ந்யूநாधிகங் கர்த்தவ்யं ஶௌचஸுஞ்சிமभीப்ஸதா । ப்ராயश்சித்தேன யுஜ்யேத விஹிதாதிக்ரமே கृதे ॥ ஗ாயத்யஷ்டநாதம் சைவ பிராணாயாம தியங் த஥ா । ப்ராயஶ்சித்தமி஦் ப்ரோக்தம் நியமாதிக்ரமே ஸதீதி, தத் ஸங்கலிபத்ஸஸ்த்ராயா: ப்ராගேங ஗ந்஧லேபக்ஷயே வேதிதவ்யம् ॥ ஏவ் சோக்தஸஸ்த்ராயா: அவர்ணீவ யதை ஗ந்஧ாத்யப்யம:; , தத் ஸஸ்த்ரானியம: அத்ரார்஥ இதி ஸமூதிச்சந்திகாடை ॥ விஜானேஶ்ரஸ்து – ‘கந்஧லேபக்ஷயகரங் ஶௌचம் குர்யா’ ஦ித்யேதது ஸவாஶ்ரமிணாஂ ஸாதாரண, ஸுத்ஸஸ்த்ரானியமஸ்த்வத்ரார்஥ இத்யவோசது ।

ஆனால், துக்கார் “சௌசத்தால் சுத்தியை விரும்புகிறவன் விதிக்கு அதிகமும் செய்யக்கூடாது,

कुरैरथतुम् चेय्यकं कूटातु. चेय्ता॑लं वीति॒ये
अतिक्रमिप्पता॑लं प्ररायचित्ता॑र॒ह॒ण॒किरु॒न॒. सा॑स्त्रे॒
नीयमत्तेत अतिक्रमित्तवनुक्तु 108-मृ॒रै॒ का॒यत्ते॒
ज्ञप्तुम्, मू॒न्न॒ प्रराण॒या॒म॒म् प्ररायचित्तव॒मेन॒
सेव॑ल॒प्पतु॒किरु॒तु॒” एन्न॒ चेव॑ल॒वी॒यि॒रु॒क्किरु॒र॒य॒नी॒ल॒,
अतु॒ चेव॑सा॒रम्पत्ति॒ल॒ ल॒न्द॒क्ल॒पि॒क्कप्पत्त॒ ल॒न्द॒क्य॒यक्कु॒
मृ॒न्ति॒ये॒ तु॒रक्कन्तम॒म् ल॒ेपम॒म् नीव॒रु॒त्ति॒त्तु॒ वी॒ट्ट॒
वी॒ष्यत्ति॒ल॒एन्न॒ अ॒रीय॒वेण्ण॒तु॒म्. इ॒प्पत्ति॒यि॒रु॒प्पता॑ल॒
ता॑न॒ “वी॒त्ति॒ल॒न्द॒क्य॒यक्कु॒ मृ॒न्ति॒ये॒ कन्त॒ल॒ेपन्द॒क॒वी॑न॒
नीव॒रु॒त्ति॒ ए॒न्कु॒ आ॒किरु॒तो॒ अ॒न्कु॒म् ल॒न्द॒क्य॒य॒न॒ नी॒यम॒म्
उ॒न्न॒तु॒. अतु॒ अ॒त्तरु॒ष्टा॒र॒त्तम॒” एन्न॒ ल॒म्ग॒रु॒त्ति॒सन्त॒री॒क॒
मृ॒त्तिय॒ क॒रन्त॒न्द॒क॒वी॑ल॒ क॒र॒प्पत्त॒ष्ट॒रु॒क्किरु॒तु॒.

वी॒क्कु॒नो॒क्के॒वर॒रो॒व॒नी॑ल॒ “कन्त॒ल॒ेपन्द॒क॒ल॒
नीव॒रु॒त्ति॒क्कु॒म् वरे॒ चेव॑सा॑म् चेय्य॒वेण्ण॒तु॒मेन्पतु॒
ए॒ल॒ला॒ आ॒स्रा॒मि॒क्कु॒म् बेपा॒तु॒वा॒नतु॒. ल॒न्द॒क्य॒या॒नी॒यम॒म्
अ॒त्तरु॒ष्टा॒र॒त्तम॒” एन्न॒र॒. (अ॒त्तरु॒ष्ट॒म् - वी॒॒ल॒क्क॒ -
का॒ज्जु॒या॒ला॒ततु॒.)

अत्र॒ मृ॒त्परिमा॒णमा॒हाज्जिरा॒ः - ‘प्रथमा॒ प्रसृ॒तिज्ञ॒या॒ द्वितीया॒ च
तद॒र्धिका॒। तृ॒तीया॒ मृ॒त्तिका॒ ज्ञ॒या॒ त्रिभा॒गकरपू॒णेति॒॥ दक्षः॒ -
‘अ॒र्धप्रसृ॒तिमा॒त्रा॒ तु॒ प्रथमा॒ मृ॒त्तिका॒ स्मृ॒ता॒। द्वितीया॒ च॒ तृ॒तीया॒ च॒ तद॒र्धेन॒
प्रकी॒र्तिता॒॥ चतु॒र्थी॒ पञ्चमी॒ वाऽपि॒ तृ॒तीया॒ मृ॒त्तिका॒ समेति॒॥ वसि॒ष्ठः॒ -
‘अ॒र्धप्रसृ॒तिमा॒त्रा॒ तु॒ प्रथमा॒ मृ॒त्तिका॒ भवेत्॒। पू॒र्वपू॒र्वद्विमा॒त्रा॒ तु॒ द्वितीया॒ द्वा॒
प्रकी॒र्तितेति॒॥ यत्तु॒ शातातपै॒नोक्तम्॒ - ‘आद्रमि॒लकमा॒त्रा॒स्तु॒ ग्रासा॒
इन्दुव्रते॒ स्मृ॒ता॒ः। तथै॒वाहुतय॒ः सर्वा॒ःशौचार्थे॒ याश्च॒ मृ॒त्तिका॒ इति॒,
तज्जस्तशौचाभिप्रायम्॒, गुदलिङ्गयो॒ः परिमा॒णान्तरविधानादिति॒
स्मृ॒तिचन्द्रिकायाम्॒॥

इ॒न्कु॒ मृ॒न्न॒ज्ञ॒नी॑न॒ अ॒ल॒व॒च॒ चेव॑ल॒लु॒क्किरु॒र॒
अ॒न्की॒र॒स्ल॒ मृ॒त्तिय॒क॒ चेव॑र॒ (वी॒री॒त्त॒ क॒
क॒वा॒न्न॒म॒ल॒) अ॒ल॒व॒न्न॒तु॒ इ॒र॒न्न॒टा॒वतु॒ अ॒ति॒ल॒ पा॒तु॒
अ॒ल॒व॒न्न॒तु॒. मू॒न्न॒र॒वतु॒ क॒क्य॒वी॑न॒ मू॒न्न॒र॒ल॒ेला॒रु॒

பாகமுள்ளது என்று அறியவும். தக்ஷர்:- முதல் மண் சேரையின் அரையளவு, இரண்டாவதும் மூன்றுவதும் அதன் பாதியளவு, நான்காவதும் ஐந்தாவதும் மூன்றுவதின் அளவுக்குச் சமமாகியது. வளிஷ்டர்:- முதல் ம்ருத்திகை அரைச் சேரையளவுள்ளது. அதின் பாதியளவு உள்ளது இரண்டாவது ம்ருத்திகை, அதின் பாதியளவு உள்ளது மூன்றுவது ம்ருத்திகை. ஆனால் சாதாதுபர்:- “சாந்தராயண வர்தத்தில் விதிக்கப்பட்ட அன்னகபளங்களும், அக்னியில் ஹோமம், செய்யும் அன்னஹாதிகளும், சௌசத்திற்கான ம்ருத்திகைகளும் பச்சை நெல்லிக்கனியளவுள்ளவைகளா யிருக்கவேண்டும்” என்று விதித்திருக்கின்றாரேயெனில், அது கைகளின் சுத்திக்காகிய ம்ருத்திகையினளைவச் சொல்லியது, குதம் விங்கம் இவைகளுக்கு வேறு பரிமாணம் விதித்திருப்பதால், என்று ஸ்ம்ருதி சந்தரிகையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மூந்தௌரை மூத்ஸஸ்தாமாஹ ஦க்ஷ: - ‘एका लिङ्गे करे तिस्र उभयोर्मृद्युयं समृतमिति ॥ शातातपोऽपि - ‘एका लिङ्गे करे सव्ये तिस्रो द्वे हस्तयोर्द्वयोः । मून्तशौचं समाख्यातं शुक्ले तु द्विगुणं भवे’ दिति ॥ यत् - ‘तिस्रो मृदो लिङ्गशौचे ग्राह्याः स्युर्मून्तशूद्यये । वामपाणौ मृदः पञ्च तिसः पाण्योर्द्वयोरपीत्यादि, तलेपभूयस्त्वाभिप्रायम् ॥’ ‘एकां लिङ्गे मृदं दधाद्वामहस्ते तु मूத्समम् । उभयोर्हस्तयोर्द्वात् मून्तशौचं प्रचक्षत’ இத்யாதிஸ்மரணாத् । மூந்தௌரை மூத்பரிமாணமாஹ ஦க்ஷ: - ‘लिङ्गे तु मृत् समाख्याता त्रिपर्वा पूर्यते यथा । दातव्यमुदकं तागन्मृदभागो यथाभवेदिति ॥

மூத்ரடெசாசத்தில் மன்னீன் ஸங்க்ஷேயயைச் சொல்லுகிறார்தக்ஷர்- லிங்கத்தில் ம்ருத்திகை ஒன்று, இடது கையில் மூன்று இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி இரண்டு ம்ருத்திகைகள். சாதாதுபரநும்:- லிங்கத்தில் ஒன்று, இடது கையில் மூன்று, இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி இரண்டு ம்ருத்தி கைகள். இது மூத்ரவிஸர்க்கத்தில். ரேதஸ்ஸீன்

वीलरक्कत्तिलं इतु इरண्टु मटंकाक वीत्तिकप्पटुकिरतु. आणेल, “विंकत्तिलं मून्ऱु, इतु कैकयिलं ज्ञन्तु इरण्टु कैककीलुमं तनीत्तनी मून्ऱु” एनंपतु मुतलाऊ चिल वचनांकां इरुक्किन्ऱनवेणील, अवै अतिक लेपमुलां वीषयत्तिनप्रिप्रायमुलांवै, “विंकत्तिलेलान्ऱु, इतु कैकयिलं मून्ऱु, इरुकैककीलुमं तनीत्तनी इरण्टु मंग्रुत्तिकैककां एनंरु मूत्र चेळासत्तिलं वीत्तिकिन्ऱनार्” एनंपतु पोांर वचनांकां गिरुप्पत्ताल. मूत्र चेळासत्तिलं मांजीनं परीमाणत्तेत्तसं चेळालुकिन्ऱुर्तुक्षारः- विंकचेळासत्तिलं मून्ऱु वीरलंकन्नुक्कां निऱ्यमावूलां मांज वीत्तिकप्पटुलातु. अनंत मांज सत्तमाकुमावू ज्ञलत्तेत्तयुमुपयोक्क वेण्टुम.

विवस्वान् - ‘पर्वमात्रप्रमाणास्तु लिङ्गशौचे मृदः स्मृताः । आद्रमिलकमात्रा वा यदि वाऽक्षप्रमाणका इति ॥ शौनकः - ‘तत उद्धृततोयेन प्राङ्मुखो वाऽप्युद्द्वृखः । आद्रमिलकमात्रां वै लिङ्गे प्रक्षिप्य शोधयेदिति ॥ व्यासः - ‘विद्यौचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशौचमतः परम् । पादशौचं ततः कुर्यात् करशौचमतः परमिति ॥ आपस्तम्बः - ‘अहिं शौचं तु यत् प्रोक्तं निश्यर्द्धं तत उच्यते । पथि पादं तु विज्ञेयमार्तः कुर्याद्यथाबलमिति ॥ ‘वालुकाभिर्यदा शौचं कुर्यात् तदा द्विगुणं कुर्या’ दिति चतुर्विंशतिमते ॥

वीवलंवाणः :- वीरलंकन्नुवूलां मंग्रुत्तिकैककां विंक चेळासत्तिलं वीत्तिकप्पटुकिन्ऱन, अल्लतु पसंसे नेलंवीक कनीयावू, अल्लतु ताणीक्कायावू उलावैकूलायीरुक्कलाम. चेळानकारः:- प्रिरु वेणीयीलेलुकप्पट ज्ञलत्तिगुल, किमुक्कु अल्लतु वटक्कुमुकमाय, पसंसे नेलंवीक्कनीयावू मांजीन विंकत्तिलं प्रोटुचं सत्तिचेस्यवेण्टुम. व्यासारः:- मलत्तिनं चेळासत्तेत मुतलीलं चेस्यवेण्टुम. प्रिरु कालंकन्नुक्कुम, प्रिरु कैकगुक्कुम चेळामं चेस्यतु केळालावेण्टुम.

ஆபஸ்தம்பர்:- பகவில் விதித்த சௌசத்தில் பாதி இரவிலும், அதன் பாதி வழியிலும் அறியத்தக்கது. வ்யாதியுள்ளவன் தன் சக்திக்குத்தகுந்தவாறு செய்யலாம். “மண்கிடைக்காவிடில் மணல்களால் சௌசம் செய்து கொண்டால் இரண்டு மடங்காய்ச் செய்து கொள்ளவேண்டும்” என்று சதுர்விம்சதி மதத்தில் கொல்லப்பட்டுள்ளது.

யतு - ‘यदिवा विहितं शौचं तदर्थं निशि कीर्तितम् । तदर्थमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनीति, एतत्सामर्थ्ययुक्तातुरविषयम् । अन्यथा तु यथासामर्थ्यमेव शौचम् ॥ तथा च चन्द्रिकायाम् - ‘दिवा शौचस्य निश्यर्थं पथि पादो विधीयते । आर्तः कुर्याद्यथाशक्तिं स्वस्थः कुर्याद्यथोदित’ मिति । बोधायनोऽपि - ‘देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेदिति ॥

ஆனால், பகவில் விதிக்கப்பட்ட சௌசத்தின் பாதி இரவிலும், அதன் பாதி வியாதியுள்ளவனுக்கும், அதன் பாதி வழியிலிருப்பவனுக்கும் விதிக்கப்படுகிறது’ என்னும் வசனம் சக்தியுள்ள ஆதுரன் விஷயம். சக்தியில்லாவிடில், சக்திக்குக்தக்கவாறே சௌசம். அவ்விதமே சந்தரிகையில் - ‘பகவில் விதித்த சௌசத்தின் பாதி இரவிலும், வழியில் கால் பாகமும் விதிக்கப்படுகிறது. வ்யாதியுள்ளவன் சக்திக்குத்தக்கவாறு செய்யலாம். ஸ்வஸ்தஞ்சிருப்பவன் விதிப்படி செய்யவேண்டும் என்றிருக்கிறது.

போதாயனரும்:- தேசம், காலம், தன் தேஹம், திரவியம், திரவியப்பிரயோஜனம், உபபத்தி, அவஸ்தை இவைகளை அறிந்து அவைகளுக்குத் தக்கவாறு சௌசம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

அனுபநிதாदிநாं ஶौचமாह பிதாமஹ: - ‘न यावदुपनीयन्ते द्विजाशूद्रास्तथाऽऽज्ञाः । गन्धलेपक्षयकरं शौचमेषां विधीयते ॥

यावच्छुद्धिं न मन्येत तावच्छौचं विधीयते । प्रमाणं शौचसङ्ख्याया न शिष्टेरुपदिश्यत' इति ॥ स्त्रीशूद्योस्त्वादित्यपुराणे विशेषो दर्शितः — 'स्त्रीशूद्योरधमानं प्रोक्तं शौचं मनीषिभि' रिति ॥ व्यासः — 'कुर्वतीवं दिवा शौचं रात्रौ स्यादर्थमुच्यते । अशक्तस्य यथाशक्तिं शौचमुक्तं तथाऽध्वनि ॥ योषितामुक्तशौचार्धं शूद्राणामप्युदाहृत' मिति ॥ यस्तु विष्णुत्रोत्सर्जनायोपविष्टस्तन्व करोति, तस्याप्यर्धशौचमाह वृद्धपराशः — 'उपविष्टस्तु विष्णुत्रं कर्तुं यस्तु न विन्दति । स कुर्यादर्थशौचं तु स्वस्य शौचस्य सर्वदेति ।

उपन्यासमिल्लातवर् मुतलियवर्कंकु चेळाचम् चेळाल्लु किऱुर् पितामहारः— उपन्यासमाकात प्रराम्भैरण्णर्कैल् कुत्रर्कैल्, लंतर्कैल् इवर्कैल्कु, तुर्कैकन्तमुम् पिचिपिचिप्पुम् नैन्कुम् वरेरयिल् चेळाचम् वितिकप्पटुकिऱतु. मनतिन्तुकुस् कुत्तियुन्नाकात वरेरयिल् चेळाचम् वितिकप्पटुकिऱतु. चेळाचलन्कंययिल् प्ररमाणत्तेतस् चिष्टर्कैल् चेळाल्लविल्लै. लंतर्कैल्कुम् कुत्रर्कैल्कुम् विचेष्टम् चेळाल्लप्पट्टुलातु अृत्तित्यपुराणत्तीलः— लंतर्कैल्कुम् कुत्रर्कैल्कुम्, चेळाचम् (मुन्पुरुषर्कैल्कु वितित्त लंन्कंययिल्) पातियालव वितिकप्पट्टिरुक्किऱतु. व्यासारः— पकलिल् इवंवितम् चेळाल्लवियप्ति चेळाचम् चेय्यवेण्णुम्. रात्रीयिल् पातियुम्, कक्तियर्त्तवनुक्कुम्, वधूयिलिरुप्पवनुक्कुम् कक्तिकुत्तकुन्तपद्युम्, लंतर्कैल्कुम् कुत्रर्कैल्कुम् पातियालवम् चेळाचम् चेळाल्लप्पट्टिरुक्किऱतु. मलमुत्र विसर्ज्जनत्तिन्त्रकाक उट्कार्न्तवन्त अतेतस् चेय्यामलेलमुन्तालुम् पाति चेळाचम् चेय्तु केळाल्लवेण्णुमेमन्किऱुर् वंगुत्त पराशरारः— मलमुत्र विसर्ज्जनत्तिन्त्रकाक उट्कार्न्तवन्त अतेतस् चेय्याविष्टिनुम्, तनकंकु ऎप्पेपामुतुम् विहीतमान चेळाचत्तील पाति चेळाचम् चेय्तु केळाल्लवेण्णुम्.

भोजने तु गुदस्वावे शौचमाह बृहस्पतिः । भुञ्जानस्य तु विप्रस्य
कदाचित् सवते गुदम् । उच्छिष्टमशुचित्वं च तस्य शौचं कथं भवेत् ॥
पूर्वं कृत्वा तु शौचं तु पश्चात् स्नानं समाचरेत् । ततः कृत्वोपवासं च
पञ्चगव्येन शुद्धयतीति ॥ शरीरमलशौचं वक्तुं शरीरमलानाह मनुः । ‘ऊर्ध्वं
नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव
मलाश्चयुताः ॥ वसाशुक्लमसृङ्गज्ञा मूर्त्तिगिट्कर्णविण्णखाः ।
श्लेष्माश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मला’ इति ॥ श्रुतिरपि – ‘ऊर्ध्वं वै
पुरुषस्य नाम्यै मेध्यमवाचीनमेध्यमिति ॥ पुरुषस्य नाभेर्सूर्ध्वं मेध्यं -
शुद्धम्, अवाचीनं - नाभेरधोभागः, अमेध्यम् - अशुद्धमित्यर्थः ।
स्वीयानाभेतेषां मलानां स्पर्शं सति यथा योग्यं मृज्जलाभ्यां शुद्धिरित्याह
मनुः — ‘विण्मूत्रोत्सर्गशुद्धर्थं मृद्वायदियमर्थवत् । दैहिकानां मलानां
च शुद्धिषु द्वादशस्वपीति ॥

போஜனகாலத்தில் அபானத்தில் மலம் ஸ்ரவித்தால்
சௌசம் சொல்லுகிறூர் ப்ரஹஸ்பதி:- ப்ராம்லங்னன்
சாப்பிடும் பொழுது ஒரு ஸமயத்தில் குதத்தில் மலம்
ஸ்ரவித்தால் அவனுக்கு இரண்டுவிதமான அசுத்தி
இருக்கிறது. அவனுக்கு சௌசம் எப்படி எனில், முதலில்
சௌசம் செய்து கொண்டு பிறகு ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். பிறகு உபவாஸம் செய்து பஞ்சகவ்யப்ராசனம்
செய்து சுத்தனுக்கிறோன். சரீரமலங்களைத் தொட்டால் சுத்தியை
விதிப்பதற்குச் சரீர மலங்கள் இவையென்கிறூர் மனு:-
நாபிக்கு மேல் உள்ள இந்திரியங்கள் சுத்தமானவை, கீழ்
உள்ளவை அசுத்தமானவை. தேஹத்தினின்றும் நழுவிய
மலங்களும் அசுத்தமேயாம், வஸை (ஊன்நீர்) ரேதஸ்,
ரக்தம், மஜ்ஜை எலும்பினுள் ஜவ்வ மூத்ரம், விஷ்டை,
காதினுள் குறும்பி, நகம், கோழை, தண்ணீர், கண் பீளை,
வியர்வை இப்பன்னிரண்டும் மனிதர்களின் மலங்களாம்.
வேதமும்:- மனிதனின் நாபிக்கு மேலுள்ளவை
சுத்தமானவை. அதற்குக் கீழுள்ளவை அசுத்தமானவை.

मुनिचेऽवाल्लीय तन्नुटैय पन्निरण्टु मलंगकौत्त
तेऽट्टाल्ल तत्त्वपदि मन्ज जलम् इवेकौला॒
सूत्तिचेय्तु केऽवाल्ल वेण्टुमेन्किरुर्मनु- मलमुत्तर
विसर्ककृत्तिल्ल चेऽवाल्लिर्कुवेण्टिय अवै मन्नुम्
जलमुम् करवीत्तुक केऽवाल्ल वेण्टुम्. तेहृत्तिल्लौला॑
(पन्निरण्टु) मलंगकौलिं पन्निरण्टु सूत्तिकौलुम्
तत्त्वपदि मन्ज जलम् इवेकौलौक किरवीत्तुक केऽवाल्ल
वेण्टुम्.

अत्र विशेषमाह बोधायनः - 'आददीत मृदोऽपश्च षट्सु पूर्वेषु
शुद्धये । उत्तरेषु तु षट्स्वन्दिः केवलाभिर्विशुद्धयती' ति ॥
परकीयमलस्पर्शने शुद्धिमाह देवः - 'मानुषास्थ वसां विष्णामार्तवं
मूत्ररेतसी । मज्जानं शोणितं वाऽपि परस्य यदि संस्पृशेत् । स्नात्वाऽपमृज्य
लेपादीनाचम्य स शुचिर्भवेत् । तान्येव स्वानि संस्पृश्य पूतःस्यात्
परिमार्जनादिति ॥ परिमार्जनं प्रक्षालनम् ।'

इंगु विशेषत्तेत्तच चेऽवाल्लुकिरुर्पोत्तायनार-
मुन्त्रिय आरु मलंगकौलिं सूत्तियिल्ल मन्ज जलम्
इरण्टैयुमुपयेयाकिक्कवेण्टुम्. प्रिन्त्रिय आरु
मलंगकौलिं सूत्तियिल्ल जलत्तेत्तमट्टुमुपयेयाकित्तुक्कृत्तिचेय्ता॑
वेत्तालेये सूत्तत्तुकिरुन्. प्रिन्त्रिय मलंगकौलौ
संपर्कित्तविष्णयत्तिल्ल सूत्तियेचेऽवाल्लुकिरुर्तेवलरः -
मनीत्तनुटैय एलुम्पु, वलेस, मलम्, रज्जुल्ल, मुत्तरम्,
सक्कलम्, मज्जज्जे, रक्तम्, इवेकौलौत्त तेऽट्टाल्ल,
संनानम् चेय्तु लेपन्कौलौत्त तुटैत्तत्तु आचमनम्
चेय्ताल्ल सूत्तत्तुकिरुन्. मेल्ल चेऽवाल्लीयवै
तन्नुटैयवयाकिल्ल अवेकौलिं संपर्कत्तिल्ल
अलम्पुवत्ताल्ल सूत्तत्तुकिरुन्.

अत्र विशेषमाह विष्णुः - 'नाभेरधस्तात् कायिकैर्मलैस्सुराभि-
मद्यैर्वेपहतो मृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षाल्याचान्तः शुद्धयेत् । अन्यत्रोपहतो
मृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षाल्य स्नानेन । इन्द्रियेषुपूहतस्तपौष्य स्नात्वा पञ्चगच्छेन

दशनच्छदोपहतश्चेऽत्र यमः । ‘मूत्रे तिसः पादयोस्तु
हस्तयोस्तिस एव तु । मृदः पञ्च दशामेध्ये हस्तादीनां विशेषतः ।
एतदात्मीयमूत्रादिस्पर्शं शौच मुदाहृतम् । उत्सर्गकालादन्यत्र परकीयेषु
पठ्यते ॥ परस्य शोणितस्पर्शे रेतोविष्मूत्रजे तथा । चतुर्णामिपि वर्णनां
द्वात्रिंशन्मृत्तिकाः स्मृताः’ इति ॥

இதில் விசேஷம் சொல்லுகிறார் விஷ்ணு : -
தேஹத்தின் மலங்கள், மத்யம் கள் இவைகளால் நாபிக்குக்
கீழுள்ள அவயவங்களில் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டு அசுத்தனானால்,
அசுத்தமான அங்கத்தை மண் ஜலம் இவைகளால் சுத்தி
செய்து ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாலும் வான். நாபிக்கு
மேலுள்ள அவயங்களிலானால் மண் ஜலமிவைகளினால்
அந்த அங்கத்தை அலம்பி ஸ்நானத்தால் சுத்தி.
இந்தியங்களில் அசுத்தனானாலும் உபவாஸம், ஸ்நானம்,
பஞ்சகவ்யப்ராசனம் இவைகளால் சுத்தி, உதடுகளில்
அசுத்தனானாலும் இதே முறை. இதில் யமன் : - மூத்ர
ஸ்பர்சத்தில், கால்களில் மூன்று மண்கள், கைகளில்
மூன்று, மலஸ்பர்சத்தில் கைகளில் ஜந்து, கால்களில் பத்து.
இது தனது மூத்ராதிகளின் ஸ்பர்சத்தில் சொல்லப்பட்டது.
மல மூத்ர விஸர்க்காலம் தவிர மற்றகாலத்தில் பிறருடைய
மூத்ராதி ஸ்பர்சத்தில் சொல்லப்படுகிறது. பிறருடைய
ரக்தம், சுக்லம், மலம், மூத்ரம் இவைகளின் ஸ்பர்சத்தில்
நான்கு வர்ணத்தார்களுக்கும் 32-ம் ருத்திகைகள்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்மृதிரத்தே - ஸகர்஦ம் து வர்ஷம்஬ு பிரவிஶய ஗்ராமஸ்ங்கடே ।
ஜஸ்யோமூத்திகாஸ்திஸः பாदயोஷ்சிருண் ந்யஸேதிதி ॥ ஸ்மृத்யர்஥ஸரே - ‘एका
तु मृत्तिका लिङ्गे तिसः सन्ध्यकरे मृदः । करद्ये मृद्युयं स्यात् मृत्
प्रमाणमनेकधा ॥ त्रिपर्वा पर्वमात्रा वा मृत्तिकाऽक्षप्रमाणका ।
आद्रामिलकमात्रा वा मूत्रशौचे तु मृत्तिका ॥ मूत्रात्तु द्विगुणं शुक्ले मैथुने
त्रिगुणं स्मृतम् । पुरीषे पञ्चमृत्क्षेपः करे वामे दश स्मृताः ॥ करयोः सप्त

दातव्याः पुरीषे मृत्प्रमाणकम् । अर्धप्रसृतिमात्राऽऽद्या तत्तदधर्स्ततः
पराः ॥ यद्वाऽपाने मृदस्तिस्थः प्रसृत्यर्धनिभागकाः । यद्वा प्रसृति
मात्रास्थिः पायोः पाण्योः पृथक् पृथक् ॥ एतच्छौचं गृहस्थानां यतीनां
तु चतुर्णिम् ॥ दिवा यद्विहितं शौचं तदर्धं निशि कीर्तितम् । तदर्धमात्रे
प्रोक्त मातुरस्यार्धमध्यनि ॥ स्त्रीशूद्रादेशक्तानां बालानां चोपनीतितः ।
गन्धलेपक्षयकरं शौचं कार्यमसङ्घचया ॥ एकैकया मृदा पादहस्तप्रक्षालनं
ततः । अमेध्याङ्गमलस्पर्शे मृत्तिकाषट्कमिष्यते ॥ मेध्याङ्गमलसंस्पर्शे
शौचं प्रक्षालनं स्मृतम् । परविष्मूत्रसंस्पर्शे द्वानिंशन्मृतिकाः स्मृता इति ॥

संम्रुतीरत्नात्तीलः:- करामत्तीलं कुरुकिय वழीयिलं
सेहुतनं कृष्ण मण्महे ज्ञलत्तीलं इत्रनंकिणैलं,
मुमुक्षालंकरुक्कु मुन्नरु मण्करुम्, पातनंकरुक्कु
इरुमटनंकु उपयोकिक्क वेण्णुम्. संम्रुत्यारत्त
सारत्तीलः:- मुत्तर चेळासत्तील, विंकसत्तीलं ओरु
मंगुत्तीकेयुम्, इटतुकेयिलं इरण्णु, मरुपटि इरण्णु
केकलीलुम् इरण्णु मण्कलैयुम् उपयोकिक्क
वेण्णुम्. मण्णीनं प्ररमाणमं अनेकवितम्. मुन्नरु
वीरलंकन्नु, अलंलतु ओरु वीरलंकन्नु, अलंलतु
ताणीक्कायावु, अलंलतु पक्षसे नेलंलीक्क कणीयावु उन्ना
मंगुत्तीकेमुत्तर चेळासत्तीलं वित्तिकप्पटुकिरतु. मुत्तर
चेळासत्तीनं इरण्णु मटनंकु सक्कलस्वरावत्तिलुम्, मुन्नरु
मटनंकु मेमतुनत्तीलुम्, चेळासमं
वित्तिकप्पट्टिरुक्किण्णन. मल विसर्ककत्तीलुम्,
अपानत्तीलं ज्ञन्तु, इटतुकेयिलं पत्तु, इरुकेकलीलुम्
एमु मण्कलै उपयोकिक्क वेण्णुम्. मल चेळासत्तीलं
मण्णीनं प्ररमाणमावतु - मुत्तलं मण्ण अरेचेसरे
अलाव, पिऱकु उन्नावे मुन्त्तियतिनं अलावीलं
पात्तियावुन्नावे. अलंलतु अपानत्तीलं मुन्नरुम्,
सेरे, अठन्पात्ति, सेरेरयिनं मुन्नरुलेलारु
पाकमुन्नावे. अलंलतु अपानत्तीलं मुन्नरुम्
सेरेरयावुन्नावे. केकरुक्कुम् तणीत्तत्तनी मुन्नरु

இவ்விதமே. இது க்ருஹஸ்தர்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது. இது இரண்டு மடங்கு ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கு, மூன்று மடங்கு வான்ப்ரஸ்தர்களுக்கு, நான்கு மடங்கு ஸன்யாஸிகளுக்கு. பகவில் விதிக்கப்பட்ட சௌசத்தின் பாதி இரவிலும், அதன் பாதி வ்யாதிஸ்தனுக்கு, அதன் பாதி வழிப்போக்கனுக்கு, ஸ்தரீ சூத்ரன் முதலியவர்களுக்கும், சக்தியற்றவருக்கும், உபநயனம் வரை சிறுவருக்கும், கணக்கில்லாமல் நாற்றமும் பற்றும் நீங்கும் வரையில் சௌசம் விதிக்கப்படுகிறது. ஸங்க்ஷை இல்லை. பிறகு ஒவ்வொரு ம்ருத்திகையால் கால் கைகளை அலம்ப வேண்டும். நாபிக்குக் கீழுள்ள அங்கத்தின் மலம்பட்டால் ஆறு மண்களால் சுத்தி. நாபிக்கு மேலுள்ள அங்கத்தின் மலம்பட்டால் அலம்புவதால் சுத்தி. பிறநுடைய மலமுத்ர ஸம்பந்தத்தில் 32-ம்ருத்திகைகளால் சுத்தி.

एवमुक्तशौचकरणेऽपि यस्य भावशुद्धिर्नास्ति तस्याशुद्धिरेवेत्याह
दक्षः - 'शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां स्मृतं
बाह्यं भावशुद्धिस्तथाऽन्तरम् ॥' शौचं तु परमं बाह्यं तस्मादाभ्यन्तरं
परम् । उभयेन शुचिर्यस्तु स शुचिर्नेतरः स्मृत सति ॥ व्याघ्रपादोऽपि -
'गङ्गातोयेन कृत्स्नेन मृद्गरैश्च नगोपमैः । आमृत्योराचरन् शौचं भावदुष्टो
न शुद्धयतीति ॥' बोधायनः - 'कालोऽश्रिर्मनसः शुद्धिरुदकाद्युपलेपनम् ।
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यत' इति ॥

இவ்விதம் சொல்லிய சௌசத்தைச் செய்தும் எவனுக்கு மனச்சுத்தி இல்லையோ அவனுக்கு அசுத்தியேதான் என்கிறார் தக்ஷர்:- சௌசமென்பது, பாற்யம் ஆப்யந்தரம் என இருவகை. மன் ஜலம் இவைகளால் செய்வது பாற்யம். மனச்சுத்தி ஆந்தரம். பாற்ய சௌசம் சிறந்தது. அதைவிடச் சிறந்தது ஆப்யந்தர சௌசம். இவ்விரண்டினாலும் எவன் சுத்தனே அவனே சுத்த னெனப்படுகிறான். மற்றவன் சுத்த னெனப்படுவ தில்லை. வியாக்ரபாதரும்:- கங்கா ஜலம் முழுவதாலும்,

மலைக்கொப்பான் மண்குவியல்களாலும், சாகும் வரையில் செனசம் செய்து கொண்டவனுயினும் மனச்சத்தி யில்லாதவன் சுத்தனுவதில்லை. போதாயனர்:- காலம், அக்னி, மனச்சத்தி, ஜலம் முதலியவை, மண் முதலியவை, அவிக்ஞாதம் என்று ஆறுவிதமான செனசம் பிராணிகளுக்குச் சொல்லப்படுகின்றது.

शौचाकरणे प्रत्यवायो हारीतेन दर्शितः – ‘भ्रष्टशौचं नरं दृष्ट्वा
प्रह(स)रन्तीह राक्षसाः । यक्षाः पिताचाभूतानि ये चान्ये दुष्टचारिणः ।
स्नानं दानं तथा ध्यानं मन्त्रकर्मविधिः क्रिया । मञ्जलाचारनियमाः
शौचभ्रष्टस्य निष्फला इति ॥ बोधायनः ‘शौचे यत्नस्सदा कार्यः शौचमूलो
द्विजः स्मृतः । शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रिया ॥ यस्य
शौचे तु शैथिल्यं ब्रतं तस्य परिक्षतमिति ॥ अपरार्के – शुचिं देवाश्र
रक्षन्ति रक्षन्ति पितरश्चुचिम् । शुचेबीम्यति रक्षांसि ये चान्ये दुष्टचारिण
इति ॥ व्यासः – अपवित्रः पवित्रो वा सर्वविस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्
पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिरिति ॥

சௌசம் செய்துகொள்ளாவிடில் தோழத்தைச் சொல்லுகிறூர்ஹார்தூர்:- சௌசமில்லாத மனிதனைக்கண்டு, ராகஷஸர், யகஷர். பிசாசர், பூதங்கள், இதர துஷ்டர் எல்லோரும் பரிஹலிக்கின்றனர். (ஹிம்லிக்கின்றனர்) சௌசநியம் மற்றவன் செய்யும் ஸ்நானம், தானம், த்யானம், மந்த்ரஜபம், செய்யும், கர்மானுஷ்டானங்கள், மங்களம், ஆசாரம், நியமம் இவையெல்லாம் பயனற்றதாகின்றன. போதாயனர்:- எப்பொழுதும் சௌசத்தில் ப்ரயத்னம் செய்யவேண்டும். ப்ராம்ஹணன் சௌசத்தையே ஆதாரமாய்டையவன். சௌசாசாரம் இல்லாதவனின் கர்மங்களைல்லாம் பயனற்றவையே. எவனுக்குச் சௌசத்தில் குறைவிருக்கிறதோ அவன் நியமம் வீணையிடுதே. அபரார்க்கத்தில்:- சுத்தனையிருப்பவனைத் தேவர்களும், பித்ருக்களும் காக்கின்றனர். ராக்ஷஸர்களும்,

மற்றும் துஷ்டராய் ஸஞ்சௌகிக்கும் பிசாசஜாதிகங்கும் சுத்தனிடமிருந்து பயப்படுகின்றன. வ்யாஸர்:- சுத்தனுயினும், அசுத்தனுயினும், எவ்வித அவஸ்தையே அடைந்தவனுயினும், எவன் புண்டரீகாக்ஷனை (செந்தாமரைக் கண்ணான விஷ்ணுவை) ஸ்மரிக் கின்றுகே அவன் பாஹ்ய ஆப்யந்தர சுத்திகங்கூடி சுத்தனே.

஗ண்஦ுஷவி஧ி:-

தत्र பராஶரः - கृत्वाऽथ शौचं प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ मृज्जलैः ।
निबद्धशिखकच्छस्तु गण्दुषाचमनं चरेदिति ॥ स्मृतिसारे - विप्रस्य
दक्षिणे भागे देवास्तिष्ठन्ति नित्यजः । आसीन एव गण्दुषान् वामभागे
विसर्जयेत् ॥ मूत्रे पुरीषे भुक्त्यन्ते तथैवान्यस्य भक्षणे । चतुरष
द्विषद्वृच्छष गण्दुषैस्तु विशुद्ध्यति इति ॥ व्यासः - अपां द्वादश
गण्दुषान् पुरीषोत्सर्जने द्विजः । मूत्रे तु चतुरः कुर्याद्वोजनान्ते तु
षोडशेति । स्मृत्यन्तरे - अपूपभक्षणे भुक्तौ विषमूत्रोत्सर्जनादिषु ।
आसीन एव गण्दुषान् वामभागे विसर्जयेत् । मूत्रे पुरीषे भुक्त्यन्ते तथैव
द्विजधावने । चतुरष द्विषद्वृच्छष गण्दुषैः शुद्धिरिष्यत इति ॥ गौतमः -
गण्दुषस्याथ समये तर्जन्या वक्त्रचालनम् । करोति यदि मूढात्मा रौरवे
नரके पतेदिति ॥

கண்டுஷ (வாய்க்கொப்புளித்தலின்) விதி

அதில் பராசரர்:- செளசம் செய்து, பிறகு மன்றை லம் இவைகளால் கால், கை இவைகளை அலம்பி, சிகை (குடுமி) கச்சம் இவைகளைக் கட்டிக் கொண்டு கண்டுஷம் ஆசமனம் இவைகளைச் செய்யவேண்டும். ஸ்மிருதிஸாரத்தில்:- ப்ராம்ஹணினின் வலது பாகத்தில் நித்யமும் தேவர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகையால் உட்கார்ந்து கொண்டு இடது பாகத்திலேயே கண்டுஷங்களை விடவேண்டும். மூத்ர விஸர்ஜனம், மல விஸர்ஜனம், போஜனம்,

தின்பண்டங்களைத் தின்பது இவைகளின் முடிவில், முறையே நாலு, எட்டு, பன்னிரண்டு, பதினாறு கண்டுஷங்கள் செய்தால் சுத்தங்கிறான். வ்யாஸர்:- மல விஸர்ஜனத்தில் பன்னிரண்டு, மூத்ர விஸர்கத்தில் நாலு, போஜனந்தத்தில் பதினாறு கண்டுஷங்கள் செய்ய வேண்டும். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:- அப்பம் தின்பது, போஜனம், மல மூத்ரவிஸர்ஜனம் முதலியவைகளில் உட்கார்ந்தவங்கேவே இடது பாகத்தில் கண்டுஷங்களை விடவேண்டும். மூத்ரவிஸர்கம், மலவிஸர்கம், போஜனம், தந்ததாவனம் இவைகளில் முறையே நாலு, எட்டு, பன்னிரண்டு, பதினாறு கண்டுஷங்களால் சுத்தி விதிக்கப்படுகிறது. கௌதமர்:- கண்டுஷம் செய்யும் பொழுது தர்ஜனியால் (ஆள்காட்டி விரலால்) வாயை அசைத்தால் (சோதித்தால்) அம்மூடன் ரெளவுமெனும் நரகத்தில் விழுவான்.

आचमनविधि:

अथाचमनम् ॥ तत्र वृद्धपराशरः - कृत्वा उथ शौचं पादौ हस्तौ
 च मृज्जलैः । कृत्वोपवीतं सञ्चयेऽसो गाङ्गनः कायसर्यतः ॥
 निबद्धशिखकच्छस्तु द्विज आचमनं चरेदिति । देवलः -
 इत्येवमन्दिराजानु प्रक्षाल्य चरणौ पृथक् । हस्तौ चामणिबन्धाभ्यां
 कुर्यादाचमनं ततः ॥ केशान्नीकीमधः कायमस्पृशन् धरणीमपि । यदि
 स्पृशति चैतानि भूयः प्रक्षालयेत् करमिति ॥ व्यासः - प्रक्षाल्य पादौ
 हस्तौ च मुखमन्दिस्समाहितः । दक्षिणं बाहुमुद्धृत्य कृत्वा जान्वन्तरे
 करौ ॥ आमुच्य प्राङ्गखः पश्चादन्तधावनमारभेदिति ॥

அடுசமனவிதி

இனி ஆசமனம் சொல்லப்படுகிறது. அதில் வருத்த பராசரர்:- சௌசம் செய்து பிறகு மண்ணினாலும் ஜலத்தினாலும் கால் கைகளை அலம்பி, இடது தோளில் உபவீத்தைத் தரித்து, வாக்கு, மனம், தேவைம் இவைகளை

அடக்கி, சிகை, கச்சம் இவைகளைக் கட்டி ப்ராம்ஹணன் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். தேவலர்:- இவ்விதம் ஜலத்தால் கால்களை முழங்கால் வரையிலும், கைகளை மணிக்கட்டு வரையிலும், தனித்தனியாய் அலம்பி, பிறகு ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். மயிர், கச்சம், நாபிக்குசீழான அங்கம், பூமி இவைகளைத் தொடாமல் செய்ய வேண்டும். தொட்டால் மறுபடி கையை அலம்பவேண்டும். வ்யாஸர்:- கால் கை வாய் இவைகளை ஜலத்தால் அலம்பி, கவனிப்புடன், உபவீதியாய், முழங்கால்களின் நடுவில் கைகளை வைத்துக் கொண்டு, கிழக்கு நோக்கியவனுய் ஆசமனம் செய்து, பிறகு தந்ததாவனத்தை (பல் துலக்குவதை) ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

स्मृत्यर्थसारे – पादौ हस्तौ प्रक्षालय यज्ञोपवीती पादौ भूमौ प्रतिष्ठाप्य बद्धकच्छशिखः पुण्डरीकाक्षमिष्टदैवतं स्मृत्वाऽऽचामेदिति । दिङ्गनियमभावहारीतः – ‘ऐशान्यभिमुखो भूत्वोपस्पृशेत् यथाविधि इति ॥ उपस्पृशत् आचामेदित्यर्थः ॥ याज्ञवल्क्यः – अन्तर्जनुशूचौ देश उपविष्ट उदङ्घुखः । प्राण्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेदिति । अन्तर्जनु - जान्वारन्तरा, अरत्रीकृत्येत्यर्थः ॥ ‘अन्तरूर्वाररत्री कृत्वा त्रिरपो हार्दा: पिबेदिति हारीतस्मरणात् । उपविष्ट इति गमनादिनिषेधः । न गच्छन्त शयानश्च न तिष्ठन्त परं स्पृशन् । न हसन्वै सञ्जलपन् नात्मानमवलोकयन्निति स्मरणात् ॥

ஸ்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- கால் கைகளை அலம்பி, உபவீதியாய், கால்களைப் பூமியில் வைத்துக் கொண்டு சிகை, கச்சம் இவைகளைக் கட்டிக் கொண்டு, இஷ்டதைவமான செந்தாமரைக் கண்ணனை ஸ்மரித்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும். திக்கு நியமத்தைச் சொல்லுகிறார் ஹார்தர்:- சசான் திக்கை நோக்கியவனுய் விதிப்படி ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். யாக்ஞவல்க்யர்:- ப்ராம்ஹணன் எக்காலத்திலும், சுத்தமான இடத்தில், வடக்கு அல்லது கிழக்கு நோக்கியவனுய் உட்கார்ந்து,

मुम्हंकालंकरीनं नदुविलं केककौ वैवत्तुकं केाण्टु, प्रराम्हलू त्रीर्त्तत्त्वालं आचमनम् चेय्य वेण्णुम् 'तुटेकारुक्कु नदुविलं मुम्हंकेककौ वैवत्तुकं केाण्टु. मार्पुवरे चेल्लुम् ज्ञलत्तेत अ॒न्ऱ॒रु त॒टव॒ तु॒ष्टक्क॒ वैवेण्णुम्' ए॒न्ऱ॒रु ल्हा॒री॒तर् वित्तिरुप्पत्ता॒लं अ॒न्तर्ज्ञा॒नु ए॒न्पत्तर्ङु कु॒इव्वितम् अ॒र्त्तम् चेल्ल॒ल॒प्पत्ता॒तु. 'उ॒टका॒र्न्तव॒ग्न्य' ए॒न्पत्ता॒लं न॒टप्पतु म॒ुतवि॒यतर्ङु नी॒वेष्टम्; 'न॒टन्तुम् प॒टुत्तुम्, नी॒न्ऱ॒रुम्, पि॒र॒ज्ञ॒त तेऽटुक॒ केाण्टुम्, चिरी॒त्तुकं केाण्टुम्, पेचि॒कंकेाण्टुम्, त॒न्स च॒री॒र्त्तेतप् पा॒र्त्तुकं केाण्टुम् आ॒चमनम् चेय्यक्कूटा॒तेन्ऱ॒रु ल्हम्रुक्तु उ॒ल्लातु.

भरद्वाजः— जञ्जान्तं जानुपर्यन्तमपि वा चरणद्वयम्। कूर्वरान्तं करं सम्यक् क्षालयेत् प्रथमं बुधः ॥ उपविश्य शुचौ देशे प्राङ्मुखो ब्रह्मसूत्रधृक् बद्धचूडः कुशकरो द्विजः शुचिरुपस्पृशेदिति ॥ स्मृतिभास्करे — दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकर्णकृतिवत् पुनः । त्रिः पिबेदक्षिणेनाम्बुद्धिरास्यं परिमाज्येदिति ॥ प्रदीपिकायाम्— संहताङ्गुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । मुक्त्वा उङ्गुष्ठकनिष्ठेतु शेषेणाचमनं चरेदिति ॥ व्यासः — गोकर्णकृतिहस्तेन माषमग्नं जलं पिबेत् । तच्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेदिति ॥ भरद्वाजः — आयतं दक्षिणं कृत्वा गोकर्णकृतिवत् करम् । माषमज्जनमात्रास्तु सञ्ज्ञय त्रिः पिबेदप इति ॥ देवलः — अप्सवीक्षितासु हृदयं प्राप्तासु ब्राह्मणः शुचिः । राजन्यः कण्ठमास्यं वै विट्शूदः स्पर्शनांच्छुचिरिति ॥ स्पर्शनात् तालुनेति शेषः ॥ शूद्रग्रहणं स्त्रीणामपि प्रदर्शनार्थम् ॥

परत्तवाज्जरः— मुतविलं, कन्नुक्कालं अल्लतु मुम्हंकालं वरे कालंकौयुम्, मुम्हंकेवरे केकौयुम् नन्ऱ॒रुय अलम्पवेण्णुम्. प्रिरु कृत्तमाना॒ लंतव॒त्तिलं किमुक्कु नेऽक्कि उ॒टका॒र्न्तु, उ॒पव॒त्तम् तरी॒त्तव॒ग्न्य, चिकैयैकं कृट्टियव॒ग्न्य, कु॒सत्तेतकं कैयैलं तरी॒त्तव॒ग्न्य, कृत्तन्ऱ॒य इ॒रुन्तु प्रराम्हलूज्ञ॒नं

ஆசமனம் செய்யவேண்டும். ஸ்மிருதிபாஸ்கரத்தில்:- வலதுகையைப் பகவின் காது போல் செய்து அதனால் மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். இரண்டுதடவை வாயைத் துடைக்க வேண்டும். ப்ரதீபிணையில்:- எல்லாவிரல்களும் சேர்ந்த வலதுகையால் ஜலத்தை எடுத்து, பெருவிரல், சண்டுவிரல் இவைகளை நீக்கி மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். வ்யாஸர்:- பகவின் காதுபோன்ற கையினால் மாஷம் முழுகுமளவுள்ள ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். அதற்கு அதிகம் அல்லது குறைந்த ஜலத்தைப் பருகினால் ஸாராபானத்திற்குச் சமமாகும். மாஷம் உள்ளது. உள்ளங்கையிலுள்ள ரேகை என்பர் சிலர். பரத்வாஜர்:- வலதுகையை விரித்து, பகவின் காதுபோல் செய்து, மாஷம் முழுகுமளவுள்ள ஜலத்தை எடுத்து மூன்று தடவை பருகவேண்டும். கேவலர்:- கண்ணால் பார்க்கப்பட்டுப் பருகப்பட்ட ஜலம் மார்பைச் சேர்ந்தபொழுது ப்ராம்ஹணன் சுத்தனாகிறுன். கண்டத்தை அடைந்தால் கஷ்தரியனும், வாயை அடைந்தால் வைச்யனும், ஸ்பர்சத்தால் சூத்ரனும் சுத்தனாகிறுன். மோவாய்க் கட்டையினால் ஸ்பர்சித்ததால் என்று சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கு சூத்ரசப்தம் ஸ்தரீகளையும் குறிப்பதற்கு.

तथा च याज्ञवल्क्यः । हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासङ्क्षयं
द्विजातयः । शुध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृत् स्पृष्टाभिरन्तत इति ॥ सकृदेव
ताल्वन्तेन स्पृष्टाभिरद्विरित्यर्थः ॥ अप्सु प्रासासु हृदयं ब्राह्मणः
शुद्धिमाप्यात् । राजन्यः कण्ठं तालु विद्स्त्रीशूद्रौ तु तदन्तत इति स्मरणात् ।
मनुरपि - हृद्रामिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वैश्योऽद्विः
प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्तत इति ॥ स्मृत्यर्थसारे -
हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु अद्विः शुद्धाः क्रमाद्विजाः । स्त्रीशूद्रानुपनीता
अन्ततस्तालौ सकृत्स्पृष्टाभिः शुद्धा इति ॥ बोधायनः - गताभिर्हृदयं
विप्रः कण्ठशामिः क्षत्रियः शुचिः । वैश्योऽद्विः प्राशिताभिस्स्यात्

खीशूद्गौ स्पृश्य चान्तत इति हृदयज्ञमानामपां परिमाणमाहोशना -
माषमज्जनमाश्रा आपो हृदयज्ञमा भवन्तीति ॥

अवंवितमेयाक्ङुवल्क्यरः:- मार्पु, कण्टम्, तालु
इवेकौ अटेन्त ज्ञलत्ताल् मुरेये मुन्नु
वर्णन्तत्तारुम् सत्तराकिरुर्कौ. संतर्क्गेनुम्, कुत्तर्क्गेनुम्
ऋग् तटवै तालुवै संपर्चित्त ज्ञलत्ताल्
सत्तराकिन्नरन्नर. तालुविन् अष्टयाल् ऋरो तटवै
संपर्चित्त ज्ञलत्ताल् एन्नु बेपारुन्. “आचमन ज्ञलम्
मार्पैपै अटेन्तत्तुम् प्रराख्मण्णनुम्, कण्टत्तत्तै
अटेन्तत्तुम् कृत्तरीयनुम्, तालुवै अटेन्तत्तुम्
वैवच्यनुम्, संतर्म् कुत्तरन् इवर्कौ तालुविन्
अष्टयययटेन्तत्तुम् सत्तराकिन्नरन्नर” एन्नु संमरुति
इरुप्पत्ताल्. ‘तालु’ मेंवाय्क्कट्टै. मनुवमः:-
मार्पैपै अटेयुम् ज्ञलत्ताल् प्रराख्मण्णनुम्, कमुत्तत्तै
अटेयुम् ज्ञलत्ताल् कृत्तरीयनुम्, वायिरं चेसन्न
ज्ञलत्ताल् वैवच्यनुम्, तालुविन् अष्टयाल्
संपर्चिक्कपपट्ट ज्ञलत्ताल् कुत्तरनुम् सत्तराकिन्नरन्नर.
संमरुत्यर्त्तैरात्तैः:- मार्पु, कण्टम्, तालु
इवेकौ अटेयुम् ज्ञलत्ताल् मुरेये मुन्नु
वर्णन्तत्तारुम्, तालुविन् अष्टयेत् तेामुम् ज्ञलत्ताल्
ऋग् तटवैयिल् संतर्म्, कुत्तरन् अनुपन्तेन् इवर्कौम्
सत्तराकिन्नरन्नर. **पोतायनरः**:- मार्पैपै अटेन्त
ज्ञलत्ताल् प्रराख्मण्णनुम्, कण्टत्तत्तै अटेन्त
ज्ञलत्ताल् कृत्तरीयनुम्, मुक्तत्तै अटेन्त ज्ञलत्ताल्
वैवच्यनुम्, तालुवै संपर्चित्त ज्ञलत्ताल् संतर्म् कुत्तरं
इवर्कौम् सत्तराकिन्नरन्नर. मार्पैपै अटेयुम् ज्ञलत्तैन्
परिमाणत्तेत्तै चेऽल्लुकिरुर्उचन्दः:- उग्रन्तु मुमुक्षुम्
प्रमाणमुूलौ ज्ञलम् मार्पैपै अटेयुक्षुष्यताकिरुतु.

अत्रोदकनियममाह शङ्खः - अङ्गस्समुद्धताभिस्तु हीनामिः
फेनबुद्धौः | वहिना च न तसाभिर्क्षायभिरुपस्पृशेदिति ॥ **भारद्वाजः**
- पकं सफेनं कलुषं सदुर्गन्धं सबुद्धदम् । उण्णं समृतिकं क्षारं

त्यजेदाचमने जलम् ॥ तिष्ठन्मन् हसन् जलपन् शृणवन्त्यजभाषणम् ।
अन्यं स्पृशन् दिशः पश्यन् कदाचिदुपस्पृशेत् ॥ काकाश्वरखविद्
क्रोडताम्रचूडरजस्वलाः । ब्रात्यान्त्यजाति पतितान् पश्यन्नोपस्पृशेद्-
द्विजः इति ॥

இங்கு ஜலத்தின் நியமத்தைச் சொல்லுகிறார்சங்கர்:-
கையால் எடுக்கப்பட்ட ஜலம் நூரை, குழியில்
இவையில்லாததாயிருக்க வேண்டும். அக்னியில்
குடேறியதும், உறைப்புள்ளதுமான ஜலத்தால் ஆசமனம்
செய்யக்கூடாது. பாரத்வாஜர்:- கொதிக்கச்
செய்யப்பட்டதும், நூரையடையதும், கலங்கியதும்,
தூர்க்கந்த முடையதும், குழியிடையதும், சூடுள்ளதும்,
மண்ணுடன் கூடியதும், உறைப்புள்ளதுமான ஜலத்தால்
ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. நிற்பவனும், வணங்கியவனும்,
சிரிப்பவனும், பேசுபவனும், சண்டாளன் வார்த்தையைக்
கேட்பவனும், பிறனைத் தொடுபவனும், திக்குகளைப்
பார்ப்பவனுமாய் ஒரு காலும் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.
காக்கை, குதிரை, கழுதை, பன்றி, கோழி ரஜஸ்வலை,
வராத்யன், சண்டாளன், பதிதன் இவர்களைப் பார்த்துக்
கொண்டும் த்விஜன் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

मनुः - अनुषामिरफेनामिरद्विस्तीर्थेन धर्मवित् । शौचेष्मुः
सर्वदाऽचामेदेकान्ते प्रागुदङ्गुख इति ॥ वसिष्ठोऽपि - न पर्णरसदुषाभिः
याश्च स्युश्चुभागमाः इति ॥ हारीतः - विवर्ण गन्धवत्तोयं फेनिलं च
विवर्जयेदिति ॥ याज्ञवल्क्यः - अद्विस्तु प्रकृतिस्थाभिः हीनाभिः
फेनबुद्धौदैरिति ॥

மனு:- சுத்தியை விரும்பியவனன் தர்மமறிந்து,
குடில்லாததும், நூரையில்லாததுமான ஜலத்தால்,
ஏகாந்தமான ஸ்தலத்தில், கிழக்கு அல்லது வடக்கு
நோக்கியவனுய், ப்ராம்லைம் முதலிய தீர்த்தத்தால்
எப்பொழுதும் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். வளிஷ்டரும்:-

இலைகளின் ரஸத்தால் கெடுதியுள்ளதும். அசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து வருவதுமான ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. ஹார்தர்:- வர்ணம் மாறியதும், நாற்றமுடையதும், நுரையுடையதுமான ஜலத்தை வர்ஜிக்க வேண்டும். யாக்ஞவல்க்யர்:- இயற்கை மாருததும், நுரை, குழுழி இவை இல்லாததுமான ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.

स्मृतिसारे – एलालगङ्ग कर्पूर गन्धाद्यैर्गासितैज्जलैः ।
नाचामेदद्विरुष्णाभि स्तथा शौचावशेषितैः ॥ पात्रशिष्टं तु यच्छौचे पाने
पादावनेजने । भूमौ तदम्बु निसाव्य शेषणाचमनं चरेत् ॥ न चाश्युदकशेषेण
कुर्यादाचमनं बुधः । यदि कुर्याज्जिलं भूमौ सावयित्वा समाचरेत् इति ॥
अश्युदकशेषेण अग्निपरिषेचनावशिष्टेनेत्यर्थः ॥ **स्मृत्यर्थसारे** –
नान्योदकशेषमाचामेद्यद्याचामेद्वूमौ जलं सावयित्वाऽचामेन
पादप्रक्षालनाचमनाश्युदकशेषराचमनं कुर्यादि कुर्याद् भूमौ जलं
सावयित्वा तत्राम्बुपात्रं स्थापयित्वा तत उद्भृत्य कुर्यादिति ॥

संमंग्रुतीलारत्तीलः:- ஏலம், வலங்கம், கர்ப்பூரம், சந்தனம் முதலியதால் வாஸனையுள்ளதும், சூடானதும், செளசத்தில் மீந்ததுமான ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. ஜலம் கிடைக்காவிடில், செளசம் செய்தபிறகு பாத்ரத்தில் மீந்த ஜலம் குடித்து மீந்த ஜலம், காலலம்பிய பிறகு மீந்த ஜலம் இவைகளில் கொஞ்சம் பூமியில் கொட்டிவிட்டு மீதியுள்ள ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யலாம். அக்னியைப் பரிஷேசனம் செய்து மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. வேறு ஜலமில்லாததால் அதனுலேயே செய்ய நேர்ந்தால் பூமியில் கொஞ்சம் கொட்டி விட்ட மீதியுள்ளதால் ஆசமனம் செய்யலாம். ஸம்ருத்யார்த்த லாரத்தில் :- அன்யன் ஆசமனம் செய்து மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. ஆவச்யகமானால் அதில் ஸ்வல்ப ஜலத்தை பூமியில் கொட்டி, மீதியுள்ளதால் ஆசமனம் செய்யலாம். பாதப்ரக்ஷாளனம், ஆசமனம், அக்னிகார்யம் இவைகள் செய்து மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. செய்ய

வேண்டியது ஆவச்யகமானால் பூமியில் கொஞ்சம் ஜலத்தைக் கொட்டி அவ்விடத்தில் ஜலபாத்ரத்தை வைத்து அதிலிருந்து எடுத்து ஆசமனம் செய்யலாம்.

போதாயன: - ‘ப்ராங்குஷ உடங்குஷோ வா॥॥ஸீனः ஶौचமாரभேत ஶுचை
देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ पाणी चामणिबन्धात्
पादप्रक्षालनोच्छेषणनाचामेघवाचामेघूमौ सावयित्वाऽचा-
मेनाङ्गुलीभिर्न सञ्चुद्रुदाभिर्न सफेनाभिर्न चोष्णाभिर्न क्षाराभिर्न
लवणाभिर्न कलुषाभिर्न कटुकाभिर्न दुर्गंधरसाभिर्न हसन् जल्पन
तिष्ठन्नावलोகयन् प्रह्वो न प्रणतो न विमுक्तशिखो न प्रावृतकण्ठो न
वेष्टितशिरा न त्वरமாணो நாயஜோபவிதி ந ப்ரஸாரிதபாடோ நாஷகக்ஷயோ ந
ஷஹிஜார்ந்து ஶங்குவிசிதி ॥

போதாயனர்:- கிழக்கு அல்லது வடக்கு முகமாய் உட்கார்ந்து செளசம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு சுத்தமான இடத்தில், வலது கையை முழங்கால்களுக்குள் வைத்துக் கொண்டு, கால்களையும், கைகளையும், மணிக்குட்டு வரையில் அலம்பி ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். கால்கழுவி மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. ஆவச்யகமானால் பூமியில் கொஞ்சம் கொட்டிவிட்டு, மீந்ததால் ஆசமனம் செய்யலாம். விரல்களால் ஆசமனம் கூடாது. சூழிழியுள்ளதும், நுரையுள்ளதும், சூடானதும், உறைப்புள்ளதும், உப்புள்ளதும், கலங்கியதும், கசப்புள்ளதும், கெட்ட நாற்ற ரஸங்களுள்ளதுமாகிய ஜலத்தினால் ஆசமனம் கூடாது, சிரித்துக் கொண்டும், பேசிக்கொண்டும், நின்றுகொண்டும், வெளியில் பார்த்துக் கொண்டும், வணங்கியும், சூனிந்தும், அவிழ்ந்த சிகையுடனும், கழுத்தை வஸ்தரத்தால் சுற்றிக்கொண்டும், தலையை வஸ்தராதிகளால் மறைத்துக் கொண்டும், உபவீதமில்லாமலும், கால்களை நீட்டிக் கொண்டும், கச்சம் கட்டிக் கொள்ளாமலும், முழங்கால்களுக்கு வெளியில் கைகளை வைத்துக் கொண்டும், சப்தம் செய்துகொண்டும் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

प्रचेताऽपि - अनुष्णाभिरफेनाभिः पूताभिर्वस्त्रचक्षुषा । हृद्यताभिरशब्दाभिः विश्रुतुर्बाऽद्विराचमेदिति ॥ अनुष्णाभि-रित्यनातुरविषयम् ॥ अत एव यमः - 'रात्राववीक्षितेनापि शुद्धिरुक्ता मनीषिणाम् । उदकेनातुराणां च तथोष्णेनोष्णपायिनाभिति । उष्णपायिनामातुराणां, न पुनरातुरमात्राणाभित्यर्थः ॥ उष्णपायिनो दीक्षिता इति केचित् ॥ स्मृत्यर्थसारे - नात्मानं पश्यन्नाचा-मेवासीनस्त्रिपाद्यां नान्यार्थं आसते भुक्त्वाऽचामेवान्यासने न शयानो न पादुकोपानत्स्थो न दुर्देशेन पादाग्रस्थो न प्रह्लो नान्यमना न नग्नो नैकवस्त्रो न वामहस्तेन न प्रसारितपादो नाबद्धासनो यज्ञोपवीत मुत्तरीयं वाऽन्यथा धृत्वा नाचामेदिति ॥

प्रर्चेतृसंसारः - कुटिल्लाततुम्, नुररयिल्लाततुम्, वस्त्रतर्त्तालुम्, कण्णेलुम्, सृत्तमाकियतुम्, मार्पुवरे पोएकक्षृत्यतुम्, सप्तमिल्लाततुमाण ज्ञलत्तिणेल्लुन्ऱु अल्लतु नाओंकु तटवै आचमनम् चेय्य वेण्णेटुम्. इங்கு 'உஷ்ணமिल्लात' என்பது நோயாளியல्लातவன் விஷயத்தில், யமனः - இரவில் கண்ணெல் பார்க்கப்படாத ஜ்ஞலத்தினெல் ஆசமனம் செய்தாலும் சுத்தியுண்டென வித்வான்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உஷ்ணேதகத்தையே பருகவேண்டிய நோயாளிகளுக்கு, உஷ்ணேதகத்தால் ஆசமனம் செய்வதாலும் சுத்தி உண்டெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா நோயாளிகளுக்குமல்ல. இங்கு 'உஷ்ணபாயினும்' என்ற பதம் தீக்ஷிதர்களைக் குறிக்கிறதென்று சிலர். ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில் : - தன்னை நோக்கிக்கொண்டும், முக்காலியில் உட்கார்ந்தும், பிறருக்காகக் கல்பித்த ஆஸனத்தில் போஜனம் செய்த பிறகும், பிறர் ஆஸனத்திலமர்ந்தும், படுத்துக்கொண்டும், வஸ्त्रमில्लாமலும், ஒரு வஸ्त्रत்துடனும், இடது கையினெல், கால்களை நீட்டியும், ஆஸனமில்லாமலும், பூணால் வஸ்த்ரம் இவைகளை மாற்றித் தரித்துக்கொண்டும் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

भूगः - 'सोष्णीषो बद्धपर्यङ्कः प्रौढपादश्च यानगः । दुर्देशे प्रपदश्चैव
नाचामन् शुद्धिमाप्यात् । आसनारूढपादो वा जान्वोर्वा जड्योस्तथा ।
कृतावसक्थिको यश्च प्रौढपादः स उच्यत इति ॥ संवर्तः - अकृत्वा
पादशौचं तु तिष्ठन्मुक्तशिखोऽपि वा । विना यज्ञोपवीतेन
आचान्तोऽप्यशुचिर्भवेदिति ॥ माधवीये - कण्ठं शिरो वा प्रावृत्य
रथ्यापणगतोऽपि वा । अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यशुचि-
भवेदिति ॥

பருகு:- தலைப்பாகையுடனும், கட்டிலிலிருந்தும், ப்ரெளடபாதனையும், வாஹனத்திலிருந்தும், துஷ்ட ஸ்தலத்திலும், கால்களை நீட்டியும், ஆசனம் செய்பவன் சுத்தியையடையான், ஆஸனத்திலேறிய கால்களை யுடையவனும், முழங்கால்களிலாவது, அவைகளின்கீழ்ப் பாகத்திலாவது கட்டிக்கொண்டிருப்பவனும் ப்ரெளட பாதன் எனப்படுகிறுன். ஸம்வர்த்தர்:- காலலம்பாமலும், நின்றுகொண்டும், அவிழ்ந்த குடுமியுடையவனுயும், யக்ஞோபவீதமில்லாமலும் ஆசமனம் செய்தவன் அசுத்தனைகிறுன். மாதவீத்தில்:- காதை மூடிக் கொண்டும், தலையை மூடிக்கொண்டும், வீதியிலிருந்தும், தடையிலிருந்தும், காலலம்பாமலும் ஆசமனம் செய்பவன் அசுத்தகைவேயிருக்கிறான்.

पुलहः – शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिखोऽपि वा ।
 अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यशुचिर्भवेदिति ॥ अन्तिः – अपः
 पाणिनखाग्रेभ्यः आचामेद्वाहणस्तु यः । सुरापानेन तत्तुल्यमित्येवं
 मनुरब्रवीदिति ॥ यमः – अपः परनखस्पृष्टा य आचामति वै द्विजः ।
 सुरां पिबति स व्यक्तं यमस्य वचनं तथेति ॥ मरीचिः – न
 बहिर्जनुराचामेनासनस्थो न चोत्थितः । भुक्त्वाऽसनस्थोऽप्यप्या
 चामेनान्यकाले कदाचन । नान्तरीयैकदेशस्य कृत्वो चैवोत्तरीयकम् ।
 आच्छब्दक्षिणांसस्तु नाचामेत्तु कदाचन ॥ विना यज्ञोपवीतेन तथा धौतेन

वाससा । मुक्त्वा शिखां वाऽऽचान्तेन कृतस्यैव पुनः क्रिया ॥ याम्य प्रत्यञ्जुखत्वेन कृतमाचमनं यदि । प्रायश्चित्त्यै तदा कुर्यात् स्नानमाचमनं क्रमादिति ॥

पुलहर्णः- तैलये रुदिकं केाण्टुम्, का तेत
रुदिकं केाण्टुम्, अविम्नं त कस्चम् गुटुमि
इवेवकौलायुटयवन्नयुम्, काललम्पालुम् औसमनम्
चेयतवनं असत्तत्तुकवेयिरुक्किरुन्. अत्थीः-
प्रराम्भैर्णनं कैवयिनं नुनी, नकत्तिनं नुनी
इवेवकौलिरुन्तु जलत्तेत औसमनम् चेयवाग्नेकिल् अतु
सरापाणत्तिरुक्कुसं सममेन मनु चेाण्टुर्. यमनः-
एन्त प्रराम्भैर्णनं प्रिहर् नकम्पट्ट जलत्तेत औसमनम्
चेयकिण्टु गेन, अवनं मत्यत्तेतये रुदिकं किरुन्.
निच्चयम्, एन्नृ यमनुट्टय वसनम्. मर्चीः-
मुम्हंकाल्कणकुक्कु वेवलीयिल् कैकौला वेवत्तुकं
केाण्टुम्, औसनत्तिलुट्कार्नं तुम्, निन्नृ केाण्टुम्,
औसमनम् चेयक्कुटातु. पोज्जनत्तिरुक्कुप्पिहरु
औसरत्तिलिरुन्तुम् औसमनम् चेययलाम्. मर्हकं
कालत्तिल् कुटातु. इउप्पु वस्तरत्तिनं ओरु पाकत्तालं
उत्तरीयम् तरीत्तुकं केाण्टुम्, वलतु तेलौ मरेत्तुकं
केाण्टुम् ओरुकालुम् औसमनम् चेयक्कुटातु.
यक्केनोपवीत मिल्लामलुम्, वेवन्तत्त
वस्तरमिल्लामलुम्, अविम्नं त गुटुमियुटनुम् औसमनम्
चेयतालं चेयत कर्मत्तेत मरुपटि चेयय वेण्टुम्.
तेत्रुकु मुकमाकवेवा, मेरुकु मुकमाकवेवा औसमनम्
चेयतालं, अत्रुकु प्ररायश्चित्तमायं स्नानम् औसमनम्
इवेवकौला मरेत्तये चेययवेण्टुम्.

प्रचेताः- नान्तर्वासिसा बहिर्वासः कुर्वन्नाचामेदिति ॥ देवलः-
- शिखां बध्वा वसित्वा द्वे निर्णिक्ते वाससी त्रुभे । तूर्णी भूत्वा समाधाय
न कुञ्जचन्नावलोकयन्' इति । उदकं यावद्वामेन न स्पृशति,
तावन्नाचामेदित्याह यमः- 'तावनोपस्पृशेद्विद्वान् यावद्वामेन न
स्पृशेत् । वामे हि द्वादशादित्या वरुणश्च जलेश्वर इति ।

ப்ரதேசஸ்:- இடுப்பு வஸ்த்ரத்தால் மேல், வஸ்த்ரம் தரித்து ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. **தேவலர்:-** சிகையை மூடிக்கொண்டு, வெளுத்த இரண்டு வஸ்த்ரங்களைத் தரித்து, மெளனியாயிருந்து கவனித்துச் செய்யவேண்டும். இடது கையினால் ஜலத்தைத் தொடாமல் ஆசமனம் செய்யக்கூடாதென்கிறார் யமன்:- இடது கையினால் ஜலத்தைத் தொடாதவரையில், அறிந்தவன் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. இடது கையில் 12- ஆதித்யர்களும், ஜலத்திற்கதிபதியான வருணனுமிருக்கின்றனர்.

ஸ்மृत்யर்஥ஸாரे - ‘வாமேந பாத்ரமுஷ்ட்ய ந பி஬ே஦க்ஷிணேந து । ஸौவर्णரौप्यतामैश्च வेणुबिल्वाश्मचर्मभिः ॥ அलाबुदारूपर्णैश्च நालिकேரैः கपितथकैः । தृणकाष्ठैर्जलाधारैरन्यान्तरितमून्मयैः ॥ வாமேநோஷ्ट्य வாऽचாமேदन्यदातுரसंभवे । தत्र மून्मयபாத்ரஸ्थं ஜலं நैவोபஹन्यते ॥ தीर்த்தோயं ச ஶுध்யेत கரகாடிஸ்தாந்தரிதம் ॥ மா஧வீயே - அலாபுதாம்ரபாத்ர சகரக்சகமண்டலமு । யூதித்வா ஸ்வயமாசாமேது ந தேநாப்ரயதோ ஭வேடிதி । ஸஂர்த்த : - ஶாநாஶுஷ்கைஹஸ்தைஶ்ச தத்தாமிர்க்கடாந்தன । ஆரூப்பாடுகோ வாऽபி ந ஶுஷ்யேத திர்ஜோத்தமே இதி ஆசம்யேதி ஶேषः ॥ பராஶரः - ஶாநாஹஸ்தைஶ்ச நாசாமேதைபாண்யாஹஸ்தைஶ்ச । ந சைவாவுதஹஸ்தைஶ்ச நாபரிஜாதஹஸ்தைஶ்ச இதி ।

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- இடது கையினால் ஜலபாத்ரத்தை எடுத்துக் கொண்டு வலது கையினால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. ஜலம் போடுவதற்கு வேறேருவன் இல்லாவிடில், இடது கையினாலெடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பாத்ரத்தினால் விடப்பட்ட ஜலத்தினாலும் ஆசமனம் செய்யலாம். ஆனால் அந்தப்பாத்ரம் மேல் சொல்லப்படும் பாத்ரங்களுள் ஒன்றுயிருக்க வேண்டும். தங்கம், வெள்ளி, தாம்ரம், மூங்கில், வில்வம், கல், தோல், சுரைக்காய், கட்டை, இலை, தேங்காய், விளாங்காய், புல்கட்டை இவைகளாலுள்ள ஜலபாத்ரங்கள் வேறேற்றினால் மறைக்கப்பட்ட மன்பாத்ரங்கள் இவைகளிலொன்றினால் இடது கையினாலெடுத்தாவது

ஆசமனம் செய்யலாம். அவைகளிலும் மன்பாத்ரத்திலுள்ள ஜலம் அசுத்தமாவதில்லை. கரகம் (இரண்டு முகமுள்ளது) முதலியதிலுள்ள தீர்த்த ஜலமும் எப்பொழுதும் சுத்தம். மாதவீயத்தில்:- சுரைக்காய், தாம்ரபாத்ரம், கரகம், (கெண்டி) கமண்டலு இவைகளை எடுத்துக்கொண்டால், தாஞூகவே வலது கையில் ஜலத்தைப் போட்டுக் கொண்டு ஆசமனம் செய்யலாம். அதனால் அசுத்தனாவதில்லை. ஸம்வர்த்தர்:- சூத்ரனாலும், அசுத்தனாலும், ஒருகையினாலும் விடப்பட்ட ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்தால் ஒருகாலும் சுத்தனாகான். பாதுகை தரித்து ஆசமனம் செய்தாலும் சுத்தனாகான். பராசரர்:- சூத்ரர்களால் கொண்டு வரப்பட்டதும், ஒரு கையால் விடப்பட்டதும், மறைக்கப்பட்ட கையினால் விடப்பட்டதும், அறியப்படாதவன்கையால் விடப்பட்டதுமான ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது.

यमः – उद्धृत्य वामहस्तेन यत्पिबेद् ब्राह्मणो जलम् । सुरापानेन तत्तुल्यं मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥ कांस्यपात्रे च यत्तोयं यत्तोयं ताप्रभाजने । सौवर्णे राजते चैव नैवाशुद्धं तु कर्हिंचिदिति ॥ चन्द्रिकायाम् – करकालाबुकांस्येन ताम्रचर्मपुटेन च । स्वहस्ताचमनं कार्यं स्तेहलिसानि वर्जयेदिति ॥ भारद्वाजः – ताम्रपात्राश्ववालैश्च नालिकेराश्मपत्रैः । उपस्पृशेत् स्वहस्तस्थैरैतरपि विचक्षण इति ।

யമன്സ്:- പ്രാമുഖ്യങ്ങൾ ഇടതു കൈയിലും എടുത്ത
ജീവൽത്താലും ആചമനമും ചെയ്താലും അതു സാരാപാണത്തിന്റെ
സമമെമ്പൻറുൾ സ്വാധീനമുണ്ട്. അന്തജീവം, വെൺകലമ്,
താമർമ്മ, സ്വർണ്ണമും, വെൺവിജയിലും അവകാശം
പാത്രത്തിലിരുന്താലും ഒരുക്കാലുമും അക്ഷത്തമാകാതു.
കന്ത്രിക്കൈയില്:- കെങ്ങും, ചുരുക്കാ, വെൺകലമ്, താമർമ്മ,
തോല്, പാത്രമും ഇവക്കാണിലും എടുത്ത ജീവലമാണും, തന്നെ
കൈയിലും വിട്ടുകൊണ്ടു ആചമനമും ചെയ്യലാം.
ഞങ്ങണ്ണയ്യ മുതലിയതാലും പ്രസ്താവിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ
വര്ഗ്ഗിക്കുവേണ്ടും. **പാരത്വാജ്ഞാൻ:-** താമർപ്പാത്രമും,

குதிரைவால், தேங்காய்ஓடு, ஆச்மபத்ரம் (சிலாஜத்து) இவைகளாலாகிய பாத்ரமானால் தன்கையாலும் விட்டுக்கொண்டு ஆசமனம் செய்யலாம்.

आपस्तम्बः – नाश्युदकशेषण वृथा कर्मणि कुर्वीताचामेद्वा
पाणिसंक्षुब्धैनोदके नैकपाण्यावर्जितेन च नाचामेदिति ॥
पाणिसंक्षुब्धेनेत्येतत् तटाकादिषु स्वयमाचमने । यदा पर आचामयति,
तदा एकेन पाणिना यदावर्जितमुदकम्, तेन नाचामेत् । किन्तु उभाभ्यां
हस्ताभ्यां करकादि गृहीत्वा यदावर्जितमुदकं, तेनाचामेत् । एवं च स्वयं
वाम हस्तावर्जितेनापि नाचामेत् ॥ अलाबुपात्रेन नालिकेरजेन वैष्णवेन
चर्मयेन ताप्तमयेन वा पात्रेण स्वयमाचमनमाचरन्ति शिष्ठा इति हरदत्ता

ஆபஸ்தம்பர்:- “அக்னி கார்யத்தில் பரிஷேஷனம் முதலியது செய்து மீந்த ஜலத்தினால் வீண் கார்யங்களைச் செய்யக்கூடாது. ஆசமனமும் செய்யக்கூடாது. கையினால் கலக்கப்பட்ட ஜலத்தினாலும், பிறன் ஒரு கையினால் வார்த்த ஜலத்தினாலும் ஆசமனம் கூடாது என்றார். இங்கு, ‘கையால் கலக்கப்பட்டது’ என்பது, குடம் முதலியதிலிருக்கும் ஜலம் கையினால் கலக்கப் பட்டிருந்தால், அதனால் ஆசமனம் கூடாது. குளம் முதலியதிலுள்ள ஜலத்தில் தாங்க ஆசமனம் செய்யும் விஷயத்தில் இந்த நிஷேஷத்திலிலை. எப்பொழுது பிறன் ஆசமனம் செய்விக்கின்றன, அப்பொழுது, அவன் ஒரு கையினால் விட்ட ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. இரண்டு கைகளாலும் கெண்டி முதலியதைப் பிடித்துக் கொண்டு விடும் ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். இவ்விதமிருப்பதால் தாங்க இடது கையினால் விடப்பட்ட ஜலத்தினாலும் ஆசமனம் கூடாது. சுரைக்காய், தேங்காய், மூங்கில், தோல், தாம்ரம் இவைகளால் செய்த பாத்ரத்தினாலெலுடுத்த ஜலத்தைத் தாங்கவே இடது கையினால் விட்டுக்கொண்டு சிஷ்டர்கள் ஆசமனம் செய்கின்றனர் என்றார் ஹரதத்தர்.

आपस्तम्ब एव – ‘भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भवति । यं वा प्रयत आचामयेत् । न वषधारास्वाचामेत् । तथा प्रदरोदके । तसाभिश्चाकारणात् इति । प्रायत्यार्थमाचमनं भूमिगतास्वप्सु कुर्यात् । यं वा प्रयतोऽन्य आचमयेत्, सोऽपि प्रयतो भवति । सर्वथा स्वयं वामहस्तावर्जिताभिरद्धिराचमनं न भवति । ताम्रपात्रादिना तु वामहस्तावर्जिताभिरद्धिः स्वयमाचमनं भवति, स्मृत्यन्तरे विधानात् । न वषधारासु, प्रतिषेधात् । करकादिधारायां प्रायत्यार्थमाचमनं भवत्येव । प्रदरोदके - गर्तोदके भूमिगतेऽपि नाचामेत् । यत्तु - ‘आपश्चुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत् । अव्यासाश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विता इति मनुवचनम्, यदपि - ‘शुचिगोतृसि कृतोयं प्रकृतिस्थं महीगतमिति याज्ञवल्क्यवचनम्, यदपि ‘प्रदरादपि या गोस्तर्पणाय स्युरिति वसिष्ठवचनम्, तत्सर्वं ‘गोतृसिशिष्टे पयसि शिष्टैराचमनक्रियेति कलिसमयनिषिद्धम् ॥ तसाभिश्चाकारणात् । तसाभिरिति वचनात् शृतशीताभिरदोषः । तथा च उष्णानामेव प्रतिषेधः स्मृतिषु प्रायेण भवति । ज्वरादौ च कारणे उष्णाभिरपि न दोष इत्यर्थः ॥

अुपसंत्हम्परोः- सुत्तिकंकाकसं चेय्युमं आचमनात्तेतप्पुमियिलुं लूलत्तिलं चेय्त्तालं सुत्तानुकिरुन्. अलंलतु सुत्तमानान मर्न्नवनं एवजैन आचमनामं चेय्विक्किन्ऱ्गुलेन अवलुमं सुत्तानुकिरुन्. एवंवित्तत्तिलुमं तानुक्तिट्टु कैकयिलुलं विट्टुक लेकाण्णट लूलत्तिलुलं आचमनामं लित्तिप्पत्तिलिलै. तामर्प पात्तरमं मुत्तलियतालं मट्टुमं तन्न इट्टु कैकयिलुलं विटप्पत्त लूलत्तिलुलं आचमनामं विहीतमाकिर्तु, वेव्रु संमंगुत्तियिलं वित्तियिरुप्पत्तालं. मण्मु लूलत्तिलं तारयिलं आचमनामं कूटातु. परतिषेष्ठमिरुप्पत्तालं. लेकाण्णट मुत्तलियवेकलीं तारयिलं सुत्तयर्तत्तमान आचमनामं विहीतमं ताणं. तानुकपं पिण्णन्त्पुमियिलं परतेकमं ‘परतरमं’ एनप्पटुमं. अतिलुं लूलत्तिलं, अतु पुमिकत्तमाणलुमं, आचमनामं

கூடாது. “எவ்வளவு ஜலத்தில் ஒரு பசுவுக்குத் தாகம் தீருமோ அவ்வளவுள்ள ஜலம் பூமியிலிருந்து, அதற்கு இயற்கையான, கந்தம், வர்ணம், ரஸம் இவைகளுடன் கூடியதாய் அசுத்தவஸ்துவினால் வ்யாபிக்கப்படாம் விருந்தால் சுத்தமாகிய தாகிறது” என்ற மனுவசனமும், “ஒரு பசுவிற்கு த்ருப்தியளிக்கக்கூடிய அளவுள்ள ஜலம், அதன் இயற்கையடனிருந்து பூமியிலிருந்தால் அது சுத்தமாகியது” என்ற யாக்ஞவல்க்ய வசனமும், “பூமியின் வெடிப்பிலுள்ளதாயினும் பசுவிற்குத் திருப்தியை யளிப்பதாயிருந்தால் அந்த ஜலம் சுத்தமாகியது” என்ற வளிஷ்ட வசனமிருந்தாலும் அவையெல்லாம் கலியுக ஸமயத்தில் நிஷித்தமாகியவைகளாம். “பசு குடித்துத் த்ருப்தி யடைந்து மீந்த ஜலத்தில் சிஷ்டர்கள் ஆசமனம் செய்வதும் கலியில் கூடாது” என்றிருப்பதால், காரணமின்றி, சூடான ஜலத்தினால் ஆசமனம் கூடாது. ‘சூடான’ என்றிருப்பதால், சூடாயிருந்து பிறகு ஆறியிருக்கும் ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்வதில் தோஷமில்லை. அப்படியானதால், சூடாயிருக்கும் ஜலத்திற்குத்தான் ப்ரதிஷ்வேதம் ஸ்மருதிகளில் மிகையாய் இருக்கிறது. ஜ்வரம் முதலிய காரணமிருந்தால் உங்ணமான ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்வதிலும் தோஷமில்லை என்பது பொருள்.

மனுः - ஬्रாஹ்ம விப்ரஸ்திரேந நித்யகாலமுபஸ்பृஶேत् ।
 காயत்ரைத்திகாம்யாஂ வா ந பித்ரேண கடாசனேதி ॥ ஬்ராஹ்ம
 ஹிரண்யம்஦ைவத்யம् । காய் ப்ராஜாப்த்யம् । த்ரைத்திக் - ஦ைவம் । அது
 ஦ைவதாதாரத்ம்யவத் திர்஥தாரத்ம்ய ஦ிஷ்டவியம் । தானி புனஸ்திரீநி
 குந்த்யானநித்யபேக்ஷாயாமாஹ ஸ ஏவ — ‘அஜ்ஞாஷமூலஸ்ய தலே ஬்ராஹ்ம் திர்஥
 பிசுக்ஷதே । காயமஜ்ஞாலிமூலத்ரே தைப் பித்ரே தயோர஧ இதி ॥ ஹஸ்ததலமத்யே யா
 ரேகா, தஸ்யா: மூலே ஬்ராஹ்ம் திர்஥ம் । அஜ்ஞாலிமூல் - கனிஷ்டாமூல், தலமத்யே
 பிரதேஶ: , தன் ஹி மூலமஜ்ஞால்யா: । தன் காய் திர்஥ம் । அதே - அஜ்ஞாலிநாஂ ச

तिसृष्टामग्रे दैवं तीर्थम् । तयोः - अङ्गुष्ठाङ्गुष्ठोः अधः = प्रदेशिन्यङ्गुष्ठोः मध्य इत्यर्थः । तत्र पित्र्यं तीर्थम् ।

मनुः :- प्रराम्भल्लज्जनानं एप्पेबाघुतुम् प्रराम्भल्ल तीर्त्तत्तत्ताल्ल आचमनाम् चेय्यवेण्टुम्. अल्लतु, कायतीर्त्तत्तत्ताल्लुम्, तेवतीर्त्तत्तत्ताल्लुम् चेय्यलाम्. ओरुकालुम् पित्र्गु तीर्त्तत्तत्ताल्ल चेय्यक्षुटातु. इन्कु, प्रराम्भल्लम् एन्ऱतु ल्लिरण्णयकर्प्पलेन्त तेवतेया युटेयतु. कायम् एन्पतु प्ररज्जापत्तियेत तेवतेया युटेयतु. त्तरेतकिकमेन्पतु तेवर्कौत तेवतेया युटेयतु. इन्कु, तेवतेकौन्त तारतम्यम्पोल्ल तीर्त्तन्करुक्कुम् तारतम्यमरीयत्तक्कतु.

अन्तत तीर्त्तन्करुक्किन्नरन्वेणील्ल चेऽल्लुकिरुर्मनुवेः - बेगु विरविण्डियिल्ल प्रराम्भल्ल तीर्त्ततम्. संन्दुविरविण्डियिल्ल कायतीर्त्ततम्. नाऩ्कु विरल्लकौन्त नुनीयिल्ल तेवत तीर्त्ततम्. आूल्काट्टि विरल्ल बेगु विरल्ल इवेकौन्त नुनीयिल्ल पित्र्गु तीर्त्ततम्. संन्दुविरल्ल अ॒टियेन्पतु कौयिन्त नुनीयिल्ल पित्र्गु तीर्त्ततम्. अ॒न्केतान्त संन्दुविरविण्डियिल्ल अ॒टि. अ॒तिल्ल काय तीर्त्ततम्. नाऩ्कु विरल्लकौन्त नुनीयिल्ल तेवत तीर्त्ततम्. आूल्काट्टि विरल्ल बेगुविरल्ल इवेकौन्त नुनीयिल्ल पित्र्गु तीर्त्ततम् एन्ऱु.

तथा च याज्ञवल्क्यः - कनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठमूलान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृब्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात् इति ॥ कनिष्ठायास्तर्जन्या अङ्गुष्ठस्य च मूलानि करस्याग्रं च यथाक्रमं प्रजापतिपितृब्रह्मदेवतीर्थानीत्यर्थः । शङ्खलिखितौ - अङ्गुष्ठमूलस्यान्तरतः प्राग्ग्रायां रेखायां ब्रह्मतीर्थं प्रदेशिन्यङ्गुष्ठोरन्तरा पित्र्यं कनिष्ठातल्योरन्तरा प्राजापत्यं कराग्रे दैवमिति ॥ भारद्वाजः - दर्पणं देवतादिभ्यः स्वस्वतीर्थेन तर्पयेत् । पिबेदाचमने वारि वीक्षितं ब्रह्मतीर्थतः इति । स्मृतिरक्ते -

அஜுஷ்மூலேநாசாமேடபோ மாஷனிமஜ்ஜனீ: | திஶ்துவர்திப ஆசாமேட்஧யாயந्
வேடாநநுக்ரமாடிதி | வ்யாஸ: - அஜுஷ்மூலாந்தரதோ ரேஹாயாங் ஬்ராஹ்முச்யதே |
அந்தராஜுஷ்மேஶின்யோ: பிதூணாஂ தீர்஥முத்தமம் | கனிஷ்மாலுத: பஶாத்
ப்ராஜாப்தய் ப்ரச்க்ஷதே | அஜுஷ்மே ஸ்மृதுஂ ஦ைவ ததைவார்ஷ பிக்ரித்தம் | மூலே வா
தைவமார்ஷ ஸ்யாதாயேயம் மத்யத: ஸ்மृதம் | ததைவ ஸௌம்யக் தீர்஥ தத் ஜாலா ந
முஹதி | ஬்ராஹ்மேவ துதிரீஷ டிஜோ நித்யமுபஸ்பூஶேத் | காயேந வாட்஥ பித்ரே
ந து ஦ைவேந ச டிஜ இதி |

அவ்விதமே யாக்ஞவல்க்யர்:- சண்டு விரல், தர்ஜூனீ
விரல், பெருவிரல் இவைகளின் அடியும், கையின்
நுனியும், முறையே ப்ரஜாபதி தீர்த்தம், பித்ரு தீர்த்தம்,
ப்ரம்ஹ தீர்த்தம், தேவ தீர்த்தம் எனப்படுகின்றன.
சங்கலிகிதர்கள்:- பெரு விரலின் அடியில் கிழக்கு
நுனியாயுள்ள ரேகையில் ப்ரம்ஹ தீர்த்தம்;; தர்ஜூனீ,
பெருவிரல் இவைகளில் நடுவில் பித்ரு தீர்த்தம்; சண்டு
விரல், உள்ளங்கை இவைகளின் நடுவில் ப்ரஜாபதி
தீர்த்தம்; கையின் நுனியில் தைவ தீர்த்தம். பாரத்வாஜர்:-
தேவர் முதலியவர்களின் பொருட்டுச் செய்யும்
தர்ப்பணத்தை அவரவர் தீர்த்தத்தினால் செய்ய வேண்டும்.
ஆசமனத்தில், பார்க்கப்பட்ட ஜலத்தை ப்ரம்ஹ
தீர்த்தத்தினால் பருகவேண்டும். ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:-
உளுந்து முழுகுமளவுள்ள ஜலத்தைப் பெருவிரலின்
அடியினால் பருகவேண்டும். வேதங்களை முறையே
த்யானித்துக் கொண்டு மூன்று, அல்லது நான்கு தடவை
பருகவேண்டும். வ்யாஸர்:- பெரு விரலின் அடியிலுள்ள
ரேகையில் ப்ராம்ஹ தீர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது.
பெருவில் ஆள்காட்டி விரல் இவைகளின் நடுவில் பித்ரு
தீர்த்தம். சண்டுவிரலின் அடியில் ப்ராஜாபத்ய தீர்த்தம்.
விரல்களின் நுனியில் தைவ தீர்த்தமும் ஆர்ஷ தீர்த்தமும்.
அல்லது விரல்களின் அடியில் தைவம் ஆர்ஷம் என்ற
இரண்டு தீர்த்தங்களுமாம். விரல்களின் நடுவில் ஆக்னேய

तीर्त्तमुम्ब लेणाम्य तीर्त्तमुम्बाम्. इतेतत् तेत्रीन्त्तु केाण्टाळं मेंोवृमष्टयमाट्टाणं. प्रराम्भेणान नप्पेपाम्भुम्ब प्रराम्भ तीर्त्तत्तत्तिण्णेये आचमनम् चेय्येवेण्णुम्. प्रराज्ञापत्त्य तीर्त्तत्तत्तिण्णेवतु, पीत्तरु तीर्त्तत्तिण्णेवतु, तेव तीर्त्तत्तत्तिण्णेवतु आचमनम् चेय्यक्षेत्रातु.

स्मृत्यर्थसारे - कनिष्ठादेशिन्यज्ञुष्टमूलतलेषु कायपित्त्य ब्रह्मतीर्थानि, कराग्रे दैवतं तीर्थम्, करमध्ये सौम्यमाग्रेयं च तीर्थम्। निवपिणसंश्रपणलाजहोमान् कायेन कुर्यात्। अर्चनबलिप्रक्षेपपर्युक्षण मार्जनभोजननित्यहोमान् दैवेन। पैतृकं पित्र्येण। कमण्डलुना पानं दधिप्राज्ञानं नवानं प्राज्ञानं सुग्रहणश्च सौम्येन। आग्रेयेन प्रतिग्रहं कुर्यादिति। बोधायनोऽपि - ब्राह्मण तीर्थेनाचामेदज्ञुष्टमूलं ब्राह्मं तीर्थमिति। मनुः - त्रिराचामेदपः पूर्वद्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्। खानि चोपस्पृशेदद्विरात्मानं शिर एव चेति॥। मुखं - सलोमकावोष्टौ अज्ञुष्टमूलेन द्विः प्रमृज्यात्। ततः श्रीष्ण्यानि खानि - आस्यं चक्षुषी नासिके श्रोत्रे च पृथक् पृथक् अद्विः सहोपस्पृशेत्। आत्मानं - हृदयं शिरश्च जलेन सहोपस्पृशेदित्यर्थः।

संम्रुत्यर्त्तत्तलारत्तीलः - क्षण्णुवीरल, आॅक्काट्टवीरल, बेप्रुवीरल इवेवकलीन अॅट्टीलं मुरेये प्रराज्ञापत्त्य, पीत्तर्य, प्रराम्भ तीर्त्तत्तंकल, तेकयीनं नुनीयीलं तेव तीर्त्तत्तम्. तेकयीनं न्णुवीलं लेणाम्य तीर्त्तत्तमुम्ब, आॅक्केन्य तीर्त्तत्तमुम्बाम्. नीर्वापन्नम्, चॅरपन्नम्, लाज्जेहोमम् इवेवकैॅक्क काय तीर्त्तत्तत्तत्तालुम्ब, अॅर्स्सन्नम्, पलितान्नम्, पर्युक्ष्णन्नम्, मार्जन्नन्नम्, पोज्जन्नम्, नित्यहोमम् इवेवकैॅत तेव तीर्त्तत्तत्तत्तालुम्ब, पीत्तरुकार्यत्तेतप पीत्तरु तीर्त्तत्तत्तत्तालुम्ब, कमण्णलुवीलिण्णेल ज्ञलत्तेतप पानम् चेय्तल, तयिरेक्क तुष्टत्तल, पुत्रियतान अॅन्नप्रराचनम्, होम लोतन्नमाण, संरुक्केक कर्मलित्तत्तल इवेवकैॅ लेणाम्य

தீர்த்தத்தாலும், ப்ரதிக்ரஹத்தை ஆக்னேய தீர்த்தத்தாலும் செய்ய வேண்டும்.

போதாயனரும்:- ப்ராம்ஹ தீர்த்தத்தால் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். பெருவிரல் அடி ப்ராம்ஹ தீர்த்தமாம். மனு:- முதலில் மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். பிறகு இரண்டு தடவை முகத்தைத் துடைக்க வேண்டும். பிறகு இந்தரியங்களையும், ஆத்மாவையும், தலையையும் ஜலத்துடன் தொடவேண்டும். முகத்தை (ரோமங்களுடன் கூடிய உதடுகளை) பெருவிரலின் அடியால் இரண்டு தடவை துடைக்க வேண்டும். பிறகு, தலையிலுள்ள இந்தரியங்களை, அதாவது வாய், கண்கள், மூக்குகள், காதுகள் இவைகளைத் தனித்தனியாய் ஜலத்துடன் தொடவேண்டும். மார்பையும், தலையையும் ஜலத்துடன் தொடவேண்டும். என்பது பொருள்.

யாஜாவல்க்ய: — ‘त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्विस्समुप-
स्पृशेदिति ॥ व्यासः :- त्रिःपिबेद्वक्षिणेनाम्बु द्विरोष्टौ परिमार्जयेत् ।
अज्ञुष्टमूलेन ततो मुखं वै समुपस्पृशेत् ॥ अज्ञुष्टानामिकाभ्यां तु स्पृशेनेत्र
द्वयं ततः । तर्जन्यज्ञुष्टयोगेन स्पृशेनासापुटद्वयम् ॥ कनिष्ठाज्ञुष्ट योगेन
श्रवणे समुपस्पृशेत् । सवर्सामेव योगेन हृदयं तु तलेन वा ॥ संस्पृशेद्वै
शिरस्तद्वैदज्ञुष्टेनाथ वा द्वयम् । त्रिः प्राश्रीयादपो यत्तु प्रीतास्तेनास्य
देवताः ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशश्रुम । गङ்஗ा च यमुना चैव
प्रीयते परिमार्जनात् । संस्पृष्टयोर्लोचनयोः प्रीयते शशिभास्करौ ।
नासत्यसंज्ञौ प्रीयते स्पृष्टे नासापुटद्वये । संस्पृष्टे हृदये चास्य प्रीयन्ते
सर्वदेवताः । मूर्धिः संस्पृर्जनादेवः प्रीतस्तु पुरुषो भवेत् । य एवं ब्राह्मणो
नित्यमुपस्पृशन्माचरेत् । ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत् स परितप्येदिति ॥

யாக்ஞுவல்க்யர்:- ஜலத்தை மூன்று தடவை பருகி, இரண்டு தடவை துடைத்து, இந்தரியங்களை ஜலத்துடன் தொடவேண்டும். **வ்யாஸர்:-** வலது கையினால் மூன்று

तटवेव ज्ञलत्तेतप्प परुकवेण्णनुम्. उत्तुकैलै इरण्णनु तटवेव बेप्रु विरलिन् अष्टयालं तुटेक्क वेण्णनुम्. पिऱ्कु मुकत्तेतप्प तेठाटवेण्णनुम्. बेप्रुविरलं पवित्त्रविरलं इवेवकला॒ल इरु कैन्कैलैयम्, आ॒लका॒ट्टिविरलं इवेवकला॒ल इरु मुक्कुकैलैयम्, चिऱ्यविरलं बेप्रुविरलं इवेवकला॒ल इरण्णनु कातुकैलैयम्, ऎ॒लला विरलंकैलैलैयम्, अ॒ल्लतु उ॒ल्लाङ्कैकैयीगुलै मार॒पैयम्, अ॒व्वितमेतैलैयैयम् तेठाटवेण्णनुम्. अ॒ल्लतु बेप्रुविरलिगुलै मार॒पैयम् तैलैयैयम् तेठाटला॒म. मु॒न्नरु मु॒रेज्ज ज्ञलत्तेतप्प परुकुवत्ता॒ल (प्रम॒ल्ला, विष्णु, गुत्तरर ऎ॒न्नर) तेवर्कैलै परीकैयै अ॒टेकैिन्नरन्नर. मुकत्तेतत्त तुटेप्पत्ता॒ल कैन्कैयैयम् यमैजैयैयम्, कैन्कैलैत्त तेठाटुवत्ता॒ल सन्तरन्नुम् लैलैर्यन्नुम्, मुक्कुकैलैत्त तेठाटुवत्ता॒ल अ॒स्विनी तेवर्कैरुम्, कातुकैलैत्त तेठाटुवत्ता॒ल अ॒क्किन्नियैयम् वा॒यैवुम्, मार॒पैत्त तेठाटुवत्ता॒ल लैकलैतेवर्कैरुम्, तैलैयैत्त तेठाटुवत्ता॒ल पुरुष्णन्नुम् (प्रमात्तमावुम्) परीकैयैयैटेकैिन्नरन्नर. इ॒व्वितम् प्रति॒तिन्नमुम् आ॒चमनम् चेयैयैयम् प्रराम॒ल्लन्नन्न, प्रम॒ल्ला मुत्तलै लैत्तम्पम् (पुलै) वरैयैलै उ॒लकैत्त त्त त्तरुप्तमाक्कै चेयैकिरुन्न.

गौतमः - वाग्यतो हृदयस्पृश्चिश्चतुर्गाऽप आचामेत् द्विः परिमृज्यात् पादौ चाभ्युक्षेत् खानि चोपस्पृशेच्छीर्षण्यानि मूर्धिं च दद्यादिति ॥ आपस्तंम्बः - आसीनस्त्रिराचामेहृदयज्ञमाभिरद्विः, त्रिराष्ट्रौ परिमृजेत् द्विरित्येके सकृदुपस्पृशेत् द्विरित्येके दक्षिणेन पाणिना सव्यं प्रोक्ष्य पादौ शिरश्चेन्द्रियाण्युपस्पृशेच्छुषी नासिके श्रोत्रे चाथाप उपस्पृशेदिति ॥ सकृदुपस्पृशेदिति मध्यमाभिस्तसृभिरज्ञुलीभिरोष्टावुप-स्पृशेत् । द्विरित्येक इति तुल्यविकल्पः । ओष्टौ चात्र सलोमकौ । यदाह कण्वः - अथ वेदेतिहासपुराणानि ध्यायन् ब्राह्मणं तीर्थेन त्रिरपः पीत्वा सलोमकावोष्टावुन्मृजेत् इति ॥

கௌதமர்:- மெளனியாய் மார்பை அடையும் ஜலத்தை மூன்று அல்லது நான்கு தடவை பருகவேண்டும். இரண்டு தடவை துடைக்க வேண்டும். கால்களையும் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். சிரஸ்ஸிலிலுள்ள இந்தரியங்களையும் தொடவேண்டும். தலையையும் தொடவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர்:- உட்கார்ந்தவனைய், மார்பை அடையக்கூடிய ஜலத்தை மூன்று தடவை பருகவேண்டும். மூன்று தடவை உதடுகளைத் துடைக்க வேண்டும். இரண்டு தடவை என்று சிலர். ஒரு தடவை தொடவேண்டும். இருமுறை என்று சிலர். வலது கையினால் இடதுகையையும், கால்களையும், சிரஸ்ஸிலையும் ப்ரோக்ஷித்து, கண்கள், மூக்குகள், காதுகள் என்ற இந்தரியங்களைத் தொடவேண்டும். பிறகு கைகளை அலம்ப வேண்டும். ‘ஒரு தடவை தொடவேண்டும்’ என்றது, நடுவான் மூன்று விரல்களாலும் உதடுகளைத் தொடவேண்டும் என்பதாம், ‘இருமுறை என்று சிலர்’ என்பது ஸமவிகிகல்பமாம். உதடுகளை என்பது ரோமத்துடன் கூடிய உதடுகளை என்பதாம். கண்வர்:- ‘பிறகு வேதங்கள், இதிஹாஸங்கள், புராணங்கள் இவைகளை த்யானித்துக் கொண்டு, ப்ராம்ஹ தீர்த்தத்தால் மூன்று தடவை ஜலத்தைப்பருகி, மயிருடன் கூடிய உதடுகளைத் துடைக்க வேண்டும்’ என்பதால்.

**दक्षः - संवृत्याङ्गुष्ठमूलेन द्विः प्रमृज्यात्तो मुखम् । संहताभिश्च
तिसूभिः पूर्वमास्यं सकृत् स्पृशेत् ॥ । अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं
स्पृश्यादनन्तरम् । अङ्गुष्ठानाभिकाभ्यां तु चक्षुषी समुपस्पृशेत् ॥ । श्रोत्रे
कनिष्ठाङ्गुष्ठाभ्यां नाभिमङ्गुष्ठकेन वै । सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाहू चाग्रेण
संस्पृशेत् इति ॥ । संवृत्य - अलोमकदेशभिति शेषः । तिसूभिः -
मध्यमाभिः । ‘मध्यमाभिर्मुखं पूर्वं तिसूभिस्समुपस्पृशेत्’ इति
योगयाङ्गावलक्ष्यस्मरणात् ॥ । अग्रेण - कराग्रेण ॥**

तुष्टीरः:- प्रियकु, उत्तुकौला मुट्टिकं केाण्टु, रोममूर्ला प्ररतेचत्तिल मुक्तत्तेत (उत्तुकौला) प्र बेरुविरलिन्न अट्टियिऩ्ऱु इरुण्ऱु तत्तवेव तुटेक्कवेण्ऱुम्. मुतविल, चेर्नंतुर्ला (नंदुवाळ) मुन्ऱु विरल्कूलालुम् वायेत तेऽवेण्ऱुम्. प्रियकु, बेरुविरल तर्जुनी इवेकूलाल मुक्केत तेऽवेण्ऱुम्. बेरुविरल पवित्रविरल इवेकूलाल कैण्कौलात तेऽवेण्ऱुम्. बेरुविरल कैण्ऱुविरल इवेकूलाल कौतुकौलात तेऽवेण्ऱुम्. बेरुविरलाल तेऽप्पौलात तेऽवेण्ऱुम्. एल्ला विरल्कूलालुम् तैलयेयुम्, (कै) नुनीयाल कैकौलायुम् तेऽवेण्ऱुम्. इंकु, लम्वंगुत्तय एन्पत्तर्कु, रोममिल्लात उत्तुकौलिन प्ररतेचत्तेत एन्ऱु पूर्त्ति चेय्यवेण्ऱुम्. 'मुन्ऱु विरल्कूल' एन्पत्तिल 'नंदुवाळ' एन्ऱु चेर्नंतुकं कौला वेण्ऱुम्. 'नंदुवाळ मुन्ऱु विरल्कूल मुतविल मुक्तत्तेत तेऽवेण्ऱुम्' एन्ऱु योक्याज्ञवल्क्यस्मरुति यिरुप्पत्ताल. 'नुनीयाल' कैयिन्नुनीयाल.

तथाच व्याघ्रपादः:- असौस्पृष्ठा कराणेण तोयं स्पृष्ठा समाहितः। संस्मृत्य पद्मनाभं च विप्रस्सम्यविरुद्धति इति ॥ अत्र 'ओङ्कारेण सह यज्ञपुरुषं मनसा स्मरेत् इति नारायणीये विशेषः ॥ पैठीनसिः - सञ्जे पाणौ शेषा अपो निनयेत् इति । शेषाः - आचमनशिष्टाः ॥ भूगः - त्रिः पीत्वाऽपो द्विरुन्मृज्य मुखं दक्षिण पाणिना । प्रोक्षयेद्वामहस्तं च पादौ मस्तकमेव च । स्रोतः स्थानानि सर्वाणि स्पृष्ठाऽन्ते तु जलं स्पृशेत् इति ॥ आपस्तम्बोऽपि - अथाप उपस्पृशेत् इति ॥ आचमनान्तरं हस्तौ प्रक्षालयेदित्यर्थः ॥

अवंवितमेवं याकरपातुरः:- 'कैयिन्नुनीयाल तेऽकौलात तेऽवेण्ऱु, ज्ञलत्तेत तेऽवेण्ऱु, कवनमुटेयवाण्ऱु, पत्तमनापैन्युम् लम्गरीत्ताल, प्ररोम्लूण्ऱन्न नन्ऱुयस्च कृत्ताण्ऱकिरुण्ऱन्न एन्ऱुर्. इंकु

‘ஓங்காரத்துடன் யக்ஞபுருஷனை மனதினால் ஸ்மரிக்க வேண்டும் என்ற விசேஷம் நாராயணீயம் என்னும் க்ரந்தத்தில் உள்ளது. பைஷநலி: ‘மீந்த ஜலத்தை இடது கையில் விடவேண்டும்’ இங்கு ‘மீந்த’ என்பதற்கு ஆசமனத்தில் மீதி என்று பொருள் என்கிறுர்ப்புருசு:- மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகி, இரண்டு தடவை வலது கையினால் வாயைத்துடைத்து, இடது கை, பாதங்கள், தலை இவைகளை ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். இந்திரியங்களையும் ஸ்பர்சித்து, முடிவில் ஜலத்தைத் தொடவேண்டும். ஆபஸ்தம்பரும்:- ‘பிறகு ஜலத்தைத் தொடவேண்டும்’ என்றார். ஆசமனத்திற்குப்பிறகு கைகளை அலம்பவேண்டுமென்றார்த்தம்.

பிரகாராந்தரமாஹ ஶஸ்தி: - அஜுலீனாஂ சதுஷ்கேண ஸ்பृஶேந்துஷ்டானிமாடித: |
தர்ஜ்யங்ஜுஷ்யோగேந ஸ்பृஶேநேநாந்தாய் பृஶ்க | மத்யமாநாமிகாம்யாஂ து
ஸ்பृஶேநாஸாபுடே க்ரமாத | அஜுஷேந கனியியஸ்யா கணௌ தந்து சுந்பृஶேத |
தர்ஜ்யங்ஜுஷ்யோகேந நாமிஂ ஹடிதல் ந்யஸேது இதி | வூஷஶஸ்தி: - தர்ஜ்யங்ஜுஷ்யோகேந
ஸ்பृஶேநாஸாபுடநாய் | மத்யமாஜுஷ்யோகேந ஸ்பृஶேநேநாந்தாய் பृஶ்க
தாய் தத: | அஜுஷஸ்யாநாமிகாயா யோகேந ஶ்ரவणே ஸ்பृஶேத | கனிஷாஜுஷ்யோகேந ஸ்பृஶேநாந்தாய்
தாய் தத: | நாமிஂ ச ஹடய் தந்து ஸ்பृஶேத | பாணிதலேந து | ஸுந்பृஶேது தத:
ஶிரீமயமாசமனே வி஧ி:’ இதி | பைதீனஸி: - அग्निरजुषस्तसमात्तेनैव
सर्वाणि स्थानानि संस्पृशेत्’ இதி ||

சங்கரர்: - வேறுப்ரகாரம் சொல்லுகிறார்: - ‘முதலில் நாலுவிரல்களாலும் தலையைத் தொடவேண்டும். தர்ஜூனீ, பெருவிரல் இவ்விரண்டையும் சேர்த்துக் கண்களைத் தனித்தனியே தொடவேண்டும். நடுவிரல் அநாமிகா இவ்விரண்டினாலும் இரு மூக்குகளையும் தொடவேண்டும். பெருவிரல் சுண்டு விரலினைவகளால் காதுகளைத் தொடவேண்டும். தர்ஜூனீ அங்குஷ்டம் இவைகளைச் சேர்த்து நாபியைத் தொடவேண்டும். உள்ளங்கையை மார்பில்

वेवकंक वेवन्नुम्. एन्नरु. वंगुत्तकांक्षकारः:- तर्जुनी अंकुष्ठम् इवेवकौश्च चेर्ततु लुक्कुकौश्यम्, नुविरल् अंकुष्ठम् इवेवकौश्च चेर्ततुक कण्कौश्यम्, अंकुष्ठम् अनामिका इवेवकौश्च चेर्ततुक कातुकौश्यम्, चिरुविरल् अंकुष्ठम् इवेवकौश्च चेर्ततुत तेऽकौश्यम्, उल्लाङ्कैयीगुल् नापी, मार्पु, चिरल् इवेवकौश्यम् मुरेये तेऽवेवन्नुम्. इतु शुचमनत्तिऊल्लांवीति. ऐपावन्नलिः:- अक्षनी अंकुष्ठम् एन्पपुकिरुर. शुक्याल्, अतिगुलेये एल्ला लेतानंकौश्यम् लेपर्चिक्क वेवन्नुम्.

संवर्तः :- हृद्राताभिरफेनाभिः त्रिश्चतुर्विद्धिराचमेत्। परिमृज्य द्विरास्यं तु द्वादशाङ्गानि चालभेत्॥ सोदकेन च हस्तेन खान्यास्यादीनि सप्त च। नाभिं तथा हृन्मूर्छानिमन्ते बाहूतथैव च इति॥ आत्मतुष्ट्यभि-प्रायेण त्रिश्चतुर्वेति विकल्पः। ‘यत्र मन्त्रवदाचमनम्, तत्तेन सहचतुः, अन्यत्र चिः इति केचिद्वयवस्थामाहुः॥

लम्बवर्त्ततारः :- मार्पप अट्टयक्कौष्ठयतुम्, नुररयील्लाततुमाण ज्ञलत्ततेत रुन्नरु अल्लतु नाणंकु तटवे परुकवेवन्नुम्. वायय इरण्णु तटवे तुटेत्ततु, वाय्य मुत्तलीयवे एमु, नापी, मार्पु, तैल, कैककला एन्नरु पाणीरण्णु अंकुनंकौश्यम्, ज्ञलत्ततुटां कौष्ठय कैयीगुल् (मुरेये) तेऽवेवन्नुम्. अवरवर्म मनस्तुष्ठयेयप बेपारुत्तताकिन्नरतु, “रुन्नरु अल्लतु नाणंकु तटवे परुकलाम्” एन्नरु वीकल्पम्. “एन्त इत्ततिल मन्त्रत्ततुटां शुचनमेंा अंकु अत्ततुटां नाणंकु तटवे, मन्नरु वीट्ततिल रुन्नरु तटवे” एन्नरु किलर वंयवल्लते क्षाल्लुकिरुक्कल.

हारीतः :- त्रिः पिबेद्वीक्षितं तोय मास्यं द्विः परिमार्जयेत्। पादौ चिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपस्पृशेत्॥ अज्ञुष्टानामिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्। अज्ञुष्टेन प्रदेशिन्या नासिके समुपस्पृशेत्॥ तथाऽज्ञुष्टकनिष्ठाभ्यां कर्णौ तु समुपस्पृशेत्। अज्ञुष्टेन तु देशिन्या नाभिं

च समुपस्पृशेत् ॥ तथैव पञ्चभिमीर्धि स्पृशेदेव समाहितः । अज्ञुषोऽग्निरिति
ख्यातः प्रोक्ता वायुः प्रदेशिनी ॥ अनामिका तथा सूर्यः कनिष्ठा मधवा
समृता । प्रजापतिर्मध्यमा तु ज्येया शुद्धिमभीस्ता' इति । बोधायनः -
அனாந்தங்களை குருவினிரபோ ஹடயங்மா: பிவெத் திரி: பரிமுஜேத் திரித்யேகை ஸக்டுமுய்
ஶத்ருஸ்ய ஖ியாஶ ஖ாந்யத்திஸ்ஸம்பூர்ய பாடை நாமிங் திரஸ்ஸவ்ய பானிமந்தத:
இதி ।

ஹார்தாரः:- பார்க்கப்பட்ட ஜலத்தை மூன்று தடவை
பருகவேண்டும். முகத்தை இருமுறை துடைக்க
வேண்டும். பிறகு பாதங்களையும் சிரஸ்லையும்
ப்ரோக்ஷித்துக் கொண்டு, மூன்று விரல்களால் முகத்தைத்
துடைக்க வேண்டும். அங்குஷ்டம், அனுமிகை
இவைகளால் கண்களையும், அங்குஷ்டம் தர்ஜனீ
இவைகளால் மூக்கையும், அங்குஷ்டம் கண்டு
விரலிவைகளால் காதுகளையும், அங்குஷ்டம் தர்ஜனீ
இவைகளால் நாபியையும், ஜந்து விரல்களாலும்,
தலையையும், கவனமுடையவனும்த் தெரடவேண்டும்.
அங்குஷ்டம் அக்னி என்றும், தர்ஜனீ வாயுவென்றும்,
அநாமிகா ஸமர்யனென்றும், சிறுவிரல் இந்த்ரனென்றும்,
நடுவிரல் ப்ரஜாபதியென்றும், சுத்தியை விரும்பியவன்
அறியவேண்டும். **போதாயனரா:-** சப்தம் செய்யாமல்,
மார்பை அடையுமளவுள்ள ஜலத்தை மூன்று தடவை பருக
வேண்டும். மூன்று தடவை வாயைத் துடைக்க வேண்டும்.
இரண்டு தடவை எனச்சிலர். இவ்விரண்டும், குத்ரனுக்கும்
ஸ்தர்க்கும் ஒரு தடவை. இந்த்ரியங்களை ஜலத்துடன்
தொட்டு, பாதங்களையும், நாபியையும், தலையையும்,
முடிவில் இடது கையையும் தொடவேண்டும்.

ଆଚମନପ୍ରଶଂସା ।

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତପ୍ରକରଣେ ସ ଏବ — ଓ ପୂର୍ଵଭିନ୍ନର୍ଥହୃତଭି: ସର୍ବପାପେଷାଚା-
ମେଘତ ପ୍ରଥମମାଚାମତି ତେନ କ୍ରମେଦ ପ୍ରୀଣାତି ଯଦ୍ଵିତୀୟ ତେନ ଯଜୁର୍ଵେଦ ପ୍ରୀଣାତି

यत्तृतीयं तेन सामवेदं यत् प्रथमं परिमार्ष्ट तेनाथर्ववेदं यद्वितीयं तेनेतिहासपुराणं यत् सब्यं पाणिं प्रोक्षति पादौ (च) शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी श्रोत्रे नाभिं चोपस्पृशति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वश्च देवताः प्रीणात्या(ज्ञोति चा) च मनादेव सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते इति ।

आुचमनात्तुनिं बेग्रुमेः-

प्ररायस्चित्तप्रकरणात्तुलिं पोतायनारः:-
ङुञ्कारत्तेत मुन्नुट्टेय व्याहृतिकालाल, एन्तप प्रापन्कलीलुम् आुचमनाम् चेय्य वेण्टुम्. मुतल्तत्वेव परुकुवत्ताल रुकं वेतत्तेत्युम्, 2-आुम् तत्वेव परुकुवत्ताल यज्ञार वेतत्तेत्युम्, 3-आुम् तत्वेव परुकुवत्ताल लामवेतत्तेत्युम् लन्तेत्तेविप्रिक्किरुन्. मुतल्तत्वेव तुट्टेप्पत्ताल अतर्व वेतत्तेत्युम्, 2-आुम् तत्वेव तुट्टेप्पत्ताल इतिल्लाल पुराणंकलायुम्, इतु कै प्रातंकलाल प्रेरोक्षिप्पत्तालुम्, शिरस्, मार्पु, शुक्कुकल, कंकल, कातुकल, नापि इवेवकलात् तेत्तेविलुम्, छृष्टिकल, वन्संपत्तिकल, लकल तेवर्कल इवर्कलात् तिरुप्तियट्टेविक्किरुन्, अवर्कलायुम् अट्टेकिरुन्. आुचमनात्तालेये लकल प्रापन्कलीनीन्ऱुम् विट्टेप्रुक्किरुन्.

तथा ब्रह्मज्ञाधिकरणे श्रूयते — दक्षिणत उपवीयोपविद्य हस्तावनिज्य त्रिराचामेद्विः परिमृज्य सकृदुपस्पृश्य शिरश्चक्षुषी नासिके श्रोत्रे हृदयमालभ्य यत्तिराचामति तेन ऋचः प्रीणाति यद्विः परिमृज्यति तेन यजूऽपि यत् सकृदुपस्पृशति तेन सामानि तेनाथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशः सः प्रीणाति' इति। दक्षिणत उपवीयेति 'दक्षिणं बाहुमुद्धरतेऽवधत्ते सब्यमिति यज्ञोपवीत' मित्येतत् स्मार्यते ॥ हस्तावननिज्य आमणिबन्धनात् प्रक्षाल्य, पादयोरप्युपलक्षणम् । द्विः परिमृज्य - ओष्ठाग्निशेषः । सकृदुपस्पर्शनिमोष्ठयोरेव । सुबोधमन्यत् ॥ भरद्वाजः - ब्रह्मज्ञो

विशेषोऽस्ति किञ्चिदाचमनक्रमे । पानत्रयं तथा कुर्यात्तिथा द्विः
परिमार्जनम् । उपसृज्ञान् शिरश्चक्षुर्नासिकाद्वितयं ततः । श्रोत्र द्वयं च
हृदयं पूर्वोक्तविधिनाऽलभेत् इति ।

அவ்விதமே பரம்ஹயக்ஞ ப்ரகரணத்தில் கேட்கப்படுகிறது. தக்ஷிணத:உபவீய என்பது முதல் நாராசரம் ஸீ: பரீணாதி என்பது வரையிலுள் சுருதியின் அர்த்தம் ஸ்பஷ்டமாயுள்ளதால் சிலவற்றிற்கு மட்டும் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. ஦க்ஷிணத உபவீய என்பதால் யக்ஞோபவீதம் செய்து கொள்ளும் முறை நினைப்பூட்டப்படுகிறது. கைகளை மணிக்கட்டு வரையில் அலம்பவேண்டும். இது கால்களை அலம்புவதையும் சொல்லும். இரண்டு தடவை துடைத்து என்பதில் உதடுகளை என்று கொள்ளவும். ஒருதடவை தொடவேண்டும் என்பது உதடுகளுக்கே மற்றவைகளின் பொருள்ளளிதில் அறியக்கூடியதே.

भरद्वाजः – ब्रह्मयज्ञे विशेषोऽस्ति किञ्चिदाच्च मनक्रमे । पानत्रयं
तथा कुर्यात्तथा द्विः परिमार्जनम् ॥ उपस्पृशन् विरक्षुनां सिकाद्वितयं
ततः । श्रोत्रद्वयं च हृदयं पूर्वोक्तविधिनाऽलभेत् ॥ इति ॥

பரத்வாஜர்:- ப்ரம்ஹயக்ஞத்தில் ஆசமனக்ரமத்தில் கொஞ்சம் விசேஷமிருக்கிறது. மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். இரண்டு தடவை துடைக்க வேண்டும். ஒரு தடவை தொடவேண்டும். தலை, இரண்டு கண்கள், இரண்டு மூக்குகள், இரண்டு காதுகள், மார்பு இவைகளை முன் சொல்லிய விதிப்படி தொடவேண்டும்.

शौनकः – प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रिः पिबेदम्बु वीक्षितम् ।
 माषमग्रं तु तद्वारि हृदतं तु विशुद्धयति ॥ संबृत्याङ्गुष्ठमूलेन द्विः
 प्रमृज्यात्तथौष्ठकौ । संहताङ्गुलिभिस्सम्यगवाचीनः स्पृशेन्मुखम् ॥
 अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषी समुपस्पृशेत् । अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या धारणं

स्पृश्यादनन्तरम् ॥ कनिष्ठया चाङ्गुषेन श्रोत्रे सम्यगुपस्पृशेत् । अङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां तु बाहू सम्यक् स्पृशेत्तः ॥ अङ्गुष्ठाग्रेण नाभिं तु हृदयं तिसृभिस्ततः । सर्वाष्टाग्रेण नाभिं तु हृदयं तिसृभिस्ततः । सर्वाभिस्तु शिरः पश्चादेवमाचमनं चरेत् ॥ तदोङ्करेणाचमनं यद्वा व्याहृतिभिर्भविता सावित्र्या वाऽपि कर्तव्यं यद्वा कार्यममन्त्रकम् इति ॥ तीर्थे त्रिशतुर्वा पीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य ओष्ठौ सङ्घोच्य अङ्गुष्ठ मूलेन द्विः परिमृज्य संहताङ्गुलिभिरास्यं सलोम प्रदेशे स्पृश्वा ध्राणादीनीन्द्रियाणि स्पृशेत् । सर्वत्र मध्ये मध्ये उपस्पृशेत् । अशक्तौ त्रिः पीत्वा मुखं प्रमृज्य खानि स्पृशेत् । अत्यन्ताशक्तौ पीत्वा श्रोत्रं स्पृशेत् इति ॥ अत्र यथास्वशाखं व्यवस्था ॥ येषां तु स्वशाखायामङ्गोपस्पर्शनमनाम्नातम्, तेषां विकल्पः । यत्रपुनः कतिपयाङ्गस्पर्शनमुक्ताम्, तत्रागिरुद्धवचनान्तरानु-सारादङ्गान्तरोप स्पर्शन मस्तीति स्मृतिचन्द्रिकादौ व्यवस्थापितम् ॥

चेळाणकारः- कालं ईककैला अलम्पी, कण्णालं पारंककप्पट्ट ज्ञलत्तेत रुन्नु तटवेव परुकवेण्णुम्. उग्रन्तु मुमुक्षुमावृत्तौ अन्त ज्ञलम् मारंपैप अटेन्तन्तालं कुत्तन्तेकक्षं चेय्किरतु. उत्तुकैला रुष्टिक्केकाण्णु, बेपरुवीरलं अष्टियालं इराण्णु तटवेव तुटेक्कवेण्णुम्. चेर्नन्तुतौ वीरलंकौलं वायेयत्तेता॒टवेण्णुम्. बेपरुवीरलं पवित्रवीरलं इवेवकौलं कण्णकैलायुम्, बेपरुवीरलं तारौं इवेवकौलं रुक्केयुम्, बेपरुवीरलं चिरुवीरलं इवेवकौलं कातुकैलायुम्, बेपरुवीरलं नुवीरलं इवेवकौलं ईककैलायुम्, बेपरुवीरलं नुनीयालं नापीयेयुम्, रुन्नु वीरलंकौलं मारंपैयुम्, एल्ला वीरंकौलालुम् तैलयेयुम् तेता॒टवेण्णुम्. आ॒समन्मिवीतम् चेय्यवेण्णुम्. अन्त आ॒समन्म छुंक्कारत्तिण्णुल, अल्लतु व्याहूं रुतिकौल, अल्लतु कायत्तरीयालं चेय्यप्पटवेण्णुम्. अल्लतु मन्तरमिल्लामलुम् चेय्यप्पटलाम्. ज्ञलाचयत्तिल 3 अल्लतु 4-तटवेव

ஜலத்தைப் பருகி, கைகளை அலம்பி உதடுகளை மடக்கி பெரு விரல்தியால் இரண்டு முறை, துடைத்து, சேர்ந்த விரல்களால் வாயை மயிருள்ள ப்ரதேசத்தில் தொட்டு மூக்கு முதலிய இந்தரியங்களைத் தொடவேண்டும். எல்லாவற்றிலும் நடுவில் நடுவில் ஜலத்தைத் தொடவேண்டும். சக்தியில்லா விடில் மூன்று தடவை பருகி வரையத் துடைத்து இந்தரியங்களைத் தொடவேண்டும். மிகவும் சக்தியில்லாவிடில் ஜலத்தைப் பருகிக்காதைத் தொடவேண்டும். இங்கு அவரவர் சாகையில் சொல்லியபடி வ்யவஸ்தை. எவர்களுக்குத் தம் சாகையில் அங்கங்களைத் தொடுவது சொல்லப் படவில்லையோ அவர்களுக்கு விகல்பம். எந்த சாகையில் சில அங்கங்களை மட்டில் தொடுவது சொல்லப் பட்டிருக்கின்ற தோ அங்கு விரோதம் இல்லாத வேறு வசனங்களை அனுஸரித்து இதர அங்கங்களையும் தொடுவது உண்டு என்று ஸ்ம்ருதி சந்தர்க்க முதலியவைகளில் வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

**जलमध्ये तिष्ठन्त्याचामेदित्याह विष्णुः — जानोरुद्धर्वं जले
तिष्ठन्त्याचान्तः शुचितामियात् । अधस्ताच्छतकृत्वोऽपि समाचान्तो न
शुद्ध्यति इति ॥ न तिष्ठन्त्याचामेत् इत्यतत् स्थलविषयम् ॥ अत एव गौतमः
— न तिष्ठनुज्ञृतोदकेनाचामेत् इति गिशिनष्टि । व्यासः —
नाचामेद्वर्षीदाराभिः न तिष्ठनुज्ञृतोदकैः इति ।**

ஜலத்தின் நடுவில் நின்று கொண்டும் ஆசமனம் செய்யலரம் என்கிறார். விஷ்ணு:- முழங்கால்களுக்கு மேல் உள்ள ஜலத்தில் நின்று கொண்டு ஆசமனம் செய்தாலும் சுத்தனாகிறுன். அதற்குக் கீழுள்ள ஜலத்தில் நின்று நாறு தடவை நன்கு ஆசமனம் செய்தாலும் சுத்தனைவதில்லை. நின்று கொண்டு ஆசமனம் செய்யக்கூடாது என்பது ஸ்தலத்தில் செய்யும் விஷயம். ஆகையினால்தான் கொதுமார்:- நின்றிருப்பவன் எடுத்து ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது என்று விசேஷிக்கின்றார். வ்யாஸரும்:-

मण्डू ज्ञलतंत्रिलं तारेकलालं आचमनम् कूटातु.
नीनंरीरुप्पवनं नाटत्त ज्ञलतंत्रिले आचमनम्
चेय्यक्कूटातु.

स्मृतिरन्नेऽपि — जानुभ्यामध्यमाचम्य जले तिष्ठन्न दुष्यति ।
ताभ्यामधस्तथा तिष्ठन्नाचामेच्च विचक्षणः इति ॥ अध इत्यनेन
जानुमात्रेऽप्यविरुद्धमित्युक्तम्, तथा च स्मृतिचन्द्रिकायाम् —
जानुमात्रे जले तिष्ठन्नासीनः प्राङ्गुखः स्थले । सर्वतः शुचिराचान्तः
तयोस्तु युगपत् स्थित इति ॥ यदा जानुमात्रजले स्थित्वाऽऽचामेत्,
तदा जले क्रियमाणे कर्मण्यधिकृतो भवति । यदा तु स्थल एव आसन
आचामेत्, तदा स्थल एव क्रियमाणे कर्मणि । यदा पुनरुभयरथः,
तदोभयोरपि क्रियमाणेषु कर्मस्वधिकृतो भवतीत्यर्थः ॥ तथा च
पैठीनसिः — अन्तरुदकमाचान्तोऽन्तरेव शुद्धयति । बहिरुदकमाचान्तो
बहिरेव शुद्धयति । तस्मादन्तरेकं बहिरेकं च कृत्वा पादमाचामेत् ।
सर्वतः शुद्धो भवति इति ॥

संमंगुतीरत्तनत्तिलुमः— मुमुक्षुकालंकरुक्कु मेलं
उल्ला ज्ञलतंत्रिलं नीनंरु केकाण्डु आचमनम् चेय्यपवनं
तेहोष्टत्तेत अटेवत्तिल्लै. मुमुक्षुकालंकरुक्कु केमुल्ला
ज्ञलतंत्रिलं नीनंरु केकाण्डु आचमनम् चेय्यक्कूटातु.
मुमुक्षुकालंकरुक्कु केमु एनंरुतिले गुमुक्षुकालं अलव
उल्ला ज्ञलतंत्रिलुम् विरोद्धामिल्लै एनंरु
सेवाल्लियताकिरन्तु. अवंवितमें संमंगुतीकर्त्तिकायिलः—
मुमुक्षुकालालवाला ज्ञलतंत्रिलं नीनंरु आचमनम् चेय्यतालं,
ज्ञलतंत्रिलं चेय्यम् कर्मतंत्रिलं योक्यगुकिरुन्.
संतलतंत्रिलं किमुक्काय उट्कार्नन्तु आचमनम् चेय्यतालं
संतलतंत्रिलं चेय्यक्कूट्य कर्मतंत्रिलं मट्टिलं
अतिकारीयाकिरुन्. ओरो तटवेवयिल इरण्डिलुमिरुन्तु
आचमनम् चेय्यतालं इरण्डिलुम् चेय्यक्कूट्य
कर्मन्कलील अतिकारीयरकिरुनेनंरु बेपारुलं.
अवंवितमें वेपान्तलीः— ज्ञलतंत्रिरुलीरुन्तु आचमनम्

செய்தவன் ஜலத்தில் செய்யக்கூடிய கார்யத்தில் மட்டில் சுத்தனாகிறான். ஜலத்தின் வெளியிலிருந்து ஆசமனம் செய்தவன் வெளியில் செய்யக்கூடிய கார்யத்திலேயே சுத்தனாகிறான். ஆகையால் ஜலத்தினுள் ஒரு காலையும், வெளியிலொருகாலையும் வைத்துக் கொண்டு ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். இரண்டிலும் சுத்தனாகிறான்.

ஶௌநக: - புஷ்கரிண्यां ஹदे வா॥பி ஜாநுदஸே ஜலं பி஬ந् । ஶுஷ்சः
स्याज्ञानुनोऽधस्तादशुद्धस्यान्न संशयः ॥ तत्त्वोयं यः पिबेद्विप्रः कामतो
वाऽप्यकामतः । अकामान्वक्तमोजी स्यादहोरात्रं तु कामतः' इति ॥
भரद்வாஜ: — 'जानोरूर्ध्वमथाचामन् जले तिष्ठन् शुचिभवेत् ।
अधस्ताच्छतकृत्वोऽपि समाचान्तो न शुध्यति । उदके तूदकस्थस्तु
स्थलस्थस्तु स्थले शुचिः । पादौ कृत्वोभयत्रापि ह्याचम्योभयतः शुचिः
इति ।

சௌநகர்:- புஷ்கரிணியிலோ, மடுவிலோ முழங்காலளவுள்ள ஜலத்தில் நின்று ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். அதற்குக் கீழளவுள்ள ஜலத்திலானால் அசுத்தனாவான். ஸம்சயமில்லை. அவ்விதம் ஆசமனம் செய்தவன் அறியாமல் செய்தால் பகல் முழுவதுமுபவாஸமிருந்து ராத்ரியில் புஜிக்க வேண்டும். அறிந்து செய்தால் இரண்டுவேளையிலுமுபவாஸம் செய்யவேண்டும். **பரத்வாஜர்:-** முழங்காலளவுக்கு மேலுள்ள ஜலத்தில் நின்றவனும் ஆசமனம் செய்பவன் சுத்தனாகிறான். அதற்குக் கீழளவுள்ள ஜலத்தில் நின்றவன் நூறுதடவை ஆசமனம் செய்தால் ஜலத்தில் செய்யும் கார்யத்தில் மட்டில் சுத்தனாகிறான். ஜலத்திலொரு பாதத்தையும், ஸ்தலத்திலொரு பாதத்தையும் வைத்துக் கொண்டு ஆசமனம் செய்தால் இரண்டிலும் சுத்தனாகிறான்.

यत्त्वापस्तम्ब आह— नास्यु सतः प्रयमणं विद्यते इति जानोरुद्धर्जले सतः - आसीनस्य प्रयमणं - येन प्रयतो भवति तत्प्रयमणम्, आचमनं नास्तीति तस्यार्थः ॥ तथा च शैनकः - 'जानोरुद्धर्जले तिष्ठन् यदाऽचामेच्छुचिभवेत् । आसीनस्तु शयानो वा शतकृत्वो न शुद्ध्यति इति ॥ स्मृत्यर्थसारैऽपि - जानुमात्रे जले तिष्ठन्नाचामन्नहि दुष्यति । उपविश्य समाचामे जानुमात्रादधोजले ॥ जलाचान्तो जले शुद्ध्येत् बहिराचमने बहिः । बहिरन्तस्थ आचामेत् सर्वत्र शुचिरेव सः ॥ जलस्थो जलकार्येषु स्थलस्थः स्थलकर्मसु । उभयेषु भयत्रस्थस्त्वाचान्तः शुचिताभियात् ॥ वामं पादं स्थले न्यस्य दक्षिणं तु जले न्यसेत् । वामहस्तेन कं स्पृष्ट्वा ह्याचामेदक्षिणे न तु इति ।

'जलत्तिलिरुप्पवनुक्कु आचमनं वित्तियिल्लै' एन्ऱु अुपस्तम्पाः - चेऊलवियुंगारे एन्नील, 'मुमुक्षुकालुक्कु मेलुंगा जलत्तिल उट्कार्न्तिलिरुप्पवनुक्कु आचमनम् वित्तिकप्पबुवत्तिल्लै' एन्ऱु अन्त ले लत्तरत्तिनारत्तमाम्. अव्वित में चेऊंगाकारः - मुमुक्षुकालुक्कु मेलुंगा जलत्तिल निंनरवनुय आचमनम् चेय्ताल सत्तत्तुकिरुं. अव्वित मीन्नी उट्कार्न्तवनुक्कुवतु, प्रत्तत्तवनुक्कुवतु नूरु तटवे आचमनम् चेय्तालुम् सत्तत्तुवत्तिल्लै.

संमरुत्यारत्तलारत्तिलः - मुमुक्षुकालूंगा जलत्तिल निंनरुक्कु आचमनम् चेय्पवन तेऽप्पमटवत्तिल्लै. मुमुक्षुकालुक्कु क्किमुंगा जलत्तिलाग्नेल उट्कार्न्तु आचमनम् चेय्य वेणुंगम्. जलत्तिल मट्टिलिरुन्तु आचमनम् चेय्ताल जलत्तिलुंगा कार्यंकील मट्टिलुम् सत्तत्तुकिरुं. संतलत्तिल मट्टिलाग्नेल संतलत्तिलुंगा कार्यंकील सत्तत्तुकिरुं. इरण्डिलुम् सत्तत्तुकिरुं. इटतु कालै संतलत्तिलुम्, ववतु कालै जलत्तिलुम् ववत्तुक्केकाण्डु,

இடதுகையால் ஜலத்தைத் தொட்டுக் கொண்டு வலது கையிலோராசமனம் செய்ய வேண்டும்.

अत्र हारीतः – आर्द्विवासा जले कुर्यात्तिर्पणाचमनं जपम् ।
 शुष्कवासाः स्थले कुर्यात्तिर्पणाचमनं जपम् ॥ आर्द्विवासाः स्थलस्थस्तु
 यद्याचामेन्नराधमः । वस्त्रनिक्षयोतनं तस्य प्रेतास्तस्य पिबन्ति हि ॥
 शुष्केणान्तर्जले चैव बहिरप्याद्विवाससा । स्नानं दानं जपो होमः सर्वं भवति
 निष्फलम् इति । संवर्तीऽपि – यज्ञले शुष्कवस्त्रेण स्थले चैवाद्विवाससा ।
 सर्वं तद्राक्षसं विद्याद्वहिर्जनुच यत्कृतम् इति ।

இங்கு ஹார்தர்: - ஈர வஸ்தரத்துடனிருப்பவன், தர்ப்பணம், ஆசமனம், ஜபம் இவைகளை ஜலத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். உலர்ந்த வஸ்தரத்துடனிருப்பவன், தர்ப்பணம், ஆசமனம், ஜபம் இவைகளை ஸ்தலத்தில் செய்ய வேண்டும். ஈரவஸ்தரத்துடனிருப்பவன் ஸ்தலத்திலிருந்து ஆசமனம் செய்தால், அவனின் வஸ்தர ஜலத்தை ப்ரேதர்கள் அருந்துகின்றனர். உலர்ந்த வஸ்தரத்துடனிருப்பவன் ஜலத்தின் நடுவிலும், ஈர வஸ்தரத்துடனிருப்பவன் ஜலத்திற்கு வெளியிலும் இருந்து செய்யும் ஸ்நானம், தானம், ஜபம், ஹோமம் எல்லா பலனற்றதாகின்றன. **ஸம்வர்த்தரும்:** - உலர்ந்த வஸ்தரத்துடன் ஜலத்திலும் ஈர வஸ்தரத்துடன் ஸ்தலத்திலும், முழங்கால்களுக்கு வெளியில் கைகளை வைத்துக் கொண்டும், செய்த கார்யம் முழுவதும் ராக்ஷஸமென அறியத்தக்கதாம். ‘‘�ர வஸ்தரத்துடன் ஸ்நானகாலமின்றி மற்றக்காலத்தில் ஸ்தலத்தில் செய்யவே கூடாது. உலர்ந்த வஸ்தரத்துடன் முழங்காலுக்குக் கீழுள்ள ஜலத்தில் நின்று கொண்டு செய்யக்கூடாது’’ என்பது பொருள். அவ்விதம் ஸ்மருத்யர்த்தஸாரத்தில்: - உலர்ந்த வஸ்தரத்துடன் ஜலத்திலும், ஈர வஸ்தரத்துடன் ஸ்தலத்திலும் இருந்து ஆசமனதி க்ரியைகளைச் செய்யக்கூடாது. முழங்காலுக்குக் கீழுள்ள ஜலத்திலிருந்து

ऋगुकालुम् चेय्यक्षेत्रात्। विष्णुवुम्:- उलर्न्त वलंतरत्तुटनीरुप्पवनं मुमुक्षालुक्कु मेलुंला ज्ञलत्तिलं नीन्ऱुकेाण्डु लन्त्तय, आचमनम् इवेवकैसं चेय्तालं ऋगुकालुम् तेऽवृत्तते यतेवतिलैल.

स्मृतिरद्देश्य- ब्राह्मसानेच सूर्यार्थ्येजलोत्सर्जन तर्पणे। जलेष्टिहोमे शुष्केण जले कुर्वन्न दुष्यति इति। यन्तु संवर्तवचनम् – जलं स्थलस्थो नाचामेज्जलाचान्तो जले शुचिः। बहिरन्तस्थ आचामेदेवं शुद्धिमवाप्यात् इति। यदपि पराश्रवचनम् – अवधूनोति यः केशान् स्नात्वा प्रसवते द्विजः। आचामेद्वा जलस्थोऽपि स बाह्यः पितृदैवतैः इति, प्रसवते = आद्विश्वो मलमूत्रे विसृजति। बाह्यः - पैतृकं दैवकं चानुष्ठातुमनर्ह इत्यर्थः। यदपि व्यासवचनम् – सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी वाऽचमेद्वृथः इति, तत्सर्वं स्नानोत्तरकालाचमनविषयम्॥ यदाहदक्षः – स्नात्वाऽचामेद्वदा विप्रः पादौ कृत्वा जले स्थले। उभयोरप्यसौ शुद्धः ततः कर्मक्षमो भवेत् इति ॥

संमर्त्तिरत्तुटनीरुन्तु ज्ञलत्तत्ते आचमनम् चेय्यक्षेत्रात्
 लमर्यारक्षयम्, ज्ञलेलात्तलर्जुनम्, तर्प्पवनम्,, ज्ञलेष्टिदि (अवप्रुतम्) हेहामम् इवेवकैसं उलर्न्त वलंतरत्तुटनीरुन्तु ज्ञलत्तिलं चेय्वतालं तेऽवृत्तिलैल. आनुल, “संतलत्तिलिरुन्तु ज्ञलत्तत्ते आचमनम् चेय्यक्षेत्रात्। ज्ञलत्तिलिरुन्तु आचमनम् चेय्पवनं ज्ञलत्तिलं चेय्यम् कार्यत्तिलं मट्टिलं सत्तत्तगुकिरुन्तु, आकेयालं ज्ञलत्तिलुम्, संतलत्तिलुमिरुन्तु आचमनम् चेय्य वेण्डुम्. इववित्तमाकिलं सत्तत्तिलेययटेकिरुन्तु” एन्ऱु लमवर्त्तत्तवशनमुम्, “संनानम् चेय्तवुटनं एवनं मयिरकैसं उत्तरुकिन्ऱु गेने, सर वलंतरत्तुटनं मल, गुत्तरंकैसं विटुकिन्ऱु गेने, ज्ञलत्तिलिरुन्तु आचमनम् चेय्किन्ऱु गेने अवनं, प्रित्तरुक्ककैसायुम्, तेवर्कैसं युमुत्तेचित्तसं चेय्यम् कर्मांकैसं अनुष्टिक्क

அர்ஹனுவதில்லை” என்ற பராசரவசனமும், “பாதரகைஷயுடன் கூடியவனுய், ஜலத்திலிருப்பவனுய், தலைப்பாகையடையனுய் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது” என்ற வ்யாஸ வசனமும் விரோதிக்கின்றனவே எனில், அவையெல்லாம் ஸ்நானத்திற்குப்பிற்காலத்தில் செய்யுமாசமனத்தைப் பற்றியதாம். ஏனெனில், துக்ஷர்:- “ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுது ஸ்நானம் செய்தவுடன் ஆசமனம் செய்கின்றானே அப்பொழுது, பாதங்களை ஜலத்திலும், ஸ்தலத்திலும் வைத்துக்கொண்டு ஆசமனம் செய்யவேண்டும். அதனால் இரண்டிலும் சுத்தங்கிறுன். எல்லாக் கர்மங்களிலும் யோக்யங்கிறுன்” என்பதால்.

பராಶரோऽபி – ஜலே ஸ்஥லஸ்தோ நாசாமேஜலஸ்தஶ ஬ஹஸ்தலே । உமே ஸ்பृஷ்டா ஸமாචாந்த உமயत्र ஶுचி஭வேத் இதி । எதஞ் ஸ்தாத்வா ய ஆர்வங்க: , தட்சிஷயமிதி மா஧வீயே ॥ வ்யாஸ: – குஙை: பூத் ஭வேத் ஸ்நான் குஙேநோபஸ்பृஷேத் திரிஜ: । குஙேந சோஷ்டாந் தோய் ஸோமபானே ந ஸமிதம் இதி । மாரதாஜ: – பக்ஷ்சூத: குங்கரோ திரிஜ: ஶுचிருபஸ்பृஷேத் இதி ।

பராசரரும்:- “ஸ்தலத்திலிருந்து ஜலத்திலாசமனம் செய்யக் கூடாது, ஜலத்திலிருந்து வெளியான ஸ்தலத்திலாசமனம் செய்யக்கூடாது. இரண்டையும் ஸ்பர்சித்துக் கொண்டு ஆசமனம் செய்தவன் இரண்டிலும் சுத்தங்கிறுன்” என்பதாலும். இதுவும் ‘எவன் ஸ்நானம் செய்து, ஈர வஸ்தரத்துடனிருக்கின்றானே அவனைப் பற்றியது’ என்று மாதவீயத்திலுள்ளது. வ்யாஸர்:- குசங்களுடன் செய்யும் ஸ்நானம் சுத்தமாயாகிறது. பராம்ஹணன் குசத்துடன் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். குசத்தினுலெலுக்கப்பட்ட ஜலத்தைப் பருகுவது லோமபானத்திற்குச் சமமாகும். பாரத்வாஜர்:- பராம்ஹணன் குடுமியைக் கட்டி, குசத்தைக் கையிலுடையவனுய், சுத்தங்ய ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.

कुशप्रशंसा ।

कुशप्रशंसामाह गोभिलः – कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये तु केशवः । कुशाग्रे शङ्करं विद्यात् सर्वे देवाः समन्ततः इति । हारीतोऽपि – कुशहस्तेन यज्ज्ञासं दानं चैव कुशैस्सह । कुशहस्तस्तु यो भुङ्गे तस्य सङ्ख्यान विद्यते । कुशमालां तु यः कण्ठे समावहति सर्वदा । लिप्यते न स पापेन पञ्चपत्रमिवाभ्यसा ॥ करे कण्ठे शिखायां च कण्ठयोरुभयोरपि । पवित्रधारको यश्च न स पापेन लिप्यते ॥ जपहोमहरा ये ते असुराव्यक्तरूपिणः । पवित्रकृतहस्तस्य विद्रवन्ति दिशो दश इति ॥

कुशक्तिन्निं बेपरुषमे

कुशक्तिन्निं बेपरुषमययेष्वं शेषाल्लुकिरुर्केओपिलाः- कुशक्तिन्निं आटियिलं प्ररम्भ्यावुम्, कुशक्तिन्निं मत्त्यत्तिलं केशवानुम्, कुशक्तिन्निं नुणीयिलं संकरानुम्, कुशक्तिन्निं नाणंकुपूर्वकलीलुम्बलकल तेवर्काणुमिरुक्किरुर्क बेळांरर्नियवुम्. ल्हार्त्तारुमः- कुशक्तत्तेत्त ल्हास्तत्तिलं तरीक्तत्तुक्षं चेष्यत्त ज्ञपम्, ताऩम्, पेपाज्ञनम् इवेवकलीन्पुण्यत्तिर्नक्तक्कनक्किल्लै. एवन्कमुत्तिलं कुशमालैये एप्पेपामुत्तुम् तरीक्किल्लै, अवन्क तामररयिलं ज्ञलत्तत्तुटन्क्क चेरोत्तत्तु पेपालं पापत्तत्तेत्ताणु क्केरमाट्टाणं. तेक, कमुत्तत्तु, कुटुमि, इरुकात्तुकल्लै इवेवकलीलं पवित्तरत्तत्तत्तत्त तरीक्तिरुप्पवनुम् पापत्तत्तुटन्क्क लम्पन्त्तप्पवुक्किल्लै. ज्ञपम्, ल्होमामम् इवेवकलीन्अपल्हरीप्पवरुम् कन्नन्नुक्कुप्पुलप्पत्तात्त उरुवमुत्तेय वरुमाण अस्त्तरार्कबेळावरो, अवर्ककल्लै पवित्तरत्तत्तत्तत्तक्करायिलं तरीक्तत्तुक्कन्नवावैक्कक्क कन्नु पत्तत्तत्तिक्कुक्कलीलुम् छुटुक्किल्लै.

गोभिलः – वज्रो यथा सुरेन्द्रस्य शूलं हस्ते हरस्य च । चक्रायुधं यथा विष्णोरेवं विप्रकरे कुशः ॥ भूतप्रेतपिशाचाश्च येचान्ये ब्रह्मराक्षसाः । विप्राङ्गुलिकुशान् दृष्ट्वा दूरं गच्छन्त्यधोमुखाः इति । मार्कण्डेयः –

குஶபாடிஸ்ஸदा திஷ்டேத् ஬्रாஹ்ணோ டம்஬வர்ஜிதः । ஸ நித्यं ஹந்த பாபானि
தூலராசிமிவானலः இதி ॥ கௌஶிகः - குஶாஸனं பரं பூதं யதீனாந் து
விஶேஷதः । குஶாஸனோபவிஷஸ்ய ஸி஧்யதே யோग உத்தமः ॥ யथா புஷ்கரபர்ணே
அபாந் லேபோ ந வி஦்யதே । எவ் பவித்ரஹஸ்தஸ்ய பாபலேபோ ந வி஦்யதே ॥
அபவித்ரகரः கஶ்சித् ஬்ராஹ்ணோ ய உபஸ்பृஶேத् । அபூதं தஸ்ய தத்ஸ்வ
மஹத்யாचமனं தथா இதி ॥

கோபிலர்:- இந்தரனின் கையில் வஜ்ரம் போலவும்,
பரமேச்வரனின் கையில் சூலம் போலவும், விஷ்ணுவின்
கையில் சக்ராயுதம் போலவும், ப்ராம்ஹணனின் கையில்
குசமுள்ளது. பூதங்கள், ப்ரேதங்கள், பிசாசங்கள்
ப்ரம் ஹராக்ஷஸர்கள் என்ற எல்லோரும் ப்ராம்ஹணன்
கைவிரவிலுள்ள குசங்களைப் பார்த்தால்
தலைகுனிந்தவர்களாய்த் தூரத்தில் செல்லுகின்றனர்.
மார்க்கண்டேயர்:- ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும்
குசபாணியாய் டம்பமில்லாமலிருக்கவேண்டும்.
அவ்விதமிருப்பவன், நித்யமுடி கன் பாபங்களை,
பஞ்சக்குவியலை அக்னிபோல் பொசக்குகிறுன்.
கெளசிகார்:- குசத்தால் செய்த ஆஸனம் மிகச்சுத்தமாகியது.
ஸன்யாஸிகளுக்கு விசேஷமாய்ச் சிறந்தது.
குசாஸனத்திலுட்காருபவனுக்குச் சிறந்த யோகம்
லித்திக்கின்றது.. தாமரை இலைகளில் ஜலத்தின் பற்று
எப்படி இல்லையோ, இவ்விதம் குசபவித்ரத்தைக்
கையிலுடையவனிடம் பாபத்தின் பற்று இருப்பதில்லை.
எந்த ப்ராம்ஹணன் பவித்ரத்தைக் கையில் தரியாமல்
ஆசமனம் செய்கின்றாலே, அவனின் கார்யம் முழுவதும்,
ஆசமனமும் அசுத்தமாகின்றது.

வ்யாஸः - அஜ்ஞாநாமிகாभ்யாந் து திவந் பைதாமஹ் ஶிரः । ரூட்ரேந் து
ததः காலாத् ஸமாரம்ய கரோத்துசிஃ ॥ பாவநார்஥ ததோ ஹஸ்தே
குஶகாஶ்வந஧ாரணம் இதி । ஶாதாதபः - ஜபே ஹோமே தथா ஦ானே ஸ்வாத்யாயே

पितृतपेण । अन्यूनं तु करं कुर्यात् सुवर्ण रजतैः कुशैः ॥ कौशेयं बिभूयान्नित्यं पवित्रं दक्षिणे करे । भुज्ञानस्तु विशेषेण नानदोषेण लिप्यते इति ॥ अत्रिः - उभाभ्यामेव पाणिभ्यां निष्पैर्दर्भपवित्रके । धारणीयं प्रयत्नेन ब्रह्मग्रन्थिसमन्विते ॥ यज्ञोपवीते मौड्यां च तथा कुशपवित्रके । ब्रह्मग्रन्थिं विजानीयादन्त्र तु यथारुचि ॥ ब्रह्मयज्ञे जपे चैव ब्रह्मग्रन्थिर्विधीयते । भोजने वर्तुलः प्रोक्त एवं धर्मो न हीयते इति ॥

वंयासरः:- गुरुतरं प्रमँ ख्रै तेवणीन् तालैयेप बेगुविरलं पवित्रविरलं इवेवकणालं चेतित्तारः. अक्कालम् मृतलं कै अस्तत्तमाक्षियतु. आकेयालं, सत्तमाक्कुवत्तर्काककं कैयिलं कुशम् इवेवकणात् तरीप्पतु वित्तिकप्पट्टुलातु.

सात्तात्पारः:- ज्ञपाम्, खेऋामम्, ताणमम्, अत्ययनम, प्रित्तरुतरप्पणम् इवेवकॄं चेय्युम्पेपामुतु, बेपाण, वेलौली, कुशम् इवेवकणुटनं चेर्न्तत्तायत्तं तनं कैयेचं चेय्तु केकाळौ वेण्णुम्. केळौ चेयत्तत्तालाक्षिय पवित्रत्तते नित्यमुम् वलतुकैयिलं तरीक्कवेण्णुम्. पोज्जनम् चेय्पवनं अवक्षयम् तरीक्कवेण्णुम्. अवनं तेऽष्टत्तुटनं पर्न्त्रुवतिलैल. (केळौ चेयम् - पट्टुनूरालं)

अत्तरीः- प्ररामँ ख्रैणर्कॄं, प्ररूमकरन्त्तियुटनं कृष्य तरप्पपवित्रन्कणाइरण्णु कैककौलुम् प्ररयत्तनत्तुटनं तरीक्क वेण्णुम्. घुण्णालिलुम्, मेणांज्जीयिलुम्, कुशपवित्रत्तिलुम् प्ररमँ ख्रैकरन्त्तियेये चेय्य वेण्णुम्. मर्न्त्रवेवकौं तनं इस्कैप्पटि करन्त्तियेय चेय्यलाम्. प्ररमँ ख्रै यक्कुत्तिलुम् ज्ञपत्तिलुम् प्ररमँ ख्रैकरन्त्तियेय वित्तिकप्पटुकिरतु. पोज्जन कालत्तिलं वर्त्ततुलामायूलां पवित्रम् वित्तिकप्पटुकिरतु. इवंवितम् चेय्पवनुक्कुप्पुल्यम् कुरैवतिलैल.

अत्राङ्गुलिनियमो दर्शितश्चन्द्रिकायाम् - धार्योऽनामिकया दर्भो ज्येष्ठानामिकयाऽपि वा । उभाभ्यामनामिकाभ्यां तु धार्य दर्भपवित्रकम्

இதி ॥ ஸ்வஂತ: - உமா஭்யாமபி ஹஸ்தாभ்யாஂ பவித்ர ஧ாரயேதிஜः । ஦ைவ கர்மणி பித்ரே ச ஬்ரஹ்மநிதிஸமநிதிதம् ॥ அங்கு து ஬்ரஹ்மேவத்யங்கு உஞ்சதே । ரஜ்ஜுரீஶானதேவத்யாதநாமிகாயாஂ து யோஜயேத் இதி ॥ அதிஃ - உமா஭்யாமேவ ஹஸ்தாभ்யாஂ விப்ரைர்மபவித்ரகே । ஬்ரஹ்மநிதிஸமாயுக்தே பவித்ரே மத்ய பர்வணி । பாணி஭்யாஂ ஸர்வா ஧ார்யோ கர்மகாலே விஶேஷதः । பிரதம் லக்ஷ்யேத் பர்வ ஦ித்தியங் து ந லக்ஷ்யேத் ॥ ஦்ரயோஸ்து பர்வனோம்பித்ரே பவித்ர ஧ாரயேதூ஧ः । அங்க பர்வீஸ்ததோ ர்மஸ்தபோவுதிகரோ ஹிஸः ॥ மத்யே சைவ ப்ரஜாகாமோ மூலே ஸர்வார்஥ஸாதகः இதி ॥ எத்தக காம்யவிஷயம् ॥

இங்கு விரல்களின் நியமம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுந்தரிகையில்:- பவித்ரவிரலால் தர்ப்பத்தைத் தரிக்க வேண்டும். அல்லது நடுவிரலால் தரிக்கலாம். அல்லது இரண்டு பவித்ரவிரல்களாலும். இரண்டு தர்ப்ப பவித்ரங்களைத் தரிக்கலாம். ஸம்வர்த்தர்:- தேவகர்மத்திலும், பித்ரு கர்மத்திலும், ப்ரம்ஹங்கரந்தியுள்ள பவித்ரத்தை இரண்டு கைகளாலும் தரிக்க வேண்டும். பவித்ரத்தின் நுனிக்கு ப்ரம்ஹாவும், முடிச்சுக்கு விஷ்ணுவும், அடிப்பாகத்திற்கு ஈசானனும் தேவதைகளாம். பவித்ரவிரலில் தரிக்க வேண்டும். அத்ரி:- ப்ரராம்ஹணர்கள், ப்ரம்ஹங்கரந்தியுடன் கூடிய தர்ப்ப பவித்ரங்களை இரண்டு கைகளாலும் சுத்தமான நடுரேகையில் எப்பொழுதும் தரிக்க வேண்டும். கர்மானுஷ்டான காலத்தில் அவச்யம் தரிக்க வேண்டும். முதல் ரேகையைத் தாண்ட வேண்டும். இரண்டாவது ரேகையைத் தாண்டக்கூடாது. இரண்டு ரேகைகளில் நடுவில் பவித்ரத்தைக் தரிக்க வேண்டும். “நுனி ரேகையில் தரித்த தர்ப்பம் தபஸ்ஸை விருத்தி செய்வதாகும். ப்ரஜையை விரும்பியவன் நடுரேகையில் தரிக்கலாம். அடிரேகையில் தரித்த தர்ப்பம் ஸர்வார்த்தங்களையும் ஸாதிக்கக் கூடியது.” இந்த வசனம் காம்யகர்ம விஷயம்.

वर्णभेदेन पर्वनियममाह स एव – अज्ञुलीमूलदेशे तु पवित्रं धारयेद्विजः । राजां द्विपवके चैव विशामग्रे करस्य च इति । स्मृतिभास्करे – सप्तभिर्दर्भपुञ्जीलैः ब्राह्मणस्य पवित्रकम् । पञ्चभिः क्षत्रियस्यैव चतुर्भिर्श्च तथा विशः ॥ १ उभाभ्यामेव शूद्रस्य ह्यान्तराणां तथैव च इति ॥ आन्तराणां - अनुलोमानाम् ॥ स्मृत्यर्थसारे – सर्वेषां वा भवेदद्वाभ्यां पवित्रं ग्रथितं तथा । सप्तपत्राः कुशाः शस्ता दैवे पित्र्ये च कर्मणि । अन्ततस्तरुणौ साग्रौ प्रादेशो तु पवित्रके इति ॥ काम्यपवित्रमुक्तं तत्रैव – त्रिभिर्दर्भैश्चान्तिकर्म पञ्चभिः पौष्टिकं तथा । चतुर्भिर्श्चाभिचाराख्यां कुर्यात्तत्र पवित्रकम् इति ॥ मार्कण्डेयस्तु नित्यपवित्रं प्रकारान्तरेणाह – चतुर्भिर्दर्भपुञ्जीलैब्रह्मणस्य पवित्रकम् । एकैकन्यूनमुदिष्टं वर्णतस्तु यथाक्रमम् इति ॥

वर्णांपेतत्तत्त्वे अनुलित्तित्तु रेकेकालीनं नियमतत्तेत्तसं चेऽल्लुकिन्त्तुर्व, अत्तरि - विरलिनं अष्टप्रतेतत्तेत्तिल, पवित्रतत्तत्तत्ते प्राम्लूण्णनं तरीक्क वेण्णुम, क्षत्तरीयर्कणुक्कु इरण्णटावतु पर्वत्तिलुम, वेच्यर्कणुक्कुक्क षेयिनं नुनीयिलुम तरीप्पतत्तर्कु वित्ति. लंमंरुत्तिपाल्लकरत्तत्तिलः - एमुतर्पन्कलालं प्राम्लूण्णनुक्कुम, ज्ञन्तु तर्पपन्कलालं क्षत्तरीयनुक्कुम, नाऩ्णुक्क तर्पपन्कलालं वेच्यनुक्कुम, इरण्णु तर्पपन्कलालं कुत्तरार्कणुक्कुम, आन्तरार्कणुम (अनुलोमार्कणुक्कुम) पवित्रम वित्तिक्कप्पत्तु किरत्तु. लंमंरुत्तयर्त्तत्तलारत्तत्तिलः - अल्लतु ऎल्लावर्णत्तत्तारुक्कुमे इरण्णु तर्पपन्कलालं चेय्यप्पत्तपत्त पवित्रम वित्तिक्कप्पत्तु किरत्तु. तेवकार्यतत्तिलुम, पित्तरुकार्यतत्तिलुम, एमुकुचन्कलालं पवित्रम चलाक्यमाकुम. नुनीयिल इलामेयुलंतायुम, नुनीयुटनं कृष्यतायुम छट्टतेयलवुलंतायुमला इरण्णु तर्पपन्कलं पवित्रन्कला कुम. (इतु उत्पवन पवित्र विषयमेणत्त तेरीकिरत्तु) काम्य कर्मन्कलीलुलंला

பவித்ரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஸ்மிருத்யர்த்த ஸாரத்திலேயே:- சாந்தி கர்மத்தில் மூன்று தர்ப்பங்களாலும், பெள்ளிக் கர்மங்களில் ஐந்து தர்ப்பங்களாலும், அபிசார கர்மங்களில் நான்கு தர்ப்பங்களாலும் பவித்ரம் செய்ய வேண்டும். மார்க்கண்டேயரோவெனில் நித்ய பவித்ரத்தை வேறு ப்ரகாரத்தால் சொல்லுகிறோர்:- ப்ராம்ஹணனுக்கு நாலு தர்ப்பங்களால் பவித்ரம் விதிக்கப்படுகிறது. மற்ற மூன்று வர்ணங்களுக்கும் முறையே ஒவ்வொன்று குறைந்துள்ள தர்ப்பங்களால் பவித்ரம் விதிக்கப்படுகிறது.

शूद्रस्य ग्रन्थियुक्तपवित्रं निषेधति यमः - कुतूहलेन वा शूद्रः पवित्रं
धारयेद्यदि। स तप्यते महाघोरैः सुचिरं नरकाग्निभिः ॥ तस्मात् पवित्रं
सततं द्विजैर्वेदपरायणैः । कर्मनुष्ठाननिरतैर्धर्यां नेतरजातिभिः इति ।
कात्यायनः - सप्त दर्भाः शुभा धार्यास्तिलक्षेत्रसमुद्भवाः । ते प्रशस्ता
द्विजातीनां दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ अप्रसूताः स्मृता दर्भाः प्रसूतास्तु
कुशाः स्मृताः । समूलाः कुतपाः प्रोक्ताः छिन्नाग्रास्तृणसंज्ञिताः ॥
अच्छिन्नाग्रा ह्यशुष्काग्रा ह्यस्वाश्रौव प्रमाणतः । कुवपा इति विज्ञेयास्तैस्तु
श्राद्धं समाचरेत् ॥ छिन्नमूला ग्रहीतव्याः प्रस्तरार्थं कुशोत्तमाः । अग्निकार्ये च यागे च समूलान् परिवर्जयेत् ॥ हरिता
यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञिकाः । समूलाः पितृदेवत्याः कलभाषा
वैश्वदेविकाः इति ॥ पितृदेवत्याः - पित्र्याः ॥

சூத்ரனுக்கு முடியுள்ள பவித்ரத்தை நினேஷ்துக் கின்றார், யமன்:- சூத்ரன் (முடியுள்ள) பவித்ரத்தை ஆவலாலாவது தரிப்பானாகில், அவன் மிகப்பயங்கரமான நகரநெருப்புகளினால் வெகுகாலம் தாபத்தையடைவான். ஆகையால் வேதங்கள் ஒதுக்கின்றவரும், கர்மடர்களுமான மூன்று வர்ணத்தார்களே முடியுள்ள பவித்ரத்தைத் தரிக்கலாம். மற்ற ஜாதீயர்கள் (சூத்ரர்கள்) தரிக்கக் கூடாது.

का॒थ्या॒यन॑रः - ए॒लं॒वी॒जौ॒यु॒म् व॒यवी॒लु॒ण्टा॒क्षि॒य स॒पमा॒न
ए॒मु॒तर्प॒प्पन॑क्षि॒आ॒त् त॒री॒क्क व॒ेव॑न्तु॒म्. प्र॒रा॒म्ल॒ण्न॑र्क्षु॒क्कु॒त्
तै॒वकर्म॒मत् त॒त्ति॒लु॒म्, प्रि॒त्तरु॒कर्म॒मत् त॒त्ति॒लु॒म् अ॒वै॒कै॒लो॒
शि॒रन्तै॒वै॒कौ॒कु॒म्, प्र॒विल॒ला॒तै॒वै॒कौ॒तर्प॒प्पन॑क्षि॒ल॒ै॒न॑प
प॒टु॒म्. प्र॒वै॒ल॒ला॒तै॒वै॒कौ॒तर्प॒प्पन॑क्षि॒ल॒ै॒न॑प्प॒टु॒म्. व॒ेरु॒त॒न॑
कू॒ट्य॒वै॒ कु॒तप॒न॑कौ॒म्. नु॒नी॒यि॒ल॒ला॒तै॒वै॒
त॒रु॒ण॑न॒कौ॒म्. नु॒नी॒व॒ेट्टप॒प्ता॒म॒लु॒म् उ॒लरा॒म॒लु॒म्.
कु॒ट्टै॒य॒यु॒म्, उ॒ल॒ला॒वै॒ कु॒तप॒न॑कै॒ल॒ै॒न॑प्प॒टु॒म्.
अ॒वै॒कौ॒ल॒ै॒ये॒ च॒रा॒त्तम॑ च॒स्य॒ व॒ेण॑न्तु॒म्. नु॒नी॒व॒ेट्टप॒प्त॒तु॒म्. व॒ेरी॒ल॒ला॒तै॒तु॒म्, अ॒म॒क्षि॒यतु॒मा॒न
त॒र्प॒प्न॑कै॒, प्रि॒त्तरु॒का॒र्य॒म्, तेव॒का॒र्य॒म्, ज॒पम॒
इ॒वै॒कौ॒ल॒ै॒उ॒पयो॒क्ति॒क्क व॒ेण॑न्तु॒म्. प्र॒रस्त॒रत्त॒त्ति॒र्का॒कु॒म्
कु॒सं॒कै॒ व॒ेरि॒ इ॒ल॒ला॒तै॒वै॒कौ॒रा॒क क॒र॒ह॒रि॒क्क व॒ेण॑न्तु॒म्.
अ॒क्षि॒नी॒ क॒ार्य॒म्, या॒कम॒ इ॒वै॒कौ॒ल॒ै॒ व॒ेरु॒त॒न॑
कू॒ट्य॒वै॒कै॒ व॒र॒ज्जि॒क्क व॒ेण॑न्तु॒म्. प॒च॒स॒न॒र॒म॒ूल॑ल॒ै॒वै॒
या॒क॒ार॒र॒ह॒न॑कौ॒. म॒ञ्च॒स॒न॑ नि॒र॒म॒ूल॑ल॒ै॒वै॒
पा॒क्य॒क्कु॒रा॒र॒ह॒न॑कौ॒. व॒ेरु॒त॒न॑ कू॒ट्य॒वै॒
प्रि॒त्तरु॒क॒ार्य॒य॒ोक्य॒न॑कौ॒. प॒लन॒र॒िर॒न॑क॒रु॒ूल॑ल॒ै॒वै॒
वै॒क्ष॒वै॒ते॒ वा॒र॒र॒ह॒न॑कौ॒म्.

तथा च यमः - समूलस्तु भवेद्भर्भः पितृणां श्राद्धकर्मणि । मूलेन
लोकान् जयति कुशस्य स महात्मनः इति । एतदेकोद्दिष्टश्राद्धविषयम् ।
यतः स एवाह - एकोद्दिष्टकुशः कार्याः समूला यज्ञकर्मणि । बहिर्लूनाः
सकृद्गूनाः सर्वत्र पितृकर्मसु इति ॥ बहिर्लूनाः - उपमूलं लूनाः - तथा
च गोभिलः - उपमूलं लूनाः पितृकार्येषु इति ।

यमानः - प्रि॒त्तरु॒क्कै॒नि॒न॑ च॒रा॒त्तत्ति॒ल॒ त॒र्प॒प्पम॒
मूलत्तु॒त्तनि॒रु॒क्क व॒ेण॑न्तु॒म्. कु॒सं॒त्तिनि॒न॑ मूलत्ता॒ल॒ प॒ल
पु॒न्न॑य लोकान॑कै॒ अ॒वै॒न॑त॒कि॒रु॒न॑. इ॒तु॒
ए॒को॒त्ति॒ष्ट॒वी॒ष्ट्य॒म्. ए॒नेनि॒ल॒ या॒मेन॑ म॒ेल॒
व॒रु॒मारु॒ च॒ोल॒लु॒कि॒रु॒रः - 'ए॒को॒त्ति॒ष्ट॒त्ति॒ल॒ कु॒सं॒कै॒
व॒ेरु॒त॒नु॒पयो॒क्ति॒क्क व॒ेण॑न्तु॒म्. या॒कत्ति॒लु॒म्.
प्रि॒त्तरु॒कर्म॒न॑कै॒ल॒ला॒व॒र॒र॒न॑लु॒म् व॒ेव॒नी॒यि॒ल॒

நறுக்கப்பட்டவைகளாயும், ஒரே தடவையாய் நறுக்கப்பட்டவைகளாயுமிருக்க வேண்டும். இங்கு 'வெளியில்' என்பதற்கு வேரின் ஸமீபத்தில் என்று பொருள். அவ்விதமே கோபிலர்:- 'ஸுலத்திற்கு ஸமீபத்தில் நறுக்கப்பட்ட தர்ப்பங்களைப் பித்ருகார்யத்தில் உபயோகிக்க வேண்டும்' என்கிறார்.

चन्द्रिकायाम् – उपमूलं तथा लूनाः श्राद्धार्थं तु कुशाः सृताः ।
तथा इयामाकनीवारौ दूर्वा च समुदाहृता इति ॥ एकोद्दिष्टेतर-
श्राद्धार्थमित्यर्थः ॥ सपिण्डीकरणं यावद्भजुद्भैः पितृक्रिया । सपिण्डी-
करणादूर्ध्वं द्विगुणैर्विधिवद्वैत् ॥ तर्पणादीनि कार्याणि पितृणां यानि
कानि चित् । तानि स्याद्विगुणैर्दैर्घ्यैः पवित्रैर्वा विशेषतः । तिलक्षेत्रोद्भवैर्दैर्घ्यैः
प्रयत्नाद्विगुणी कृतैः । पितृणां तर्पणं कुयद्विवानां तु यदच्छया । पित्र्यं
मूलेन मध्येन स्नानं दानं प्रयत्नतः । दैवं कर्म कुशाग्रेण कर्तव्यं भूतिमिच्छता
इति ॥ यदच्छया तिलक्षेत्रोद्भवत्वादिनियमराहित्येनेत्यर्थः ॥

சந்த்ரிகையில்:- ச்ராத்தத்திற்காகிய சூசங்கள் ஸுலத்திற்குச் சமீபத்தில் நறுக்கப்பட்டவைகளாயிருக்க வேண்டும். ச்யாமாகம், நீவாரம், அறுகு இவைகளும் விதமேயிருக்க வேண்டும். இங்கு 'ச்ராத்தத்திற்கு' என்பதற்கு ஏகோத்திஷ்டம் தவிர மற்ற ச்ராத்தத்திற்கு என்று பொருள். ஸபின்மகரனம் வரையில் செய்யும் பித்ருக்ரியையை ருஜாவான தர்ப்பங்களால் செய்ய வேண்டும். ஸபின்மகரனத்திற்குப் பிறகு விதிப்படி இரண்டாய் மடித்த தர்ப்பங்களால் செய்ய வேண்டும். பவித்ரங்களும்படியே. பித்ருக்களைத் தேசித்துச் செய்யும் எவ்விதமான கார்யங்களும், இரண்டாய் மடிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் பவித்ரங்கள் இவைகளால் செய்யப்பட வேண்டும். எள் வயலின் உண்டாகிய தர்ப்பங்களை இரண்டாய் மடித்து பித்ருக்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். தேவகர்மங்களில் இஷ்டப்படி செய்யலாம். சூசத்தின் அடியினை பித்ருகர்மத்தையும்

न उविन्नेलं संनानम् ताणम् इवेवकौश्यम्, नुनीयि त्रिलं तेवकर्मन्दकौश्यम्, सम्पत्तेत विरुम्पुकिन्नवन्शेष्य वेण्णुम्. इन्कु मुलत्तिलुण्णा यत्तरुच्चया एन्न धत्तिरु, तु तिलकेषुत्तरत्तिलुण्णावतु मुत्तिय नियमन्दकौल्लावीष्टिनुम् एन्न रु बेपारुण्.

शालङ्कायनः - कुशाग्रैस्तपर्येद्वान् मनुष्यान् कुशमध्यतः । द्विगुणीकृत्य मूलाग्रैः पितृन् सन्तपयेद्वद्विजः इति ॥ मनुष्यतर्पणे मध्यस्य प्राजापत्य तीर्थसम्बन्धः ॥ द्विगुणीकृत्य मूलाग्राभ्यां पितृतीर्थगताभ्यामित्यर्थः ॥ स्मृत्यर्थसारे - 'पवित्रकर आचामेच्छुचिः कर्मदिराह्विजः । कुशमात्रकरो वाऽपि दर्भमात्रकरोऽपि वा । तं कुशं विधिवल्लुनं न त्यजेदन्यथा त्यजेत् । अन्ये दर्भस्तु सन्त्याज्यास्त्यजेद्वार्पुरैव तत् इति ॥

शालङ्कायनाः:- कुशन्दकौशिनं नुनीकौलालं तेवर्कौश्यम्, न उप्पत्तियालं मनुष्यरकौश्यम्, इरण्णायं मष्टित्तु अष्टिनुनी इवेवकौलं पित्तरुक्कौश्यम्, प्रराम्भैरण्णां तरप्पिक्क वेण्णुम्. मनुष्य तरप्पणत्तिलं तरप्पणकौशिनं न उवक्कु प्रराजापत्य तिर्त्ततत्तुटानं सम्पन्नतम्. अष्टि नुनी इवेवकौलं चेस्त्तु पित्तरुतिर्त्ततत्तिलं इरुक्क वेण्णुम् एन्पतु बेपारुण्. संम्रुत्यर्त्तत्तौरत्तौरत्तिलः - प्रराम्भैरण्णां सुत्तत्तुयं कर्मत्तिलं आत्रवृट्टानं पवित्रतत्तेतकं कैकयीलुत्तेयवल्लुयं आसमनम् चेष्य वेण्णुम्. कुशत्तेतमट्टिलुम्, अल्लतु तरप्पत्तेतमट्टिलुमावतु तरीक्क वेण्णुम्. अन्ततक्कुसम् वित्तिप्पटि कर्वृक्कप्पट्टताग्नेलं अतेव विटक्कौटातु. इल्लावीष्टिलं विट्टुविट्टवेण्णुम्. मर्हरत्त तरप्पणकौला विट्टुविट्टवेण्णुम्. तुरवेवये (अरुकम्पुल) मुन्तियेविट्टुविट्टवेण्णुम्.

मार्कण्डेयः - सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम् । नोच्छिष्टं तत् पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्टं तु वर्जयेत् इति ॥ एतत् ग्रन्थविहीनदर्भभिप्रायम् । तथा च हारीतः - ग्रन्थिर्यस्य पवित्रस्य न

तेनाचमनं चरेत् इति ॥ शौनकोऽपि - न ब्रह्मग्रन्थिनाऽचामेन् न
दूर्वाभिः कदाचन इति ॥ स्मृतिसारे - ग्रन्थीकृतपवित्रेण न भुजीयान्
चाचमेत् । न पिबेद्यदि कुर्वीत तदा तच्छोणितं भवेत् इति ॥ भारद्वाजः
- ग्रन्थियुक्तपवित्रेण कुर्यादाचमनं यदि । तत् पवित्रं परित्यज्य
पुनराचम्य शुद्ध्यति इति ॥

मार्कंकண्टेयारः:- पवित्रतत्त्वाटनं कृष्टय कैयिऩेल
आचमनाम् चेय्य वेण्णुम्. अन्तप्पवित्रम्
असुत्तमावतिल्लै. आग्नेल पोज्जनाम् चेय्त्तालं अन्तप्प
पवित्रम् उच्चिष्ठामाकुम्. अतेव वर्जीक्कवेण्णुम्.
இவ்விதम् சொல்லியது முடிச்சு இல்லாத தர்ப்பத்தைப்
பற்றியது. அவ்விதமே ஹார்தாரः:- எந்தப் பவித்ரத்திற்கு
முடிச்சு உள்ளதோ அதனेल் ஆசமனाम् சेय्यக்கூடாது.
செளனகருமः:- ப்ரம்ஹகरந்தியுள்ள பவித்ரतत्त्वाटनं
ஆசமனाम् சेय्यக்கூடாது. அறுகுகளுடன் ஒருகாலும்
ஆசமனाम् கூடாது. **ஸ்ம්‍රුතිஸාரத்திலः:-** முடிப்புடனுள்ள
பवित्रतत्त्वाटनं போஜ்ஜனाम् சेय्यக்கூடாது. ஆசமனமும்
கூடாது. ஜலபானமும் கூடாது. செய்தால் அப்பொழுது
அந்த ஜலம் ரக்தத்திற்கு ஸமமாகும். **பரத்வாஜரः:-**
முடிச்சுடன் कृष्टय पवित्रतत्त्वाटनं आசमनाम् चेय्त्तால்
அந்தப் பவித்ரத்தை விட்டுவிட்டு, மறுபடி, ஆசமனाम்
செய்தால் சுத்தனுகிறுன்.

केचित्तु - एतानि वचनानि केवलाचमनविषयाणि । कर्मज्ञाचमने
न दोषः, ‘सपवित्रस्सदर्भो वा कर्मज्ञाचमनं चरेत् । नोच्छिष्टं तत् स
दर्भश्च भुक्त्वोच्छिष्टं तु वर्जयेत् ॥ पवित्रग्रन्थमुत्सृज्य मण्डले
निक्षिपेद्विजः । पात्रे च निक्षिपेद्यस्तु स विप्रः पङ्किदूषकः ॥ मुक्तदर्भैन्
भोक्तव्यं भुक्त्वा देव्याशशतं जपेत् इति स्मरणात् इत्याहुः ॥ कौशिकः
- वामहस्ते स्थिते दर्भे दक्षिणेनाचमेद्यदि । रक्तं तु तद्वेत्तोयं पीत्वा
चान्द्रायणं चरेत् इति । हारीतोऽपि - वामहस्ते कुशान् कृत्वा समाचामति
यो द्विजः । उपस्पृष्टं भवेत्तेन रुधिरेण मलेन च इति ॥

இங்கு சிலரோவெனில் “இந்த வசனங்களைல்லாம் ஸாதாரணமான ஆசமனத்தைப் பற்றியவை. கர்மாங்கமான ஆசமனத்தில் தோஷமில்லை. (ஏனெனில்) ‘‘பவித்ரத்துடனிருப்பவனும், தர்ப்பாங்களுடனிருப்பவனும் கர்மாங்காசமனம் செய்யலாம். அந்தப்பவித்ரமோ, தர்ப்பமோ அசத்தமாவது தில்லை. போஜனம் செய்தால் அவை உச்சிஷ்டமாகின்றன. அவைகளை தவிர்க்க வேண்டும். பவித்ரத்தின் முடிச்சை அவிழ்த்து, போஜனஸ்தலத்திலுள்ள மண்டலத்தில் போடவேண்டும். இதன்றி போஜனபாத்ரத்தில் போட்டால், அந்த ப்ரராம்ஹணன் பங்கதிக்கு அர்ஹனல்லாதவனுகிறுன். தர்ப்பையைத் தரிக்காமல் போஜனம் செய்யக் கூடாது. புஜித்தால் காயத்ரியை நூறுமுறை ஜபிக்க வேண்டும்.’ என்று ஸ்மருதியுள்ளது.’’ என்கின்றனர். கௌசிகரः - இடதுகையில் தர்ப்பை இருக்கும் பொழுது, வலதுகையினால் ஆசமனம் செய்தால், அந்த ஜலம் ரக்தத்திற்குச் சமமாகும். அதைப்பருகினால் சாந்தராயணமனுஷ்டிக்க வேண்டும். ஹார்தரும் : - இடதுகையில் குசங்களை தரித்து எவன் ஆசமனம் செய்கின்றானாலே, அவன் ரக்தத்தாலும், மலத்தாலும் ஆசமனம் செய்தவனுகிறுன்.

व्यासः - गृहीत्वा वामहस्तेन कुशमुष्टिं प्रमादतः । उपस्पृशन्ति ये विप्राः रुधिरेणाचमन्ति ते इति ॥ १८ ॥ नन्दिसूरीः - वामहस्तस्थदर्भो वा हसन् पश्यन् दिशोऽथवा वामपादस्थहस्तो वा नैवाचमनमाचरेत् इति । स्मृतिसारे - वामहस्ते स्थिते दर्भेन पिबेदक्षिणेन तु । वस्त्रादिनोपग्रहणे न दोषः पिबतो भवेत् । इति ॥ एतानि केवलवामहस्तविषयाणि । तथा च गोभिलः - उभयत्र स्थितैर्दर्भैः समाचामति यो द्विजः । सोमपानफलं तस्य भुक्त्वा यज्ञफलं लभेत् इति ।

व्यासालारः - இடதுகையில் குசமுஷ்டியைவத்துக் கொண்டு, அறியாமையால் எந்த ப்ரராஹ்மணர்கள் ஆசமனம் செய்கின்றனரோ, அவர்கள் ரக்தத்தால் ஆசமனம்

செய்கின்றனர். நந்திஸுவாரி:- இடதுகையில் தர்ப்பமுள்ளவனுகவோ, சிரிப்பவனுகவோ, திக்குகளை நோக்குகின்றவனுகவோ, இடதுகாலில் கையை வைத்திருப்பவனுகவோ, ஆசமனம் செய்யவே கூடாது. ஸ்மிருதிஸாரத்தில்:- இடதுகையில் தர்ப்பமிருக்கும் பொழுது வலதுகையினால் ஜலத்தைப் பருகக்கூடாது. வஸ்தரம் முதலியதால் மறைத்துப் பிடித்திருந்தால், ஜலம் பருகுகிறவனுக்குத் தோஷமில்லை. இந்த வசனங்களைல்லாம் இடதுகையில் மட்டும் தர்ப்பம் தரிக்கும் விஷயத்தைப் பற்றியதாம். அவ்விதமே கோபிலர்:- இரண்டு கைகளிலுமுள்ள தர்ப்பங்களுடன், எந்த ப்ராம்ஹணன் ஆசமனம் செய்கின்றாலே அவனுக்கு ஸோமபானபலனுண்டாகும். போஜனம் செய்தானுகில் யாகமனுஷ்டித்த பலத்தையடைகிறுன்.

सारसमुच्चये— दर्भपाणिस्तोयपाने सोमपानफलं लभेत् । सपवित्रेण हस्तेन भुक्त्वा यज्ञफलं लभेत् ॥ अथ वाऽनामिकाभ्यां तु ग्रन्थिहीनं कुशादिकम् । हेमादीन्वाऽथ बिभृयात् सर्वकर्मस्वपि द्विजः ॥ पवित्रं सर्वदुःखघ्नं तथैवानन्ददायकम् । हेमा रूप्येण वा धीमान् पवित्रं धारयेत् सदा' इति ॥ कात्यायनः— तर्जन्या बिभृयाद्वौप्यं स्वर्णं चोपकनिष्ठाया गृहस्थः श्रवणाभ्यां तु श्रुमे रौक्मे च कुण्डले इति ॥ याज्ञवल्क्यः— गोवालं दर्मसूत्रं च रत्नं कनकसंयुतम् । कायेन धारयन्विप्रो न स पापेन लिप्यते इति ॥

ஸாரஸமுச்சயத்தில்:- தர்ப்பங்களைக் கைகளிலுடையவனைய் ஜலத்தைப் பருகினால் ஸோமபானபலத்தையடைகிறுன். பவித்ரத்துடன் கூடிய கையுடன் புஜித்தானுகில் யாகபலத்தையடைகிறுன். அல்லது, இரண்டு பவித்ரவிரல்களாலும் முடிச்சில்லாத குசம் முதலியதையாவது, தங்கம் முதலியவைகளையாவது எல்லாக்கர்மங்களிலும் ப்ராஹ்மணன் தரிக்கலாம். பவித்ரமென்பது ஸகலதுக்கங்களையும் அகற்றுவதாகவும்,

आनन्दतत्त्वेतयलीप्पत्ताकव्यमुलातु. आकेयालं पुक्त्तियुलावनं तन्कत्तिनुलावतु वेलानीयिलावतु चेच्यं पवित्रतत्त्वेत एप्पेपामुतुम् तरीक्क वेण्णुम्. कात्त्यायनारः:- कंगुलूलंतन् आलंकाट्टिवीरलीले लवेलीयायुम् पवित्रवीरलीले लवर्णतत्त्वायुम्, कात्तुकलालं (कलील) अमुक्य लवर्णकुण्टलंकलायुम् तरीक्क वेण्णुम्. याक्कुलवलंक्यारः:- कोवीन्वालंमयीर, तरप्पत्तेपक्कयीरु, रत्तनाम्, तन्कम् इवेवकलीत्त तेकत्तिले तरीत्तुलाला प्रराम्भलाज्ञानं पापत्तेत्तोरु सम्पन्नतिप्पत्तिलै.

स्मृतिरत्ने - कुशं पवित्रं ताम्रं वा रजतं हेमं चैव वा । बिभृयाद्विष्णे पाणौ पवित्रं चोत्तरोत्तरम् ॥ अनामिकाधृतं हेमं तर्जन्या रूप्यमेव च । कनिष्ठिकाधृतं खड्गं तेन पूतो भवेन्नरः इति ॥ हारीतः - न रूप्यं केवलं धार्यं दैवे पित्र्ये च कर्मणि । अनामिकाधृते हेष्टि तर्जन्या धारयेच्च तत् इति ॥

ब्यासोऽपि - हैमेन सर्वदा सर्वं कुर्यादिवाविचारयन् । रूप्यं दक्षप्रदेशिन्या बिभृयात् सर्वदा द्विजः ॥ दक्षानामिकया विप्रो बिभृयात् ग्रन्थिसंयुतम् । अग्रन्थिकं च हैमं तु तथा लोहत्रयोद्भवम् । गायत्र्यक्षर-सङ्घातं गृहीयात्ताम्रमुत्तमम् । अनुष्टुभस्तथा रौप्यं त्रिष्टुभः कनकोत्तमम् ॥ ताम्ररूप्यसुवर्णीर्थाक्रममष्टदशैकादशांश परिमितै-निर्मितमित्यर्थः ॥ एवं लोहत्रयेषैव कृतं रक्षोधनमुत्तमम् । अघङ्गं च पवित्रं स्याद्रक्षाकरमनुत्तमम् ॥ आयुष्करमनाधृष्य ममेदं रोगनाशनम् इति ॥

लंमंग्रुतीरत्तनात्तत्तिलः:- कुचम्, पवित्रम्, ताम्रम्, लेलानी, लेपानं इवेवकलीलेलानं रेव लवतुकेयिलं तरीक्क वेण्णुम्. इवेवकलुं मुन्त्रियतेवीटप्पिन्त्रियतु कुत्तमाक्यियतु. पवित्र वीरलीले लेपानंज्ञायुम्, तर्जुलींवीरलालं लेलीयायुम्, चिरुवीरलालं

கட்கம்ருகத்தின் கொம்பையும் தரித்தால் மனிதன் சுத்தனைகிறான். ஹாரீதர்:- தேவ பித்ரு கார்யங்களில் வெள்ளியைமட்டில் தரிக்கக் கூடாது. பவித்ரவிரலால் ஸ்வர்ணத்தைத் தரித்திருந்தால் தர்ஜூனீவிரலால் வெள்ளியையும் தரிக்கலாம். வ்யாஸரும்:- எப்பொழுதும் தங்கத்தினாலுள்ள பவித்ரத்துடன் எல்லாக் கார்யங்களையும் ஸந்தேஹமின்றிச் செய்யலாம், ப்ராம் ஹணன் வலதுகையின் ஆள்காட்டிவிரலினால் வெள்ளியைத் தரிக்க வேண்டும். வலதுகையின் பவித்ரவிரலினால் முடிச்சு உள்ளது அல்லது முடிச்சு இல்லாத ஸ்வர்ணத்தைத் தரிக்க வேண்டும். அல்லது மூன்று லோஹங்களாலுண்டாகிய தையாவது தரிக்க வேண்டும். காயத்ரியின் அக்ஷரக்கணக்குள்ளதாய் நல்லதாம்ரத்தையும், அனுஷ்டுப்பின் ஸங்க்கையால் வெள்ளியையும், த்ரிஷ்டுப்பின் ஸங்க்கையால் ஸ்வர்ணத்தையும் க்ரஹித்து, அவைகளால் பவித்ரம் செய்து தரிக்கலாம். இவ்விதமான பவித்ரம் ராக்ஷஸர்களை வதைக்கக்கூடியதும், சிறந்ததும் பாபத்தையகற்றுவதும். ரகை செய்வதும், ஆயுஸ்ஸையளிப்பதும், பிறரால் கெடுக்கமுடியாததும், அபேத்யமும், ரோகங்களைப் போக்கக்கூடியதுமாயுள்ளது. 8-மடங்குதாம்ரமும், 12-மடங்கு வெள்ளியும், 11-மடங்கு தங்கமும் சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட பவித்ரம் லோஹத்ரயபவித்ரமாம்.

जीवपितृकस्य जीवज्येष्ठस्य च रूप्याङ्गुलीयक निषेधमाह स
एव- योगपद्मोत्तरीयं च तर्जन्यां रजतं तथा । न जीवपितृकैर्धर्यो ज्येष्ठो
वा विद्यते यदि इति ॥ पादप्रश्फौ विशेषमाह स एव – विप्राणां चरणस्पृष्टं
पादप्रक्षालने यदि । त्यजेत् प्रारब्धकमन्ते पवित्रं दर्भनिर्मितम् इति ॥
भरद्वाजः – कूर्चेन वा पवित्रेण येन कर्माणि कारयेत् । तस्य ग्रन्थं विसुज्जैव
कर्मान्ते तु तत्पीरत्यजेत् ॥ पवित्रकूर्चयोस्त्यागे सग्रन्थ्योस्तु प्रमादतः ।
उपवासं चरेदेकं उपवासनयं तु वा इति ॥ दर्भपवित्रस्य त्यागाभिधानात्
रूप्यादिनिर्मितस्य पवित्रस्य न त्यागः ॥

पीठा ज्ञैवित्तिरुन्तालं पुत्ररनुक्कुम्, ज्ञेयेष्टन्नं
ज्ञैवित्तिरुन्तालं कणीष्टन्नुक्कुम्, वेण्णली मेऽतिरमं
तरीप्पतु निषित्तमेणकिरुर्व्यालोः:- योकपट्टत्तालं
उत्तरीयमुम्, आॅलकाट्टिविरलिल वेण्णली मेऽतिरमुम्,
ज्ञैवित्तरुकनुम्, ज्ञैवेज्ञेष्टन्नुम् तरीक्कक्क कृटातु.
(योकप्पत्टमेण्णपतु पट्टिग्ले चेय्यत्तुम् उत्तरीयमं
पोण्णत्तुमाण ओर्पट्टते इन्किन्नर.) पवित्रमं
कालिल्पट्टालं, अतिलुण्णल विचेष्टत्तेत्तच शेळ्लुकिरुर्व्यालोः-
प्रराह्ममण्णकलीन्कालै अलम्पुम्पेपोतु,
पवित्रमं अवर्कलीन्कालंकलील्पट्टालं, अन्तत्त
तरीप्पवित्रत्तेत्त औरम्पित्तकार्यत्तिन्मुष्टिलिल
विट्टुविट्वेण्णुम्.

प्रत्वाज्ञारः-

कर्मानुष्टाणकालत्तिल तरीत्तिरुन्तकार्ष्चसम्, अलंलतु
पवित्रमं इवेकलैक्क कर्मत्तिन्मुष्टिलिल
मुष्टिक्षेचयविम्त्तेते परिलुरीक्क वेण्णुम्.
कवण्णयिन्मेयालं, पवित्रकर्ष्चसंकलै मुष्टिक्षृत्तन्म
परिलुरीत्ताणुकिल, ओरु वेळैयावतु झुन्ऱु
वेळैयावतु उपवासमिरुक्क वेण्णुमेण्णतालं,
वेण्णली मुतवियतालं चेय्यप्पट्टुली पवित्रत्तिरुक्कप
परित्याकमिल्लैयाम.

गोवालपवित्रं प्रकृत्याह कौशिकः - गवां वालपवित्रेण धार्यमाणेन
नित्यशः । न स्पृशन्ति हि पापानि श्रीश गत्रेषु तिष्ठति ॥ । गवां वालपवित्रेण
वज्ञन्युपास्तिं करोति यः । पञ्चाश्रयो हुतास्तेन यावज्जीवं न संशयः ॥
गवां वालपवित्रेण सन्ध्योपास्तिं करोति यः । स वै द्वादश वर्षाणि
कृतसन्ध्यो भवेत्तरः ॥ गवां वालपवित्रस्य सुवर्णस्य तथैव च । न
ब्रह्मग्रन्थनियमो धारयेत्तु यथातथम् इति ॥

कोवाल पवित्रत्तेतपं पर्नीच शेळ्लुमिट्टिलं
केळाकीकारः- एप्पेपामुतुमु कोवाल पवित्रत्तेतत्त
तरीत्तिरुप्पवजैपं पापबन्ककलं तेताटुवतिल्लै. सारीत्तिलं
लक्ष्मियमिरुप्पाळं. एवण्ण कोवाल पवित्रत्तुत्तन्म

அக்னியை உபாளிக்கின்றானாலே. அவன் ஜீவனுள்ள வரையில் ஜந்து அக்னிகளை உபாளித்தவனுகிறான், ஸம்சயமில்லை. (கார்ஹுபத்யம், ஆஹவனீயம், தக்ஷிணைக்னி, ஸப்யம், ஆவஸத்யம் என்று ஜந்து அக்னிகள்) எவன் கோவால பவித்ரத்துடன் ஸந்த்யையை உபாளிக்கின்றானாலே, அவன் பன்னிரண்டு வருஷம் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்தவனுகிறான். கோவால பவித்ரத்திற்கும், ஸாவர்ண பவித்ரத்திற்கும் ப்ரஹ்மக்ரந்தி வேண்டுமென்ற நியமமில்லை. இஷ்டப்படி தரிக்கலாம்.

பவித்ரனிமாணமுக்தாதை - தர்ஜந்யஜுஷ்யோரங் யோஜித்து யடா மஹேது | ஜானமுदா தயா குர்யாது கூர்ச்வ஦ு ஗்ரந்தி ஬ந்஧னம் இதி || ஸமூதிரதே - அஜுஷ்யஷைதூர்஧்வ தர்ஜந்யா து புனः புனः | ஜானமுடாம஧: குத்வா கூர்ச்வ஦ு ஗்ரந்தி ஬ந்஧னம் இதி || ஆஶலாயன: - ஸாஶாம்யா மூஜுமர்ம்யா ப்ராதக்ஷிணயேந ம஧்யத: | மூலாஶ்ராவுதூதை குத்வா குர்யாது ஗்ரந்திச் ச மந்த்வி஦ு || தாரெண குர்யாத்தா ஗்ரந்திச் பவித்ரஸ்ய திஜோத்தம: | ஗்ரந்திரேகாஜ்ஞால தஸ்ய ததூர்஧்வ சதுரஜ்ஞாலம் இதி ||

பவித்ரம் செய்யும் ப்ரகாரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பாரிஜாதத்தில்:- ஆள்காட்டி விரல், பெருவிரல் இவைகளின் நுனியைச் சேர்த்தால் அது ஜ்ஞானமுத்ரை யெனப்படும். அதனால் பவித்ரம் செய்ய வேண்டும். கூர்ச்சத்திற்குப் போல் முடிச்சை முடியவேண்டும். ஸ்மிருதிரத்னத்தில்:- ஆள்காட்டி விரலோடு பெருவிரலை அடிக்கடி மேலே திரிக்க வேண்டும். ஜ்ஞானமுத்ரையைத் தலை கீழாகச் செய்து கொண்டு கூர்ச்சத்திற்குப் போல் முடிச்சைச் செய்ய வேண்டும். ஆச்சவலாயனர்:- நுனியுடன் கூடியதும் ருஜாவாயுமுள்ள இரண்டு தர்ப்பங்களை ப்ரதக்ஷிணமாய் முறுக்கி நடுவில் பிடித்து அடி நுனி இரண்டையும் சேர்த்து, மந்த்ரமறிந்தவன் முடியுவும் வேண்டும். ப்ராம்ஹனர்கள் பவித்ரத்தின் முடிச்சை ஒங்காரத்தினால் செய்ய வேண்டும். அதன் முடிச்சை ஒரங்குல

அளவும்; அதன் மேல்பாகம் நாலங்குல அளவுமிருக்க வேண்டும்.

स्मृतिभास्करे – चतुरज्ञुलमग्रं च ग्रन्थिरेकाज्ञुला तथा । वलयं
द्वचज्ञुलं चैव पवित्रस्य तु लक्षणम् इति । उत्पवनादौ पवित्रमाह
कात्यायनः – अनन्तगर्भितं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । प्रादेशमात्रं विज्ञेयं
पवित्रं यत्र कुत्रचित् इति । सूत्रकारोऽपि – समावप्रच्छिन्नाग्रौ दर्भौ
प्रादेशमात्रौ पवित्रे करुते इति ॥

ஸ்ரூதிபாஸ்கரத்தில்:- நுனி நாலங்குலம், முடிச்சு
ஒரு அங்குலம், வளையம் இரண்டங்குலமிருக்க வேண்டும்.
இது பவித்ரத்தின் லக்ஷணமாகும், உத்பவனம் முதலியதில்
உபயோகிக்கும் பவித்ரத்தைச் சொல்லுகிறார்
காத்யாயனர்:- எல்லாக்கர்மங்களிலும், பவித்ரம் இரண்டு
தர்ப்பங்களுள்ளதும், உள்ளுக்குள் தர்ப்பமில்லாததும்,
நுனியள்ளதும், குசத்தாலாகியதும், ஒட்டடையளவுள்ளதுமா
யிருக்க வேண்டுமென அறியத்தக்கது. (நெய், ஜலம்
இவைகளைச்சுத்தம் செய்வது உத்பவனம்) ஸுத்ரகாரரும்:-
(ஆபஸ்தம்பர்) ஒரே அளவுள்ளதும், நுனியள்ளதுமான
இரண்டு தர்ப்பங்களை ஒட்டடையளவுள்ள பவித்ரமாய்க்
செய்ய வேண்டும்.

दर्भाहरणकालनियमः ॥

दर्भाहरणकालनियममाह हारीतः – माधे नभस्यमा या स्यात्त
स्यां दर्भेच्चयो मतः। अयातयामास्ते दर्भः नियोज्याः स्युः पुनःपुनः।
इति ॥ नभाः - श्रावणमासः - कालान्तरोत्पाटितास्तु नायातयामाः।
अतः पुनः पुनर्विनियोगयोग्या न भवन्तीत्यर्थः ॥ अनेनैवाभिप्रायेण
शङ्खोऽपि – दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्राः ब्राह्मणाश्च विशेषतः ।
अयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः इति ॥ स्मृतिचिन्तामणौ तु
– मासि मास्युद्घृतकुशा मासि मास्येव चोदिताः । नोत्तरोत्तरमासेषु
धर्मविद्विश्च सम्मताः ॥ सप्तरात्रं शुभा दर्भस्तिलक्षेत्रसमुद्भवाः । ते

திஜேன நியோக்தவ्यா: ஦ैவே பித்ரே ச கர்மणி ॥ அஹ்ந்யஹனி கர்மார்த்துக்ஷோத்தார: பிராஸ்யதே । ந பூர்வீஶூத்தகுஶா யோயாஶ்வோத்தரேஷு து இதி ।

தர்ப்பாஹரணகால நியமம்

தர்ப்பம் கொண்டுவரும் காலத்தின் நியமத்தைச் சொல்லுகிறார். ஹார்தர்:- மாகமாஸத்திலும், ச்ராவண மாஸத்திலுள்ள அமாவாஸ்யையில் தர்ப்பாஹரணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுதும் க்ரஹிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் அயாதயாமங்கள். நூதனங்களாகவே யுள்ளனவாம். ஒரு கர்மத்திலுபயோகிக்கப்பட்டாலும் மற்றக்கர்மங்களிலும் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படலாம். மற்றக்காலங்களில் க்ரஹிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் அப்படியல்ல, அடிக்கடி உபயோகத்திற்கு யோக்யங்களாவதில்லை என்பது பொருள். இவ்விதமபிப்ராயத் துடனேயே சொல்லுகிறார். சங்கரும்:- தர்ப்பங்கள், க்ரஞ்சேஜினம், மந்த்ரங்கள், ப்ராம்ஹணர்கள் என்ற இவைகள் அயாதயாமங்கள். ஆகையால் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படலாம். ஸ்மருதிசிந்தாமணியில்:- ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் க்ரஹிக்கப்பட்ட குசங்கள் அந்தந்த மாஸத்தில் செய்யப்படும் கர்மங்களில்மட்டும் யோக்யங்கள். முன்மாஸத்தில் க்ரஹித்தவைகளைப் பின்மாஸத்தில் உபயோகிக்கக்கூடாது என்கின்றனர் தர்மக்ஞர்கள். என்விளையும் வயலிண்டாகிய தர்ப்பங்கள் 7-நாள் வரையில் கர்மார்ஹங்கள். அவைகளைத் தேவபித்ரகார்யங்களில் உபயோகிக்கலாம். கர்மானுஷ்டானத்திற் காக ஒவ்வொருநாளிலும் குசத்தைக் கொண்டுவருவதே சலாக்யமெனப்படுகிறது. முதல் கர்மங்களில் உபயோகிக்கப்பட்ட எடுத்த குசங்கள், பின் செய்யும் கர்மங்களில் யோக்யங்களாவதில்லை.

ஜாவாலி: - குஶாந् காஶாஂஶ புஸ்பாণி ஗வார்஥் ச தூணாடிகம् । நிஷிஞ்சே சாபி ஗ூஜியாதமாயாமஹனி திஜே: இதி ॥ அமாவாஸ்யாஸு ந சித்தந்யாத் குஶாஂஶ ஸமி஧ஸ்தா । ஸ்வந்தாவஸ்திதே ஸோமே ஹிஂஸாயாஂ வித்தா

भवेत् इति विष्णुपुराणवचनमशास्त्रीयकुशादिग्रहण विषयम् ॥
आहरणप्रकारमाह गोभिलः - शुचौ देशे शुचिर्भूत्वा स्थित्वा
पूर्वोत्तरामुखः। हुङ्कारेणैव मन्त्रेण कुशान् स्पृश्याद्विजोत्तमः इति ॥
उत्पाटनमन्त्रमाहस एव - विरिच्छिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्ज । नुद
पापानि सर्वाणि दर्भं स्वस्तिकरो मम इति ।

ज्ञापालीः- कुचन्कर्कला, नाण्णन्कर्कला, पुष्पन्कर्कला,
पक्ककर्कला कुमुमं पुलं मुतलीयवै इवेवकौला
निषित्तमाकिय कालमाणलुम अमेयिन्पक्कलं
प्रराम्भवर्णनं करवर्हीकलाम् । “अमावास्याकालन्कर्कलं
कुचन्कर्कला, लमित्तुक्कर्कला इवेवकौलाच चेत्तिक्कक्क कूटात् ।
अन्ऱु चन्तरं एन्कुमिरुप्पत्ताल, अवेवकौला
हर्मिलिप्पवैं प्ररम्भवर्हत्तये चेय्यतवन्वाओन्” एन्ऱु
विष्णुपुराणवचनम् चास्तरविहृतमल्लात कुचात्तिस
चेत्तविष्यमाम् । केऽन्तुवरुम् प्ररकारत्तेताच
चेललुकिन्ऱुर् । कोपिलरः - प्रराम्भवर्णनं सुत्तमान
तेचत्तिल, सुत्तग्नेयिरुन्तु सकाणत्तिक्कके नेंककि
निन्ऱुकेऽन्तु, ‘हर्म’ एन्ऱु मन्त्रत्तत्तालं कुचन्कौलात
तेतात्वेवन्तुम् । अरुक्कुम मन्त्रत्तत्तेताच चेललुकिन्ऱुर्
कोपिलरः - ‘प्ररह्ममावेवाकुट उन्टाकियवन्वुम्,
प्रमेष्टियिन्इयेत्तेताकियवन्वुमाकिय त्र
तर्प्पमें । एन्पापन्कौलाप्पेपोक्कुवायाक, एनक्कुस
सपत्तेताच चेय्यवन्वुक्कक्कत्वाय’ एन्ऱु,

कुशालाभेतुशः - कुशालाभेद्विश्रेष्टः काशैः कुर्वीत यन्ततः ।
तर्पणादीनि कर्माणि काशाः कुशसमाः स्मृताः इति । विष्णुरपि -
कुशाभावे कुशस्थाने काशान् दूर्वा वाऽदद्यात् इति । वृद्धवसिष्ठः -
कुशालाभेऽश्वालोवा विश्वामित्रोऽथ वा यवाः । दूर्वश्चैतेषु यो लब्धः
तेन कर्माणि कारयेत् ॥ श्रुतिस्मृतिषु मित्रत्वाद्विप्राणां विश्वकर्मणाम् ।
विश्वांहसाममित्रत्वाऽत् विश्वामित्र ददाहतः ॥ कुशकाशाद्यभावे तु अन्ये
दर्भायथोचितम् इति ।

குசங்கள் கிடைக்காவிடில் சங்கர்:- குசம் கிடைக்காவிடில், தர்ப்பணம் முதலியவைகளை நாணல்களால் செய்யலாம். நாணல்கள் குசங்களுக்குச் சமமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணுவும்:- குசமில்லாவிடில், அதன் ஸ்தானத்தில் நாணல் அல்லது அறுகை க்ரஹிக்கலாம், வ்ருத்தவளிஷ்டர்:- குசம் கிடைக்காவிடில், அச்வவாலம், விச்வாமித்ரம், யவை அறுகு இவைகளுள் எது கிடைத்ததோ அதனால் கர்மங்களைச் செய்யலாம். ச்ருதிஸ்ம்ருதிகளில், ப்ராம்ஹணர்களுக்கு விழிதமான ஸகலகர்மங்களுக்கும் மித்ரமாயிருப்பதாலும், ஸகலபாபங்களும் அமித்ரமாய் (சத்ருவாய்) இருப்பதாலும் விச்வாமித்ரம் எனப்படுகிறது. குசம், நாணல் இவை முதலியவை இல்லாவிடில் மற்றதர்ப்பங்களைசிதப்படி க்ரஹிக்கலாம்.

ஸ්මූதිසාරේ^७பி - குஶா: காஶா யदा ஦ூர්வோ ஗ோ஧மாशாத குந்துரா: । உசீரா விரீஹயோ முஜா ஦ஶ ஦ம்பாஶ வல்ஜா: இதி- வழ்வரிஷ்ட: - காஶं து ரௌங் விஜேயं கௌஶं விராஸ்த ததா ஸமூதம् । ஆர்து ஦ைவமாஞ்யாதம் வைஶாமித்ரம் து வைஷ்ணவம् ॥ விஶாமித்ரா: குஶா: காஶா ஦ூர්வீஹய ஏவ ச । வல்ஜாஶ யவாஶைவ ஸஸ ர்மா: பிரகிரිதா: ॥ நார்த்து லுநியாந்தாநை து லுநியாந்தாபி ஸந்஧்யயோ: இதி ॥ ஶஸ்தி: - காஶஹஸ்தஸ்து நாசாமேத் கடாஞ்சித்திஷஸ்தயா । பிராயஶ்சித்தே ந யுஞ்யேத ஦ூர்வாஹஸ்தஸ்தயை ச । இதி பிராயஶ்சித்தங் ஗ாயஞ்யஷஶதமிதி ஸ்முதிரத்தே^८பிஹிதம் ।

ஸ்ம்ருதிஸாரத்திலும்:- குசம், காசம், (நாணல்) யவை. தூர்வை, (அறுகு), கோதுமை, குந்துரம் (நீர்முத்தக்காசு), உசிரம் (விளாமிச்சை), வர்மி (நெல்பயிர்), முஞ்சம் (முஞ்சிப்புல்), பல்பஜம் எனப் பத்துவிதம் தர்ப்பங்கள் வ்ருத்தவளிஷ்டர்:- காசம் ருத்ரனையும், குசம் ப்ரம்ஹாவையும், தூர்வை ருஷிகளையும், விச்வாமித்ரம், விஷ்ணுவையும், தேவதையாயுடையவையாம். விச்வாமித்ரம், குசம், காசம், தூர்வை, நெல்பயிர்,

पल्पज्जमं, यवेप्पुलं, इन्त 7-मंतरप्पनंकणेणप्पटुम्.
सरमुलीनाते अरुक्कक्कूटातु. इरविलुम्,
सन्त्याकालंकणीलुम् अरुक्कक्कूटातु. संकारः-
काशत्तेत (नाणील) केयिल तरीत्तु, ओरुकालुम्
वित्तियुलीतोवेन्नु सन्तेहत्तिग्नेलुम् आचमनम्
सेय्यक्कूटातु. चेय्ताल प्ररायस्चित्तारंहेवान्.
अरुकेत्त तरीत्तु आचमनम् सेय्तवनुमप्पटिये. इतरंकु
प्ररायस्चित्तम् 108 मुरेह कायतर्जपम् एन्नु
संमरुतिरत्तनेत्तिल चेल्लप्पटुलीतु.

बहिर्दितुयमः - कुशा: काशा स्तथा दूर्वा यवा ब्रीहय एव च ।
बल्बजा: पुण्डरीकाणि सप्तधा बहिरुच्यते इति ॥ स्मृत्यर्थसारे - बहिः
काशमयं ग्राह्यं न लभ्यन्ते कुशा यदि । शरैरकासूक्लाश्वाल-
मौञ्जार्जुनेक्षवः । सुगन्धितेजनादारा दूर्वा क्षीरदुमा अपि । यद्वा
सर्वतृष्णैर्वाऽपि ग्राह्यं बहिर्यथोचितम् ॥ शुष्कशुण्डं कृष्टमूलं दुर्गन्धि
तृष्णवर्जितम् । सूक्ला नेरकाश्वापि वर्जयन्त्यपरेबुधाः इति ॥

परंलृप्तिस्त्रियां विषयत्तिल यमानः- कुचम्, काशम्,
तुर्वावे, यवम् नेल्पयिर, पल्पज्जमं, पुण्टरीकम् एन
परंलृप्तिस्त्रियाम्, संमंगुत्यारंत्तसारत्तिलः-
कुचम् किटेक्कावित्रिल परंलृप्तिस्त्रियाकु नाणीले
कर्वलीक्कलाम्. अल्लतु चरम्, एरका (वाळेकोरे)
साकलम् (चिरुकोरे) अस्ववालम् (कुतिरे वाल)
मुन्चिप्पुल, अर्ज्जाणम् (वेळेविम्मल), इक्षा (करुम्पु),
साकन्ति तेज्जनम् (मान्तेतप्पुल), तारम् (विस्वामित्रम्),
तुर्वावा (अरुकु), क्षीरत्तरुमम् (पेय्ककरुम्पु) इवेकणुलं
एन्नरेह कर्वलीक्कलाम्. अल्लतु पुल एल्लावर्न्निलुम्
एतावतेान्नरेह उचितप्पटि कर्वलीक्कलाम्. आकिलुम्,
नरम्पु उलर्नतुम्, अटियिल्लाततुम्, तुर्वक्कन्तमुलीतुम्,
पुल्लिल्लाततुम्, चिरुकोरे, वाट्कोरेरयम्
आकियवेकणा अरिगुर्कण वर्ज्जीक्किण्णनर.

வர்ஜனியர்மா:

வஜ்யநாஹ ஹரீதः – பथி ஦र்மாशிதௌ ஦ர்மா யே ஦ர்மா யஜா மூமிஷு ।
ஸ்தரணாஸனபிண்டேஷு ஷட்குஶாந் பரிவர்ஜயேத् ॥ ஬்ரஹ்யஜே ச யே ஦ர்மா: யே ஦ர்மா:
பிதுர்ப்பே । ஹதா மூத்ரபுரிஷாभ्यां தேषां த्यாగோ வி஧ியतே ॥ அபூதா ஗ர்ஹிதா
दर्मा ये च छिना न खैस्तथा । कथितानग्निदग्धांश्च कुशान् यन्नेन वर्जयेत्
இதி ॥ சந்திரகாயாம् – நீவீமध்யே து யே ஦ர்மா: ஬்ரஹ்ஸूநே ச யே கृதா: ।
பவித்ராஸ்தாந् விஜாநீயாத்ய஥ா காஶா ஸ்த஥ா குஶா: ॥ பவித்ர் கரஶாக்ஷாஸ்த்
दक्षिणश्रवणे न्यसेत् । நாந்யத் ரிக்ஷிபேதே நிக்ஷிஸ் யதி தத்யஜேத् இதி ।

விலக்கத்தகுந்த தர்ப்பங்கள்

வர்ஜி கத்தகுந்த தர்ப்பங்களைப்பற்றி ஹார்தர்:-
வழியிலுள்ளதும் வேள்விமேடையிலும், யாகப்ரதேசங்
களிலும், பரிஸ்தரணத்திலும், ஆஸனத்திலும்,
பின்டங்களிலும் உபயோகிக்கப்பட்டதுமான ஆறுவித
தர்ப்பங்களையும் வர்ஜிக்க வேண்டும். ப்ரம்ஹம
யக்ஞத்திலும், பித்ர தர்ப்பணத்திலு முபயோகிக்கப்
பட்டதும், முத்ரமலங்களால் அசுத்தமாகியதும், ஆகிய
தர்ப்பங்களை க்ரஹிக்கக் கூடாது. அசுத்தங்களும்,
நிந்திதங்களும், நகங்களால் கிள்ளப்பட்டவைகளும்,
பக்வங்களானதும், பொசுக்கப்பட்டவையுமான
தர்ப்பங்களை அவச்யம் தள்ள வேண்டும். சந்தர்ரிகையில்:-
நீவியின் நடுவிலும், யக்ஞோபவீதத்திலும் வைக்கப்பட்ட
தர்ப்பங்கள் சுத்தங்களன்று அறியவும். காசங்களும்,
குசங்களும், அப்படியே. விரலில் தரித்த பவித்ரத்தை வலது
காது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேஹத்தில் வேறு
இடத்தில் வைக்கக் கூடாது. வைத்தால் அதைப் பரிஹரிக்க
வேண்டும். ('நீவி' என்பதற்கு வஸ்தர் முடிச்சு, எக்கு
முடிச்சு)

दर्भसङ्ख्या ॥

दर्भसङ्ख्योक्ता स्मृतिरन्ते – हस्तयो रुभयोद्दौ द्वावासने च तथैव
चा समेद्दे स्थौल्यं दैध्यम्भ्यां पवित्रे द्वेतथा स्मृते ॥ प्रणीतासनमाच्छाद्यं
त्रिभिदर्भेऽरुदीरितम् । पर्यग्निकरणे चैकं घोतनावेक्षणे तथा ॥ लेखने च
तथा द्वे द्वे स्तरणे पोडवा स्मृताः । अष्टाविंशतिदर्भास्तु ब्रह्मार्थं ब्राह्मणाय
वा ॥ देवकार्येषु दर्भौ द्वौ पित्र्ये चैकं त्रयोऽपि वा इति ॥

तारप्पन्करणीं लंगकंशये

तारप्पन्करणीं लंगकंशये चेऽलंलप्पट्टुं लंगतु,
लंमंग्रुतीरत्तनत्तत्तीलः - इरण्णु केककणीलुम् तनीत्तत्तनी
इरण्णु तारप्पन्करणीं, आलंगत्तत्तिलुमिरण्णु, परुमालुम्
नीलंत्तालुम् लममाण इरण्णु तारप्पन्करणीं पवित्रम्,
प्ररण्णेत्तयिन्न आलंगत्तत्तिरंकु लुन्नरु, अतेत लुन्नेवतरंकु
लुन्नरु, पर्यक्तनीकरणत्तत्तिरंकु लुन्नरु, त्तेयोत्तालु
वेक्षणाम्, उल्लेकणाम् इवेकणीलं तनीत्तत्तनी इरण्णु
तारप्पन्करणीं, परिसंत्तरणत्तत्तिरंकुत तनीत्तत्तनी 16-
तारप्पन्करणीं, प्ररंभ्लालंगत्तत्तिरंकु 28-तारप्पन्करणीं,
लत्तसंयालुन प्रराम्भ्लालानुकुमव्वितमे. तेव
कारप्यन्करणील इरण्णु तारप्पन्करणीं. पीत्तरुकारप्यन्करणील
लुन्नरु, अलंलतु लुन्नरु तारप्पन्करणीं.

आचषननिमित्तानि ।

अथाचमननिमित्तानि ॥ तत्र मनुः - कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा
खान्याच्चान्त उपस्पृशेत् । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सर्वदा इति ।
आचान्तः - त्रिरपः पीत्वेत्यर्थः । मार्कण्डेयः - देवार्चनादिकार्याणि
तथा गुर्वभिवादनम् । कुर्वीत सम्यगाचम्य तद्वदेव भुजिक्रियाम् इति ॥
संवर्तः - स्वात्वा पीत्वा तथा भुक्त्वा क्षुसा सुस्वा द्विजोत्तमः । अनेन
विधिना सम्यगाचान्तः शुचितामियात् इति ॥ हारीतोऽपि -
सुषुप्तुभौक्ष्यन्नाचामेदिति ॥ नन्दिसूरिः - नूनोपवीतविन्यासे

ஸ்நேநேஹைஷ்஧க்ஷே | பैதூகே கர்மणி ஸ்ரேஹக்ஷே சாத்யந்தயோः ஸகृது | ஸ்வாத்யாயே
देवपूजायां जपे च सकृदादितः । पितृकार्ये तथा स्त्रीणां संभोगे चान्ततः
सकृत् इति ॥

ஆசமன நிமித்தங்கள்

இனி ஆசமன நிமித்தங்கள் அங்கு மனு:- முத்ர மலவிலர்ஜனம் செய்த பிறகும், வேதாத்யயனம் செய்வதற்கு முன்னும், போஜனம் செய்வதற்கு முன்னும் ஆசமனம் செய்து இந்த்ரியங்களை ஸ்பர்சிக்க வேண்டும். ஆசமனம் என்பதற்கு மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகுவது என்பது பொருள்.

மார்க்கண்டேயர்:- தேவழூஜை முதலிய கார்யங்கள், குரு நமஸ்காரம், போஜனம் இவைகளைச் செய்வதற்கு முன் விதிப்படி ஆசமனம் செய்து பிறகு செய்ய வேண்டும். **ஸம்வர்த்தர்:-** ப்ராம் ஹனன், ஸ்நானம். பானம், போஜனம், தும்மல், நித்ரை இவைகளைச் செய்தால், பிறகு விதிப்படி நன்கு ஆசமனம் செய்தால் சுத்தியையடைவான். **ஹார்தரும்:-** நித்ரைக்கும், போஜனத்திற்கும் முன் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். **நந்திஸுமரி:-** புதிதான யக்ஞோபவீததாரணம், நெய்யுள்ள மருந்தை உண்ணுதல், பித்ருகார்யம், இளகிய வஸ்துக்களைப் பகவித்தல் இக்கார்யங்களின் முன்னும் பின்னும் ஒரு தடவை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். அத்யயனம், தேவழூஜை, ஜபம் இவைகளின் ஆதியில் ஒரு தடவை ஆசமனம். பித்ருகார்யம் ஸ்த்ரீஸம்போகம் இவைகளின் முடிவில் ஒரு தடவை ஆசமனம்.

ப்ரஜாபதிரபி — உபக்ரம்யாவஸிஷ்டஸ்ய கர்மணः ப்ரயதோऽபி ஸந् ।
கृत्वा ச பிதृகार्याणि ஸகृदाचम्य ஶुद्धयति ॥ வर्णत्रयस्य
संस्पर्शऽप्याचम्य ப்ரயतो ஭वेत् । ஸंस्पर्शे ப்ரतிலोமானां கியாத்யாగே
வி஧ியतே ॥ விப்ரோ விப்ரேண ஸंஸ்பृश्य உच்சிஷ्टேந கथञ்சன । ஆचम्यैந ச
शुद्धः ஸ்யாடாபஸ்தம्बोऽவிந்முனிஃ । ஜபஹோமப்ரधாநேஷு பிதृபிண்டோகேஷு

च । विप्रः समासेष्वाचामेत् सर्वस्तुषु चर्वणे इति ॥ मनुः - न स्पृशेत् पाणिनोच्छिष्टः विप्रो गोब्राह्मणानलान् । न चापि पश्येदशुचिः स्थस्थो ज्योतिर्गणान् दिवि ॥ स्पृष्टैतानशुचिर्नित्यमद्धिः प्राणानुपस्पृशेत् । गत्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु इति ॥

प्ररज्ञापतीः:- ओरुकंग्रीययय आरम्पित्तु न उविल निंरु मरुपाति आरम्पित्ता॑ल, सृत्ताणे यिरुप्पिनुम् ओरु तटवै आ॒समनम् चेय्य वेण्णु॑म्. प्रित्तरुकार्यं कौ॒लं चेय्ता॑ल मृष्टिविल् ओरु तटवै आ॒समनम् चेय्य वेण्णु॑म्. कर्मानुष्टाण कालत्तिल् मू॒न्ऱु वर्णान्कगु॒णै॒ल एवै॒नेत् तेऽट्टालुम् आ॒समनम् चेय्ता॑ल सृत्ताणे किरु॑न. प्ररुतिलोम ज्ञातियर्कौ॒लै॒त् तेऽट्टालं कौ॒रीययेये विट्टु॑विट वेण्णु॑म्. प्ररा॒म्ह॒रु॒ण॒न, उ॒च्चिष्टाणै॒न प्ररा॒म्ह॒रु॒ण॒नै॒ल तेऽट्टपट्टालं आ॒समनम् चेय्वता॑लै॒ये सृत्ताणे किरु॑न एन्ऱु आ॒पस्तम्पम॒रु॒ण॒नी चौ॒ण॒नै॒र. ज्ञपम्, हेऽमम्, ता॒ण॒म्, प्रित्तरुक्कौ॒लं कु॒रुत्तु॒प प्रिण्टेऽतकौ॒लं इ॒वैकौ॒कु॒प प्रिण्पु॒म्, एन्त वै॒स्तु॒वा॒यिनुम् पक्षीक्कक्कै॒यतै॒प पक्षीत्ता॑ल अ॒तर्नै॒कु॒प प्रिण्पु॒म् आ॒समनम् चेय्य वेण्णु॑म्. मनुः - उ॒च्चिष्टाणै॒न प्ररा॒म्ह॒रु॒ण॒न, पक्ष, प्ररा॒म्ह॒रु॒ण॒न, अ॒कै॒नि इ॒वर्कौ॒लं कै॒यिनु॒ल तेऽट्टक्कौ॒ला॒तु.

अ॒सृत्ताणे यिरुप्पवै॒नै॒ल वै॒स्तु॒वा॒यिनुम् पक्षीक्कक्कै॒यतै॒प पक्षीत्ता॑ल अ॒तर्नै॒कु॒प प्रिण्पु॒म् आ॒समनम् चेय्य वेण्णु॑म्. मनुः - उ॒च्चिष्टाणै॒न प्ररा॒म्ह॒रु॒ण॒न, पक्ष, प्ररा॒म्ह॒रु॒ण॒न, अ॒कै॒नि इ॒वर्कौ॒लं कै॒यिनु॒ल तेऽट्टवै॒नै॒लै॒तु.

चन्द्रिकायाम् - चण्डालम्लेच्छसम्भाषे स्त्रीशूद्रोच्छिष्टभाषणे । उच्छिष्टं पुरुषं दृष्ट्वा अभोज्यं च तथा विधम् ॥ आचामेदशुपाते वा लोहितप्रसवे तथा । अग्रेग्वामथालम्भे स्पृष्टाऽप्रयतमेव च ॥

ஸ்ரீணாம஥ாத்மனஸ்பதே நீர்வீங்கா பரி஧ாய ச | குத்வா சாகஶ்யகார்யாணி
ஆசாமேஞ்சைத்தப்ர: || அவஶ்யகார்யாணி நித்யானி || தறை - ஸந்஦ேஹேஸு
ச ஸர்வேஷு ஶி஖ாமக்ஷே தத்தை ச | விநா யஜோபவிதேன நித்யமேவ முபஸ்பृஶேத்
இதி ||

சந்த்ரிகையில் :- சண்டாளன், ம் லேச்சன்
இவர்களுடன் ஸம்பாஷித்தல், ஸ்த்ரி, குத்ரன். உச்சிஷ்டன்
இவர்களுடன் ஸம்பாஷித்தல் இவைகளிலும்,
உச்சிஷ்டனுடன் புருஷனைப் பார்த்தாலும், நிஷித்த
வஸ்துவைப் புஜித்தாலும் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.
கண்ணீர் வடித்தாலும், ரக்தம் பெருகினாலும், அக்னி, பசு
இவர்களின் ஸ்பர்சத்திலும், அசத்தனை ஸ்பர்சித்தாலும்,
ஸ்திரீகளையும், தன்னையும் ஸ்பர்சித்தாலும். வஸ்தரத்தின்
முடிச்சை அவிழ்த்துக் கட்டிக் கொண்டாலும்,
நித்யகர்மங்களைச் செய்து முடித்தாலும், சுத்தியை
விரும்பியவன் முடிவில் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.
சந்த்ரிகையிலேயே :- ஸகலவிதமான ஸந்தேஹங்களிலும்,
சிகை அவிழ்ந்தாலும், யக்ஞோபவீத மில்லாம
விருந்தாலும் அவச்யம் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.

आपस्तम्बः - स्वप्ने क्षवधौ शिष्ठाणिकाऽशालम्भे लोहितस्य
केशाना मग्रेग्वां ब्राह्मणस्य श्वियाश्वालम्भे महापथं च गत्वाऽमेधयं
चोपस्पृश्याप्रयतं च मनुष्यं नीर्वीं च परिधायाप उपस्पृशेत् इति। क्षवधुः
- क्षुतम्॥ शिष्ठाणिका - नासामलम्॥ अश्रु - नैत्रजलम्॥ आलम्भे -
स्पत्वौ। स एव - उत्तीर्यत्वाचामेत् इति॥ यमोऽपि - उत्तीर्योदकमाचामे
दवतीर्यं तथैव च। एवं स्याच्छ्रेयसा युक्तो वरुणश्वैव पूजितः इति॥

ஆபஸ்தம்பார்:- நித்ரை செய்தாலும், தும்மினாலும்,
மூக்கின் மலம், கண்ணீர் இவைகளைத் தொட்டாலும்,
ரக்தம், மயிர், அக்னி, பசு, ப்ராம்ஹணன், ஸ்த்ரீ இவர்களைத்
தொட்டாலும், பெரியவழியில் நடந்தாலும், அசத்தமான
மலமுத்ராதி வஸ்துக்களை ஸ்பர்சித்தாலும், அசத்தனுடன்

मनीतैनेत तेऽट्टालुम् इतुप्पु वस्तरत्तेतकं कट्टिक्केऽन्नालुम् आचमनम् चेय्यवेण्टुम्। “इन्त निमित्ततंकरुणा सिलतिलं सन्नाणमुम्, सिलतिलं आचमनमुम्, सिलवर्हरीलं जलत्तेतत तेऽनुवतुम् मनस्सुक्तिक्कुत्त तकुन्तपदि अनुष्टिक्कप्पत वेण्टुम्” एन्ऱु व्याक्याणत्तिलुणातु. आपस्तुमपरः:- ओटत्तिले लावतु, वेऱु वित्ततालावतु नतियेत ताण्डिलेल, अक्करयययटेन्तु सत्ततुयीरुन्तालुम् आचमनम् चेय्यवेण्टुम्. यमनुमः:- जलत्तेतत ताण्डिलेल, जलत्तिलिरंकियवटनुम्, ताण्डिय पिऱकुम् आचमनम् चेय्यवेण्टुम्. इव्वितम् चेय्यतालं चरेयस्साटांकुकिरुन्. वरुणनुम् पूज्ञिक्कप्पटुकिरुन्.

हारीतः - नोत्तरेदनुपस्पृश्य इति देवता मभिगन्तुकाम आचामेत् इति च ॥ **बृहस्पतिः** - अधो वायुसमुत्सर्गे आक्रन्दे क्रोधसंभवे। मार्जरिमूषिक स्पर्शे प्रहासेऽनृत भाषणे। निमित्तेष्वेव सर्वे कर्म कुर्व चुपस्पृशेत्। इति मनुः - आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशने। इति । **बृहस्पतिः** - शशूद्रपतितांशैव रासाभञ्ज रजस्वलाम् । दृष्टा तोयमुपस्पृश्याभाष्य स्नात्वा पुनर्जपेत् इति । चन्द्रिकायाम् - चण्डालादीन् जपे होमे दृष्टाऽचामेत्तिजोत्तमः । शादीन् दृष्टा तथैवापि कर्णवा दक्षिणं स्पृशेत् इति ।

ह्लार्हीतुरः :- आचमनम् चेय्यामलं जलत्तेतत ताण्टक्कुटातु. तेवत्तेयेत तर्सिक्क विरुम्पियवनुम् आचमनम् चेय्य वेण्टुम्. पंगुहृणस्पतिः:- कर्माणुष्टाण कालत्तिलं, वायुपरीतलं, अमुके, कोपित्तलं, पूँजे, ऎवि इवेवकज्ञास्पर्सित्तलं, सिरित्तलं, बेपायपेस्तलं मुतविय निमित्ततंकरुणां नेर्नंतालं आचमनम् चेय्य वेण्टुम्. मनुः:- जपकालत्तिलं सन्नाटालात्तिकराण अस्तर्तरकज्ञाप्प पार्ततालं, आचमनम् चेय्यतु सत्ततुये जपिक्कवेण्टुम्. पंगुहृणस्पतिः:- जपकालत्तिलं नाय, कमुत्तेत इवेवकज्ञाप्प पार्ततालुम्,

குத்ரன், பதிதன், ரஜஸ்வலை இவர்களைப் பார்த்தால் ஆசமனம் செய்தும், இவர்களுடன் பேசினால் ஸ்நானம் செய்தும், மறுபடி ஜபிக்கவேண்டும். சந்தர்ரிஷையில்:- ஜபகாலத்திலும், ஹோமகாலத்திலும், சண்டாளன், நாய் முதலியவர்களைப் பார்த்தால் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். வலதுகாதையாவது தொடவேண்டும்.

வசிஷ்டோऽபி— க්‍රுதே நிஷ்டிவிதே ஸுஸே பரி஧ானே ஽ஶ்ருபாதனே | பञ்சஸ்வேதே ஶு
சா சாமேத् ஶ்ரோத்ரங் வா ஦க்ஷிண் ஸ்பृஶேத् இதி || ஸ்வர்த:— க්‍රுதே நிஷ்டிவிநே சைவ
தந்தலிஷ்டே தथாதநுதே | பதிதானாஂ ச ஸம்஭ாஷே ஦க்ஷிண் ஶ்ரவண் ஸ்பृஶேத् ||
அபிராபஶ் வேதாஶ் சந்஦ஸ்யாநிலாஸ்ததா | ஸர்வே தே ஖லு விப்ரஸ்ய கர்ணே
திஷ்டந்தி ஦க்ஷிணே இதி |

வளிஷ்டரும்:- தும்மல், துப்புதல், தூங்குதல்,
இடுப்பு வல்தரம், தரித்தல், அழுதல் இந்த ஜந்து
நிமித்தங்களிலும் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். வலது
காதையாவது தொடவேண்டும். ஸம்வர்த்தார்:- தும்மல்,
துப்புதல், பல்லில் சிக்கியதை வெளியாக்குதல், பொய்
சொல்லுதல், பதிதர்களுடன் பேசுதல் இவைகளில்
வலதுகாதைத் தொடவேண்டும். அக்னி, ஜலம்,
வேதங்கள், சந்தரன், ஸுர்யன், வாயு இவர்க
ளைல் லோரும் ப்ராம் ஹணனின் வலதுகாதில்
இருக்கின்றனர்.

பராக்ர:— ப்ரமாஸாदீனி தீர்஥ானி ஗ங்காதாஸ்ஸரிதஸ்ததா | விப்ரஸ்ய
दक्षिणे कर्णे सन्तीति मनुरब्रवीत् | आदित्यो वरुणः सोमो वहिर्वर्युस्तथैव
च | विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः इति | स्मृत्यर्थसारे—
அபிஸ்தீர்஥ானி வேதாஶ் வருணாக்ந்துவாயவः | விப்ரஸ்ய ஦க்ஷிணे கர்ணே நித்யं
திஷ்டந்தி பூஜிதா: | இதி | எத்த ஦க்ஷிணகர்ணஸ்பர்ணமாஞ்சமநாஸம்வே
வேதிதவ்யம् | ததா ச மார்க்ண்டேயபுராணம்— ஆசம்யை டிஜः ஸர்வ க்ரியாங்
குர்வித வை ஶுநிஃ | ஦ேவதாநாமृஷீணாஂ ச பிதூணாஂ சைவ யத்ரதः | குர்விதாலம்஭ன

चापि दक्षिणश्रवणस्य वा । यथाविभवतो ह्येतत् पूर्वभावे ततः परम् ॥ न विद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरप्राप्तिरिष्यते इति ।

प्राचरार्दः- प्ररपालम् मुतलिय तीर्त्तहंकरुम्, कन्जके मुतलिय नतिकरुम्. प्रराम्भृणनीनि वलतुकाति इरुक्किऩ्ऱनर ऎन्ऱ्य मन्त्रा चेऽन्ऱनर. लमर्यनि. वरुणनि, सन्त्तरनि, अक्कनि, वायु इन्तत्ते तेवतेकर्ळं प्रराम्भृणनीनि वलतुकाति एप्पेपामुतु मिरुक्किऩ्ऱनर. लम्मरुत्यार्त्त लारात्तक्तिलः- अक्कन्नियुम्, तीर्त्तहंकरुम्, वेतन्हंकरुम्, पूज्जीतर्कर्ळान वरुणनि, लमर्यनि, सन्त्तरनि. वायु इवर्करुम् प्रराम्भृणनीनि वलतुकाति एप्पेपामुतु मिरुक्किऩ्ऱनर. इवंवितम् वलतुकातत्त तेऽउवतेन्पतु, आसमनम् लम्पविक्कात वीष्यत्तिलेन्ऱ्य अर्थयेवेण्टुम्. मार्क्कन्निटेय पुराणमः- प्रराम्भृणनि प्रयत्तनत्तुटन आसमनम् चेय्येते कुत्तन्नेय, तेवर्कर्ळं, रुषीकर्ळं, पित्तरुक्कर्ळं इवर्कर्ळीनि कार्यन्कर्ळास चेय्य वेण्टुम्. वलतु कातेयावतु तेऽउवेण्टुम्. इतु सक्तिक्कुत्तकुन्तपदि. मुन्तियतेक्ष चेय्य मुष्यावीष्टिल प्रिन्तु चेऽलवियतेक्ष चेय्य वेण्टुम्. मुन्त चेऽलवियतु इरुक्कुम्पेपामुतु पिन्त चेऽलवियतर्कु प्रराप्तियेण्टुम् चास्तर लम्मतमावतिल्लै.

अथवा बोधायनोक्तं द्रष्टव्यम्—नीर्वी विसृज्य परिधायोपस्पृशेदार्द्द तृणं गोमयं वा सकृदुपस्पृशेत् इति । आपस्तम्बोऽपि— अप उपस्पृशेदार्द्द वा शकृदोषधीर्भुवं इति ॥ आर्द्द वा शकृत्, आद्र्वा वा ओषधीः आद्र्वा वा भूमिमित्यर्थः ॥ स्मृतिरद्दे— सत्यामाचमनाशक्तावभावे सलिलस्य वा । पूर्वोक्तेषु निमित्तेषु दक्षिणं श्रवणं स्पृशेदिति । व्यासः— उपस्पृशेज्जलं वाऽऽर्द्दतृणं वा भूमिमेव वा इति । अर्णवे— अशक्तौ च जलाभावे पूर्वोद्दिष्टनिमित्तके । औषधीगोशकृद्भूमीः स्पृशेत् प्रयत्तमानसः इति ।

அல்லது போதாயனர் சொல்லியதையாவது தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதாவது “இடுப்பு வஸ்தரத்தை அவிழ்த்துத் தரித்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். அல்லது புல், ஸரமுள்ள பூமி, ஸரமுள்ள கோமயம் (பசுவின் சாணம்) இவைகளிலொன்றை ஒரு முறை தொடவேண்டும். ஆபஸ்தம்பரும்:- ஆசமனம் செய்யவேண்டும். அல்லது ஸரமுள்ள பசுவின் சாணத்தையாவது, ஒழுதிகளையாவது, பூமியையாவது தொடவேண்டும், ஸரமுள்ள சாணத்தையாவது, ஸரமுள்ள செடிகளையாவது, ஸரமுள்ள பூமியையாவது என்று பொருள். ஸ்மிருதிரத்தில்:- முன்சொல்லிய ஆசமனங்களில், ஆசமனம் செய்யச்சக்தியில்லாவிட்டனும், ஜலம் கிடைக்காவிட்டனும். வலதுகாதத் தொடவேண்டும். வ்யாஸர்:- ஜலத்தைப்பருகவேண்டும். அல்லது ஸரமுள்ள புல்லையாவது, பூமியையாவது தொடவேண்டும். அர்ணவத்தில்:- முன்சொல்லிய ஆசமனநிபித்தங்களில், சக்தியில்லாவிட்டனும், ஜலமில்லாவிட்டனும், சுத்தசித்தனைய் ஒழுதிகள், கோமயம் பூமி இவைகளிலொன்றைத் தொடவேண்டும்.

திராசமனநிமித்தானி ।

तत्र याज्ञवल्क्यः — स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुसे भुक्त्वा रथ्योप सर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च इति । वसिष्ठः — सुस्वा भुक्त्वा क्षुत्वा स्नात्वा पीत्वा रुदित्वा बाऽऽचान्तः पुनराचामेत् इति ॥ मनुरपि — सुस्वा क्षुत्वाच भुक्त्वा च छीवित्वोक्त्वाऽनृतं वचः । पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्चाप्याचामेत् प्रयतोऽपि सन् इति । भोजने त्वादावपि द्विराचमनम् — भोक्त्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेत् इत्यापस्तम्बस्मरणात् । स्नानपानयोरादौ सकृत् द्विरन्ततः ॥ स्नानखादनपानेषु सकृदादौ द्विरन्ततः इति नन्दिसूरिस्मृतेः ।

இருமுறை ஆசமன நிமித்தங்கள்

அதில்யாக்ஞவல்க்யர்:- ஸ்நானம், பானம், தும்மல், நித்ரை, போஜனம், தெருவில் நடப்பது என்ற இந்த நிமித்தங்களுக்குப் பிறகும், வஸ்தரத்தைக்கட்டிக் கொள்வதற்குப் பிறகும் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். வளிஷ்டர்:- தூக்கம், போஜனம், தும்மல், ஸ்நானம், பானம், அழுகை இவைகளுக்குப் பிறகு இருமுறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். மனுவும்:- நித்ரை, தும்மல், போஜனம், துப்புதல், பொய்பேசுதல், ஜலபானம் இவைகளுக்குப் பிறகும், வேதாத்யயனத்திற்கு முன்பும், சுத்தனையிருந்தாலும் இருமுறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். போஜனத்திற்கு முன்பும் இருமுறை ஆசமனமுண்டு. “போஜனம் செய்யப்போகிறவன், சுத்தனையிருந்தாலும், இருமுறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்” என்று ஆபஸ்தம்பரः விதித்திருப்பதால் ஸ்நானம், பானம் இவைகளின் ஆதியில் ஒருமுறையும், முடிவில் இருமுறையும் ஆசமனம். “ஸ்நானம் காதனம், பானம் இவைகளில் ஆதியில் ஒருமுறையும், முடிவில் இருமுறையுமாசமனம்” என்று நந்திலூரி ஸம்ருதியிருப்பதால்,

स्मृतिरत्ने – भोक्ष्यमाणो द्विराचामेऽनुकृत्वा च मतिमान् द्विजः ।
 दाने प्रतिग्रहे होमे सन्ध्यात्रितयवन्दने ॥ बलिकर्मणि चाचामेदादौ
 द्विनन्तितो द्विजः । वासोन्तरपरीधाने स्नाने रथ्याप्रसरणे ॥
 चण्डालोपग्रहाक्रामे स्वानुष्ठानान्तरा क्षुते । अलोमकोषसंस्पर्शे
 श्मशानाक्रमणेऽपि च ॥ हविः शेषप्राशने च द्विराचमनमन्ततः इति ।
 बोधायनः – भोजने हवने दाने उपहारे प्रतिग्रहे । हविर्भक्षणकाले च
 द्विराचमनभिष्यते इति । व्यासोऽपि- होमे भोजनकाले च
 सन्ध्ययोरुभयोरपि । आचान्तः पुनराचामेऽपदानाच्चैषु च इति ॥
 विष्णुरपि – रथ्यामाक्रम्य कृतमूत्रपुरीषः पञ्चनखास्थ्यस्त्रेहं
 स्पृष्टाऽचान्तः पुनराचामेच्छण्डालम्लेच्छभाषणे च इति ।

ஸ்மிருதி முக்தாபலம் : - புத்தியுள்ள ப்ராம் ஹனன் போஜனத்திற்கு முன்பும், பின்பும், இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். தானம் ப்ரதிக்ரஹம், ஹோமம். மூன்று ஸந்த்யா வந்தனங்கள், பலிகர்ம இவைகளின் ஆதியில் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். முடிவிலில்லை. (முடிவில் ஒருமுறை) வேறுவஸ்த்ரம் தரித்தல், ஸநானம், தெருவில் செல்லுதல், சண்டாளனின் நிழலைமிதித்தல், அனுஷ்டானத்தின் நடுவில் தும்மல், மயிரில்லாத உதடுகளை ஸ்பர்சித்தல், சமசானத்தை மிதித்தல், ஹவிஸ்லின்மீதியை உண்ணுதல் இவைகளில் முடிவில் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். போதாயனர் : - போஜனம், ஹோமம் தானம், தின்பண்டம், தின்பது, ப்ரதிக்ரஹம், ஹவிஸ்லைப்பகுப்பது இவைகளில் இருமுறை ஆசமனம். வ்யாஸரும் : - ஹோமம், போஜனம், இருஸந்த்யாவந்தனங்கள், இவைகளிலும் ஜபம், தானம், தேவழுஜை இவைகளிலும் இருமுறை ஆசமனம், . விஷ்ணுவும் : - வீதியில் நடந்தாலும், மலமுத்ரவிஸர்ஜனம் செய்தாலும், உலர்ந்த பஞ்சநகங்களின் எலும்பைத் தொட்டாலும், சண்டாளனுடனும், மலேச்சனுடனும் ஸம்பாஷித்தாலும் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். (ஜந்துநகங்களுடன் கூடிய உடும்பு, முயல் முதலிய ப்ராணிகள் பஞ்சநகங்களைப்படும்.)

शङ्खः—स्नाने भोजनकाले च सन्ध्ययोरुभयोरपि । आचान्तः पुनराचामेज्जपदानाचनीषु च इति । कूर्मपुराणेऽपि – प्रक्षाल्य पाणी पादौ च मुज्जानो द्विरूपस्पृशेत् । शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वा च द्विरूपस्पृशेत् । ओष्ठौ विलोमकौ स्पृश्वा वासो विपरिधाय च । रेतोमूत्रपुरीषाणामुत्सर्गं शुक्त भाषणे ॥ श्रीवित्वाऽध्ययनारम्भे कासश्वासागमे तथा । चत्वरं वा इमशानं वा समागम्य द्विजोत्तमः । सन्ध्ययोरुभयोस्तद्वाचान्तोऽप्या- चमेत्ततः इति । शुक्तभाषणं = निष्ठुरभाषणम् ।

संक्षिप्तः - सन्नानम्, पोजूनम्, इरण्णु
लन्त्येयकर्ता, जपम्, तानम्, पूज्जे इवेकालील
इरुमुरै आचमनम् चेय्यवेण्णुम्.
कार्मपुराणत्तिलुम्:- पोजूनत्तिन्निरुमुनि केकलौयम्
कालकलौयम् अलम्पि इरुमुरै आचमनम्
चेय्यवेण्णुम्. सत्तमाण प्रतेकत्तिल उट्कार्नन्तु
पोजूनम् चेय्तु, प्रिरुम्, इरुमुरै आचमनम्
चेय्यवेण्णुम्. मयीरीललातवीटत्तिल उत्तुकलौत
तेत्ताटुवतु, इटुप्पु वल्त्तरत्तत्त अविम्त्तुक कट्टिक
केळालौतल, स्कलम्, मूत्रम्, मलम् इवेकलौ विटुतल,
निष्टुरमाकप पेसुतल, तुप्पुतल, अत्ययनत्तत्त
आरम्पित्तल, कालम्, स्वालम् इवेकलौ वरुतल,
नार्नचन्ति, मयानम् इवेकलौकुच चेल्वतु, इरण्णु
लन्त्येयकर्ता इवेकालील इरुमुरै आचमनम् चेय्य
वेण्णुम्.

भरद्वाजः - स्नानपानक्षुतस्वापहोमभोजनकर्मसु । रथ्योपसर्पणे
मूत्रविदुत्सृष्टौ द्विराचमेत् ॥ जपे इमशानाक्रमणे परिधाने च वाससः ।
चत्वरा क्रमणे चैव द्विजातिर्द्विरुपस्पृशेत् इति । हारीतो विशेषमाह -
श्रौतस्मार्तेषु गार्हेषु कृत्येषु विधिवद्वधः । द्विराचामेत्तु सर्वत्र
विष्मूत्रोत्सर्जने ब्रयम् इति । स्मृत्यर्थसारे - आस्यगतश्मशुस्पर्शे
अलोमकोषस्पर्शे दन्तसक्तस्य जिह्या स्पर्शे रथ्योपसर्पणे
अस्त्रहपञ्चनखास्थिस्पर्शने रोदने विष्मूत्रशौचान्ते पीत्वा चालीढे
दन्तसक्तं निष्ठीव्य देवताभिगमने च द्विराचामेत् । स्नात्वा पीत्वा
सुस्वाधोवासो विपरिधायाभ्यन्ने कृते हविर्भक्षणे च द्विराचामेत् इति ।

परत्वाजूरः :- सन्नानम्, पाणम्, तुम्मल, तुक्कम्,
लेहामम्, पोजूनम्, वैति यिल चेल्लुतल,
मलमूत्रविसर्जनम्, जपम्, स्मृतानत्तिन्न चेल्लुतल,
वल्त्तरम् कट्टिक केळाला वेळीयिल चेल्लुतल,
इवेकालील प्राम्लूणन्न इरुमुरै आचमनम्
चेय्यवेण्णुम्. ऊर्णीत्तर विचेष्टम चेल्लुकिरुरः -

ச்செரளதம், ஸ்மார்த்தம், கார்ஹ்யம் என்ற கர்மங்களைல்லாவற்றிலும் விதிப்படி இருமுறை ஆசமனம். மலழுத்ரத்யாகத்தில் மூன்றுமுறை ஆசமனம். ஸ்மிருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- வாயினுட் சென்ற மீசையைத் தொடுதல், மயிரில்லாத உதடுகளைத் தொடுதல், பல்லில்சிக்கியுள்ளதை நாக்கினால் தொடுதல், வீதியிற் செல்லுதல், ஐந்துநகமுள்ள ப்ரராணியின் ஈரமில்லாத எலும்பைத் தொடுதல், அழுதல், மலழுத்ரவிஸர்ஜன செளசம், வாயில் ஸ்பர்சித்துப் பானம், பற்களில் சிக்கியதைத் துப்புதல், தேவதர்சனம் இவைகளில் இருமுறை, ஆசமனம். ஸ்நானம், பானம், நித்ரை, இடுப்பு வஸ்தரத்தை அவிழ்த்துக் கட்டிக் கொள்ளுதல், எண்ணென்ற தேய்த்துக் கொள்ளுதல், ஹவிஸ்னை பகுத்தல் இவைகளிலும் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்஬ः—**इयावान्तपर्यन्तावोष्टावुपस्पृश्याचामेत् इति ।**
 அत्र द्विरित्यनुवर्तते । அலोமகः प्रदेशः इयावः तस्यान्तः सलोमकः । तत्पर्यन्तावोष्टावुपस्पृश्य द्विराचामेदित्यर्थः । षट् त्रिंशन्मते – அபேய் ஹி ஸ்தா தோய் ராத்ரௌ மத்யமயாமயோ : ஸ்தாந் தந் குர்வித ததைவாசமனக்ரியாமு மூஞ்சாரே மஹாராத்ரௌ குர்யாநாசமனந் து ய : । ப்ராயஶ்ரித்தியதே தத் ப்ராஜாப்த்யார்஧மர்ஹதி இதி ।

ஆபஸ்தம்பரः:- மயிரில்லாத இடத்தில் உதடுகளைத் தொட்டால் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். **ஓட்டரிம்சண்மதத்தில்**:- இரவில் 2-வது 3-வது யாமங்களில் ஜலலத்தைப்பரூக்க்கூடாது. ஸ்நானமும் செய்யக்கூடாது. ஆசமனமும் செய்யக்கூடாது. நடுராத்ரியில் மூத்ர விஸர்ஜனம், மலவிஸர்ஜனம் செய்து எவன் ஆசமனம் செய்யவில்லையோ அவன் ப்ரராயச்சித்தத்திற்கு அர்ஹனுகிறுன். ப்ரராஜாபத்யக்ருச்ரத்தின் பாதியை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

आचमनापवादः

अथाचमनापवादः तत्र याज्ञवल्क्यः - मुखजा विष्प्रषो मेध्यास्तथाऽचमनबिन्दवः । इमश्रु चास्यगतं दन्तसक्तं त्यक्त्वा ततः शुचिः इति । अस्यार्थः - 'मुखनिः सृत लालाबिन्दवो मेध्याः, नोच्छिष्टकुर्वन्ति अङ्गे अनिपतिताश्वेत् । तथा आचमने ये बिन्दवः पादौ स्पृशन्ति ते मेध्याः । इमश्रु चास्यप्रविष्ट मुच्छिष्टं न करोति । दन्तसक्तं चान्नादिकं स्वयमेव च्युतं दन्तात् त्यक्त्वा शुचिर्भवति । अच्युतं तु दन्तसमम् इति । अत्र गौतमः - न मुख्या विष्प्र उच्छिष्टं कुर्वन्ति न चेदङ्गे निपतन्ति इति ॥ । अतो नात्राचामेदिति भावः । अङ्गस्पर्शे तु मलस्पर्शनिभित्ताचमनं भवत्येव ॥ आपस्तम्बस्तु - य आस्याद्विन्दवः पतन्त उपलभ्यन्ते तेष्वाचमनं विहितम्, ये भूमौ न तेष्वाचामेदित्येके इति ॥ अस्यार्थः - भाषमाणस्य आस्यात् पतन्तो ये लालाबिन्दवः उपलभ्यन्ते, चक्षुषा स्पर्शनेन वा तेष्वाचमनं विहितम् । ये भूमौ बिन्दवः निपतन्ति, न शरीरे, तेषु नाचामेदित्येके मन्यन्ते इति ।

आचमनात्तिर्हकु वीलकंकु

छिणी आचमनात्तिर्हकु वीलकंकु चेालंलप्पटुकिरतु. अतिल, याकंकुवक्यारः - वायिणीन्ऱुम् वेवलीवन्त्त ज्ञलत्तुलीकलं सत्तत्तंकलं, उच्चिष्टाणुयंच चेयवत्तिलैल, तेहूत्तिलं विमामलिरुन्ताल, अव्वितमेआचमनकालत्तिलं एन्त ज्ञलत्तुलीकलं कालीलं पटुकिण्ऱनवेवा अवेकलं सत्तत्तंकलो. मीसे वायिणुट्पुकुन्तालुम् उच्चिष्टाणुकुवत्तिलैल. पर्हकलीलं शिक्कियुलापरुक्केमुत्तवियतु तागुकुन्तमुविगुलं अतेप्प परिहरीत्तुक्षत्तगुकिरुन्. अतु नमुवाविष्टिलं पर्हकलुक्कुसंचमाक्यते. छिंकु चेळात्तमारः - वायिलुलां ज्ञलत्तुलीकलं तेहूत्तिलं विमाविष्टिलं असत्तत्तगुकुवत्तिलैल एन्किरुर्. आकेयालं छिंकु आचमनम् वेण्णुवत्तिलैल एन्ऱु अपिप्रायम्. तेहूत्तिलं

படுமாகில் மலஸ்பர்சத்தில் விதிக்கப்பட்ட ஆசமனம் செய்யவேண்டியதே. ஆபஸ்தம்பரோ வெனில்:- பேசுகின்றவனின் வாயிலிருந்து விழும் எந்த ஜலத்துளிகள் கண்ணே லோ, ஸ்பர்சத்தாலோ அறியப்படுகின்றனவோ, அவையின் விஷயத்தில் ஆசமனம் விதிக்கப்படுகிறது. 'எந்தத் துளிகள் பூமியில் விழுகின்றனவோ, சரீரத்தில் விழுவில்லையோ, அவைகள் விஷயத்தில் ஆசமனம் வேண்டாம் எனச் சிலர் அபிப்ராயப்படுகின்றனர், என்று ஸ்மத்ரத்தின் பொருள்.

வேதாங்காரணத்து஗ௌதம: — மந்த்ரங்காரணமுத்தாரயதோயே ஬ிந்஦வ: ஶரீர உபலभ்யந்தே ந தேவாசமனம் இதி । மனு: — நோஞ்சிஷ்ட குருதே முख்ய விபூஷோऽங்ந யாந்தியா: । ந ஶமஶ்ரூபி ஗தாந்யாஸ்ய ந ஦ன்தாந்தர விஷிதம் இதி । ஸ்மृத்யர்த்தஸாரே — முக்கா விபூஷஸ்முக்மா: ஶுஞ்சாஸ்வாஶ பராஶ்வ தா: । முக்கா விபூஷ: ஶுஞ்சா ய஘ங்ந பதன்திதா: । அங்காதேது பிரக்ஷால்ய ஆசாமேஞ் பரஸ்ய ச । வேதாந்யாஸ முக்காஜாதா: ஶுஞ்சா ஏவ து ஸர்வா இதி ।

வேதமுச்சரிக்கும் விஷயத்திலோவெனில், கெளாதமர்:- வேதத்தை உச்சரிப்பவனின் வாயிலிருந்து வந்த ஜலத்துளிகள் சரீரத்திலிருந்து விழுந்து காணப்படினும், அவைகள் நிமித்தமாய் ஆசமனம் வேண்டியதில்லை. மனு:- முகத்திலிருந்து வெளிவந்த ஜலத்துளிகள் தேஹத்தில்படாவிடில் அவனை உச்சிஷ்டங்குக்குவதில்லை. வாயிற்குள்சென்ற மீசைகளும், பற்களின் நடுவிற்சிக்கியுள்ளதும் உச்சிஷ்டங்குக்குவதில்லை. ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- முகத்தினின்று வெளிவந்த சிறிய ஜலத்துளிகள் தனதுடையதாயினும், பிறருடையதாயினும் சுத்தங்களே. அந்தத்துளிகள் தேஹத்தில் விழாவிடில் சுத்தங்கள். தேஹத்தில் விழுந்தவைகளானால் அவற்றைத் துடைத்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும். பிறனுடையதன் விஷயத்திலும் அப்படியே. வேதாப்யாஸகாலத்தில் வாயிலிருந்து வந்த துளிகள் எப்பொழுதும் சுத்தங்களேயாம்.

आचमनबिन्दवस्त्वङ्स्पृष्टा अपि मेध्याः । तथा च मनुः -
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान् । भूमिगैस्ते समा ज्ञेया न
तैरप्रयतो भवेत् इति । अत्र परानाचामयतः पादाविति सम्बन्धः ॥
बोधायनोऽपि - स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान् । न तै
रुच्छिष्टभागः स्यात्तुल्यास्ते भूमिगैः सह इति ।
पादग्रहणमवयवान्तरस्याप्युपलक्षणार्थम् ॥ तथा च यमः -
प्रयान्त्याचामतो याश्च शरीरे विप्रुषो नृणाम् । उच्छिष्ट दोषो नास्त्यत्र
भूमितुल्यास्तु ताः स्मृताः इति ।

ஆசமன ஜலத்துளிகளால் அவை
தேஹத்திற்பட்டாலும் சுத்தங்களே. அவ்விதமே மனுः -
பிறரை ஆசமனம் செய்விப்பவனின் பாதங்களில் எந்த
ஆசமனஜலபிந்துக்கள் விழுகின்றனவோ, அவைகளால்
அவன் அசுத்தனவுதில்லை. அந்த ஜலபிந்துக்கள்
ழுமியிலுள்ள உச்சிஷ்ட ஜலபிந்துக்களுக்குச் சமமென
அறியத்தக்கவை. போதாயனாரும்:- பிறருக்கு ஆசமனம்
செய்விப்பவனின் பாதங்களைத்தொடும் ஜலத்துளிகளால்
அசுத்தி ஏற்படுவதில்லை. அத்துளிகள் ஷுமியிலுள்ள
ஜலத்துளிகளுக்குச் சமமாகியதால். இங்கு 'பாதங்களை'
என்றது இதர அங்கங்களுக்கும் உபலக்ஷணத்திற்காக.
அவ்விதமே, யமன்:- ஆசமனம் செய்பவனின்
ஜலத்துளிகள் சர்த்தில் விழுந்தால் அதுவிஷயத்தில்
உச்சிஷ்டதோஷமில்லை. அத்துளிகள் ஷுமியிலுள்ளவைக்குச்
சமமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளன.

श्मश्रुविषये विशेषमाह आपस्तम्बः — न इमश्रुभिरुच्छिष्टे
भवत्यन्तरास्ये सद्विर्यावच हस्तेनोपस्पृशति इति । अस्मादेव प्रतिषेधात्
ज्ञायते यत्किञ्चिदपि द्रव्यमन्तरास्ये सदुच्छिष्टताया निमित्तम् इति ।
दन्तलग्नविषये बोधायनः — दन्तवदन्तलग्नेषु दन्तसक्तेषु धारणम् । स्रस्तेषु
तेषु नाचामेत्तेषां संस्थानवच्छुचिः इति । दन्तलग्नदन्तसक्तयो

நிர்ஹர்யானிர்ஹர்யரूபேண மேதः । அத ஏவ ஦ேவலः - ஭ோஜன ஦ந்தலग்நானி
நிர்ஹர்யாசமனं சரேत् । ஦ந்தலग்நஸங்ஹர்யலேபं மந்யேத ஦ந்தவத् । ந தत्र வழுஶா:
குர்யாத்தமுஞ்சரண் பிரதி । மகேஷாநைசமத்யர்஥ வழுவே஧ாடுக்ரணே குதே இதி । ஸ்ஸ்தே
- ஸ்வஸ்஥ாநாஞ்சுதேஷித்யர்஥ः ।

மீசையின் விஷயத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,
ஆபஸ்தம்பர்:- மீசைமயிர்கள் வாயினுட்சென்றிருந்தால்,
கையால் தொடாதவரையில் உச்சிஷ்டஞாவதில்லை. இந்த
ப்ரதி ஷேதத்தால் ‘ஏதாவதொரு வஸ்து வாயினுள்
ளிருந்தால் அது அவனின் உச்சிஷ்டத்தன்மைக்குக்
காரணம்’ என்று அறியப்படுகிறது. பற்களில்
சிக்கியுள்ளதைப்பற்றிப் போதாயனர்:- ‘பற்களில்
சிக்கியுள்ள வஸ்துக்கள் விஷயத்தில் தந்தத்தைப் போல்
பாவிக்கவேண்டும். பற்களில் சிக்கியுள்ளவைகளைத்
தரித்திருக்க வேண்டும். அவை தன்னிடத்திலிருந்து
நழுவினால் ஆசமனம் வேண்டியதில்லை. அவைகள்
இருப்பதுபோலவே சுத்தஞகிறுன்’ என்றார். இங்கு
மூலத்திலுள்ள ‘லக்ன’ ‘ஸக்த’ என்ற பதங்களுக்கு,
முறையே பரிஹரிக்கக்கூடியது, பரிஹரிக்கக்கூடாதது,
என்று அர்த்தபேதம். ஆகையினாலேயே, தேவௌர்:-
‘போஜனகாலத்தில் பற்களில் சிக்கியவைகளைப்
பரிஹரித்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். பரிஹரிக்க
முடியாததாய்ப் பற்களிலொட்டியுள்ளவைகளைப் பற்களைப்
போல் பாவிக்க வேண்டும். அவைகளை எடுப்பதற்காக
அதிகமாய் ப்ரயத்னம் செய்யக்கூடாது. அதிகமாய்க்
குத்தியதால் காயமுண்டானால் அசுத்தியேற்படும்’ என்றார்.

தत्र மனु: — ஦ந்தவத்தலग்நே ஜிஹாஸ்பர்ணே ஶுचிர்ந் து ।
பரிச்சுதேஷ்வஸ்஥ாநாநி஗ிரநேவ தச்சுசிஃ இதி ॥ நி஗ிரன் - அந்த:
ப்ரவேஶயநித்யர்஥ः ॥ ஏவகாரஸ்தாசமனனிவृத்யர்஥ः । எதஞ் நி஗ிரன்
யாஜவல்க்யोக்தேன த்யாగேன விகல்யதே ॥ கேசித் - ‘ஜிஹாமிமஸ்நீங்பி
யாவஞ்சுதிர்ந் ஭வதி தாவஞ்சுநிர்த்யாஹ: ॥ யதாஹ ஗ௌதம: -

दन्तश्लिष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्शनात् प्राकच्युतेरित्येके ।
च्युतेष्वास्त्राववद्विद्यानिगिरन्वेत तच्छुचिः इति ॥ च्युतेषु - स्वयं
स्थानान्विर्गते । आस्त्रावः आस्यजलं, तद्विगिरन्वेत शुचिरित्यर्थः ।
दन्तश्लिष्टेषु दन्तवदित्येतच रसानुपलब्धौ वेदितव्यम् ॥

मनुः:- पर्नकणीलं सिंक्कियवेवयिनं विषयत्तिलं
पर्नकणोप्पोाळं पा॒वीक्कवुम्. ना॒क्किणुलं तेऽट्टा॑लं
सृ॒त्तनृ॑लं. अ॒सृ॒त्तनै॒. तनृ॒नी॒तृ॒त्तिलिरु॑न्तु अ॒वै
नृ॒मृ॒विणुलं अ॒तेत विमृ॒न्किणुलु॑म् सृ॒त्तनै॒कवे॒
रु॒क्किरु॑न्. ‘॒वै’ ए॒न्पतु आ॒चमनम्
वेण्ण॒टा॒मेन्पतृ॒क्का॑म. इ॒न्कु विमृ॒न्कला॒मेन्पतु
या॒क्कुव॒ल्क्क्यरा॑लं च॒काल॒ल॒प्प॒ट्ट त्या॒क्त्तु॒टनृ॑
विक॒ल॒प्प॒क्क॒प्प॒ट्टु॒किरु॑. विक॒ल॒प्पम् सम्मा॒क्यतु. शीलरः-
ना॒क्किणुलं तेऽट्टा॒लु॑म्, पल॒ली॑लं सिंक्कियतु
विमृ॒ा॒त्वरै॒यिलं सृ॒त्तनै॒, अ॒सृ॒त्तनृ॑लं ए॒न्किणृ॒नै॒र.
॒वैनै॒नी॑लं, अ॒वै॒तम् च॒काल॒लु॒किरु॑र् क॒कै॒त्तम॑रः-
पर्नकणील॒ला॒ट्टि॒यवै॒कणी॑लं पर्नकणोप्पोाळं
पा॒वीक्कवे॒ण्णु॑म्. ना॒क्किणुलं तेऽटु॒वै॒तत्त तवी॒र्त्तु.
‘नृ॒मृ॒वै॒तृ॒कु मृ॒न्वै॒रयिलं’ ए॒न्किणृ॒नै॒र शीलर.
नृ॒मृ॒वै॒यवै॒कणी॑लं उमि॒मृ॒न्नै॒रप्पोाळं पा॒वीक्कवुम्.
उमि॒मृ॒न्नै॒रप्पोाळं नृ॒मृ॒वै॒यतै॒यु॑म् विमृ॒न्किवी॒टला॑म्.
अ॒वै॒न सृ॒त्तनै॒ ए॒न्नै॒ बेप॑रु॑. ‘पल॒ली॑लं सिंक्कियत्तिलं
पल॒ल॒प्प॒प्पोाळं पा॒वीक्कवुम्’ ए॒न्नै॒ क॒कै॒त्तम॑र च॒काल॒ली॒यतु
रु॒क्कि तेही॒या॒वी॒टिलं ए॒न्नै॒ अ॒री॒यवुम्.

यदाह शङ्खः — दन्तवदन्तलश्लेषु रसवर्जमन्यत्र
जिह्वाभिमर्शनात् इति । एवं च यद्वसहीनं जिह्वास्पृष्टमनिर्हीयश्च,
तदन्तवत् । निर्हरणे आचमनम्, स्वयं च्युतेषु तु त्यागो निगिरणं वा
नाचमनमित्युक्तं भवति । स्मृत्यर्थसारे तु – दन्तवदन्तलश्च रसाज्ञाने
शुद्धम्, जिह्वया स्पर्शे त्वशुद्धम्, तत्र कर्णस्पर्शः, स्थानाच्युते च
निगिरन् त्यजन्वा कर्णं स्पृशेत् । यद्वा निगीर्य कर्णं स्पृशेत्

த்யக்த்வாட்சாமேத் । ரஸஜானே து நிர்த்ய ஦ிராசமனமிஷ்யதே । ஆஸ்ய
ஸங்ஶோ஧யைத்தாத் தந்தாங்ஶ மூடுயத்தா : । தந்தவேஷ மஹத் பாப் ரக்தம் மத்யஸம்
ஸ்மृதம் । ஏவ் குதே யது ஸ்஥ிதம் தன ச ஦ோஷாய ஸ்வர்஦ா ॥ அந்யஜாஸ்ய஗त் சைவ
மாசாந்தே த்வஶிஷ்டகம் இதி ।

ஈங்கார்:- ‘தந்தங்களைப் போல் பாவிக்கவும், ரஸத்தை வர்ஜித்து.
ரஸம் தெரிந்தால் இந்த விதிக்கு விலக்கு. நாக்கினால்
தொடுவதைத் தவிர்த்து’ என்கிறார். இவ்விதமிருப்பதால்,
எந்தவஸ்து ரஸமற்றதும், நாக்கினால் தொடக்கூடியதும்,
பரிஹரிக்கமுடியாததுமாயுள்ளதோ அது தந்தத்தைப்
போலுள்ளது. அதை யத்னத்தால் பரிஹரித்தால் ஆசமனம்.
அது தானாகவே நழுவினால் துப்பலாம், அல்லது
விழுங்கலாம், ஆசமனமில்லை என்று சொல்லியதாயா
கின்றது, ஸ்ம்ருத்யார்த்தலாரத்தில் பற்களில் சிக்கியது
பற்களைப் போன்றது, ரஸம் தெரியாவிடில் சுத்தம்.
நாக்கினால் தொடப்படுமாகில் அசுத்தம், அப்பொழுது
வலது காதைத் தொடவேண்டும். தன்னிடத்திலிருந்து
நழுவியதாகில் அதை விழுங்கி விட்டு, அல்லது
துப்பிவிட்டு, வலதுகாதைத் தொடவேண்டும். அல்லது
விழுங்கினால் காதைத் தொடவேண்டும். துப்பினால்
ஆசமனம் செய்யவேண்டும். ரஸம் தெரிந்தால்
துப்பிவிட்டு, இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.
வாயை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்து கொள்ளவேண்டும்.
பற்களையும் மெதுவாய் நன்றாய் சுத்தம் செய்து
கொள்ளவேண்டும். பற்களில் காயமுண்டானால்
பெரியபாபமுண்டாகும். ரக்தம் வந்தால் அது
மத்யத்திற்குச் சமமாகும். இவ்விதம் செய்த பிறகு
வாயிலுள்ளது தோஷாவஹமாகாது. ஆசமனம் செய்த
பிறகு வாயினுள் மீதியுள்ளதும் தோஷாவஹமல்ல.

அற ஓ஧ாயனः — தந்தவந்தலஶே யஜாப்யந்தர்முகே ஭வேத் ।
ஆசாந்தஸ்யாவஶிஷ்டஸ்யாநிர்வே தஞ்சுचி: இதி । அற ஶாதாதபः —

दन्तलग्ने फले मूळे भुक्तस्तेहे तथैव च । ताम्बूले चेक्षुखण्डे च नोच्छिष्टो भवति द्विजः इति । षट्क्रिंशन्मतेऽपि – ताम्बूले चैव सोमे च भुक्तस्तेहावशिष्टके । दन्तलग्नस्य संस्पर्शे नोच्छिष्टस्तु भवेन्नरः ॥ त्वयिः (अन्दिः) पत्रैर्मूलपुष्टैस्तृणकाष्ठमयैस्तथा । सुगन्धिभिस्तथा द्रव्यैः नोच्छिष्टो भवति द्विजः इति । दन्तलग्नस्य संस्पर्शे इति अनिर्हीर्यस्य दन्तलग्नस्य जिह्या संस्पर्शे सतीत्यर्थः ॥ अत्यन्तानिर्हीर्यभुक्तविषये देवलः - भुक्त्वाऽचामेयथोक्तेन विधानेन समाहितः । शोधयेन्मुखहस्तौ च मृदद्विर्घर्षणैरपि ।

இங்கு போதாயனர்:- பற்களில் சிக்கியவைகளும் வாயினுட்புறத்திலுள்ளதும் பற்களைப் போலவே பாவிக்கப்படும். ஆசமனம் செய்த பிறகு மீதியிருந்தால் அதை விழுங்குவதாலேயே சுத்தஞ்சிருன். இங்கு சாதாதுபர்:- பழம், கிழங்கு, போஜனத்தில் சேர்ந்த நெய் முதலியவை, தாம்பூலம், கரும்புத்துண்டம் இவைகள் பல்லில் சிக்கியதால் அசுத்தஞ்சிருவதில்லை. கூட்டுரிம்சன் மதுத்தில்:- தாம்பூலபக்ஷணம், ஸோமபானம், போஜனகாலத்தில் ஸம்பந்தித்த நெய் முதலிய த்ரவவஸ்து, பல்லில் வலுவாய் சிக்கியதை நாக்கினால் ஸ்பர்சித்தல் இவைகளால் ப்ரராம்ஹணன் அசுத்தஞ்சிருவதில்லை. பட்டைகள், இலைகள், வேர்கள், புஷ்பங்கள், புல்கள், கட்டைகள், நல்லவாஸனையுள்ள வஸ்துக்கள் இவைகளை பக்ஷிப்பதால் அசுத்தஞ்சிருவதில்லை. மிகவும் பரிஹரி க்கழுதியதாதுள்ள நெய் முதலிய த்ரவவஸ்துக்களின் விஷயத்தில், தேவலர்:- போஜனம் செய்த பிறகு சாஸ்த்ரோக்த மான விதிப்படி கவனமுள்ளவனுய் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். வாய், கைகள் இவைகளை ஜலம் மருத்திகை இவைகளால் தேய்த்து சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

அत्रिः:- மधுपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहृतीषु च । नोच्छिष्टदोषस्तु भवे दत्रेस्तु वचनं यथा इति ॥ अप्सु -

அமூதாபி஧ானமஸीत्यாदி உच்சிஷ்டஸ்ய மந்த्रோच்சாரணே ஦ோஷோ நாஸ்தித்யர்஥ः ।
வரிச்சோட்பி - பிராணாஹுதிஷு ஸோமே ச மधுபகே ததை ச । ஆஸ்ய ஹोமேஷு
ஸர்வேஷு நோச்சிஷோ ஭வதி டிஜः இதி ।

அத்ரி:- மதுபர்க்கத்திலும், ஸோமபானத்திலும், ஜலத்திலும், ப்ராணைஹாதிகளிலும் உச்சிஷ்டதோஷ மில்லையென்பது அத்ரியின் வசனமாம். இங்கு 'ஜலத்திலும்' என்பதற்கு, 'அம்ருதாபிதானமலி' என்பது முதலிய மந்த்ரங்களை உச்சரிப்பதில் உச்சிஷ்டஞ்சிருப்பவனுக்கு தோஷமில்லையென்பது பொருள். வளிஷ்டரும் :- ப்ராணைஹாதிகளிலும், ஸோம பானத்திலும், மதுபர்க்கத்திலும், வாயில் செய்யுமெல்லா ஹோமங்களிலும் ப்ராம்ஹணன் உச்சிஷ்டஞ்சில்லை.

மார்க்ஷேயः — ஆம்ரேக்ஷு஖ண்டதாம்஬ூல்சர்வே ஸோமபானகे ।
விஷ்வங்ஞிதோயபானே ச நாயந்தாசமனந் ஸமृதம् ॥ விஷ்ணுபாடோஞ்சுவं தீர்஥ீ
பீத்வா ந க்ஷாலயேத்கரம् இதி । வ்யாஸோட்பி - மதுபகே ச ஸோமே ச
தாம்஬ூலஸ்ய ச மக்ஷணே । ஫லமூலேக்ஷு஖ண்டேஷு ந ஦ோஷ ப்ராஹ வை மனு: இதி ॥
ஸமृத்யர்த்தஸாரோட்பி - அஸ்திரா ஔष்஠ே ஜங்஗ே ததைவாஜ்ஞோபலேபனே । தாம்஬ூலே
க்ரமுகே சைவ முக்தஸ்தேஹாநுலேபனே ॥ இக்ஷு஖ண்டே திலே மூலே பத்ரபுஷ்பலேஷு ச ।
ததா த்வக்குஷாஷேஷு நாசாமேதாமமக்ஷணே ॥ மதுபகே ச ஸோமே ச பிராணாஹுதிஷு
சாப்ஸு ச । ஆஸ்யஹேஷு ஸர்வேஷு நோச்சிஷோ ஭வதி டிஜः இதி ।

மார்க்கண்டேயர்:- மாங்கனி, கரும்பு, தாம்பூலம் இவைகளைப் பகவிப்பதிலும், ஸோமபானத்திலும், விஷ்ணுபாததீர்த்தத்தைப் பருகுவதிலும், ஆதியிலும் அந்தத்திலும் ஆசமனம் விதிக்கப்படவில்லை. விஷ்ணுபாததீர்த்தத்தைப் பருகினால் பிறகு கையை அலம்பக்கடாது. **வ்யாஸரும்:-** மதுபர்க்கத்திலும், ஸோமபானத்திலும், தாம்பூலபக்ஷணத்திலும், பழம், கிழங்கு, கரும்பு இவைகளைத்தின்பதிலும் உச்சிஷ்ட

तेऽप्यमिल्लयेन्किरुर् मनुः संमरुत्यार्त्तुलार
त्तुलिलुमः- कशीविल्लात मरुन्तेत्तस चाप्पिटुवतु,
अन्कन्कणीलि पूचिक्केकाळ्लुतल, ताम्प्लपक्षणम्,
पाक्केकत्तुन्पतु, चाप्पाट्टिल लम्पन्तित्त नेय
एन्नेण्णय मुतलीयतिन्प धर्म, करुम्पु, एन्स, किम्बुकु,
इलै, पू, पम्म, पट्टेकाळ, पुल्काळ कट्टेकाळ,
पक्कुमल्लातवस्तु इवेकलोप्प पक्कित्ताळ औसमनम्
वेवन्नियतिल्लै. मतुपर्ककम् लेलामपानम्,
प्रराणुलात्तिकाळ, ज्ञलम् इवेकलीलुम् वायिल चेय्युम्
लेलामन्कलोल्लावर्न्निलुम् प्रराम्लाणन्न
उक्किष्टग्नेवतिल्लै.

द्रव्यहस्तोच्छिष्टविषये मनुः - उच्छिष्टे न तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः
कथञ्चन । अनिधायैव तद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् इति ॥
द्रव्यमत्रानभ्यवहार्यवस्त्रादि ॥ मार्कण्डेयोऽत्र विकल्पमाह - उच्छिष्टेन
तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तो निधाय च । आचम्य द्रव्यमभ्युक्ष्य
पुनरादातुमर्हति इति । व्यासोऽपि - यद्यमत्रं समादाय
भवेदुच्छेषणान्वितः । अनिधायैव तद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ।
तैजसं द्रव्यमादाय यद्युच्छिष्टो भवेद्विजः । भूमौ निक्षिप्य
तद्रव्यमाचम्याभ्युक्षयेत्तु तत् ॥ वस्त्रादिषु विकल्पः स्यात्
तत्स्पृज्ज्वलेवमेवहि इति ॥ वस्त्रादिसहितस्य उच्छिष्टस्पृष्टौ
निधानमनिधानं वा कार्यमित्यर्थः ।

ऋग्वेष्टुवेवकं केयिलं तरीत्तिरुक्कुमं बेपामुतु
उक्किष्टग्नेन्नेल, अवन्स वीष्यत्तिल, मनुः- वस्त्रमं
मुतलीय तर्वयत्तेतकं केयिलं तरीत्तुलाल ऋग्वेष्टु
उक्किष्टग्नेन (असत्तग्नेन) मर्ग्गेभ्रुरुवग्नेल
तेऽप्पत्ताल, अन्तर्तर्वयत्तेतकं क्षेमे वेवक्कामले
औसमनम् चेय्ताल तत्तग्नेकिरुन्. इन्कु तर्वयमं
एन्पतु चाप्पिटक्कोटात वस्त्रमं मुतलीयताम्. इन्कु
वीकल्पम् लेलाल्लुकिरुर्. मार्कक्कन्नेटेयरः-

த்ரவ்யத்தைக் கையிலுடைய ஒருவன், உச்சிஷ்டஞால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால், அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து, அந்த த்ரவ்யத்தை ப்ரோக்ஷித்து மறுபடி எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

வ்யாஸரும்:- பாத்ரத்தைத் தரித்திருப்பவன் உச்சிஷ்டஞாலே அந்த த்ரவ்யத்தைக் கீழேவைக்காமலே ஆசமனம் செய்து சுத்தனாகிறான். வெண்கலம் முதலிய தாதுத்ரவ்யத்தைத் தரித்திருப்பவன் உச்சிஷ்டஞாலே அதைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து, அதை ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். வஸ்தரம் முதலியதை வைத்திருப்பவன் உச்சிஷ்டஞாலே இவ்விதமே ஆசமனம் செய்யவேண்டும். பூமியில் வைப்பதில்மட்டில் விகல்பம். பூமியில் வைத்தோ வைக்காமலோ ஆசமனம் செய்யலாமென்பதாம்.

போதாயனோ^१பி – தைசஸ் சேடாடாயோ^२சித்தி ஸ்யாத் தடு^३ஸ்யா சம்யா^४டாஸ்யந^५ந்தி: ப்ரோக்ஷே^६தெ^७ சே^८டநோ^९சித்தி^{१०}: ஸ்யாத் தடு^३ஸ்யா^४சம்யா^५டாஸ்யந^६ந்தி: ப்ரோக்ஷே^७தெ^८ சே^९டநோ^{१०}சித்தி^{११}: ஸ்யாத் தடு^३ஸ்யா^४சம்யா^५டாஸ்யந^६ந்தி: ப்ரோக்ஷே^७தெ^८ விபரீ^९தமந்த^{१०} இ^{११}தி || உ^{१२}ஸ்ய = நி஧ா^{१३}யே^{१४}த்ர^{१५}: | விபரீ^{१६}த = அ^{१७}நு^{१८}ஸ்யே^{१९}த யா^{२०}த^{२१}।

போதாயனரும்:- தாது பாத்ரங்களைத் தரித்திருப்பவன் உச்சிஷ்டஞாலே அதைக் கீழேவைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து எடுக்கும்போது ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். அன்னத்தைத் தரித்திருக்கும்பொழுது உச்சிஷ்டஞாலே இலத்தைத் தரித்திருக்கும்பொழுது உச்சிஷ்டஞாலே இலத்தைத் தரித்திருக்கும்பொழுது உச்சிஷ்டஞாலே அதைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து, எடுக்கும்பொழுது ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். அதாவது கீழே வைக்காமலே ஆசமனம் செய்யவேண்டும் என்பதாம்.

அம்யவஹா^{२२}யீ^{२३}விஷயே^{२४} வ^{२५}சிஷ்ட: – ப்ரசரந்யவஹா^{२६}யீ^{२७} உ^{२८}சித்த^{२९} ய^{३०}டி^{३१} ஸ்ப்ப^{३२}தெ^{३३} | மூ^{३४} நி஧ா^{३५}ய த^{३६}வ்யமா^{३७}சம்ய ப்ரசர^{३८}தெ^{३९}பு^{४०}: இ^{४१}தி || அ^{४२}ம்யவஹா^{४३}யீ^{४४}

- अन्वपानादिषु । प्रचरन् - परिवेषणं कुर्वन्नित्यर्थः । बृहस्पतिरपि - प्रचरन्नपानेषु यदोच्छष्टमुपस्पृशेत् । भूमौ निधाय तद्रव्यमाचान्तः प्रचरेत् पुनः इति ॥ गौतमोऽपि - द्रव्य हस्त उच्छिष्टो निधायाचामेत् इति । द्रव्यं - अभ्यवहार्यम् ॥ अत्र विशेषमाहतुः शङ्खलिखितौ - द्रव्यहस्त उच्छिष्टो निधायाचम्याभ्युक्षेद्रव्यम् इति ।

புஜிக்கக்கூடிய வஸ்துக்களின் விஷயத்தில் வளிஷ்டர்:- புஜிக்கக்கூடிய அன்னம் முதலியவைகளைப் பரிமாறுகிறவன் அந்த வஸ்துக்களுடன், மற்றொரு உச்சிஷ்டனை ஸ்பர்சித்தானுகில், அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து மறுபடி பரிமாறலாம். **ப்ரஹஸ்பதியும்:-** அன்னபானங்களைப் பரிமாறுகிறவன் உச்சிஷ்டனை ஸ்பர்சித்தானுகில், அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து மறுபடி பரிமாறலாம். **கௌதமரும்:-** த்ரவ்யத்தைக் கையில் வைத்திருப்பவன் உச்சிஷ்டனுள்ள அந்த த்ரவ்யத்தை பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்யவேண்டும். த்ரவ்யமென்பது புஜிக்கக்கூடிய வஸ்துவாம். இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகின்றனர். **சங்கவிகிதர்கள்:-** த்ரவ்யத்தைக் கையிலுடையவன் உச்சிஷ்டனுள்ள அந்த த்ரவ்யத்தை பூமியில்வைத்து ஆசமனம் செய்து, அந்த த்ரவ்யத்தை ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும், என்று.

हारीतोऽपि – उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन । भूमौ
निधाय तद्रव्यमाचम्याभ्युक्षणाच्छुचिः इति ॥ द्रव्यस्यैव
साक्षादुच्छिष्टत्वे परित्यागमाह वसिष्ठः - उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं
स्वयमुच्छिष्टोपहतं च इति । पकान्नमादाय मूत्रादिकरणे
श्लोकापस्तम्बः - भूमौ निक्षिप्य तद्रव्यं शौचं कृत्वा यथा विधि ।
उत्सङ्गोपात्तपकान्न उपस्पृश्य ततः शुचिः इति ॥ एतदापद्यशक्य
निधानद्रव्यविषयम् । अरण्येऽनुदके रात्रौ चौरब्याद्वाकुले पथि । कृत्वा

மூன்புரிஷं வா இவ்யஹஸ்தो ந துப்யதி இதி வ௃ஹஸ்பதிஸ்மரणாத् ॥

ஹார்தரும்:- த்ரவ்யத்தைக் கையிலுடையவன் உச்சிஷ்டங்கள் தொடப்பட்டால், அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில் வைத்து ஆசமனம் செய்து, த்ரவ்யத்தைப் ப்ரோக்ஷித்துச் சுத்தனாக்கிறார். த்ரவ்யத்திற் கே ஸாக்ஷாத்தாக உச்சிஷ்ட ஸ்பர்சமேற்பட்டால், த்ரவ்யத்தைப் பரித்யாகம் செய்யவேண்டுமென்கிறார், வளிஷ்டர்:- குருவல்லாதவரின் உச்சிஷ்டம் புஜிக்கத் தகுந்ததல்ல. ஸாக்ஷாத் உச்சிஷ்ட ஸ்பர்சத்தால் அசுத்தமாகியதும் புஜிக்கத் தகுந்ததல்ல. பக்குவமான அன்னத்தை வைத்துக்கொண்டு, மூத்ராதி. விஸர்ஜனம் செய்யும் விஷயத்தில் க்லோகாபஸ்தம்பர்:- அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில் வைத்து விட்டு, விதிப்படி செனசம் செய்து கொண்டு, மடியில் பக்வான்னத்தை வைத்துக்கொண்டு, பிறகு ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாக்கிறார். இது ஆபத்காலத்தில் கீழேவைக்கழுதியாத த்ரவ்யத்தைப் பற்றியது. ஏனெனில் “காட்டிலும், ஜலமில்லாத விடத்திலும், இராத்திரியிலும், திருடர் புலியுள்ளமார்க்கத்திலும், த்ரவ்யத்தைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு மூத்ரவிஸர்ஜனம், மலவிஸர்ஜனம் செய்தாலும் தோஷத்தையடைவதில்லை” என்று ப்ரஹஸ்பதி விதித்திருப்பதால்.

மார்ணவேஸ்து ஶௌचமப்யநி஧ாயை கார்யமித்யாह - பகாநே ஗ृहीतेन மूत्रोच्चारं கरोति யः । அநி஧ாயை தத்தியமங்கே கृत्वा ஸமாஶிதம् । ஶௌचं கृत्वा யथாந்யாயமுபஸ்பृश्य யथாநி஧ி । அந்மம்யுக்ஷயேஞ்சை முழுத்யாக்ஸ்ய ஦ர்ஶயேத् ॥ த்யக்த்வா தத்தாஸமாந்வா ஶேஷ ஶுद்஧ிமாபுயாத् இதி । ஸ்மृத்யர்஥ஸாரே - வக்ஷாடிஸஹித உச்஛ிஷ்டஶேத்தால்஭்யங்கே நி஧ாய தத்ஸஹித ஆசாந்தः ஶுத்யேத् । நி஧ாய வா¹²சம்ய வக்ஷாடி ப்ரோக்ஷேத् ॥ அந்பாநாடிஹஸ்த உச்஛ிஷ்டஶேநி஧ாய சம்ய ப்ரோக்ஷேத்நாடிரக்ஷாஶக்தௌ தால்஭்யங்கே நி஧ாய வா ஶௌசாசமநே

कुर्यात् । परिवेषणं कुर्वन्मूच्छिष्ट स्पृष्टौ अनं निधायाचम्य परिविष्यात् । परिवेषणं कुर्वन्मूच्छिष्टश्चेत् अन्वादि निधाय शौचाचमने कृत्वा ऽन्वादि प्रोक्ष्य अग्निमर्कं वा संस्पर्शं परिविष्यात् । परिवेषणे रजोदृष्टौ तत्स्पृष्टान्त्यागः इति ।

मार्ककाण्डेयरोबेवनीः:- त्रर्वयत्तते वैवक्कामले चेलाचमुम्बं चेय्यं वेण्टु मेमन्किरुरः-पक्वान्नत्तते वैवत्तुक्केकाण्डे मलमूत्तरं विसर्जनमं चेय्तवनं, अतेपं प्रूमियिलं वैवक्कामले मध्यिलं वैवत्तुक्केकाण्डु, न्यायप्पद्यं चेलाचमं चेय्तु, वित्तिप्पद्यं आचमनमं चेय्तु, अन्नत्तते प्रोक्षित्तु, अतेऽनुत्तु शार्मयनुक्तुकं काण्पीक्कं वेण्टुम्. अतिलं कपलामात्रमावतु ऎनुत्तु एवीन्तु विट्टालं मीठियुलं शत्तमाकिन्नर्तु. लंम्गुत्तयारत्तलारत्तिलः-वस्तरमं मुत्तवियतुकाण्डनं कूटियवनं उच्चिष्टाण्णलं, अतेत्त तेऽनुक्केकाण्डु, अल्लतु मध्यिलं वैवत्तुक्केकाण्डु अत्तुटनं कूटियवनुयं आचमनमं चेय्तालं सत्तताण्णलकिरुन्. अल्लतु अतेपं प्रूमियिलं वैवत्तुविट्टु आचमनमं चेय्तु, अन्त वस्तरमं मुत्तवियतेऽप्रोक्षिक्कं वेण्टुम्. अन्नपाणमं मुत्तवियतेकं कैव्यिलुटेयवनुयं उच्चिष्टाण्णलं अतेक्किमेऽवैत्तु आचमनमं चेय्तु प्रोक्षिक्कं वेण्टुम्. अन्त अन्नपाणेत्तिकौक्किमेऽवैत्तु रक्षिक्कं मूटियाविट्टिलं अतेत्त तेऽनुक्केकाण्डु, अल्लतु मध्यिलं वैवत्तुक्केकाण्डु, चेलाचमं आचमनमं इवेकौक्किमेऽवैत्तुम्. परिमारुकिरवनं उच्चिष्टात्ततालं लंपर्सिक्कप्पट्टालं अन्नत्तते वैवत्तुविट्टु आचमनमं चेय्तु परिमारुवेण्टुम्. परिमारुकिरवनं मूत्तरविसर्जनेत्तिकौलालं उच्चिष्टाण्णलं, अन्नमं मुत्तवियतेऽवैत्तुविट्टु, चेलाचमाचमनमुम्बं चेय्तु, अन्नमं मुत्तवियतेऽप्रोक्षित्तु, अक्किमि अल्लतु शार्मयैलं लंपर्सिक्कक्कस्

செய்து பரிமாறுவேண்டும். பரிமாறும் போது ஸ்த்ரீக்கு ரஜோதார்ச்சனமானால் அவள் தொட்ட அன்னத்தைப் பரித்யாகம் செய்யவேண்டும்.

एवमुक्तलक्षणस्याचमनस्य प्रशंसामाह व्याघ्रपादः – य एवं
ब्राह्मणो नित्यमुपस्पर्शनमाचरेत् । ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तं जगत् स
परितर्पयेत् इति ॥ आचमनाकरणे प्रत्यवायो दर्शितः
स्मृतिचन्द्रिकायाम् – यः क्रियाः कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः ।
भवन्ति हि वृथा तस्य क्रियाः सर्वानि संशयः इति ।

இவ்விதம் சொல்லிய லக்ஷணங்களையுடைய
ஆசமனத்தின் ப்ரசம்னையைச் சொல்லுகிறார்,
வ்யாக்ரபாதூர்:- எந்த யிராமம் ஹனன் நித்யமும் இவ்விதம்
ஆசமனம் செய்கிறுகே, அவன் ப்ரம்ஹா முதல் புழு
வரையிலுள்ள உலகத்தை த்ருப்தமாய்ச் செய்கிறான்.
ஆசமனம் செய்யாவிடில் தோஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
ஸ்மர்த்திசந்த்ரியகையில்:- எவன் நாஸ்திகனும் ஆசமனம்
செய்யாமலே க்ரியைகளைச் செய்கிறுகே, அவனுடைய
க்ரியைகளைவாய்விட்டுக் கூடின்றன. ஸம்சயமில்லை.

दन्तधावनविधिः ।

तत्रात्रिः — मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । तदार्दकाष्ठं
शुष्कं वा भक्षयेदन्तधावनम् इति । भरद्वाजः — प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ
मुखं चाथ यथाविधि । आचम्य प्राङ्गुखः स्थित्वा दन्तधावनमाचरेत् ॥
आयुरित्यादिमन्त्रोऽयमुक्तः शाखाभिमन्त्रणे । विनाऽभिमन्त्रणं तूष्णीं
वृथा स्यादन्तधावनम् ॥ अस्य प्रजातिः क्रषिच्छन्दोऽनुष्टुप्वनस्पतिः ।
देवतेति हृदि स्मृत्वा मन्त्रारम्भे वदेद्वृधः इति ॥ बोधायनोऽपि —
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिर्भूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण
भक्षयेदन्तधावनम् ॥ मन्त्रोऽपि — आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजापञ्चुवसूनि
च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं चो देहि वनस्पते इति । अभिमन्त्र्य हृतां

शाखां मन्त्रेणानेन वै द्विजः । अथ ऊर्ध्वक्रमेषैव धावयेच्छाखया तया ॥
बामभागं समारम्य प्रादक्षिण्यक्रमेण तु इति ॥

पल्लुलक्कुम्ब मुण्ड

இனி பல்லுலக்கும்விதி சொல்லப்படுகிறது. அதில் அத்ரி:- ப்ரதிதினமும், வாய் பழைமையுடையதாவதால் மனிதன் அசுத்தனைகிறார். ஆகையால், பச்சையல்லது காய்ந்த குச்சியால் பற்களைச் சுத்தமாக்க வேண்டும். பரதவாஜர்:- பிறகு கால்கைகள் முகம் இவைகளை அலம்பி ஆசமனம் செய்து கிழக்கு நோக்கியவனுயிருந்து தந்ததாவனத்தைச் (பற்களின் சுத்தியை) செய்ய வேண்டும். தந்ததாவன காஷ்டத்தை அபிமந்தரிக்கும் மந்த்ரம் (ஆயு:) என்பதை முதலிலுடையது. அபிமந்தரனமில்லாமல் செய்த தந்ததாவனம் பயனற்றாகும். இந்த மந்த்ரத்திற்கு ப்ரஜாபதி ருஷி, சந்தஸ் அனுஷ்டுப், வனஸ்பதி தேவதை, என்று மனதில் த்யானித்து மந்த்ராரம்பத்தில் சொல்லவேண்டும். போதாயனரும்:- எழுந்து கண்களை அலம்பி, சுத்தனைய், கவனமுடையவனுயிருந்து, மந்த்ரத்தை ஜபித்து, காஷ்டத்தால் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். மந்த்ரமும்:- 'ஆயுர்பலம்' என்பது முதலியது. ஓ குச்சியே எங்களுக்கு ஆயுள், பலம், யசஸ், தேஜஸ், ப்ரஜைகள், பசுக்கள், தனங்கள், வேதம், ப்ரஜ்ஞை, மேதை இவைகளை நீ கொடுக்க வேண்டும்' என்று. இந்த மந்த்ரத்தால் தந்தகாஷ்டத்தை அபிமந்தரித்து அதனால் சீழ்மேல் என்ற க்ரமமாய் இடது பாகத்திலாரம்பித்து ப்ரதக்ஷிணமாய் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.

व्यासः - प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्विस्समाहितः ।
दक्षिणं बाहुमुद्घृत्य कृत्वा जान्वन्तरं ततः ॥ आचम्य प्राङ्गुखः
पश्चादन्तधावनमाचरेत् इति ॥ शाष्ठिल्यः - बाहु जान्वन्तरा कृत्वा
कुक्षुटासनमास्थितः । तर्पणाचमनोल्लेख्यदन्तशुद्धीः समाचरेत् इति ॥

याज्ञवल्क्यः - शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिद्विजः ।
 प्रातस्सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ कण्टकिक्षीरिवृक्षोत्थं
 द्वादशाङ्गुलसम्मितम् । कनिष्ठिकाग्रवत् स्थूलं पूर्वार्धकृतकूर्चकम् ॥
 दन्तधावनमुद्दिष्टं जिह्वालेखनिका तथा इति ॥ विष्णुः - वितस्तिमात्र
 मृजु च कीटाग्निभिरदूषितम् । प्राङ्गुखश्रोपविष्टस्तु भक्षयेद्वाग्यतोऽत्वरः
 इति ॥ स्मृत्यन्तरे - शाखां विदार्य तस्यास्तु भागेनैकेन माजर्येत् ।
 जिह्वां ततो द्वितीयेन गृहस्थश्च अतिस्तथा इति ॥

வ்யாஸர்:- கால், கைகள், முகம் இவைகளை ஜிலத்தால் அலம்பி, கவனமுடையவனும், முழங்கால் கருக்கு நடுவில் கையை வைத்துக்கொண்டு உபவீதியாய் ஆசமனம் செய்து, பிறகு கிழக்கு நோக்கியவனும் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். சாண்டில்யர்:- குக்குடாஸனத்திலிருப்பவனும், கைகளை முழங்கால் கருக்கு நடுவில் வைத்துக்கொண்டு, தர்ப்பனம், ஆசமனம், உல்லேகனம், தந்ததாவனம் இவைகளைச் செய்யவேண்டியது. யாக்ஞவல்க்யர்:- ப்ரராம்ஹனை மலமுத்ரவிஸர்ஜனம் செய்து, சௌசம் செய்துகொண்டு, தந்ததாவனம் செய்து காலை ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யவேண்டும். முள்ளுள்ளது, அல்லது பாலுள்ளதான் மரத்திலுண்டாகியதும், பன்னிரண்டு அங்குலம் நீளமுள்ளதும், சண்டுவிரவின் நுனியளவு பருமனுள்ளதும், முன்பாகத்தில் தட்டப்பட்டதுமாய், தந்ததாவனகாஷ்டமிருக்க வேண்டும். நாக்கைச் சுத்தம் செய்யும் காஷ்டமும் அதுபோலவே இருக்க வேண்டும். விஷ்ணு:- ஒட்டைநீளமுள்ளதும், ருஜாவானதும், புழுக்களாலும், நெருப்பினாலும் கெடுக்கப்படாததுமான காஷ்டத்தை க்ரஹித்து, கிழக்குமுகமாய் உட்கார்ந்து கொண்டு, மெளனியாய், மெதுவாய் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். மற்றொரு ஸ்மருதியில்:- க்ருஹஸ்தனும். யதியும், தந்ததாவனகாஷ்டத்தை

श्रीरामंटाय छृष्टतंत्र, छन्नरीगेल तन्त्रतावनतंत्रयम्,
मर्हताल नाक्किं शक्तियय्यम् चेयंत्र
केळाळवेण्टुम्.

दन्तधावनकाष्ठानि ।

हारीतः - सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्कराः ।
अष्टाङ्गुलेन मानेन दन्तकाष्ठमिहोच्यते ॥ प्रादेशमात्रमथ वा तेन दन्तान्
विशोधयेत् । खदिरश्च कदम्बश्च करञ्जः करजस्तथा ॥ त्रसिनी वेणुः
पृथ्वी च जम्बूर्निम्बस्तथैव च । अपामार्गश्च बिल्बश्च
अर्कश्चोदुम्बरस्तथा ॥ एते प्रशस्ताः कथिताः दन्तधावनकर्मणि इति ॥
शौनकः - विज्ञातवृक्षं क्षुण्णाग्रं मृजुदुर्गन्धवर्जितम् । सत्त्वक्तु दन्तकाष्ठं
स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत् इति ॥ अज्ञिराः - आम्र
पुन्नागबिल्बानामपामार्ग शिरीषयोः । भक्षयेत् प्रातरुत्थाय वाग्यतो
दन्तधावनम् इति ॥

पल्तुलकंकुवत्तरंकुरीय कुक्कीकलं

ह्यार्तीताः - मुलंगुलं लंला वंगुक्षुन्कगुलम्
पुंयमंतरुम् . पा लु लं ला व क ल लं ला मं
किर्त्तियत्तरुम्. अन्त वंगुक्षुन्कगुलिन्नुलेटयतुम्, लट्टु
अंकुलमलवुलंलतुम्, अल्लतु ओट्टेटयलवुलंलतुमा
यिरुक्क वेण्टुम्. अन्त परंकुक्कीयाल अतगुल
तन्त्रतावनम् चेय्यवेण्टियतु. कातिरम् (करुन्काली)
कतम्पम (कटम्पे) करुंक्सम् (पुंकु) करजम् (सारटे)
तरलिले (कला) वेण्णु (मुंक्किले) प्रुत्तवी
(वेण्णमन्तारे) जम्पु (नावले) निम्पम (वेम्पु)
अपामार्कम (नायुरुवी) प्रिल्वम, अर्ककम (एरुक्कु)
उत्तुम्परम (अत्तु) इन्त वंगुक्षुन्कगुलं तन्त्रतावनत्तिरुक्क
चिरन्तवेकल.

केळाळकारः - तेवीन्त वंगुक्षुत्तिन्नुलेटयतुम्,
नक्ककप्पट्ट नुनीयलेटयतुम्, रुज्जावाक्कियतुम्,

துர்கந்தமில்லாததும், தோலுடன் கூடியதுமாய் தந்தகாஷ்டமிருக்க வேண்டும். அதன் நுனியினால் துலக்கவேண்டும். அங்கிரஸ்:- மா, புனை, பில்வம், நாய்ருவி, வாகை இவைகளின் காஷ்டத்தால், காலையிலெழுந்து மெளனியாய், தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸः - பிரக்ஷால்ய ஦ந்தகாஷ்டं வை ஭க்ஷயेत்து வி஧ானதः । மध்யாஜ்ஞலி
समस्थौल्यं द्वादशाज्ञुलसंमितम् ॥ सत्वचं दந்தகாஷ்டं स्यात्तस्याग्रेण तु
धாவयेत् । क्षीरिवृक्ष समुद्रूतं மாலதீஸம்஭வं ஶுभम् ॥ அபாமார்ச வில்வं
च கர்வீரं விஶேஷதः ॥ திக்த கஷாயகடுக் ஸு஗ந்தி கடுகாந்திதம் ।
க்ஷீரிணோ வृக்ஷगுலமாடிந் மக்ஷயேதந்தாவனம் । வர்ஜியித்வா நிஷிஷ்டானி
గृहीత्वैवं யथோதிதம் ॥ பரிஹ்தய ஦ிந் பாப் ஧ாவயேது வி஧ானதः ।
நோத்பாடயேதந்தகாஷ்டं நாஜ்ஞல்யா ஧ாவயேத் காசித் ॥ பிரக்ஷால்ய முக்த்வா
தஜ்ஞாஞ்ஞுஞ்சௌ ஦ேஶ ஸமாஹிதः இதி ॥ அந்தி: - அஜ்ஞல்யா ஦ந்தகாஷ்டं ச
பிரத்யக்ஷலவர்ண ததா । மூத்திகாமக்ஷணं சைவ துல்யं ஗ோமாஂஸமக்ஷणே இதி ॥ உஶனா
- நாஜ்ஞலீமிர்஦்தாந் பிரக்ஷாலயேத் இதி ॥

வ்யாஸர்ஸ்:- தந்தகாஷ்டத்தை அலம்பி அதனால் விதிப்படி தாவனம் செய்யவேண்டும். தந்தகாஷ்டம் நடு விரல் பரு மனு ள் ள் து ம் , பன் னி ரண் டு அங்குலநீளமுள்ளதும், தோலுடன் கூடியதுமாயிருக்க வேண்டும். அதன் நுனியால் துலக்கவேண்டும். பாலுள்ள மரத்திலுண்டாகியதும், மாலதி, (ஜாதிமல்லிகை) யுடையதும் சுபமாகும். நாய்ருவி, பில்வம், அலரி இவைகளினுடையதும் மிகச்சுபம், துவர்ப்பு, கஷாயம், கடுப்பு உள்ளதும், நல்லவாஸனையுள்ளதும் சிறந்தது. பாலுள்ள மரம், கொடி இவைகளால் தந்ததாவனம் செய்ய வேண்டும். நிவித்தமான சூச்சி தள்ளி விழுறிதமானதை க்ரஹித்து நிஷித்த தினங்களைப் பரிஹரித்து விதிப்படி துலக்க வேண்டும். தந்தகாஷ்டத்தைப் பிளக்கக்கூடாது.

ओरुकालुम् विरविणेल् पल्तुलकंककूटात्।
 तन्तकाष्टत्तेत अलम्पीपि प्रिरु तन्ततावणम् चेयतु,
 अलम्पि, कवणमाय, सुत्तमाण इटत्तिल् अतेतप्पेपोट
 वेण्णुम्। अत्तरी:- विरलाल् पल्तुलकंकुवतुम्,
 प्रत्यक्षमाय लवणत्तेत उपयोकित्तत्त्वम्,
 मण्णणीणेल् पल्तुलकंकुवतुम् पशविन् माम्सत्तेतप
 पक्षीपपत्रंकुचंसमाकुम्। उक्तासः:- विरल्कणाल् पर्कजीत्
 तुलकंककूटात्।

विष्णुः—सुसूक्ष्मं सूक्ष्मदन्तस्य मध्यदन्तस्य मध्यमम्। स्थूलं
 विषमदन्तस्य त्रिविधं दन्तधावनम्। द्वादशाङ्गुलं विप्रे
 काष्ठमाहुर्मतीषिणः। क्षत्रविद्युद्जातीनां नव षट्क्षत्रञ्जुलम् इति॥
 गर्गः—द्वाङ्गुलं तु विप्राणां क्षत्रियाणां नवाङ्गुलम्। अष्टाङ्गुलं तु
 वैश्यानां शूद्राणां सप्तसमितम्॥ चतुरञ्जुलमानं तु नारीणां नात्र संशयः
 इति॥ मार्कण्डेयः—वटासनार्कखदिरकरवीरांश्च भक्षयेत्। जातीं च
 बिलवबदरं मूलं तु ककुभस्य च॥ अरिमेदं प्रियङ्गं च कण्टकिन्यस्तथैव
 च इति॥ विष्णुरपि—वटासनार्कखदिर अरञ्जकरवीरवर्जडाडिमापा
 मार्ग मालती ककुभ बिल्वाना मन्यतमम् इति॥ भक्षयेदिति शेषः॥

विष्णुः:- चिन्त्रिय पर्कणुकंकुचं चिन्त्रियतुम्,
 नुकुत्तरमाण पर्कणुकंकु नुकुत्तरमाकियतुम्, बेपरीयपर्क
 कणुकंकुप्प बेपरीयतुमेण तन्ततावणम् झुंरु
 वित्तमायिरुक्क वेण्णुम्। प्रराम्भवण्णुकंकुप्प
 पण्णीरण्णु अंकुलमुम्, कृत्तरीयतुकंकु छूनपतु
 अंकुलमुम्, वैवस्यतुकंकु आरु अंकुलमुम्,
 कुत्तराणुकंकु नालु अंकुलमुम्, नीलाम् उल्लाताय,
 तन्तकाष्टमिरुक्क वेण्णुमेणप्प बेपरीयोर्कण्ण
 चेऽल्लुकिण्णनार. कार्कारः- प्रराम्भवण्णरकणुकंकुप्प पत्तु
 अंकुलमुम्, कृत्तरीयरकणुकंकु छूनपतु अंकुलमुम्,
 वैवस्यरकणुकंकु एट्टु अंकुलमुम्, कुत्तररकणुकंकु एमु
 अंकुलमुम्, स्तरीकणुकंकु नालु अंकुलमुम्
 नीलामुल्लाताय, तन्तकाष्टमिरुक्क वेण्णुम्। इतिल

ஸம்சயமில்லை. மார்க்கண்டேயர்:- ஆல், வேங்கை, எருக்கு, கருங்காலி, அலரி, ஜாதிமல்லிகை, பில்வம், இலந்தை, மருதையின்வேர், கருவேல், செஞ்சந்தனம், முள்ளுள்ளவைகள் இவைகளின் காஷ்டத்தை உபயோகிக்கலாம். விஷ்ணுவும்:- ஆல், வேங்கை, எருக்கு, கருங்காலி, புங்கு, அலரி, நருமாமரம், மாதுளை, நாய்குவி, ஜாதிமல்லி, மருதை, பில்வம் இவைகளுள் ஒன்றைத் தந்ததாவனகாஷ்டமாய் உபயோகிக்கலாம்.

எதேஷு ஫லமாஹ ஗ர்஗: - ஸर்ஜே ஧ீர்ய கடே ஦ீஸி: கரக்கே விஜயோ ரணे । ஸ்தோ சைவார்஥ஸंபத்தி: ஬द்யா மधுரஸ்வனः ॥ ஖திரே சைவ ஸौ஗ந்஧ய் வில்வே து விபுல் ஧னம् । ஔடும்பரே வாக்யஸிஞ்சி: மதூகே ச வட்டா ஶ्रுதி: ॥ பௌண்டே ச கிரித்ஸौமாங்ய பாலாஶே ஸிஞ்சிருத்தமா । கடம்வே ச ததா லக்ஷ்மீராமே சாரோம்யமேவ ச ॥ அபாமார்஗ ஧ுதிர்மீதா பிரஜா ஶக்திவர்பு: ஶ்ருதி: । ஆயு: ஶரில் யஶே லக்ஷ்மீ: ஸौமாங்ய சோபஜாயதே ॥ அர்க்கே ஹன்தி ரோගாங்ஸ்து விஜபூரேண து வ்ய஧ாம् । ககுமேன ததா⁵⁵யுஸ்மாந் மகேது பலிதவர்ஜிதி: ॥ ஢ாடிமே ஸிந்஦ுவாரே ச குஜகே ககுமே ததா । ஜாதி ச கரமர்஦ா ச துஸ்வப்பே சைவ நாಶயேது இதி ॥

இவைகளின் பயனைச் சொல்லுகிறோர். கார்க்கர்:- நருமாமரத்தினால் தைர்யமும், ஆவினால் காந்தியும், புங்கினால் யுத்தத்தில் ஜயமும், இச்சியால் பணப்பெருக்கும், இலந்தையால் இனியகுறவும், கருங்காலியால் நல்ல வாஸனையும், பில்வத்தால் அதிகப்பணமும், அத்தியால் வாக்கின் வித்தியும், இலுப்பையினால், த்ருடமான செவியும், நாமக்கரும்பால் நற்கிர்த்தியும், புரசினால் சிறந்த வித்தியும், கடம்பையால் வக்ஷமியும், மாவினால் ஆரோக்யமும், நாய்குவியினால் தைர்யம், மேதை, ப்ரக்ஞனு, சக்தி, நல்ல சர்ரம், செவி, ஆயுள், சீலம், யசஸ், லக்ஷ்மி, அழகு இவைகளும் உண்டாகும். ஏருக்கினால் ரோகங்களைப் போக்குவான். மாதுளையால் வருத்தத்தைப் போக்குவான். மருதையினால்

नीन्नंट आयुग्रांनावनुम्, नररयिल्लातवनुमावाणं.
मातृज्ञा, नेनाच्छिल्ल, करुवेव, वेवट्पालैल, ज्ञात्रि, कला
इवेकलाल तुस्संवप्पन्ततेतप्प पोक्किक केकांवाणं.

मार्कण्डेयः - सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः ।
उदुम्बरेण वाक्सिद्धिं लभेत् प्लक्षेण वै धनम् ॥ अज्जुनैन निरोगत्वं वटेन
महर्तीं श्रियम् । अपामार्गेण सर्वद्विं खीवद्यं च प्रियङ्गुभिः ॥ वेणुना
चापुयाद्वा वै राजवृक्षाज्जयं लभेत् । चूतेन नृपपूजा स्यात् सौभाग्यं
पनसेन तु ॥ दीघर्युर्जम्बुना चेष्टसिद्धिः स्यादणुजम्बुना । जयं
कण्टकवृक्षात् बलं वैकङ्गतालभेत् ॥ आरोग्यं कर्णिकारेण पारन्त्या
शौर्यमुत्तमम् । अशोकेन विशोकः स्यात् लवङ्गाद् ब्रह्मवर्चसम् ॥
खादिरादस्विलान् कामान् लभेदतियशो महत् । वाग्यतो निमृजेद्
दन्तान् दन्तमांसमपीडयन् ॥ जिह्वामलं समुदितं दन्तान्तरितमेव च ।
राक्षस्या मुत्सृजेत् काष्ठं दिशि निर्मृज्य तच्छुचौ । दन्तधावनकाष्ठं तु
येनोत्सृष्टं तदन्ततः । स मृष्टाहारमाप्नोति पतत्यभिमुखं यदि इति ।

मार्कंकण्ठेयारः - मुंगांनावेवकलेलाल लभाम
पुण्यततेतयालीक्कुम । पालुवालवेवकलेलाल लभाम
किंत्तिययालीक्कुम । अत्तियिग्नेल वाक्किन लीत्तियय
यटेवाण । इच्छियाल तनततेतयटेवाण ।
मरुतेतयाल आरोक्यततेतयम् आविग्नेल अववर्त्त
केलवत्तेतयम्, नायगुरुवियिग्नेल लेकलवलम्गुत्तिययम्,
कट्टुमाविग्नेल लंतीकलीन वच्करणततेतयम्, मुंगकिली
ग्नेल पक्ककलायम् केळान्नरयिग्नेल ज्यततेतयम्,
माविग्नेल राज्जलम्माणततेतयम्, पलाविग्नेल
लेलोपाक्यततेतयम्, नावविग्नेल नीन्नंट आयुज्ञायम्,
सिरुनावविग्नेल इष्टलीत्तिययम्, मुंवरुक्षुत्ताल
ज्यततेतयम्, चेऽततेतक कलाविग्नेल पलततेतयम्,
केऽक्षिलविग्नेल (कर्णीकारत्ताल) आरोक्यततेतयम्,
पारन्तियाल चिरन्त चेळारयततेतयम्, अचेऽकत्ताल
चेऽकमिन्नमययम्, लवन्तकत्ताल प्रमळ

வர்ச்சஸ்ததையும், கருங்காலியால் எல்லாக்கர்மங்களையும் மிகுந்தயசஸ்ஸையும் அடைவான். தந்தமாம்ஸ்ததைப் பீடிக்காமல் மெளனியாய், பல் துலக்க வேண்டும். நாக்கினின்றும், பற்களினின்றும் வெளிவந்த அழுக்குகளை நிர்ருதித்திக்கில் துப்பவேண்டும். பற்குச்சியையும், அதேதிக்கில் சுத்தமானவிடத்தில் போடவேண்டும். கடைசியில் ஏறிந்த பற்குச்சியானது எதிராய் விழுந்தால் அவன் நல்ல ஆஹாரத்தை யடைவான்.

வ்யாஸோऽபி – பிரகால்ய தச்஛ுசை ஦ேஶே ஦ந்தधாவனமுத்ஸுஜேதா
பதிதேऽமிமுखே ஸம்யமோஜ்யமாபோத்யமீபிஸ்தம् இதி । ஸ ஏவ –
வர்ஜயேங்ந்தகாஷ்டானி வர்ஜநியானி நித்யஶः । வர்ஜயேச்஛ாக்ஷாஷானி பர்வஸ்வபி
च வர்ஜயேத् இதி । வர்ஜநியாந்யாஹ மார்க்ண்டேயः – ஶாலமல்யங்வத்஥மாநாந்
ஜவகிஂஶுக்யரோபி । கோவி஦ாரஶமீபிலுஷ்லேப்பாதகவி஭ீதகாந् ॥
வர்ஜயேங்ந்தகாஷ்டேஷு ஗ுமுல் க்ரமுக் தथா இதி ॥ உஶாநா — ஦க்ஷிணாமிமுகோ
நா஧ாந் நிலவந்துக்கட்டமகம् । திந்துகேஞ்சுடவந்துக்மோசாமரஜவல்வஜம् ॥
கார்பாஸ்஦ந்தகாஷ்டங்ச விஷ்ணோரபி ஹரேச்஛ியம् । ந மக்ஷயேத பாலாஶ் கார்பாஸ்
ஶாகமேவ ச । எதானி மக்ஷயேஷஸ்து க்ஷிணபுண்யः ஸ வை நரः இதி ॥

வ்யாஸரும்:- அந்தப் பற்குச்சியையலம்பி சுத்தமானவிடத்தில் போடவேண்டும். அது எதிராய் விழுந்தால் நல்ல இஷ்டமான ஆஹாரத்தையடைவான்.
வ்யாஸர்:- நிஷித்தங்களான தந்தகாஷ்டங்களை தவிர்க்கவேண்டும். காலநியமமின்றி எப்பொழுதும் தவிர்க்க வேண்டும். சாஸ்த்ரவிஹிதமானவைகளையும் பர்வகாலங்களிலும் தவிர்க்க வேண்டும். தவிர்க்கக்கூடிய தந்தகாஷ்டங்களைச் சொல்லுகிறூர். மார்க்கண்டேயர்:- இலவு, அரசு, கடாரை, யவம், புரசு, கோவிதாரம், வன்னி, ஊவக்கை, நருவளி, தானி, குங்கிலி, கழுகு இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும். **உசநஸ்:-** தெற்குநோக்கியவனைய், தந்ததாவனம் செய்யக்கூடாது. அவரி, உச்சித்திலகம், கடம்பை, தும்பை, மணிப்புங்கு,

केम्परुत्ति, वाष्म, कटकप्पूळंडु, वीम्हल, परुत्ति
इवेकलीनं काष्टमं वीष्णुविनं
लक्ष्मिययुमपहरीकंकुम. पुरस, परुत्ति, कुम्पिरमं
इवेकलीत तन्तत्तावनत्तिन्ऱु कुम्पिरमं
पुण्यमं नक्तित्तवलुवानं.

हारीतोऽपि — कालेयपालाश कोविदार श्लेष्मातक
बिल्वकाशार्कवृक्ष निर्गुण्डीशिखण्डनिरीषमालती करवीर बद्री
करजवेणुवर्जम् इति । गर्गः — कुशं काशं पलाशं च शिंशुपां यस्तु भक्षयेत् ।
तावद्वति चण्डालो यावद्वां नैव पश्यति इति ॥ वसिष्ठः —
अज्ञातपूर्वाणि न दन्तकाष्ठान्यद्यान्न पत्रैश्च समन्वितानि । न
युग्मणानि न पाटितानि न चार्द्रशुष्काणि नचात्वचानि इति ॥
चन्द्रिकायाम् — त्याज्यं सपत्रमज्ञातमूर्धवशुष्कं च पाटितम् । त्वक्हीनं
ग्रन्थिसंयुक्तं तथा पालाशशिंशुपाम् इति ॥

ह्रांतरुमः— कारर, पुरस, माम्पमुक्केकान्नर,
मुरुन्केक, ननुविली, पिल्वम, नाण्णल, एरुकु, नेनक्किलं
कुन्नरिमणी, मॅलैमल्वी, वराके, ज्ञातिमल्वी, अलरी,
इलन्तेत, करज्जम, मुंगकिलं इवेकलं वर्जीकंकत
तकुन्तवेव. कर्कारः— कुचम, नाण्णल, पुरस, अकिलं
इवेकलालं तन्तत्तावनमं चेय्पवनं, पक्षवेत्तर्क्कनमं
चेय्यातवरेयिलं संन्टालालुयिरुक्किरुन. वलिष्टारः—
मुन अरियप्पताततुम, इलैकगुन्टनं कृष्टयतुम,
इरट्टेट इलैकगुन्टेटयतुम, पिळान्तततुम, ओरुपूरम
सारमुम ओरुपूरमं काय्नंतततुम, तेवालिल्लाततुमान
तन्तत्तकाष्टत्तेत वर्जीकंक वेण्णुम. सन्तारिकेयिलः—
इलैयुटनं कृष्टयतुम, अरियाततुम, नुनी काय्नंतततुम,
पिळान्तततुम, तेवालिल्लाततुम, मुष्टिस्कूलातुम, पुरस,
अकिलं, इवेकलीनुउटेयतुमान काष्टत्तेत वर्जीकंक
वेण्णुम.

ஸ்மृத்யர்த்தசரை - ஶால்மல்யரிஷ மவ்யகிஞ்சுகபீலுகவி஭ீதக
குஞ்சுலாரவாகாம்பஷ திந்துகம஧ூகேஜுட ஧ுஸ்தரூ பாரிம஦்ராமிலகாஶ வஜ்ய
இதி ॥ ஆஸனே ஶயனே யானே பாடுகே ஦ந்த஧ாவனே । பலாஶாஶ்வத்யகை வஜ்யே
ஸ்வகுத்ஸிதக்ர்மஸு இதி ச ॥ தேவல: - ஆஸனானி ந குர்த்தி
மூத்திகாஶ்வத்ய஗ோமயை: । பாலாஶேன விதோஷேண ஦ந்த஧ாவனமேவ ச இதி ॥
ஆபஸ்தம்஬ோத்பி - பாலாஶமாஸன் பாடுகே ஹத்ப்ரக்ஷாலநமிதி ச வஜயேது
இதி ॥ எதேஷு கேஷு சித்திஹித்த்வாத் ப்ரதிஷிஜ்ஜல்வாச் விகல்போவேதிதவ्य: ॥
தथா ச ஸ்மृத்யர்த்தசரை — கோவி஦ாரஶமிக்ஷாரக்ஷேப்பாதகபலாஶகா: ।
நிர்ஜுண்டிதிஶபாஶகா: கடம்பகரும்பாவடா: ॥ விஹிதா: ப்ரதிஷிஜ்ஜா:
ஸ்யு: இமே தஸ்மாத்திகலிப்தா: இதி ॥

ஸ்ம்ருத்யார்த்தஸாரத்தில்:- இலவு, நாணல், பூலர்,
புரசு, ஊவக்கை, தானி, குங்கிலி, சேரா, புங்கம்பாளை,
தும்பை, இலுப்பை, மணிப்புங்கு, ஊவத்தை,
பவழமல்லிகை, புளி இவைகள் வர்ஜிக்கத் தகுந்தவைகள்.
ஆஸனம், சயனம், பாதுகை, தந்ததாவனம்
இவைகளிலும், மற்றத்தாழ்ந்த கர்மங்களிலும், புரசு,
அரசு, இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும். தேவலா: - மண்,
அரசு, சாணம், புரசு இவைகளால் ஆஸனமும்
தந்ததாவனமும் செய்யக்கூடாது. ஆபஸ்தம்பரும்:-
புரசவ்ருக்ஷத்தை ஆஸனம், பாதுகை, தந்ததாவனம்
இவைகளில் உபயோகிக்கக்கூடாது. இவைகளுள்
சிலவற்றில் விதியும், ப்ரதிஷேதமுமிருப்பதால்
விகல்பமென்றநியவேண்டும். அவ்விதமே,
ஸ்ம்ருத்யார்த்தஸாரத்தில்:- மாம்பழக்கொன்றை, வண்ணி,
சாம்பல், நறுவிலி, புரசு, நொச்சில், அகில், கீரை, கடம்பு,
ஆல் இவை சிலரால் விதிக்கப்பட்டும் சிலரால்
நிஷேதிக்கப்பட்டுமிருக்கின்றன. ஆகையால் இவைகள்
விகல்பவிஷயங்களாம். க்ரஹித்தாலும் க்ரஹிக்கலாம்.
தவிர்த்தாலும் தவிர்க்கலாம்.

पारिजाते- तृणराजसमुत्पन्नैः न कुर्याद्दिन्तधावनम् ।
नरश्चण्डालयोनिः स्यात् याबद्रां नैव पश्यति ॥ गुडाकतालहिन्ताल-
केतक्यश्च महावटः । खर्जूरो नालिकेरश्च ससैते तृणराजकाः इति ॥
स्मृत्यन्तरे — तृणराजाह्यस्तालो नालिकेरश्च लाङ्गली । खर्जूरः
केतकी पूगो हिन्तालश्च महावटः इति ॥

पारिज्ञातुक्त्तीलः- तं गुणराज्ञवं गुणं नकलीनं
काञ्छिटानं कलालं तन्त्रतावनम् चेय्यक्षुटातु. चेय्यतालं
अवन्नं पक्षवृत्ततर्सनाम् चेय्यातवरयीलं
चण्टालालालावान्नं. पत्तिरी, पैजे, कुन्तरं पैजे, ऊमत्ततेत,
पोर्सिंस, तेन्नैन्न इन्त एमुम् तं गुणराज्ञनकलेनप्पतुम्.
मन्त्रिगुरुसंमिन्तीयीलः- पैजे, तेन्नैन्न, तिप्पिली,
पोर्सिंस, तामै, कमुकु, कुन्तरं पैजे, ऊमत्ततेत इव
तं गुणराज्ञमेनप्पतुम्.

अत्र दिङ्गनियममाह मार्कण्डेयः- उद्भुखः प्राङ्गुखो वा कषायं
तिक्तकं तथा इति ॥ दन्तकाष्ठं भक्षयेदिति शेषः । आश्वलायनः -
प्राङ्गोद्भुख आसीनः प्रागुद्भुख एव वा इति ॥ शौनकः - दन्तानां
धावनं कुर्यात् वाग्यतस्सोमदिङ्गुखः । प्रक्षालय भक्त्वा तज्ज्वाच्छुचौ
देशे समाहितः इति ॥ मार्कण्डेयः - प्रतीर्ची दक्षिणाशां च
वर्जयेद्दिन्तधावने इति ॥ कात्यायनः - पूर्वामुखे धृतिं विद्यात्
शरीरारोग्यमेव च । दक्षिणेन तथा क्रौर्यं पश्चिमेन पराजयम् । उत्तरेण
गवां नाशं खीणां परिजनस्य च । पूर्वोत्तरे तु दिग्भागे सर्वान्
कामानवाप्यात् इति ॥

इन्कु तिक्कुकलीनं नियमत्तेत्सं चेऽल्लुकिरुर्.
मार्कंकल्लेटेयारः- वटक्कु अल्लतु किम्कु
नेनाक्कियवल्लेय, कसप्पु अल्लतु तुवर्पप्पुला
पर्म्मुक्कियाल तन्त्रतावनम् चेय्यवेण्णतुम्.
आक्कुवलायनारः- किम्कु, अल्लतु वटक्कु, वटक्किम्कु

நோக்கியவனுய், உட்கார்ந்தவனுய் (தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.) சௌனகர்:- வடக்குநோக்கியவனுய், மெளனியாய், தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். பிறகு கவனமுடையவனுய், பற்குச்சியை அலம்பி ஒடித்து சுத்தமான இடத்தில் போடவேண்டும். மார்க்கண்டேயர்:- மேற்கு, தெற்கு இந்த இரண்டுதிக்கு நோக்கியவனுய், தந்ததாவனம் செய்யக்கூடாது. காத்யாயனர்:- கிழக்குநோக்கி, தந்ததாவனம் செய்தால் தைர்யமும் சரீராரோக்யமுழுமென்டாகும். தெற்குநோக்கினால் க்ரூரானுவான். மேற்கு நோக்கினால் அபஜயமுண்டாகும். வடக்கு நோக்கினால் பசுக்கள், ஸ்தரீகள், பரிஜனங்கள் இவர்களுக்கு நாசமுண்டாகும். வடகிழக்குநோக்கினால் ஸகல காமங்களையுமடைவான்.

காலனியமமாஹ மார்க்ஷை: - பிராதம்ஹக்த்வா ச
யதவாம்஭க்ஷயேந்த்தாவனம्। பிரகாலய ஭க்ஷயேத் பூர்வ பிரகாலயை ச சன்த்யஜேத்
இதி ॥ யத்து வ்யாஸேநாக்தம् - யோ மோஹத் ஸ்தானவேலாயா் ஭க்ஷயேந்த்தாவனம் ॥
நிராஶாஸ்தஸ்ய சத்தாநிதி ஦ேவதா: பிதுமிஸ்ஸஹேதி, தந்ம஧ாஹஸ்தான-
விஷயம், பிராத:ஸ்தாந் துக்ருவீதி ஦ந்தாவனபூர்வகமிதி ஦க்ஷஸ்மரணாத் ॥

காலத்தின் நியமத்தைச் சொல்லுகிறீர்,
மார்க்கண்டேயர்:- ப்ரராத:காலத்தில் தந்தகாஷ்டத்தை
ஒடித்து மெளனியாய், தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.
பற்குச்சியை முதலில் அலம்பியே தந்ததாவனம் செய்ய
வேண்டும். பிறகு அலம்பியே அதைவிட வேண்டும்.
ஆனால், “எவன் அறியாமையால் ஸ்நானகாலத்தில்
தந்ததாவனம் செய்கின்றானே, அவனின் தேவர்கள்
பிதருக்களுடன் ஆசையற்றவர்களாய்ச் செல்லுகிறார்கள்”
என்று வ்யாஸரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதேயெனில்,
அது மாத்யாஹ்னிக ஸ்நானத்தைப்பற்றியது. ஏனெனில்,
“தந்ததாவனத்தை முன்செய்து பிறகு ப்ரராதஸ்நானம்
செய்யவேண்டும்” என்று தக்ஷார் சொல்லியிருப்பதால்.

अत्र वर्ज्यकालमाह विष्णुः – प्रतिपत्त्वर्षष्टीषु चतुर्दश्यष्टमीषु
 च । नवम्यां सङ्क्रमे चैव दन्तकाष्ठं विवर्जयेत् इति ॥ चतुर्दश्यष्टमी दर्शः
 पूर्णिमा सङ्क्रमो रवेः । एषु स्त्रीतैलमांसानि दन्तकाष्ठं च वर्जयेत् इति ॥
 चन्द्रिकायाम् – प्रतिपद्वर्षष्टीषु नवम्यामष्टमीतिथौ । दन्तानां
 काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम् । श्राद्धे जन्मदिने चैव
 विवाहेऽजीर्णदूषितः । ब्रते चैवोपवासे च वर्जयेद्वन्तधावनम् इति ।
 व्यासोऽपि – श्राद्धे यज्ञे च नियमे पत्यौ च प्रोषिते रवेः । वारे पाते च
 सङ्क्रान्तौ नन्दाभूताष्ट पर्वसु ॥ तैलाभ्यङ्गं रतिं मांसं दन्तकाष्ठं च वर्जयेत्
 इति ॥ स्मृत्यन्तरे – अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां त्रिजन्मनि । तैलं
 मांसं व्यवायं च दन्तकाष्ठं च वर्जयेत् इति ॥

தந்ததாவனத்தின் தள்ளக்கூடியகாலத்தைச் சொல்கிறூர் விண்ணு:- ப்ரதமை, பர்வங்கள் (அமை பூர்ணிமை) ஷஷ்டி, சதுர்த்தி, அஷ்டமி, நவமி, ஸங்கரமணம் இக்காலங்களில் தந்ததாவனத்தில் காஷ்டத்தை உபயோகிக்கக்கூடாது. யமனும்:- சதுர்த்தி, அஷ்டமி, அமா, பூர்ணிமா, ஸுலாய்லங்கரமணம் இக்காலங்களில் ஸ்தரீ, எண்ணெய், மாம்ஸம், தந்தகாஷ்டம் இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும். சந்தரிகையில்:- ப்ரதமை, அமா, ஷஷ்டி, நவமி, அஷ்டமி இந்தத் திதிகளில் குச்சியால் தந்ததாவனம் செய்தால் அது, ஏழுதலைமுறைவரையில் குலத்தை எரிக்கும். ச்ராத்ததினம், பிறந்தநாள், விவாஹதினம், அஜீர்ண தோஷம், வரதம், உபவாஸம் இக்காலங்களில் காஷ்டத்தால் தந்ததாவனத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும். வ்யாஸரும்:- ச்ராத்தம், யாகம், வரததினம், பர்த்தா வெளியூர் சென்றிருக்கும் காலம், ஸுலாய்வாரம், வ்யதிபாதம், அஷ்டமி, பர்வங்கள் இக்காலங்களில், எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்ளுதல், ஸ்தரீஸம்ஸர்க்கம், மாம்ஸபோஜனம், பற்குச்சி இவைகளை

வர்ஜிக்கவேண்டும். மற்றொருஸ்ம்ருதியில்:- அஷ்டம், சதுர்த்தி, பர்வங்கள், த்ரிஜூன்மநக்ஷத்ரங்கள் இக்காலங்களில் தைலம், மாம்ஸம் ஸ்தரீஸங்கம், பற்குச்சி இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

மா஧வீயே – ஶாஷ்வ யजே ச நியமே நாயாத் ப்ரோஷிதமர்த்தா | ஶாஷ்வ கர்த்துநிஷீघோத்தா ந து ஭ோக்து: கடாசன இதி || ஸ்மृத்யந்தரே – உபவாஸ்஦ினே யோவை ஦ந்த஧ாவனகுநர: | ஸ ஘ோர் நரக் யாதி வ்யா஘்ரமக்ஷதுர்யுங்ம இதி || ஸ்தியா விஶேஷமாஹ மனு: – புஸ்பாலக்காரவாக்ஷாணி ஸ்தியா ஧ூபாநுலேபனம் | உபவாஸே ந துஷ்யந்தி ஦ந்த஧ாவனமஜனம் இதி || வசிஷ்ட: – உபவாஸே தथா ஶாஷ்வ ந ஖ாடேஹந்த஧ாவனம் | ஦ந்தாநாந் காஷ்ஸ்யாரோ ஹன்தி ஸ்தகுலானி ச இதி ||

மாதுவீயத்தில்:- ச்ராத்தம், யாகம், வரதம், இக்காலங்களில் தந்தகாஷ்டம் கூடாது, பர்த்தா வெளியூர்போயிருந்தால் ஸ்தரீ தந்தகாஷ்டத்தை உபயோகிக்கக்கூடாது. ச்ராத்தத்தில் சொல்லிய நிலேஷ்தம் கர்த்தாவுக்கே தவிர, போக்தாவுக்கு ஒருகாலுமில்லை. மற்றொருஸ்ம்ருதியில்:- எவன் உபவாஸதினத்தில் காஷ்டத்தால் தந்ததாவனம் செய்கின்றானே அவன், புவிக்கு ஆஹாரமாகியவனேய், நான்கு யுகங்கள்வரை பயங்கரமான நரகத்தையடைகிறுன். ஸ்தரீகளுக்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார். மனு:- உபவாஸதினத்திலும், ஸ்தரீகளுக்குப் புஷ்பம், அலங்காரம், வஸ்த்ரம், தூபம், சந்தனம், தந்ததாவனம், மைதிட்டல் இவைகள் தோழுத்தைக் கொடுப்பதில்லை. வலிஷ்டர்:- உபவாஸதினம், ச்ராத்ததினம் இவைகளில் தந்ததாவனம் கூடாது. தந்தங்களுக்குப் பற்குச்சியின் சேர்க்கை யுண்டானால் அது ஏழு குலங்களைத் தலைக்கும்.

दन्तधावने प्रायश्चित्तमुक्तं विष्णुरहस्ये — गायत्र्याः
शतसम्पूतमम्बु प्राश्य विशेष्यति इति । गार्यः — दन्तकाष्टे

त्वमावास्या तैलाभ्यज्ञे चतुर्दशी । अष्टमी ग्राम्यधर्मे च ज्वलन्तमपि पातयेत् ॥ ग्राम्य धर्मः - मैथुनम् । खीसज्जं खादनं पानं स्वाध्यायं क्षुरकर्म च । न कुर्याद्विन्तकाष्ठं च तैले तु शिरसि स्थिते इति ॥ व्यासः — नद्यां देवालये गोष्ठे इमशाने जलमध्यके । यागस्थाने शुचौ देशे न कुर्याद्विन्तधावनम् इति ॥ शौनकः — अमायां तु न चाश्नीयात् दन्तकाष्ठं कथश्वन् । दन्तान् प्रक्षाल्य विसृजेत् गृहे चेत्तदमन्त्रकम् अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धिदिनेष्वपि । अपां द्वादशगण्डूषैः मुखं शुद्धिर्भविष्यति इति ॥

தந்ததாவனத்தில் ப்ராயச்சித்தம் சொல்லப் பட்டுள்ளது. விஷ்ணுரஹஸ்யத்தில் :- சராத்த தினத்திலும், உபவாஸத்தினத்திலும், தந்ததாவனம் செய்தால், காயத்ரீயை 100 முறை ஜபித்து அதனால் சுத்தமான ஜலத்தைப்பருகினால் சுத்தனாவான்.

கார்க்யர்:- அமாவாஸ்யையில் பற்குச்சியும் சதுர்த்தசியில் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்ளலும், அஷ்டமியில் ஸ்தரீ ஸம்ஸர்க்கமும் கூடாது. செய்பவன் அக்னிக்குச் சமமானங்களும், பதிதனுவான், தலையில் எண்ணெய் இருக்கும்போது, ஸ்தரீ ஸங்கம், துன்பது, குடிப்பது, அத்யயனம், செஷனரம், தந்ததாவனம் இவைகளைச் செய்யக்கூடாது. **வ்யாஸர்:-** நதியிலும், தேவாலயத்திலும், மாட்டுக் கொட்டிலிலும், சமசானத்திலும், ஜலத்தின் நடுவிலும், யாக ப்ரதேசத்திலும், சுத்தமானவிடத்திலும் தந்ததாவனம் செய்யக் கூடாது. **சௌனகர்:-** அமாதினத்தில் எக்காரணத்தாலும் தந்தகாஷ்டத்தை உபயோகிக்கக் கூடாது. பற்களை அலம்பிவிடவேண்டும். வீட்டிலானால் அதை மந்த்ரமில்லாமல் செய்யவேண்டும். பற்குச்சி கிடைக்காவிட்டனும், பற்குச்சியை விலக்கவேண்டிய தினங்களிலும் 12-தடவை ஜலத்தைக் கொப்பவித்தால் வாய் சுத்தமாகின்றது.

வ்யாஸः — பிரதிபद்வர்ஷஷ்டிஷு நவம்யாஂ ஦ன்த஧ாவனம् । பர்ண்யந்திர
காஸ்து ஜிஹ்வோல்லேக்ஸஸ்஦ைவ து இதி ॥ அந்யந் - அனிஷிஷ்வினேஷு ॥ ஸ்தா
- நிஷிஷ்வநிஷிஷ்வபி காஸ்தை ஜிஹ்வோல்லேக: கார்ய இத்யர்஥ः ॥
பைठினஸிஃ : — துணப்ரீடகேநாஜ்ஞல்யா வா ஦ன்தாந் ஧ாவயேத் பிரதேஶிநிவர்ஜம்
இதி ॥ அஜ்ஞல்யா - அஜ்ஞாநாமிகாம்யாம் ॥ தथா ச வழ்யாஜ்ஞவல்கய:
— இஷ்காலேஷ பாஷாநைரிதராஜ்ஞலிமிஸ்ததா । முக்த்வா சாநாமிகாஜ்ஞஸை
வர்ஜயேந்த஧ாவனம் இதி ।

एवञ्च नाज्ञुलीभिर्दन्तान् प्रक्षालयेदित्यादीनि वचनान्यनामि-
काज्ञुष्वतिरिक्तविषयाणि । अज्ञुल्या वा दन्तान् धावयेत्
प्रदेशिनीवर्जम् इति प्रदेशिनीग्रहणं निषिष्वाज्ञुल्युपलक्षणार्थ-
मित्यविरोध इति स्मृतिचन्द्रिकायां वयवस्थापिकम् ॥

வ்யாஸர்:- ப்ரதமா, அமா, ஷஷ்ட, நவமீ
இக்காலங்களில் இலைகளால் தந்ததாவனம் செய்ய
வேண்டும். நிவேஷதமில்லாத தினங்களில் காஷ்டங்களால்
தந்ததாவனம் செய்யலாம், நிஷித்த தினங்கள், அநிஷித்த
தினங்கள் எல்லாவற்றிலும் குச்சியால் நாக்கை சுத்தி
செய்து கொள்ளலாம். **பைநநஸி:-** புல், இலை, ஜலம்,
விரல் இவைகளில் ஒன்றினால் தந்ததாவனம் செய்யலாம்.
தர்ஜ்ஞ விரலால் கூடாது. இங்கு விரலினால் என்றதற்குப்
பெருவிரலால், பவித்ரவிரலால் என்று பொருள்.
அவ்விதமே, வருத்தயாக்ஞவல்க்யர்:- செங்கல்,
மண்கட்டி, கல், பவித்ரவிரல், பெருவிரல் தவிர்த்து
மற்றவிரல்கள் இவைகளால் தந்ததாவனம் கூடாது.
இவ்விதமிருப்பதால் “விரல்களால் தந்ததாவனம்
கூடாது” என்பது முதலிய வசனங்கள் பவித்ரவிரல்
பெருவிரலைத் தவிர்த்து மற்றவிரல்களைப்பற்றியதாம்.
‘தர்ஜ்ஞை’ விரலைத்தவிர்த்த விரலால் தந்ததாவனம்
செய்யலாமென்ற வசனம் நிஷித்தமான விரல்களைச்
சொல்லுவதற்காக என்பதால் விரோதமில்லை என்று
ஸ்மருதுசந்தரிக்கையில் வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டுள்ளது.

स्मृत्यर्थसारे तु — अङ्गुल्या धावयेदन्तान् वर्जयेत् प्रदेशिनीम् ।
 मध्यमानाभिकाङ्गुष्ठैः दन्तधावो भवत्यपि इति । कालादर्शे — अलाभे
 वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावनम् । पर्णैव विशुद्धेन जिह्वोल्लेखं च
 कारयेत् इति । स्मृत्यन्तरे — तृणपर्णैस्सदा कुर्यात् अमामेकादर्शी विना ।
 तयोरपि च कुर्वीत जम्बूलक्षाम्रपर्णकैः ॥ विधवाकन्यकाब्रह्मचारिणां
 नास्यशोधनम् इति ॥ भरद्वाजः — यावन्तो नियमाः प्रोक्ताः
 द्विजश्रेष्ठस्य भुञ्जतः । तावन्तः प्रेक्ष्य कर्तव्या दन्तधावनकर्मणि ॥
 मुखशुद्धिं प्रयत्नेन कृत्वैवाहरहर्द्विजः । प्रातस्सन्ध्यामुपासीत तां विना
 न शुचिभवेत् इति ॥

ஸ்மருத்யார்த்தஸாரத்தில்:- விரலினால் தந்ததாவனம் செய்யலாம். ஆள்காட்டிவிரலை வர்ஜிக்கவேண்டும். நடுவிரல், பவித்ரவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் தந்ததாவனம் செய்யலாம். காலாதாரச்தில்:- பற்குச்சிகள் கிடைக்காத காலத்திலும் நிஷேதகாலத்திலும், சுத்தமான இலையினால் தந்ததாவனம், நாக்கின்சுத்தி இவைகளைச் செய்யலாம். மற்றொருஸ்மிருதியில்:- புல், இலை இவைகளில் எப்பொழுதும் தந்ததாவனம் செய்யலாம். அமா, ஏகாதசி இவைகளில் கூடாது. அவைகளிலும், நாவல், இச்சி, மா, இவைகளின் இலைகளினால் செய்யலாம், விதவைகள், கண்யகைகள், ப்ரம்ஹசாரிகள் இவர்களுக்குப் பற்குச்சியால் தந்ததாவனம் விதிக்கப்படவில்லை. பரதவாஜர்:- ப்ராம்ஹணனுக்குப் போஜனத்தில் எவ்வளவு நியமங்களையும் கவனித்து தந்ததாவனத்திலனுஷ்டிக்க வேண்டும். ப்ராம்ஹணன் ப்ரதிதினமும் முகசுத்தி செய்துகொண்டே காலை ஸந்த்யாவந்தனத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். முகசுத்தி செய்துகொள்ளவிடில் சுத்தனாவதில்லை.

அथ ஸ்நானவி஧ி:

தत्र ஶौनகः—ப்ராதராசமனங் கृत्वा ஶौचं கृत्वा யथாर்஥வत् । ஦ன்தஶौचं ததः கृத्वा ப்ராதः ஸ்நானं ஸமாச்சரेत् இதி ॥ அத்ராசமனங் கृத்வேதி ஦ன்தஶौசே�பி ஸ்வந்தியதே ॥ ததா ச கூர்ம்புராணம्—ப்ராதஸ்து ஦ன்தகாஷ்டங் வை ஭க்ஷியித்வா வி஧ானதः । ஆசம்ய ப்ரயதோ நித்யं ப்ராதः ஸ்நானं ஸமாச்சரेत् இதி । வ்யாஸே�பி—ப்ராதः காலே து ஸம்ப்ராஸே கृத்வா சாவத்யக் குதுஷு: । ஸ்நாயாந்திரீஷு ஶுஞ்சாஸு ஶौசं கृத்வா யதாவி஧ி இதி ॥ ஜாவாலிஃ—ஸ்ததம் ப்ராதருத்஥ாய ஦ன்த஧ாவனபூர்வகம் । ஆச்சரேதுஷஸி ஸ்நான் தப்யேவைமானுஷான् இதி ।

ஸ்நானவிதி

இனி ஸ்நானவிதி சொல்லப்படுகிறது. அதில் செளானகர்:- காலையில் விதிப்படி செளாசமனங்களைச் செய்து பிறகு தந்தசத்தி செய்துகொண்டு காலையில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். இங்கு ‘ஆசமனம் செய்து’ என்பதை தந்த செளாசத்திலும் சேர்க்கவேண்டும். அவ்விதமே, சூர்ம்புராணம்:- காலையில் விதிப்படி தந்ததாவனம் செய்து ஆசமனம் செய்து சுத்தனைய், ப்ரதிதினமும் ப்ராதஸ்நானம் செய்யவேண்டும். வ்யாஸரும்:- ப்ராதःகாலம் வந்தவுடன் அறிந்தவன் ஆவச்யக கார்யத்தைச் செய்து செளசமும் செய்து, சுத்தமான நதிகளில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ஜாபாலி:- எப்பொழுதும் காலையிலெழுந்து தந்த தாவனத்தைச் செய்து, விடியற்காலத்தில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். தேவமனுஷ்யர்களைத் தர்பிக்க வேண்டும்.

ஸ்நானं பிரச்சஸ்தि யோग்யாஜங்கல்க்யः—அगம்யாமனாத் ஸ்தேயாத் பாபே஭்யश் பிரதி஗்ரஹாத் । ரஹஸ்யாச்சரிதாத் பாபாந்முச்யதே ஸ்நானமாவரந् ॥ மனः பிரஸாத்ஜனக ரூபஸௌமா஗்யவர்ஜ்ஞம் । ஶோகடுः ஸ்வப்நஹ் ஸ்நானம் மோக்ஷம்

ह्लादनं तथा ॥ स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः श्रुतिस्मृत्युदिता नृणाम् ।
तस्मात् स्नानं निषेवेत श्रीपुष्ट्यारोग्यवर्जनम् ॥ याम्यां हि यातनां दुःखं
प्रातःस्नायी न पश्यति इति ॥

संनानं तत्तेपं पुकम्भिरुर्- योक्याक्ञवल्क्यारः-
चेरक्कटात् सेत्तर्वयेष्च चेरन्त पापम्, तिरुष्टयपापम्,
पापिकविटमिरुन्तु प्रतिकरूहत्तावृण्टाण वापम्,
रहूल्यत्तिल चेष्ट वापम् इवेकविणीन्ऱुम्,
प्ररातःसंनानम् चेष्टपवनं विटुपटुवाण.
प्ररातःसंनानम्, मनतिर्हुत तेलिवेप पण्णुवतुम्,
रुपम्, पाक्यमिवेकविण वापपत्तुम्, तुक्कम् तुस्वप्न
मिवेकविण यकर्हुवतुम्, मोक्षत्तेयाणीपपत्तुम्,
कविक्कच चेष्टवतुम् आकुम्. मनीतर्कविणं संरुति संमरुति
विहित कर्मन्तकविणल्लाम् संनानं तत्तेये
मूलमायुट्टयवाकुम्. आकेयाल, सम्पत्तु, पुष्टि,
आरोक्यमिवेकविण वार्ककुम् संनानं तत्तेच
चेष्टवेण्टुम्. प्ररातःसंनानम् चेष्टयम्
चेलमूल्यत्तेयवनं यमग्नेलुण्टाकुम् केकाट्य तुक्कत्तेप
पारपपत्तिल्लै.

सत्यव्रतोऽपि — बलं रूपं यशो धर्मं ज्ञानमायु; सुखं धृतिम् ।
आरोग्यं परमाप्नोति सम्यक् स्नानेन मानवः इति । दक्षः — क्षुभ्यन्ति हि
सुषुप्तस्य इन्द्रियाणि स्ववन्ति च । अज्ञानि समतां यान्ति ह्युत्तमान्यधौः
सह ॥ अत्यन्त मलिनः कायः नवचिछद्वसमन्वितः । स्वत्येव
दिवारात्रं प्रातःस्नानं विशोधनम् ॥ प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं
हि तत् । अस्त्रात्वा नाचरेत् कर्म जपहोमादि किञ्चन ॥ सर्वमर्हति
शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम् । प्रातरुत्थाय यो विप्रः सन्ध्यास्नानं
समाचरेत् । सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिर्वैर्यपोहति ॥ गुणा दश
स्नानपरस्य साध्या रूपञ्च तेजश्च बलञ्च शौचम् ।
आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वप्नाशश्च धृतिश्च मेधा ॥ उषस्युषसि

यत् स्नानं सन्ध्यायामुदितेऽपि वा । प्राजापत्येन तत्तुल्यं
महापातकनाशनम् इति ॥

ஸ்த்யவரதாரம்:- மனிதன் நன்றாய் ஸ்நானம் செய்வதால், பலம், ரூபம், கீர்த்தி, தர்மம், ஞானம், ஆயுள், ஸாகம், தைர்யம், சிறந்த ஆரோக்யம் இவைகளையடைகிறுன். தக்ஷர்:- தூங்குகின்றவனின் இந்திரயங்கள் கலங்குகின்றன; ஒழுகுகின்றன; சிறந்த அங்கங்கள் தாழ்ந்த அங்கங்களுடன் ஸமத்தன்மையை யடைகின்றன. மிக்க அழுக்குடையதும், ஒன்பது த்வாரங்களுடையதுமாகிய சரீரம், பகலிலுமிரவிலும் ஒழுகுகின்றதே. (அதற்கு) ப்ராத:ஸ்நானம் சுத்தி செய்வதாயுள்ளது. (அறிந்தவர்) ப்ராத:ஸ்நானத்தைப் புகழ்கின்றனர். அது, புலப்படும் பல ரூபாதிகளையும், புலப்படாத பாபநிவருத்தி முதலியதையும் செய்யக் கூடியதல்லவோ. ஐபம், ஹோமம் முதலிய எதையும் ஸ்நானம் செய்யாமல் செய்யக்கூடாது. ப்ராத:ஸ்நானம் செய்து சுத்தனுகியவன், ஐபம் முதலிய எல்லாவற்றையும் செய்ய அர்ஹனாகிறுன். எந்த ப்ராம்ஹணன் காலையிலெழுந்து ஸந்த்யாஸ்நானம் செய்கின்றான் அவன் முன் ஏழுஜன்மங்களில் செய்த பாபங்களை மூன்று வர்ஷங்களில் போக்குகிறுன். நியமமாய் ப்ராத:ஸ்நானம் செய்யும் மனிதனுக்குப் பத்துக்குணங்கள் உண்டா கின்றன. அவையாவன:- ரூபம், தேஜஸ், பலம், சௌசம், ஆயுஸ், ஆரோக்யம், பேராசையின்மை, துஸ்ஸ்வப்ன நிவருத்தி, தைர்யம், மேதை இவைகளாம், உஷ: காலத்திலோ, ஸந்த்யாகாலத்திலோ, ஸுரீயோதய த்திலோ செய்யப்படும் ஸ்நானம், ப்ரஜாபத்ய க்ருச்ரத்திற்குச் சமமாயும், மஹாபாபங்களைய கற்றுவதுமாகும்.

अत्रिः—अस्नाताशी मलं भुङ्गेद्यजपः पूयशोषितम्। अहुताशी
क्रिमिं भुङ्गे द्यदाता विषमनुते इति ॥ व्यासोऽपि — प्रातःस्नानेन

संशुद्धा येऽपि पापकृतो जनाः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्नानं प्रातः समाचरेत् ॥ क्रषीणामृषिता नित्यं प्रातः स्नानान्ब संशयः ॥ मुखे सुस्पस्य सततं लालाद्याः संस्ववन्ति हि । ततो वै नाचरेत् कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः । अलक्ष्मीः कालकण्ठी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम् । प्रातःस्नानेन पापानि पूर्यन्ते नात्र संशयः । न हि स्नानं विना पुंसां प्रायत्यं कर्मसु स्मृतम् ॥ होमे जप्ये विशेषेण ततः स्नानं समाचरेत् इति ।

अत्थाः— सन्नानमं चेय्यामलं पूजीप्पवनं मलत्तेतप्पं पूजीकंकिरुन्. ज्ञपिकंकामलं पूजीप्पवनं च॒ळ, रक्तमं इवेकौलापं पूजीकंकिरुन्. लेहामलं चेय्यामलं पूजीप्पवनं पुमुवेवपं पूजीकंकिरुन्. केतामलं पूजीप्पवनं विष्टत्तेतप्पं पूजीकंकिरुन्. व्यासालुमः— पापमं चेय्युमं मनीतरं एवरक्तायीनुमं, प्ररातःसन्नानत्तेतालं सुत्तराकिन्नरनरं. आकेयालं एल्ला मुयर्चियुटानुमं कालैयीलं सन्नानमं चेय्यवेण्टुमं. गुष्ठिकारुकंकुरुष्ठित्तेतन्मामे नित्यमुमं प्ररातःसन्नानत्तिनुलेये उन्नटाकियतु. सन्तेतेहमिलैल. तुअंकुकिन्नरवरुकंकुमुकत्तिलं एप्पेबामुतुमं उमिम्नीर कज्जलीर मुतवियवेव बेपरुकुकिन्नरन. आकेयालं मुतविलं सन्नानमं चेय्यामलं कर्मन्कौलासं चेय्यक्षटातु. श्रुतेवी, कालकज्जले (कर्त्तव्यारथोऽपि) तुष्टस्वप्नमं, तुष्टनीनेव इवेकौलं प्ररातःसन्नानत्तेतालं पोक्कप्पटुकिन्नरन. इतिलं सन्तेतेहमिलैल. मनीतरंकारुकंकुरु सन्नानमिलैलावीटिलं कर्मन्कौलासं चेय्वतिलं सुत्ति किटेयातु. लेहामत्तिलुमं ज्ञपत्तिलुमं विचेष्मायसं सुत्ति किटेयातु. आकेयालं सन्नानमं चेय्यवेण्टुमं.

स्मृत्यर्थसारेऽपि—संशोध्य दन्तानाचम्य विधिवत् स्नानमाचरेत् । स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः श्रुतिस्मृत्युदिता नृणाम् । अस्नातस्तु पुमान्बाह्यः जपहोमादिकर्मसु ॥ प्रातर्ध्याह्योः स्नानं वान-

பிரஸ்஥஗ृहஸ்஥யोः । யतेखிஷவर्ण स्नानं सकृच्च ब्रह्मचारिणाम् ॥ सर्वे वाऽपि
सकृत् कुर्युरशक्तौ चोदकं विना । सामर्थ्ये चाम्बुसभ्वावे यथाशास्त्रं हि
तद्भवेत् ॥ स्नानं च सर्ववर्णनां कार्यं शौचपुरस्सरम् इति ॥
बैयाप्रपादोऽपि - प्रातः स्नायी भवेन्नित्यं मध्यस्नायी द्विजो भवेत् इति ॥
शौनकः - उभयोः सन्ध्ययोः स्नानं ब्राह्मणैश्च गृहाश्रितैः । तिसृष्टिपि च
सन्ध्यासु स्नातव्यं तु तपस्विनाम् इति ॥ कात्यायनोऽपि - यथाऽहनि
तथा प्रातर्नित्यं स्नायादतन्द्रितः । दन्तान् प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे
चेत्तदमन्त्रकम् इति ॥ अमन्त्रकमिति मन्त्रसंक्षेपोऽभिप्रेतः । यतः स
एवाह अल्पत्वाद्वोमकालस्य बहुत्वात् स्नानकर्मणः । प्रातः संक्षेपतः
स्नानं होमलोपो विगर्हितः इति ॥

ஸ்ம்ருத்யார்த்தஸாரத்திலும்:- தந்ததாவனம் செய்து
ஆசமனம் செய்து விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மனிதர்களுக்கு வேதங்களாலும், ஸ்ம்ருதிகளாலும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கர்மங்களெல்லாம் ஸ்நானத்தையே
ஆதியாகவுடையவை. ஸ்நானம் செய்யாத மனிதன் ஜபம்,
ஹோமம் முதலிய கர்மங்களில் யோக்யஞவுதில்லை.
வானப்ரஸ்தன், க்ருஹஸ்தன் இவ்விருவருக்கும்
காலையிலும், மத்யான்ஹுத்திலும் ஸ்நானம் விதிக்கப்
பட்டுள்ளது. ஸன்யாஸிக்கு மூன்று காலங்களிலும்,
ப்ரம்ஹசாரிக்கும் காலையிலும் ஸ்நானம் விதிக்கப்
பட்டுள்ளது. சக்தியில்லாவிடினும், ஜலமில்லாவிடினும்
எல்லா ஆச்ரமிகளும் ஒருமுறை செய்யலாம்.
சக்தியிருந்தாலும், ஜலமிருந்தாலும் சாஸ்த்ரப்படி
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். எல்லா வர்ணத்தினர்களும்
சௌகத்தை முன்செய்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
வையாக்ரபாதரும்:- ப்ராம்ஹணன் ப்ராதःகாலத்திலும்
மத்யான்ஹுத்திலும் ஸ்நானம் செய்பவஞ்சிருக்க
வேண்டும். சௌனகர்:- க்ருஹஸ்தர்களான
ப்ராம்ஹணர்கள் இரண்டு ஸந்த்யைகளிலும், யதிகள்

मुन्नरु सन्त्येयकणीलुम् षन्नाणम् चेय्यवेण्णुम्.
 कात्यायणरुम्:- मत्याण्णुरुत्तिलेपप्पटियो
 अप्पटिये कालैयिलुम् शोम्पविण्णी, तन्त्रशोतनम्
 चेय्तु केण्णु प्रतितिण्णुम् नति मुतवियवेकणीलं
 षन्नाणम् चेय्यवेण्णुम्. वीट्टिलं चेय्तालं अते
 मन्त्रमिण्णीच चेय्यलाम्. इन्कु 'मन्त्रमिल्लामल'
 एन्पत्तरंकु मन्त्ररंकणीच सुरुक्किक्केकाळौलामेन्न
 अपिप्रायम्. एनेणीलं, अवरो शोल्लुकिरुर-
 'हेनामकालम् अल्पमायिरुप्पत्तालुम्, षन्नाणकर्ममं
 विस्तारमुलौतायिरुप्पत्तालुम्, कालैयिलं सुरुक्कमायं
 षन्नाणम् चेय्यलाम्, हेनामत्तेत लोपम् चेय्वतु
 निन्तितमाकुम्' एन्नरु.

व्याघ्रपादः—प्रातः संक्षेपतःस्नानं शौचार्थं तु तदिष्यते ।
 मन्त्रैस्तु विधिवत् कार्यं मध्याहे तु सविस्तरम् इति ॥
 स्नानप्रकारश्चतुर्बिंशतिमते दर्शितः—स्नानमब्देवतैर्मन्त्रैः वारुणैश्च
 मृदा सह । कुर्याद्विचाहतिभिर्वाऽथ यत्किंचेदमृचाऽपि वा । द्रुपदादिति
 वा स्नायाज्ञुम्बकायेति वा पुनः । पुण्यानि च स्मरेत्तीर्थान्युज्ञना-
 मुनिरब्रवीत् इति ॥ शौनकः—जलमध्ये स्थितो विप्रशुद्धभावो हरिं
 स्मरेत् । स्नात्वाऽऽचान्तो वारिमग्नः त्रिः पठेदघमर्षणम् ॥
 ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु । प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु मुच्यते
 दुष्कृतात् पुमान् इति ॥

वंयाकर्पात्तरः—कालैयिलं सुरुक्कमायं षन्नाणम्
 चेय्य वेण्णुम्, अतु सत्तिक्काणतालं,
 मत्याण्णुरुत्तिलं विस्तारमायं मन्त्ररं
 कणुटनं चेय्यवेण्णुम्. सत्तुर्विमित्तिमत्तिलः—
 ज्ञलतेवताकमाकवुम्, वरुणतेवताकमाकवुम् उलौ
 मन्त्ररंकणालं मंग्रुत्तिकैयुटनं षन्नाणम् चेय्य
 वेण्णुम्. अल्लतु वंयाह्वरुत्तिकणालं, अल्लतु
 'यत्किञ्च' एन्नरु रुक्किणेल, अल्लतु 'तंगुपत्तात्'
 एन्पत्तालं, अल्लतु 'ज्ञाम्पकाय' एन्पत्तालं चेय्यलाम्.

புன்ய தீர்த்தங்களையும் ஸ்மரிக்கவேண்டும், என்று உசநஸ் முனிவர் சொன்னார். சொனகர்:- ப்ராம்ஹணன் ஜலத்தின் நடுவில் நின்றவனுய், சுத்தமான மனமுடையவனுய் விஷ்ணுவை த்யானிக்க வேண்டும். ஸ்நானம் செய்து ஆசமனம் செய்து, ஜலத்தினுள் மூழ்கியவனுய் மூன்றுமுறை அகமர்ஷன மந்தரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்களிலும், எல்லா ப்ராயச்சித்தங்களிலும் தேவனுகிய நாராயணனை த்யானிக்க வேண்டும். இவ்விதம் செய்பவன் பாபத்தினின்றும் விடுபடுகிறான்.

दक्षोऽपि—ध्यायेनारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु ।
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेहाजायते पुनः इति ॥ हारीतोऽपि—
सोऽन्तर्जलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । हरिं संस्मृत्य मनसा
मज्जयेच्चोरवज्जले इति ॥ मज्जयेत् - शरीरमिति शेषः ॥ व्यासोऽपि—
आपो नारा इति प्रोक्तास्ता यदस्यायनं पुनः । तस्मान्नारायणं देवं
स्नानकाले स्मरेद्धुधः इति । अखण्डादर्शे - अप्रायत्यं निहन्त्येव
स्नानेनैकेन मानवः । द्वितीयेन निमज्जेन निर्मलत्वं भजेद्धुवम् ॥ तृतीये
नातिरूपिः स्यान्निमज्जनफलं त्विदम् इति ।

துக்கரும்:- நாராயணனினும் தேவனை ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்களில் த்யானிக்க வேண்டும். த்யானிப்பவன் ப்ரம்ஹலோகத்தையடைகிறான். இப்புவியில் மறுபடி பிறப்பதில்லை. **ஹாரீதரும்:-** பிறகு அவன் ஜலத்தின் நடுவையடைந்து மெளனியாய், நியமத்துடன், மனதால் ஹரியை ஸ்மரித்து ஜலத்தில் சரீரத்தைத் திருடன் போல் முழுக்கவேண்டும். **வ்யாஸரும்:-** ஜலம் நாரம் எனச்சொல்லப்பட்டுள்ளது. அது இவனுக்கு இருப்பிடமானதால், நாராயணனினும் தேவனை ஸ்நானகாலத்தில் அறிவுடையவன் ஸ்மரிக்க வேண்டும். **அகண்டாதாதுர்சத்தில்:-** மனிதன் முதல் ஸ்நானத்தால் அசுத்தியைப் போக்குகிறான். இரண்டாவது

संनानत्त्वालं अमुक्किल्लात् तन्मेयज्ञटाकुम्;
त्रिक्षयम्. मुन्जवतु संनानत्त्वालं अक्षिकमान
तंगुपत्रियज्ञटाकुम्. इतु संनानत्तिन्पयातुम्.

आचारसारे—प्रातस्तीर्थविगाहनमल्पेन वाक्येन मार्जनं च
व्याहृतिभिरेव प्राणायामो द्रुपदया वा इति ॥ स्मृत्यन्तरे—
सङ्कल्पस्सूक्तपठनं मार्जनं चाघमर्षणम् । देवतातर्पणं चैव स्नानं
पञ्चाङ्गमुच्यते इति ॥ ‘इदमापः प्रवहतेति व्याहृतिभिः
जलाभिमन्त्रणम् । आपोहिष्टेति मार्जनम् । द्रुपदादिवेद्वायत्रीतद्विष्णोः
प्रणवैरघमर्षणेन स्नानत्रयभिति ॥ स्मृत्यर्थसारे— प्रातः स्नानं सदा
कुर्यादुष्णेनैवातुरः सदा । पादौ हस्तौच प्रक्षाल्य सावित्रीं प्रणवं स्मरेत् ।
शिखां बधाऽऽचम्य तटं प्रक्षाल्य दर्भान्निधाय दर्भपाणिर्जलं नत्वा
प्रयताञ्जलिः प्राङ्गुखोऽवगाह्य कक्षादि निमृज्य स्नात्वा द्विराचम्य
दर्भपाणिरापोहिष्टाद्यैरब्दैवतैः मार्जनं कृत्वाऽऽघमर्षणं कुर्यात् । पुनः
स्नात्वा द्विराचम्य तर्पणं कुर्यात् इति ॥ अप्रवाहोदकस्नानं
विप्रपादावनेजनम् । गायत्री जपमर्द्यं च आदित्याभिमुखश्चरेत् ॥
स्रोतसोऽभि मुखः स्नायान्मार्जने चाघमर्षणे । अन्यत्राक्मुखो रात्रौ
प्रागुदङ्गुख एव वा ॥ सन्ध्यामुखस्तु सन्ध्यायां दैवे देवोन्मुखस्तथा
इति ।

अुकारलारत्त्वीलः:- कालैयिलं संनानत्तते
संवल्पमन्तर्हन्तकलालं चेय्यलाम्. मार्ज्जनमुम्.
वंयाहृंगुतीकलालं, प्रराणेयाममुम्, चेय्यवेण्णुम्.
अल्लतु ‘तंगुपता’ एन्ऱ मन्तरत्तिगुलं मार्ज्जनम्.
मर्त्तेगुरु लंगुरुतीयिलः- लंगकल्पपम्, लमक्तपटनम्,
मार्ज्जनम्, अकमर्षणम्, तेवतातर्पपणम् एन्ऱु ज्ञन्तु
अंकनंकगुणटेयतु संनानम् एन्ऱु चेऽल्लप्पटुकिरतु.
‘इतमापः’ वंयाहृंगुतीकलं इवेवकलालं ज्ञलत्तते
अपिमन्तरीक्कवेण्णुम्. ‘अपोहवीष्टा’ एन्पतालं
मार्ज्जनम् चेय्यवेण्णुम्. तंगुपतातीव, कायतर्ही,

தத்விஷ்ணே�ः, ப்ரணவம், அகமர்ஷனம் இவைகளால் மூன்று முறை ஸ்நானம். ஸ்மிருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- எப்பொழுதும் காலையில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். வ்யாதியுள்ளவன் எப்பொழுதும் உஷ்ணேதகத்தாலேயே செய்யலாம். கால்களையும் கைகளையும் அலம்பி, காயத்ரீயையும், ப்ரணவத்தையும் ஸ்மரிக்க வேண்டும். குடுமியை முடிந்துகொண்டு, ஆசமனம் செய்து, கரையை அலம்பி, தர்ப்பங்களை வைத்து, தர்ப்பங்களைக் கையில் தரித்து, ஜலத்தை நமஸ்கரித்து, அஞ்ஜலியடன் கிழக்கு நோக்கியவனும் முழுகி, கசும் முதலியவைகளைத் துடைத்து, ஸ்நானம் செய்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்து, தர்ப்பங்களைத் தரித்தவனும், 'ஆபோஹிஷ்டா' முதலிய ஜலதேவதாக மந்த்ரங்களால் மார்ஜனம் செய்து, அகமர்ஷனம் செய்யவேண்டும். மறுபடி ஸ்நானம் செய்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்து, தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். ப்ரவாஹமல்லாத ஜலத்தில் ஸ்நானம், ப்ராம்ஹணர்கள் காலை அலம்புவது, காயத்ரீஜபம், அர்க்யதானம் இவைகளை ஸமர்யனுக்கு எதிராய் நின்று செய்யவேண்டும். ப்ரவாஹத்தில் அதற்கு நேராய் இருந்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மார்ஜனத்திலும், அகமர்ஷனத்திலுமப்படியே. மற்ற ஜலத்தில் ஸ்நானத்தை ஸமர்யனுக்கு எதிராயிருந்து செய்யவேண்டும். தேவஸம்பந்தமான ஜலத்தில் தேவாபிமுகமாயிருந்து செய்யவேண்டும்.

காலனியமமாஹ ஜாஷாலி:—ஆச்ரேதுஸி ஸ்நான் தப்யீஹைமானுஷாந् இதி ॥ விஷ்ணுர்பி — பிராத: ஸ்நாயாதரஸ்கர஗்ரஸ்தா பிராचீமவலோக்ய இதி ॥ அருணோदயலக்ஷணமாஹ நாரா:— சதஸோ ஘டிகா: பிராத ரஸ்ணோதயநிஶ்சய: இதி ॥ ஸ்கந்஦ோபி — உதயாத் பிராக்வதஸஸ்து நாடிகா அருணோதய: । தற ஸ்நான் பிரஸஸ்த ஸ்யாத் ஸ ஹி புண்யதம: ஸ்மृத: இதி ॥

காலநியமத்தைப்பற்றி, ஜாபாலி:- உஷ:காலத்தில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். தேவர், மனுஷ்யர் இவர்களைக் குறித்துத் தரப்பணம் செய்யவேண்டும். விஷ்ணுவும்:- காலையில் அருணனின் கிரணங்களால் வ்யாபிக்கப் பட்டிருக்கும் கிழக்குத் திக்கைப் பார்த்தபிறகு ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அருணேதயத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார் நாரதர்:- காலையில் ஸ-மர்யோதயத் திற்குமுன் நான்கு நாழிகைகள் அருணேதயமென்று வித்தாந்தம். ஸ்கந்தரும்:- உதயத்திற்குமுன் நான்கு நாழிகைகள் அருணேதயம். அக்காலத்தில் ஸ்நானம் செய்வது சிறந்ததாகும். அக்காலம் வெகுபுண்யமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

यत्तु चतुर्विंशतिमतेऽभिहितम्—उपब्युषसि यत्स्नानं
सन्ध्यायामुदितेऽपि वा । प्राजापत्येन तत्तुल्यं सर्वधापप्रणाशनम् इति,
तस्यार्थः स्मृतिचन्द्रिकामाधवीययोर्वर्णितः— यत्सन्ध्यायां स्नानं
तदुपरि उषसि, यदि वा उदिते - उदयाभिमुख इत्यर्थः ।
उदयस्याप्युपरि स्नानश्चेत् सन्ध्याऽपि उत्कृष्ट्येत, स्नानपूर्वकत्वात्
सन्ध्यायाः ॥ यदाह विष्णुः— स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पित्र्ये च
कर्मणि । पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिचोदिते इति ॥
योगयाज्ञवल्क्यः— प्रातः सह गोमयेन कुर्यान्मृदा मध्यनिदने सायं
शुद्धाभिरस्त्रिः । न प्रातः स्नानात् प्राक्सन्ध्यामुपासीत इति ॥ दक्षोऽपि
— स्नानमूलाः क्रियास्सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन
स्नानं कुर्यात्समाहितः इति ॥ यदेवं तद्योतद्वचनबलादेव
सन्ध्याऽप्युत्कृष्ट्यताम् ॥ मैवम् । ‘सन्धौ सन्ध्यामुपासीत नास्तगे
नोद्रुते रवा’ विति योगयाज्ञवल्क्येन तन्निषेधस्मरणात् ॥ तथा—
‘रात्र्यन्तयामनाडी द्वे सन्ध्यादिः काल उच्यते । दर्शनाद्रविरेखायाः
तदन्तो मुनिभिः स्मृतः’ इति दक्षेण कालनियमाच्च ॥ रविरेखायाः
दर्शनादुपलक्षितः कालः सन्ध्यान्त इत्यर्थः । अत ‘उदितेऽपि वेत्यस्य
उदयाभिमुख इत्येवार्थो युक्त इति ॥

ஆனால், சதுர்விமச்தமிதத்தில்:- “உஷ: காலத்திலோ, ஸந்த்யாகாலத்திலோ, ஸமர்யோதயத் திற்குப் பிறகோ செய்யப்படும் ஸ்நானம், ப்ராஜாபத்யக்ருசர்த்திற்குச் சமமாகியதும், எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கக்கூடியதுமாகும்” என்றிருக்கிறதே யெனில், அதற்குப் பொருள், ஸ்மிருதிசந்தரிகை, மாதவீயம் என்னும் க்ரந்தங்களில் வருமாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது. “ஸந்த்யையில் செய்யப்படும் ஸ்நானமும், அதற்குப்பின் உஷ:காலத்தில், அல்லது ஸமர்யன் உதயத்தை நோக்கியுள்ளவனுமிருக்கும் பொழுது (உதயத்திற்கு முன்) என்று பொருள். உதயத்திற்குப் பிறகு ஸ்நானம் என்றால், ஸந்த்யாவந்தனத்தையும் பிறகு செய்யவேண்டியதாகும். ஸ்நானத்திற்குப் பிறகே ஸந்த்யையைச் செய்ய வேண்டியதால். (ஏனெனில், விஷ்ணு:)- ‘தேவகர்மம், பித்ருகர்மம், சுத்திகரமான மந்த்ரங்களை ஜபித்தல், சாஸ்த்ரத்தால் விதிக்கப்பட்ட தானம் இவைகளில் ஸ்நானம் செய்தவன் அதிகாரியாகிறான்’ என்றதாலும், யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- ‘காலையில் கோமயத்துடன் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மத்யான்ஹத்தில் ம்ருத்திகை யுடனும், மாலையில் சுத்த ஜலத்தாலும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்; ப்ராத:ஸ்நானத்திற்குமுன் ஸந்தயோபாஸனம் செய்யக்கூடாது’ என்றதாலும், தகஷ்ணம்:- ‘எல்லாக் கர்மங்களும், ஸந்தயோபாஸனமும் ஸ்நானத்தை மூலமாய்டையவை, ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் கவனமுள்ளவனுய் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்’ என்று சொல்லி யிருப்பதாலும், ‘இவ்விதமிருப்பின், அப்பொழுது இந்த வசனங்களின் பலத்தினாலேயே ஸந்த்யையையும் இமுக்கலாமே எனில், இவ்விதம் சொல்லக்கூடாது. (ஏனெனில்) ‘ஸந்த்யாகாலத்தில் ஸந்தயோபாஸனம் செய்யவேண்டும். ஸமர்யன் அஸ்தமித்தபிறகும், உதித்தபிறகும் ஸந்தயோபாஸனம் கூடாது’ என்று யோகயாக்ஞவல்க்யர் அதை

निषेद्धित्तिरुप्पत्तालुम्, अव्वीतम् 'इरविनं
कटेचियामत्तिनि इरण्णु नाम्मिकेककौं सन्त्तययिनं
आरम्पकालम्, लार्यप्रिम्पत्तिनि रोकेययप्
पार्पप्पत्तालं सन्त्तययिनं मुष्टिवु एन्पतु मुनीकौलं
वित्तिकप्पत्तिलूलूतु' एन्ऱु तुक्षरं कालत्तेत
वित्तिरुप्पत्तालुम्, लार्यरोकेययकं काण्णुम् कालम्
सन्त्तययिनं मुष्टिवु एन्पतु बेपारुलं. आकेयालं
(सतुर्विमस्तिमत्तिलूलूलू) उत्तितेऽपिवा एन्पत्तर्कु
लार्यन् उत्तापिमुक्तुयिरुक्कुम् बेपामुतु एन्पतेऽ
युक्तमान अर्त्तम्' एन्ऱु.

दक्षः—स्नात्वाऽचामेघदा विप्रः पादौ कृत्वा जले स्थले ।
उभयोरप्यसौ शुद्धः ततः कर्मक्षमो भवेत् ॥ विन्यस्य दक्षिणं पादं जले
बामपदं बहिः । उपवीती समाचामेत् विधिरेषु सनातनः इति ॥

तुक्षरः—प्रराम्भूलेण एप्पेपामुतु सन्नानम् चेय्त
प्रिन्कु आसमनम् चेय्वागेऽप्पेपामुतु, काल्कौं
ज्ञलत्तिलुम् संत्वत्तिलुम् वेवत्तुकं केकाण्णु आसमनम्
चेय्यवेण्णुम्. इरण्णिलुम् इवन् सत्तत्तुकिरुन्.
प्रिन्कु कर्मन्कौलिल अतिकारीयाकिरुन्. वलतु कालै
ज्ञलत्तिलुम्, इट्तुकालै संत्वत्तिलुम्
वेवत्तुकं केकाण्णु उपवीतीयायं आसमनम्
चेय्यवेण्णुम्. इन्त विति एप्पेपामुतुमूलूताकियतु.

स्नानाज्ञतर्पणमुक्तं माधवीये—नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विविधं
स्नानमुच्यते । तर्पणं तु भवेत्तस्य चाज्ञत्वेन प्रकीर्तिम् इति ॥
चतुर्विशतिमतेऽपि—स्नानादनन्तरं तावत् तर्पयेत् पितृदेवताः इति ॥
व्याघ्रोऽपि—स्नाने चैव तु सर्वत्र तर्पयेत् पितृदेवताः । काम्येनित्ये
विशेषेण प्रकुर्यात् तत्प्रयत्नतः इति ॥ अकरणे दोषोऽपि वसिष्ठेन दर्शितः
—नास्तिक्यभावा द्यस्तांस्तु न तर्पयति वै पितृन् । पिबन्ति देहनिस्त्रावं
पितरोऽस्य जलार्थिनः' इति । देहनिस्त्रावः - रुधिरम् ॥

ஸ்நானங்கமான தர்ப்பணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது, மாதவீயத்தில்:- ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு பித்ருக்களுக்கும், தேவதைகளுக்கும் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். வ்யாக்ரரும்:- ஸ்நானங்களைல்லாவற்றிலும் பித்ருக்களையும், தேவர்களையும், தர்ப்பிக்கவேண்டும். காம்யஸ்நானம், நித்யஸ்நானம் இவைகளில் அவச்யம் செய்யவேண்டும். செய்யாவிடில் தோஷமுண்டென்பது வலிஷ்டரால் காண்பிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது:- எவன் நாஸ்திக்யத்தன்மையால் பித்ரு தர்ப்பணம் செய்ய வில்லையோ, அவனின் பித்ருக்கள் (முன்னேர்கள்) ஜலத்தை விரும்பியவர்களாய் இவனின் ரக்தத்தைப் பருகுகின்றனர்.

யத்வாபஸ்தம்஬ேநோக்தம் - அஸ்பृஶயஸ்பஶனை வாந்தௌ த்வஶ்ருபாதே க்ஷுரே
தथா । ஸ்நான் நைமித்திக் ஜேய் ஦ேவர்ஷிபிதுவர்ஜிதம் இதி, யदபி
ஸமුத்யர்஥ஸாரவசநம் - ‘அஸ்பृஶயஸ்பஶனஸ்நானே நா஧மர்ணத்தீர்பே இதி,
தத்ஸ்பृஶயஸ்பஶார்஦ினிமித்தப்ராதமிகஸ்நானே தர்பண நிஷே஧பரம் ॥
‘ஓவானுகமனே க்ஷைரே புனः ஸ்நான் வி஧ியதே இத்யுக்தபுனः ஸ்நானே, ‘ஸ்நாநார்ஹஸ்து
நிமித்தேன த்ரயோदஶ நிமஜ்ய ச । ஆசம்யாப்ரயதः பஶ்சாத் ஸ்நான்
வி஧ிவாச்சரேத்’ இத்யுக்தே த்ரயோदஶனிமஜ்ஞானந்தர ஸ்நானே ச தர்பண
மஷத்யேவ | ‘ஸ்நானே சைவ ஹி ஸ்வர்த்த தப்யேத்’ இதி ஸ்மரணாத् ॥

“தீண்டக்கூடாதவரைத் தீண்டல்”, வாந்தி, கண்ணீர்விடுதல், கெஷ்டரம் என்ற நிமித்தங்களில் செய்யும் ஸ்நானம் நெமித்திகமென்றறியவும். இந்த ஸ்நானத்திற்கு தேவருஷிபித்ருதர்ப்பணம் ‘இல்லை’ என்று ஆபஸ்தம்பர் சொல்லியதும், ‘தீண்டக்கூடாதவரைத் தீண்டியதற்கான ஸ்நானத்தில் அகமர்ஷணமும் தர்ப்பணமுமில்லை’ என்ற ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலுள்ள வசனமும், தீண்டக்கூடாதவரைத் தீண்டியது முதலிய நிமித்தத்தால் செய்யும் முதல் ஸ்நானத்தில் தர்ப்பணத்தை நிஷேஷத்திப்பதில் தாதபர்யமுள்ளதாம். ‘பின்ததிற்குப் பின்

चेळवतु, केषु गरम् इवेवकालीलं मनुपदि संनानम् वित्तिकप्पत्तु किरतु' एन्नरतालं चेऽलप्पत्ता पुनः संनानत्तिलुम्, 'निमित्तत्तत्त्वालं संनानत्तिन् कुरीयवनं 13-तटवेव मुम्हकि, आसमनम् चेयतु, सत्तत्तग्न्य, प्रिनकु वित्तिपदि संनानम् चेय्य वेण्णुम्' एन्नरु चेऽलप्पत्तु गो 13-मुमुक्कुक्कुप्प प्रिनकु चेय्यप्पत्तुम् संनानत्तिलुम् तर्प्पणम् आवश्यकमें. 'संनानमेल्ला वर्न्नरिलुम् तर्प्पणम् चेय्य वेण्णुम्' एन्नरु सम्मरुत्तियिरुप्पत्तालं.

द्वौ हस्तौ युग्मतः कृत्वा पूर्येदुदकाञ्जलिम्। गोशृङ्गमात्रमुख्यत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत् इति । यत्तु व्याघ्रेणोक्तम्— उभाभ्यमपि हस्ताभ्या मुदकं यः प्रयच्छति । स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्षिराः इति, तच्छ्राद्धादावुदकदानविषयम् ॥ यदाह काषाण्जिनिः— श्राद्धे विवाहकाले च पाणिनैकेन दीयते । तर्पयेत्तम्येनैव विधिरेष पुरातनः इति ॥ स्नातश्चार्द्वासा जलस्थ एव देवर्षिपितृतर्पणं कुर्यात् ॥ तथा च नारायणः— उपवीती बद्ध शिखः समाचम्य यथाविधि । देवर्षी स्तर्पयेदप्सु पितृश्वैव समाहितः इति ॥ अप्सु स्थित्वा तर्पयेदित्यर्थः ॥ विष्णुः— स्नातश्चार्द्वासा देवर्षिपितृतर्पणमम्भःस्थ एव कुर्वीत इति ॥

यमनः— इरण्णु लक्षणायुम् चेर्तत्तुकं केाण्णु ज्ञलत्तत्तालं निरप्प वेण्णुम्. पक्षविनं केाम्पलाव उयरत्तत्तुक्कि ज्ञलत्तत्तिनं नावुवीलं ज्ञलत्तत्तेव विट वेण्णुम्. व्याकुर्याः— 'एवनं इरण्णु लक्षणालुम् ज्ञलत्तत्तकं केाकुक्किन्ऱुग्नेऽ, अन्त श्रुतं तत्त्वैक्षिमाय, कालस्त्वर्त्तमेमनुम् नरकत्तत्तेव अतेवान्' एन्नरु चेऽलप्पियुग्नेव वक्षनम् चरात्तत्तम् मुत्तवियवेवकालीलं चेय्युम् ज्ञलत्तानत्तेव पर्न्नरियतु. एजेननीलं,

काषाण्जिनिः— नाभिमात्रजले स्थित्वा चिन्तयन्तुष्मानसः । देवान् देवगणांशापि क्रषीनृषिगणानपि ॥ अथ काण्ड क्रषीनेतानुकाञ्जलिमिः शुचिः । अव्यग्रस्तर्पयेन्नित्यं मन्त्रैव

ஸ்வநாமभिः ॥ பிதृந् பிதृ஗ணங்ஶாபி நிதய் ஸந்தபைத்த: இதி ॥
 ஭ரதாஜः - தர்பணं ஦ேவதாदி஭्यः ஸ்வஸ்வतीर்஥ே தர்பயேத् ।
 ஗ோஶுங்கமானமுடுத்ய தர்பணே ஜலமுத்ஸுஜேத् ॥ யேந தீர்஥ேந ஹளியாத् தேந
 ஦த்யாஜலாஞ்சலிம् । அந்யதீர்஥ேந ஹளியாத् தத்தோய் ருதிரெங் ஭வேத् ॥
 பூர்வாபிமுகா ஦ேவானுதராபிமுகஸ்த்வஷிந् । பிதுஂஸ்து ஦க்ஷிணாஸ்யஸ்து
 ஜலம஧ே துதபைத் இதி ॥

காார்ஷ்டாஞ்ஜினி:- 'ச்ராத்தத்திலும், விவாஹகாலத்திலும் ஒரு கையால் கொடுக்க வேண்டும். தர்ப்பணத்தை இரண்டு கைகளாலுமே செய்ய வேண்டும். இது ப்ராசீனமான விதி' என்று சொல்லியிருப்பதால், ஸ்நானம் செய்தவன் ஸரவஸ்த்ரத்துடன் ஜலத்திலிருந்தே தேவருஷி பித்ரு தர்ப்பணத்தை செய்ய வேண்டும். அவ்விதமே, நாராயணர்:- உபவீதியாய் சிகையைக் கட்டிக் கொண்டு விதிப்படி ஆசமனம் செய்து கவனமுடையவனுய் ஜலத்தில் நின்று தேவருஷி பித்ருக்களைத் தர்பிக்க வேண்டும். விஷ்ணு:- நாபியளவு ஜலத்திலிருந்து மேல் மனதுடையவனுய் த்யானித்து, தேவர்கள் தேவ கணங்கள், ருஷிகணங்கள், காண்டருஷிகள் இவர்களைச் சுத்தனுய், கவனமாய் அவரவரின் நாம மந்த்ரங்களால் நித்யமும் தர்ப்பிக்க வேண்டும். பரத்வாஜர்:- தேவர் முதலியவர்களுக்குத் தர்ப்பணத்தை அவரவர் தீர்த்தத்தினால் செய்ய வேண்டும். தர்ப்பணத்தில் பகவின் கொம்பளவு உயர எடுத்து ஜலத்தை விட வேண்டும். எந்தத் தீர்த்தத்தால் எடுக்கின்றாலே அதனுலேயே விட வேண்டும். வேறு தீர்த்தத்தாலெடுத்தால் அந்தத் தீர்த்தம் ரக்தமாகும். கிழக்கு முகமாய்த் தேவர்களையும், வடக்குமுகமாய் ருஷிகளையும், தெற்குமுகமாய் பித்ருக்களையும் ஜலத்தின் நடுவில் தர்ப்பிக்க வேண்டும்.

வ்யாஸோऽபி—தர்பணं து ஶுचिः குர्यात् ப்ரत्यहं ஸ்வாதகஸ்த்வஹ ।
 ஦ேவேந்யोऽथ க்ரषியோऽத பிதृம்யश யथா க்ரமம् ॥ ஆடாவோக்காரமுக்கார்

नाम्नोऽन्ते तर्पयामि च । देवान् ब्रह्मकर्षणश्चैव तर्पयेदक्षतोदकैः ॥
पितृस्तिलोदकैः स्वोक्तविधिना तर्पयेद्विजः । यज्ञोपवीती देवानां
निवीती क्रषितर्पणे ॥ प्राचीनावीती पित्र्येषु स्वेन तीर्थेन तर्पयेत् इति ॥
विष्णुपुराणे – शुचिव(र्व)खधरः स्नातो देवर्षिपितृतर्पणम् । तेषामेव हि
तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः ॥ त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्जयेत् ।
तथर्षीणां यथान्यायं सकृच्चापि प्रजापतेः ॥ पितृणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः
पृथिवीपते । पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत् प्रपितामहान् ॥ मातामहाय
तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहितः इति ॥

வயாஸநும்:- க்ருஹஸ்தன் சுத்தனைய் தேவர்கள் ருஷிகள் பித்ருக்கள் இவர்களுக்கு ப்ரதிதினமும் க்ரமமாய்த் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். முதலில் ஒங்காரத்தைச் சொல்லி, பிறகு நாமத்தின் முடிவில் தர்ப்பயாமி என்று சேர்த்து, தேவர்கள், ப்ரம்ஹருஷிகள் இவர்களுக்கு அஷ்டதையுடன் கூடிய ஜலத்தால் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். பித்ருக்களுக்குத் திலோதகங்களால் சொல்லிய விதிப்படி தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். உபவீதியாய்த் தேவர்களுக்கும், நிவீதியாய் ருஷி களுக்கும், ப்ராசினை வீதியாய்ப் பித்ருக்களுக்கும் அவரவர் தீர்த்தத்தால் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். விஷ்ணு புராணத்தில்:- சுத்தனைய் வஸ்தரம் தரித்தவனுய் அவரவர் தீர்த்தத்தால் கவனமுடன் தேவருஷி பித்ரு தர்ப்பணத்தைச் செய்ய வேண்டும். தேவர்களுக்குத் தர்ப்பணத்திற்காக மூன்றுதடவை ஜலத்தை விடவேண்டும். ரிஷிகளுக்குமப்படியே. ப்ரஜாபதிக்கு ஒரு தடவை. அரசே பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணத்திற்காக மூன்று தடவை ஜலத்தை விட வேண்டும். பிதாமஹர்களுக்கும், ப்ரபிதாமஹர்களுக்கும், மாதாமஹனுக்கும், அவர் பிதாவுக்கும், அவர் பிதாவுக்கும் மூன்று தடவை தர்பிக்க வேண்டும்.

வृத்தமனுः— மனुष्यतर्पणे ஸ்நானவசனநிஷ்பீடனே தथா | நிவீதி து
மகே஦்விப்ரः தथா மூறுபுரीயோः | மாநுஷேஷ்யஸ்யोः ஸக்த மைஶுநே
பூஷ்மாகிகம् | தர்பணேऽஜுஷ்யோः ஸக்த நிவீதி திவி஧ ஸ்மृதம் இதி |||
பிரயோगபாரிஜாதே – பிராங்முख உபவீதி ஬்ரह்மாदிந் ஦ேவாந்ஸகுத்ஸகுத்ப-
யித்வாத்஥ோदஜுஷ்யோ நிவீதி ஸயவாமிரத்திஃ பிராஜாபத்யேந தீர்஥ேந க்ரஷ்ண
திர்விஸ்தர்பயித்வாத்஥ ஦க்ஷிணாமுகः பிராசிநாவீதி பிதுதீர்஥ேந
ஸதிலாமிரத்திஃ (திர்விஸ்தர்பயித்வா) ‘ஸோமः பிதுமாந்
யமோऽஜிரஸ்வாநத்ரி: கவ்யவாஹன இத்யாத்யோ யே’ இதி திர்விஸ்தர்பயேதெத்
ஸ்நாங்கத்தர்பணம் இதி |

வாருத்தமனு: - மனுஷ்ய தர்ப்பணத்திலும், ஸ்நான
வஸ்தரத்தைப் பிழிவதிலும், மூத்ரமல விஸர்ஜன
காலத்திலும் ப்ராம்ஹணன் நிவீதியாய் இருக்க வேண்டும்.
மானுஷகார்யத்தில் தோள்களிலிருக்க வேண்டும்.
மைதுன காலத்தில் முதுகிலிருக்க வேண்டும். தர்ப்பண
காலத்தில் இரண்டு கைப்பெருவிரல்களில் இருக்க
வேண்டும். இவ்விதம் நிவீதம் மூன்று விதமாய்ச்
சொல்லப்பட்டுள்ளது. ப்ரயோகபாரிஜாதத்தில்:- கிழக்கு
முகமாய் உபவீதியாய், ப்ரம்ஹாதி தேவர்களை ஒவ்வொரு
தடவை தர்ப்பித்து, பிறகு வடக்கு முகமாய் நிவீதியாய்
யவையுடன் கூடிய ஜலத்தால் ருஷிகளை ப்ராஜாபத்ய
தீர்த்தத்தால் இரண்டு இரண்டு முறை தர்ப்பித்து, பிறகு
தெற்கு முகமாய் ப்ராசிஞ வீதியாய், பித்ரு தீர்த்தத்தால்
திலங்களுடன் கூடிய ஜலத்தால் பித்ருக்களை மும்மூன்று
தடவை தர்ப்பித்து ‘ஸோமःபித்ருமான’ என்ற மந்த்ரத்தால்
மூன்று தடவை தர்ப்பிக்க வேண்டும். இது ஸ்நானங்க
தர்ப்பணம்.

பிதுதீர்பண் பிரகுத்ய கார்ணாஜினி: - நாமிமாந்ஜலே ஸ்தித்வா
சிந்தயேடு஧்வமானஸः | ஆகஞ்சன்து மே பிதரோ ஗ூஹந்தொந்ஜலாஜலீந் |||
பிதுணாமம்பரஸ்஥ாநாமஸ்஥ோ ஦க்ஷிணாமுகः | திர்வீந் ஜலாஜலீந்

दद्यात् उच्चैरुच्चतरान् ब्रुधः इति ॥ 'गृज्जन्त्वेतान् जलाञ्जलीन्' इति चिन्तयेदिति सम्बन्धः ॥ सुमन्तुः - आकाशे निक्षिपेद्वारि जलस्थो दक्षिणामुखः । पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथैव च इति ॥

पीत्तरु तर्प्पणत्तेतकं कुर्तित्तु, कार्णंश्चान्नल्लिङ्गीः- नापियलावूला ज्ञलत्तिलिरुन्तु मेलाण मनतुटनं 'एनतु पीत्तरुक्कंकं वरवेण्णुम्, इन्त ज्ञलाञ्जलिकौलाप वेप्ररुक्कं केळाला वेण्णुम्' एन्ऱु त्याणीक्कं वेण्णुम्. ज्ञलत्तिलं तेत्रंकुमुकमायिरुन्तु आकाशत्तिलिरुक्कुम् पीत्तरुक्कंकौक्कु मुम्मुन्ऱन्ऱु ज्ञलाञ्जलिकौला वरवर उयर्नंतिरुक्कुम्पाटि केळाटुक्कं वेण्णुम्. लामन्तुः- ज्ञलत्तिलं तेत्रंकुमुकमायिरुन्तु आकाशत्तिलं ज्ञलत्तेव विटवेण्णुम्. पीत्तरुक्कंकौक्कु आकाशम् इरुप्पीटम्. तेत्रंकुत्तिक्कंकुम् लंताणम्.

स्मृत्यर्थसारे — शुक्लस्तिलैः देवानुपवीती देवतीर्थेन प्राङ्गुखस्तप्येत् । शबलैस्तिलैः क्रषीनिवीती कायेनोदञ्जुखस्तप्येत् । आचार्यान् पितृन् प्राचीनावीती पित्र्येण कृष्णतिलैर्दक्षिणामुखस्तप्येत् । यद्वा - शुद्धोदकैर्देवान्, क्रषीश्च पितृस्तिलैः, सर्वान्वा सर्वतिलैस्तप्येत् । यद्वा देवानक्षतैः, तण्डुलैः क्रषीन्, तिलैः पितृन् । देवानामेकैकमञ्जलिं दद्यात् क्रषीणां द्वौ द्वौ । पितृणां त्रीस्तीन् । स्वाचारप्रासैः मन्त्रैः । तिलाभावे स्वर्णसूच्यताम्रदर्भयुतोदकैः । खड्गमौकितकहस्तेन कार्यं वा पितृतप्णम् ॥ न जीवपितृकः कृष्णतिलैस्तप्णमाचरेत् । हस्ताभ्यां रविवारे च जन्मक्षीदिवसेषु च । गृहे निषिद्धं सतिलं तप्णं तद्विभवेत् । शोभनगृहे शोभनदिने न तिलतप्णम् । विवाहोपनयनचौलेषु यथाक्रमं वर्षमध्यं तदर्धं च नैत्यकं न तिलतप्णम् इति ॥

संमंगुत्तयार्त्तसारत्तिलैः- तेवर्कंकौक्कुत्त तर्प्पणम् वेवणुप्पाण एलंकलाल उपवीक्षियाय, किमक्कु

முகமாய், தேவ தீர்த்தத்தால் செய்ய வேண்டும். ருஷிகளுக்குப் பலனிறமுள்ள என்களால் நிவீதியாய் வடக்கு முகமாய் ப்ராஜாபத்ய தீர்த்தத்தால் செய்ய வேண்டும். ஆசார்யர்கள் பித்ருக்களிவர்களுக்குப் ப்ராசீன வீதியாய், தெற்கு முகமாய், கறுப்பு என்களால் பித்ரு தீர்த்தத்தால் செய்ய வேண்டும். அல்லது, சுத்த ஜ லத்தால், தேவர்க்கருக்கும், ருஷிகளுக்கும், பித்ருக்களுக்கும் திலங்களாலும், அல்லது எல்லோருக்கும் எல்லா என்களாலும் செய்யலாம். அல்லது, தேவர்களுக்கு அகஷதங்களாலும், தண்டுலங்களால் ருஷிகளுக்கும் திலங்களால் பித்ருக்களுக்கும் செய்யலாம். தேவர்களுக்கு ஒவ்வொரு அஞ்ஜலியும், ருஷிகளுக்கு இரண்டு இரண்டு அஞ்ஜலிகளும், பித்ருக்களுக்கு மூன்று மூன்று அஞ்ஜலிகளும் கொடுக்க வேண்டும். அவரவர் ஆசாரப்படி வந்த மந்த்ரங்களால் செய்ய வேண்டும். திலமில்லாவிடில் ஸ்வர்ணம், அல்லது வெள்ளி, தாம்ரம், தர்ப்பம் இவைகளிலொன்றுடன் கூடிய ஜலத்தால் தர்ப்பிக்கலாம். காண்டாம்ருகத்தின் கொம்பு. அல்லது முத்துடன் கூடிய கையினுல் பித்ருதர்ப்பணம் செய்யலாம். பிதா ஜீவித்திருப்பவன் கறுப்பு என்னால் தர்ப்பணம் செய்யக் கூடாது. இருகைகளாலும் பித்ருதர்ப்பணம் செய்யக் கூடாது. பானுவாரத்திலும் ஜன்மநஷ்டர தினங்களிலும் திலதர்ப்பணம் கூடாது. க்ருஹத்தில் திலதர்ப்பணம் நிவீதத்தமாம். அதை வீட்டிற்கு வெளியில் செய்ய வேண்டியது. சுபகார்யம் செய்யும் க்ருஹத்திலும், சுபகார்யம் செய்த தினத்திலும் திலதர்ப்பணம் கூடாது. விவாஹம் உபநயனம் செனளம் இவைகள் செய்த பிறகு, முறையே ஒருவருஷம். ஆறுமாதம். மூன்றுமாதம் வரையில் நித்யதர்ப்பணத்தைத் திலத்துடன் செய்யக் கூடாது.

அற விஶேஷமாக கौশிகः— ப்ராதः ஸ்நானே விஶேஷோऽயं தத்திநை
திலैர்யுதம् । நைமித்திக் ச காம்ய் ச திலैரை வி஧ியதே இதி ॥
देवर्षिपितृपर्षणानन्तरं तीरे यक्षमतर्पणं विहितं स्मृत्यन्तरे— देवर्षितर्पणं

कृत्वा यक्षमाणं तर्पयेत्ते ॥ यन्मया दूषितं तोयं शरीरमलसञ्चयात् ।
तद्वोषपरिहाराय यक्षमाणं तर्पयाम्यहम् इति ॥ दक्षोऽपि – स्नानाङ्गं
तर्पणं कृत्वा यक्षमणो जलमाहरेत् । अन्यथा कुरुते यस्तु स्नानं तस्याफलं
भवेत् इति ॥

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார், கௌசிகர்:- ப்ராத:ஸ்நானத்திலுள்ள விசேஷமிது. அந்த ப்ராத:ஸ்நான தர்ப்பணத்தைத் திலத்துடன் செய்யக் கூடாது. நெமித்திக ஸ்நான தர்ப்பணங்களைத் திலத்துடனேயே செய்ய வேண்டும். தேவருவி பித்ரு தர்ப்பணத்திற்குப் பிறகு கரையில் யக்ஞம் தர்ப்பணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு ம்ருதியில்:- தேவருவி தர்ப்பணம் செய்து பிறகு யக்ஞமா என்ற தேவனைக் கரையில் தர்ப்பிக்க வேண்டும். அதன் மந்தரம் - 'யன்மயாதாஷிதம் + தர்ப்பயாம்யஹம்' என்று. இதன் பொருள் - 'நான் என் தேகத்திலுள்ள மலங்களால் ஜலத்தைக் கெடுத்த தோஷத்தைப் போக்குவதற்காக யக்ஞமா என்னும் தேவனைக் தர்ப்பிக்கின்றேன்' என்பது. தக்ஷிரும்:- ஸ்நானங்க தர்ப்பணம் செய்த பிறகு யக்ஞம் தேவதைக்கு ஜலத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். எவன் மாறிச் செய்கின்றாலே அவனது ஸ்நானம் பலனற்றாகும்.

योगयाज्ञवल्क्यः—यावद्देवानृर्षीश्चैव पितृन् वै यो न तर्पयेत् ।
तावनं पीडयेद्धस्तं येन स्नातो भवेन्नरः ॥ निराशाः पितरो यान्ति
स्नानवस्त्रे निपीडिते । तस्मान्न पीडयेद्धस्तमकृत्वा पितृतर्पणम् इति ॥
वृद्धवसिष्ठः—स्नानार्थमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणैस्सह । वायुभूतास्तु
गच्छन्ति तृष्णाऽर्ताः सलिलार्थिनः ॥ निराशास्ते निवर्तन्ते
वस्त्रनिष्पीडने कृते इति ॥ शौनकः—देवार्दीस्तर्पयेत् पूर्वं वस्त्रं
सम्पीडयेत् परम् । उदकस्थाप्रदानाद्धि स्नानवस्त्रं न पीडयेत् ॥
निष्पीडयति यः पूर्वं स्नानवस्त्रं तु तर्पणात् । निराशाः पितरस्तस्य यान्ति
देवाः सहर्षिभिः इति ॥

யோக்யாக்ஞவல்க்யர்:- தேவர், ருவிகள், பித்ருக்கள், இவர்களைத் தர்ப்பிப்பதற்குமுன், எந்த வஸ்தரத்துடன் ஸ்நானம் செய்தானே அந்த வஸ்தரத்தைப் பிழியக் கூடாது. பிழிந்தால் பித்ருக்கள் ஆசையற்றுச் செல்லுகின்றனர் ஆகையால் பித்ருதார்ப்பணம் செய்யாமல் ஸ்நான வஸ்தரத்தைப் பிழியக் கூடாது. வ்ருத்த வளிஷ்டர்:- ஸ்நானத்திற்காகச் செல்லும் மனிதனை, தேவர்கள், பித்ருகணங்களுடன் வாயுருபர்களாய், தாகத்தால் வருந்தியவராய், ஜலத்தை விரும்பியவராய், தொடர்ந்து செல்லுகின்றனர். தர்ப்பணம் செய்யாமல் வஸ்தரத்தைப் பிழிந்தால் அவர்கள் ஆசையற்றுத் திரும்பிச் செல்கின்றனர். **சௌன்கர்:-** முதலில் தேவர் முதலியவர்க்குத் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். பிறகு வஸ்தரத்தைப் பிழிய வேண்டும். தர்ப்பணத்திற்கு முன் வஸ்தரத்தைப் பிழியக் கூடாது. பிழிந்தால் தேவர் ருவிகள் பித்ருக்கள் எல்லோரும் ஆசையற்றுச் செல்லுகின்றனர்.

ஜலோத்ரणாநந்தரகுத்யமாஹ மரக்காஜः — வஸ்திரகமபேக்ஷந்தே யே மृता ஦ासकमिणः । தस्मात् ஸर्वप्रयत्नेन ஜलं भूमौ निपातयेत् इति ॥
उत्तीर्य कंचित् कालं तिष्ठेदित्यर्थः ॥ तथा च सञ्चहे – स्नात्वाऽदूराज्जले तिष्ठेत् प्राचीनावीतवान् द्विजः । यावत् स्वति देहाम्बु तूष्णी भूतादि तृप्तये ॥ स्नात्वाऽन्त्याध यस्तिष्ठेत् तस्याकंपयतस्तदा । ब्रह्महत्यादिपापानि कंपयन्ति न संशयः इति ॥ अत्रावस्थाने च विशेष उक्तः – ஸுரाविन்஦ுஸமா: ப்ரோக்தா: பூஷ்ட: கேஶவிந்஦வः । த ஏவ புரதः: ப்ரோக்தா: ஸ்வர்தீஶ்வரமா பூஷை: இதி ॥

ஜலத்தினின்றும் வெளியேறிய பிறகு செய்ய வேண்டியதைச் சொல்லுகிறார். **பரத்வாஜர்:-** தாஸர்களாயிருந்து இறந்தவர் எவரோ அவர்கள் ஸ்நான வஸ்தரத்தின் ஜலத்தை விரும்புகின்றனர். ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் ஜலத்தைப் பூமியில் விழச்செய்ய வேண்டும். அதாவது கரையில் ஏறிய பிறகு சிறிது காலம்

नीर्नक वेण्णुमेनपतु बोगुरुं. अव्वितमें, संचक्करहृत्तीलः:- प्रराम्भैरण्णं ज्ञलत्तिलं संनानम् चेयतु करयिन्नं समीपत्तिलं प्रराश्ने वैतियाय्प, तेहृत्तिलु०० ज्ञवम् वटियुम् वरयिलं मेन्नायाय्प पूतकंकलं मुतलियतिनं तंरुपत्तिक्काक नीर्नक वेण्णुम्. संनानम् चेयत प्रिरु कोपात्तिक कोलामलुम् तेहृत्तेत असक्कामलुम् नीर्नपवनीनं प्रिरम्भैत्यय मुतलिलं पापांकलं नांकुकीन्नरन, सम्चयमिलै. इन्कु नीर्नपत्तिलं विचेष्टम् चेलंलप्पत्तु०० लतु - नीर्नपवनीनं तलैमयीरिनं ज्ञलत्तु०० किंकलं पिंपुरत्तिलं विमुन्त्तालं अवैकलंकुक्कुचं सममेन्नरु चेलंलप्पत्तु०० लतु. अवैयेमुनं पुरत्तिलं विमुन्त्तालं लकल तीर्त्त ज्ञलत्तिरु कोप्पानवै एन्नरु अरिवैलवरालं चेलंलप्पत्तु०० लतु.

चन्द्रिकायाम्— अवमृज्यान्न च स्नातो गात्र्याण्यम्बर-पाणिभिः। न च निधुन्यात् केशान् वासश्वैव न निधुनेत् इति ॥ अत्र हेतुमाह व्यासः— तिसः कोट्योऽर्द्धकोटी च यावन्त्यज्ञरुहाणि वै । स्वन्ति सर्वतीर्थानि तस्मान्न परिमाजयेत् इति ॥ गोभिलः— पिबन्ति शिरसो देवाः पिबन्ति पितरो मुखात् । मध्यतः सर्वगन्धर्वा अधस्तात् सर्वजन्तवः । सुराबिन्दुसमं चाम्भः शिखायाः पृष्ठपातितम् । तदेव पुरतोवर्तिं गङ्गाबिन्दुसमं भवेत् इति । स्मृत्यन्तरे— शिरोवारि शरीराम्बुवस्तोयं यथा क्रमात् । पिबन्ति देवा मुनयः पितरो ब्राह्मणस्य तु इति ।

सन्त्तारीक्षयिलः— संनानम् चेयतवनं अंकंकलौ वस्त्रत्तरुत्तिलावतु ऊककलालावतु तुत्तेक्कक्क कूटातु. तलैमयीरिकलौ उत्तरुक्क कूटातु. वस्त्रत्तरुत्तेतयुम् उत्तरुक्क कूटातु. इन्कु, कारणत्तेतस चेलंलुकिरुर्, व्यालौः— लु०० ररेक्क कोटि रोमांकलौ तेकत्तिलं एवंवैलौ उलौवेवा अवंवैलौ लकल तीर्त्त तन्कलुम् रोम कौपन्कलीनीन्नरु वेवैवरुकिन्नरन. आकेयालौ तुत्तेक्कक्क कूटातु. कोपिलौः— शिरलीनीन्नरुम् विमुम्

ஜலத்தைத் தேவர்களும், முகத்தினின்று பித்ருக்களும், மத்யபாகத்தினின்று ஸகல கந்தர்வர்களும், கீழ்ப்பாகத்தினின்று ஸகல ஜந்துக்களும் ஜலத்தைப் பருகுகின்றனர். குடுமியின் ஜலம் பின்புறத்தில் விமுந்தால் ஸ்ரைக்குச் சமமாகும். அதுவே முன் புறத்தில் விமுந்தால் கங்கா ஜலத்திற்குச் சமமாகும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:- ப்ராம்ஹணனின் தலையின் ஜலம் சரீரத்தின் ஜலம், வஸ்தரத்தின் ஜலம் இவைகளை முறையே தேவர் முனிவர் பித்ருக்கள் என்ற இவர்கள் பருகுகின்றனர்.

ஜாலி: — ஸாந் கृत्वा ॥७॥ द्रवासास्तु विषमूँ कुरुते यदि ।
प्राणायामत्रयं कृत्वा पुनः स्नानेन शुध्यति इति ॥ ततः स्नानवस्त्रं
निष्पीडयेत् ॥ तथा च पुलस्त्यः - कृत्वा तर्पणमेवं तु समुत्तीर्य
जलाशयात् । पीडयेत् स्नानशार्टी तु तट एव विचक्षणः इति ।
चतुर्विंशतिमते - स्नानादनन्तरं यावत् तपयेत् पितृदेवताः । उत्तीर्य
पीडयेद् वस्त्रं सन्ध्याकर्म ततः परम् इति ।

ஜாபாலி: - ஸ்நானம் செய்த பிறகு ஈர வஸ்தரத்துடன் மல மூத்ர விஸர்ஜனம் செய்வானுகில், மூன்று ப்ரானையாமங்கள் செய்து மறுபடி ஸ்நானத்தால் சுத்தனாகிறான். பிறகு ஸ்நான வஸ்தரத்தைப் பிழியவேண்டும். அவ்விதமே, புலஸ்த்யர்:- அறிந்தவன் இவ்விதம் தர்ப்பணம் செய்து ஜலாசயத்திலிருந்து வெளியேறி, ஸ்நான வஸ்தரத்தைக் கரையிலேயே பிழியவேண்டும். சதுர்வாயிம்சக்திமத்தில்:- ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு பித்ருக்களையும் தேவதைகளையும் தர்ப்பிக்க வேண்டும். கரையிலேறி வஸ்தரத்தைப் பிழியவேண்டும். பிறகு ஸந்த்யாவந்தனத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

तत्र स्मृत्यर्थसारे विशेषोऽभिहितः - जलादुत्तीर्य वस्त्रप्रान्तं
निष्पीडचापः स्पृष्टा परिधानोत्तरीये धृत्वा स्नानवस्त्रं निष्पीडचाचम्य
सन्ध्यामुपासीत इति ॥ स्मृत्यन्तरेऽपि - चतुः संबोष्ट्य वासोऽन्तं

स्नातो निष्पीडयेत् स्थले । ये के चास्मत् कुले जाता इति मन्त्रेण मानवः
इति । मन्त्रश्च कार्णाजिनिनोक्तः । - ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा
गोत्र (गोत्रिणो) जा मृताः । ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्
इति । संवर्तः । - उत्तीर्य पीडयेद्रस्त्रं अपसव्यं यथाविधि इति ॥ वृद्धमनुः
- वस्त्रं त्रिगुणितं यस्तु निष्पीडयति मृढधीः । वृथा स्नानं भवेत्स्य
यश्चैवादशमम्बुनि इति । यश्च वस्त्रमदशं यथा भवति तथा निष्पीडयति,
अम्बुनि च निष्पीडयति तस्य स्नानं वृथेत्यर्थः ॥

இங்கு ஸம்ருதயர்த்தஸாரத்தில்:- விசேஷம்
சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஜலத்தினின்றும், வெளியேறி,
வஸ்தரத்தின் நுனியைப் பிழிந்து, ஆசமனம் செய்து,
அந்தரீயம் உத்தரீயம் இவைகளைத் தரித்து, இடுப்பு
வஸ்தரத்தைப் பிழித்து, ஆசமனம் செய்து ஸந்த்யையை
உபாளிக்க வேண்டும். மற்றொரு ஸம்ருதியிலும்:-
வஸ்தரத்தை நான்காய் மடித்து, நுனியை ஸ்தலத்தில்
'யேகோஸ்மத்' என்ற மந்த்ரத்தால் பிழியவேண்டும்.
'என் குலத்திலோ கோத்ரத்திலோ புத்ரனற்ற எவர்
இறந்தனரோ அவர்கள் என்னால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள
வஸ்தரத்தைப் பிழிந்த ஜலத்தை க்ரஹித்துக் கொள்ள
வேண்டும்' என்பது மந்த்ரத்தின் பொருளாம்.
ஸம்வாத்தர்:- கறையேறி ப்ராசீனேவிதியாய் வஸ்தரத்தை
விதிப்படி பிழியவேண்டும். வருத்தமனுः:- மூட
புத்தியாகிய எவன் வஸ்தரத்தை மூன்றாய் மடித்துப்
பிழிகின்றானே, எவன் தலைப்பு இல்லாமல்
பிழிகின்றானே, எவன் ஜலத்தில் பிழிகின்றானே அவனது
ஸ்நானம் பலனற்றதாகும்.

तथा च प्रदीपिकायाम् । जलमध्ये यदा कश्चिद् ब्राह्मणो
ज्ञानदुर्बलः । निष्पीडयति वस्त्राणि स्नानं तस्य वृथा भवेत् । वस्त्रं
चतुर्गुणीकृत्य निष्पीडय च जलाद्विः । वामप्रकोष्ठे निश्चिप्य द्विराचम्य
विशुद्धयति इति ॥ जाबालिः । - निष्पीडितं धौतवस्त्रं यदा स्कन्धे

வினிக்ஷிபேத् । தदாசுரं ஭வेत् கर्म புனः ஸ்நானं விஶோधனம् ॥ அமஜ்ஞானி சுர்ணி ஆர்வக்ஷாணி யானிச । தஸ்மாத् ஸ்கந்஧ே கஞ்சிமா நார்வக்ஷ் ந ஧ாரயேத् இதி ॥ ஸ்மृத்யந்தரே²பி - பாடே ந ஸ்஥ாபயே³க்ஷண் ஸ்கந்஧ே ந ஸ்஥ாபயே⁴தா । ஬்ராஹ்மோ ஦்விதயं சைவ வர்ஜயே⁵க்ஷபீடனே இதி ।

அவ்விதமே ப்ரதீபிகையில்:- எவ்வளரு ப்ராம்ஹணன் ஜ்ஞானமில்லாதவனுய் ஜலத்தின் நடுவில் வஸ்தரங்களைப் பிழிகின்றானே அவனது ஸ்நானம் வீணாகும். வஸ்தரத்தை நான்காக மடித்து, ஜலத்திற்கு வெளியில் பிழிந்து, இடதுகையின் மணிக்கட்டுக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டு இருமுறை ஆசமனம் செய்து சுத்தனாகிறுன். ஜாபாலி:- பிழிந்த வஸ்தரத்தைத் தோளில் வைத்துக் கொண்டால் அந்தக் கர்மம் ஆஸாரமாகும். அவனுக்கு மறுபடி ஸ்நானம் சுத்திகரமாகும். ஸரமான வஸ்தரங்களைலாம் அசுபங்களாம். ஆகையால் புத்தியுள்ளவன் ஸர வஸ்தரத்தைத் தோளில் தரிக்கக் கூடாது. மற்றொரு ஸ்மருதி⁶யிலும்:- காலில் வஸ்தரத்தை வைக்கக் கூடாது. தோளிலும் வைக்கக் கூடாது. ப்ராம்ஹணன் இவ்விரண்டையும் வஸ்தரத்தைப் பிழிவதில் வர்ஜிக்க வேண்டும்.

வசிஷ்டः— ஸ்நானஶாட்சா ச ஦ாதவா மூடஸ்திஸோ விஶுஷ்யே । உத்திரீ தாஂ ச நிஷ்பி஡்ச ததः ஶேஷ ஸமாபயேத् இதி ॥ ஸ்மृதிஸங்கே - நிமஜ்ய ஦ேவர்ஷிபிதூந் ஸந்தப்யாசம்ய வாஸஸः । ஖ண்டக்யே⁷ க்ரமஶः கிரो⁸ஜங் பரिमாஜ்யேத् ॥ ஸ்நாதே நாஜானி ஸம்முத்யாத் ஸ்நானஶாட்சா ந பானிநா । ந ச நிர்ஜ்ஞநுயாதகே⁹ஶாந்ந திஷ்டந்¹⁰பரிமாஜ்யேத் இதி ॥ வ்யாஸः - மாஜ்யே¹¹க்ஷே¹²பேண நோத்ரரீயேண வா ஶிரः । யदி ப்ரமாடாந்மூஜ்யேத ஸ பிதூந் பாதயத்ய஧ः இதி ॥ ஶௌநகः - ஸ்நானக்ஷேண யோ விப்ரः ஶரீரங் பரிமாஜ்யேத् । ஸ்நானं வृதை ஭வதி புனः ஸ்நானே¹³ ஜூ஧்யதி இதி । ஸ்வர்தா: - ஸ்நானக்ஷேண ஹஸ்தே யோ ஦்விஜோ¹⁴ஜங் ப்ரமாஜ்யேத् । வृதா ஭வதி தத் ஸ்நானं புனः ஸ்நானே¹⁵ ஜூ஧்யதி இதி ॥

वलीष्टारः:- सन्नान वस्त्रत्तिलं कृत्तिक्काक मुन्नु म्रुत्तिकेकाळे केाउक्क वेण्णुम्. वेणीयेरि वस्त्रत्तिप धिन्नु प्रिन्नु मित्तियूलाते मुट्टिक्क वेण्णुम्. सम्मरुत्तिलाङ्करहृत्तिलः:- सन्नानम् चेय्तु, तेवरुषि प्रित्तु तर्प्पणम् चेय्तु, औचमनम् चेय्तु, इरण्णु वस्त्रत्त तुण्णुकालं मुन्नये तलैयेयुम् अंकन्कलौयुम् तुटेत्तत्तुक्क केलाला वेण्णुम्. सन्नानम् चेय्तवन्स लन्नान वस्त्रत्ताल अंकन्कलौत्त तुटेक्कक्क कूटात्तु. केयिण्णुलुम् तुटेक्कक्क कूटात्तु. मयीर्कलौ उत्तरक्क कूटात्तु. निन्नरवण्णुय्त तुटेक्कक्क कूटात्तु. व्यासः:- वस्त्रत्तिन्स ओरु प्राक्तिण्णुलावतु, उत्तर्गीयत्तिण्णुलावतु तलैयेत्त तुटेक्कक्क कूटात्तु. कवन्मिल्लामल तुटेत्ताल, अवन्स प्रित्तुक्कलौक्क क्षेमे (नरकत्तिल) तलौकिण्णुल. चेलानकारः:- एन्त प्रराम्भून्नान लन्नान वस्त्रत्ताल सर्वत्ततेत्त तुटेक्किण्णुलेन्नु अवन्नतु लन्नानम् वीण्णुकिरतु. अवन्स मरुपदि लन्नानत्ताल कृत्तनुकिरुल. सम्बार्त्तत्तरः:- लन्नान वस्त्रत्तिण्णुलावतु केयिण्णुलावतु एवन्स अंकत्ततेत्त तुटेक्किण्णुलेन्नु अवन्नतु लन्नानम् वीण्णुकिरतु. मरुपदि लन्नानत्ताल कृत्तनुकिरुल.

—★—

बासःपरिधानम् ।

स्नानानन्तरं बासः परिदध्यात् । तथा च मत्स्य पुराणम् - एवं स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य तु विधानतः । उत्थाय बाससी शुङ्क शुङ्के तु परिधाय कै इति ॥ द्विराचामेदिति शेषः ॥ तथा च व्याघ्रः - ततो वस्त्रद्वयं शुङ्कं गृहीत्वा द्विरुपस्पृशेत् इति ॥ तत्र विशेषमाह व्यासः - नोत्तरीयमधः कुर्यान्नोपर्याधिस्त्यम्बरम् । नान्तवासो विना जातु निवसेद्वसनं बुधः इति ॥

வஸ்தரதாரணம்

ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு வஸ்தரம் தரிக்க வேண்டும். அவ்விதமே, மத்ஸ்ய புராணம்:- ‘இவ்விதம் ஸ்நானம் செய்து அதற்குப் பிறகு விதிப்படி ஆசமனம் செய்து எழுந்து, சுத்தமான இரண்டு வெளுப்பு வஸ்தரங்களைத் தரித்து’ என்றுள்ளது. இங்கு இருமுறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டுமென்பது மீதி. அவ்விதமே, வ்யாக்ரர்:- பிறகு சுத்தமான இரண்டு வஸ்தரங்களைத் தரித்து இருமுறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார், வ்யாஸர்:- உத்தரீயத்தைக் கீழ் வஸ்தரமாய்த் தரிக்கக் கூடாது. இடுப்பு வஸ்தரத்தை மேலே (உத்தரீயமாக) தரிக்கக் கூடாது. அறிந்தவன் அந்தர் வஸ்தரமில்லாமல் வேறு வஸ்தரத்தைக் தரிக்கக் கூடாது.

चन्द्रिकायाम्—न चानुलिपेदस्त्रात्वा स्नातो वासो न निष्कुन्ते।
 आदृ एव तु वासांसि स्त्रात्वा सेवेत मानवः इति ॥ अत्र जाबालिः—
 स्त्रात्वा निरस्य वस्त्रं तु जड्ञे शोध्ये मृदम्भसा । अपवित्रीकृते ते हि
 कौपीनास्त्रावबारिणा इति । अत्र हेत्वभिधानात् जञ्चाग्रहणं
 अपवित्रीकृताङ्गोपलक्षणार्थम् ॥ अत एव योगयाज्ञवल्क्यः— स्त्रात्वैवं
 वाससी धौते अच्छिन्ने परिधाय च । प्रक्षाल्योरु मृदन्त्रिश्च हस्तौ
 प्रक्षालयेत् ततः इति । हारीतोऽपि— जलात्तीरं समासाद्य तत्र शुक्ले च
 वाससी । परिधायोत्तरीयं च कुर्यात् केशान् धूयेत् ॥ ततः
 प्रक्षालयेत्पादौ मृत्तोयेन विचक्षणः इति । आद्रवस्त्रविसर्जने विशेष
 उक्तः सङ्ख्रहे— स्नानं कृत्वाऽऽद्रववासस्तु ऊर्ध्वमुद्धृत्य निक्षिपेत् ।
 स्नानवस्त्रमधस्ताच्चेत् पुनः स्नानेन शुध्यति इति । स्मृत्यन्तरे—
 नद्यादिदेवखातेषु स्नानवस्त्रमधस्त्यजेत् । अन्यत्र तु त्यजेदूर्ध्वं स्नानवस्त्रं
 द्विजोत्तमः इति ॥

சந்த்ரினைகயில்:- ஸ்நானம் செய்யாமல் அனுலேபனம் செய்யக் கூடாது. ஸ்நானம் செய்தவன்

वस्त्रत्तेत उत्रक कृटातु. सन्नानम् चेय्त प्रिरु
सरमायुं लोवणुकवे वस्त्रन्दकैत तरीक्क वेण्टुम्.
इंगु, ज्ञापालिः:- सन्नानम् चेय्तु सरवस्त्रत्तेतत्त
तल्ली, मुमुक्षाल्कै लान्न, ज्ञलमिवेकौल्ल सूत्ति
चेय्य वेण्टुम्. एनेनील्ल, अवेव
केलपीनेत्तिनीन्ऱुम् वाय्युम् ज्ञलत्ताल
अस्त्रत्तमाक्कप्पट्टवे. इंगु कारणम् चोल्लियताल,
मुमुक्षाल्कौ लान्न अस्त्रत्तमान वेव्रु अंगुक्तत्तेतयुम्
चोल्लवत्रकाम्. आकेयाल्तान,
योक्याक्कुवेल्क्यारः:- इव्वितम् सन्नानम् चेय्तु
कियात इरण्टु वेणुप्पु वस्त्रन्दकैत तरीत्तु,
लान्नलूम् ज्ञलत्तालूम् तुलेकैयलम्पि प्रिरु केकै
अलम्प वेण्टुम् लान्नरुर. ह्रार्दीत्तरुम्:- ज्ञलत्तिनीन्ऱुम्
कररय्ययतेन्तु, अंगु इरण्टु वेणुप्पु
वस्त्रन्दकैत तरीत्तु, उत्तर्येयत्तेतयुम् तरीक्क
वेण्टुम्. मयिर्कै उत्रक्कृटातु. प्रिरु अरिन्नान, लान्न
ज्ञलमिवेकौल्ल काल्कै अलम्प वेण्टुम्. सर
वस्त्रत्तेत विमुप्पत्तिल वीचेष्ठम्
चोल्लप्पट्टुलातु. संकरहृत्तिलिः:- सन्नानम्
चेय्तु, सर वस्त्रत्तेत मेलिल ऎत्तुप
पोट वेण्टुम्. सन्नान वस्त्रत्तेतक क्षेष्ठाप
पोट्टाल धुनःसन्नानत्ताल सूत्तनेवान. मर्त्तेन्नरु
संमुक्तियिलिः:- नति मुत्तियत्तिलूम्, तेवर्कौल
तोन्नटप्पट्टिलूम् सन्नानम् चेय्ता॒ल सन्नान
वस्त्रत्तेतक क्षेष्ठाप पोट वेण्टुम्. मर्त्त
इत्तंकौल सन्नानम् चेय्ता॒ल सन्नान वस्त्रत्तेत
मेलाक ऎत्तुप पोट वेण्टुम्.

वस्त्रविषये विशेषमाह भूः - ब्राह्मणस्य सितं वस्त्रं नृपते
रक्तमुल्बणम् । पीतं वैश्यस्य शूद्रस्य नीलं मलवदिष्यते इति ॥
याज्ञवल्क्यः - शुक्लाम्बरधरो नीचकेशवमश्रुनखः शुचिः इति ॥
भवेदिति शेषः ॥ हारीतः - न रक्तमुल्बणं वासो न नीलं च प्रशस्यते ।
मलाक्तं गन्धहीनं च वज्र्येदम्बरं बुधः इति ॥ आपस्तम्बः - सर्वान्

ராகாந் வாஸஸி வர்ஜைத் கृष்ண ச ஸ்வாமாவிகமநூதாஸி வாஸோ
வசीதாப்ரதிக்ருஷ்ட் ச ஶக்திவிஷயே இதி ॥ அஸ்யார்஥ः : - குஸும்஬ாதயः ஸர்வே
ராகா வாஸஸி வர்ஜனியா : । ந கேந்சி஦்ரக்தं வாஸோ வி஭ுயாத् । யच்
ஸ்வாவதः கृष்ண கம்பலாடி, தदபி ந வசீத । உத்தாஸனஶிலமுதாஸி
உல்஬ணம् । ததோऽந்யத் அநூதாஸி । ஛ாந்஦ஸோ ஦ீர்஘ः । ஏவं ஭ूத் வாஸः
வசீத - ஆஞ்சாடயேத் । பிரதி கृष்ட - நிக்ருஷ்ட் ஜீர்ண மலவத் ஸ்தூதங் ।
தத்திப்ரரிதம் அப்ரதிக்ருஷ்ட், தாடங் ச வாஸோ வசீத, ஶக்தௌ ஸத்யாம் இதி ।
஗ௌதமோऽபி - ந ரக்தமுல்஬ண மந்ய஧ृத் வா வாஸோ வி஭ுயாத் இதி ॥ மனுः ந
ஜீர்ணமலவநாஸா ஭வேஞ் வி஭வே ஸதி இதி ॥

வஸ்த்ர விஷயத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,
ப்ரகுகு:- ப்ரராம்ஹணனுக்கு வெளுப்பு வஸ்த்ரமும்,
கஷத்ரியனுக்கு நல்ல சிவப்பு வஸ்த்ரமும், வைச்யனுக்கு
மஞ்சள் நிறமுள்ள வஸ்த்ரமும், சூதரனுக்கு அழுக்குள்ள
கருப்பு வஸ்த்ரமும் விதிக்கப்படுகிறது. யாக்ஞவல்க்யர்:-
வெளுப்பு வஸ்த்ரம் தரித்தவாயும், சிறியதான மயிர்,
மீசை, நகம் இவைகளையடையவாயும், சுத்தாயும்
இருக்க வேண்டும்.

ஹார்தூர்:- அதிகச் சிவப்புள்ளதும், கருப்பு
நிறமுள்ளதுமான வஸ்த்ரம் ப்ரசஸ்தமல்ல.
அழுக்குடையதும், வாஸனையற்றமான வஸ்த்ரத்தை
அறிவுடையவன் வர்ஜிக்க வேண்டும். ஆபஸ்தம்பர்:-
குஸாம்பம் முதலிய சாயங்களெல்லாவற்றையும்
வஸ்த்ரத்தில் வர்ஜிக்க வேண்டும். எவ்விதமான
சாயமுடைய வஸ்த்ரத்தையும் வர்ஜிக்க வேண்டும்.
இயற்கையில் கருப்பான கம்பளம் முதலியதையும்
உடுக்கக் கூடாது. அதிகப் பளபளப்பில்லாததை உடுக்க
வேண்டும். ஜீர்ணமாயும் அழுக்குடையதாயும்
தடிப்பாயுமில்லாத வஸ்த்ரத்தை தரிக்க வேண்டும் சக்தி
இருக்குமானால். கெளதமரும்:- சிவப்பானதும், அதிக
ப்ரகாசமுள்ளதும், பிறர் உடுத்தியதுமான வஸ்த்ரத்தை

उत्तुत्तकं कूटातु. मन्त्रः - तनमिरुक्कुम् पक्षत्तिल
ज्ञानमुम् अभुक्कुटेयतुमाण वस्तरत्तेत
तरीत्तवणेककं कूटातु.

प्रजापतिः — क्षौमं वासः प्रशंसन्ति तर्पणे सदशं यथा । काषायं
धातुरक्तं वा नोल्बणं वाऽपि कर्हिचित् इति ॥ उशना — न वेष्टितशिराः
कृष्णकाषायवासा वा देव पितृकार्याणि कुर्यात् इति ॥ यन्तु अहतं
धातुरक्तं च तत्पवित्रमिति स्मृतम् इति स्मर्यते,
तदनुल्बणरक्ताभिप्रायम् ॥ देवलः — स्वयं धौतेन कर्तव्या क्रिया धर्म्या
विपश्चिता । न तु नेजकधौतेन नहतेन न कुत्रचित् इति ॥ नहतेनेति
समस्तपदम् ॥

प्ररज्ञापतिः - तर्प्पणत्तिल तैलप्पुटेय केळूम वस्तरत्तेत
एप्पटि चंलाकिक्किण्णनरो अप्पटि, सायमुल्लाणेत्युम्, तातुक्कलालं सायमुल्लाणेत्युम्,
अतिक प्ररकाशमुल्लाणेत्युम् ओरुक्कालुम् चंलाकिप्पतिल्लै.
उचाण्णः - तैलयिल वस्तरत्तेतस्य कुर्त्रीक केळाण्णटावतु,
करुप्पु अल्लतु सायमुल्लाल वस्तर
मुटेयवणेकवावतु, तेवपि त्तरु कार्याङ्ककौश चेय्यकं
कूटातु. 'अहृतमुम् तातुविणेल सायमुटेयतुम्
सुत्तमेमास चेल्लप्पट्टुलालातु', एन्ऱ संमिरुति
वचनम् अतिक्क सायमिल्लात तेन्ऱप्रिप्रायमुटेयतु.
तेवलाः - 'तन्णेल सुत्तम चेय्यप्पट्ट वस्तरत्तुटाण
तर्मकार्याङ्ककौश अर्निन्तवन्स चेय्य वेण्णुम्.
वण्णेणेल वेणुक्कप्पट्टतुम् अहृतमाणतुमाण
वस्तरत्तुटाण चेय्यकं कूटातु.

अहतस्य लक्षणमाह पुलस्त्यः - ईषद्धौतं नवं श्वेतं सदशं यन्न
धारितम् । अहतं तद्विजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम् इति ॥ धौतम् -
प्रक्षालितम् ॥ अहतस्य विषयविशेषं दर्शयति सत्यतपाः - अहतं
यन्त्रनिर्मुक्तमुक्तं वासः स्वयंभुवा । शस्तं तन्माङ्गलिक्येषु तावत्कालं न
सर्वदा इति ॥ माङ्गलिक्यं - विवाहादि ॥ अधौतं कारुधौतं च कर्मकाले

விவரியேது | சண்டாலனிர்மித் வசன் ஸ்வர்வா பரிவர்ஜயேதீ இதி ச | | உஶநா - ஸ்வாத்திநுபவத் வசன் பரி஦்஧ாயதாவி஧ி | அமாவே பூர்வவசன் ச ஸ்ம்பாக்ஷ் ப்ரணவேன து இதி | | ஜாதுகர்ணி: - காஷாய் குட்டிவசன் வா மலின் கேஶாஷிதம் | ஷிஞாஶ்ர் சோபவசன் ச குத்தித் தமதோ விடு: இதி | |

அஹதத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார். புலஸ்த்யர்:- கொஞ்சம் அலம்பப்பட்டதும், புதிதாயும், வெளுப்பாயும், தலைப்புடையதும், உடுக்கப் படாததாய் உள்ளதை அஹதமென்றிய வேண்டும். அது ஸகல கர்மங்களிலும் சுத்தமாம், அஹதத்தை உபயோகிக்கும் விஷயத்தைச் சொல்லுகிறார், ஸத்யதுபஸ்:- தரியிலிருந்து புதிதாய் எடுக்கப்பட்ட வஸ்தரம் 'அஹதம்' எனப்பட்டது ஸ்வயம்புவினால். அது விவாஹாதி மங்களங்களில் அப்பொழுது மட்டில் ச்லாக்யமாகும். எப்பொழுதுமல்ல. நனைக்காததும், வண்ணைஞல் வெளுக்கப்பட்டதுமான வஸ்தரத்தை கர்மகாலத்தில் வர்ஜிக்க வேண்டும். சண்டாளன் நெய்த வஸ்தரத்தை எப்பொழுதும் தவிர்க்க வேண்டும், என்றார். உசநஸ்:- ஸ்நானம் செய்து தரிக்கப்படாத வஸ்தரத்தை விதிப்படி தரிக்க வேண்டும். வேறு வஸ்தர மில்லாவிடில் முன் தரித்த வஸ்தரத்தையே ப்ரணவத்தால் ப்ரோக்ஷித்து தரிக்கலாம்.

இங்கு அனுகல்பத்தைச் சொல்லுகிறார், யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- வெளுத்த வஸ்தரமில்லாவிடில், சணல், வஸ்தரம், கெஷளமம் (நார்வஸ்தரம்) ஆவிகம் (ஆட்டின் மயிர்க் கம்பளி) இவைகளை தரிக்கலாம். வஸ்தரம் இல்லாமல் இருக்கக் கூடாது. குதபம், யோகபட்டம் இவைகளைத் தரிக்கலாம். குதபம் வெண்ணிறக் கம்பளி, யோகப்பட்ட நூலிஞல் யக்ஞோப வீதம் போல் அகலமாயுள்ளதும் யோகிகள் தரிப்பதுமான பட்டை. சந்தரிகையில்:- ஒ அரசனே! படுக்கைக்கு வேறு வஸ்தரம் தரிக்க வேண்டும். வீதியில் செல்லும் போது வேறு வஸ்தரம். தேவர்களைப் பூஜிக்கும் போது வேறு

वस्त्रम्. ज्ञेवनकृतिर्काण कार्ययत्तिल वेऱु वस्त्रम्. अरक्षिनपं पारप्पतर्तु वेऱु वस्त्रम् तरीक्क वेण्णुम्. ज्ञातु काणीः- सायमिट्टतुम्, करुप्पु निरमुण्णातुम्, अमुक्कुण्णातुम्, मयिरुण्णातुम्, नुणी नरुक्कप्पत्ततुम्, चिरिय तुण्णुम् आक्य वस्त्रम् तर्माणुष्टाणत्तिर्तु अर्हमल्लातत्तातुम्.

भूगः— न रक्तमुल्बणं वासो न नीलं च प्रशस्यते । दक्षाहीनं जलार्द्धं च वर्जयेदम्बरं बुधः ॥ अकच्छः पुच्छकच्छश्च तिर्यकच्छोर्ध्वकच्छकः । कटिसूत्रे बद्धकच्छो नग्रः पञ्चविधः स्मृतः ॥ कटिसूत्रं विना श्रौतं स्मार्तं कर्म करोति यः । सर्वं तनिष्फलं विद्यात् सोऽपि नग्र इति स्मृतः ॥ नग्रो मलिनवस्त्रः स्यानग्रश्चार्द्रपटः स्मृतः । नग्रस्तु दग्धवस्त्रः स्यानग्रः सूतपटस्तथा ॥ विकच्छोऽनुत्तरीयश्च नग्रश्चावस्त्र एव च । श्रौतं स्मार्तं तथा कर्म न नग्रश्चिन्तयेदपि ॥ मोहात् कुर्वन्नधो गच्छेत् तद्वेदासुरं कृतम् इति ॥ स्मृतिरत्नावल्याम्— सप्तवाताहतं वस्त्रं शुष्कवत् प्रतिपादितम् । आर्द्ध वाऽपि द्विजातीनामादृतं गौतमादिभिः ॥ जप्ये होमे तथा स्नाने दैवे पित्र्ये च कर्मणि । बध्नीयानासुरीं कक्ष्यां शेषकाले यथेच्छया । परिधानाद्विः कक्ष्या निबद्धा ह्यासुरी भवेत् । धर्म्ये कर्मणि विद्विः वर्जनीया प्रयत्नतः इति ॥

प्रकुुः:- चिवप्पुक्षं सायमुण्णेयतुम्, अतिक वेण्णीरमुण्णातुम्, करुप्पु निरमुण्णातुमाण वस्त्रम् क्षलाकिक्कप्प पटुवत्तिल्लै. अर्हिन्तवनं तैलप्पिल्लाततुम्, सरमुमाण वस्त्रत्तंतत्त तवीर्क्क वेण्णुम्. कक्षमिल्लातवनुम्, मूलैक्कक्षमुण्णावनुम्, तैलप्पै विट्टु नुवील कक्षम् तरीत्तवनुम्, उयर्न्त कक्षमुण्णेयवनुम्, इटुप्पुक्क कयिऱ्ऱिल कट्टिय कक्षमुण्णेयवनुम् नक्कनर्कणाम्, कट्टिलात्तरम् (इटुप्पुक्कयिऱ्ऱ) इल्लामल करेळात समार्त्त

கர்மங்களை எவன் செய்கின்றானே அவனது கர்மம் முழுதும் வஸ்த்ரமுடையவனும் ஈரவஸ்த்ரம் உடைய வனும் பொசங்கிய வஸ்த்ரம் உடையவனும் தைக்கப் பட்ட வஸ்த்ரம் உடையவனும். கச்சமில்லாதவனும், உத்தரீயம் இல்லாதவனும், வஸ்த்ரம் இல்லாதவனும் நக்னனுவான். நக்னனுயிருப்பவன் ச்செரளத் ஸ்மார்த்த கர்மங்களை நினைக்கவும் கூடாது. அறியாமற் செய்தால் பதிதனுவான். செய்த கார்யமும் அஸூரர்களைச் சேர்ந்ததாகும். ஸ்மிருதி ரத்னுவளியில்:- ப்ராம்ஹணர்களுக்கு, ஈரவஸ்த்ரம் ஆயினும் ஏழு தடவை காற்றினால் ஆற்றப்பட்டால் உலர்ந்த வஸ்த்ரம் போன்று என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது கெளதமர் முதலியவரால் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜபம், ஹோமம், ஸ்நானம், தேவகர்மம், பித்ருகர்மம் இவைகளில் ஆஸூரக்கச்சையைக் கட்டக் கூடாது. மற்றக் காலத்தில் இஷ்டப்படிகட்டலாம், இடுப்பு வஸ்தரத்திற்கு வெளியில் கட்டப்பட்ட கக்ஷை அஸூரருடையதாகும். தர்ம கார்யங்களில் வித்வான்கள் அதை அவச்யம் வர்ஜிக்க வேண்டும். (வஸ்த்ரம் நமுவாமல் இருப்பதற்காக அதன்மேல் கட்டிக் கொள்ளும் கச்சையைக் கக்ஷை என்கின்றனர்.)

गौतमः - सति विभवे न जीर्णमलबद्धासाः स्यात् इति ॥
स्मृत्यर्थसारे - न सर्वरक्तं कृष्णं वा परिदध्यात् कदाचन । यज्ञोपवीत
 मन्यद्वा द्वितीयं तद्वेदिह इति ॥ स्मृत्यन्तरे - शुचीबो हव्यामरुत
 इत्युक्त्वा शुद्धम्बरम् । सम्प्रोक्ष्य देवस्य त्वेति गृहीत्वा चावधून्येत् ॥
 अवधूतश्चरक्ष इत्यादित्यस्य प्रदर्शयेत् । तरणिरुदुत्यमिति वा
 अवहन्तीति छादयेत् इति ॥ तथा च बोधायनः - देवानृषीन्
 पितृस्तर्पयित्वा शुचीबो हव्येति वस्त्रमन्दिः प्रोक्ष्य देवस्यत्वेति
 वस्त्रमादायावधूतश्चरक्ष इत्यवधूयोदुत्यं जातवेदसमिति वस्त्रमादित्यं
 दर्शयित्वा ॥ वहन्तीति वासः परिधाय द्विराचामेत् इति ॥

केळात्तमारः:- विपवमिरुक्कुम् बेपामुतु पम्मेय
वस्तरम् अमुक्कु वस्तरम् इवेकैंा उटेयवग्नेय
इरुक्कक्क कूटातु. स्मर्त्तयांत्त लारत्तीलः:- मुमुवतुम्
चिवप्पायुम्, करुप्पायुमुला वस्तरत्तत्त ओरुकालुम्
तरीक्कक्क कूटातु. इतन्ं स्तानत्तील वेऱु
यक्केनोपवैतमावतु इरण्टावत्ताक इरुक्कलाम्.
मर्त्तिरुरु स्मर्त्तीयिलः-'क्षिवः' एन्न मन्त्रत्तत्ताल
सुत्तमाण वस्तरत्तत्त प्रेरोक्षित्तु, 'तेवस्यत्तवा'
एन्न मन्त्रत्तत्ताल ऎटुत्तु, अवत्तात्तमरक्षः' एन्न
मन्त्रत्तत्ताल उत्तरी, 'तरणीः' अल्लतु 'उत्तयम्' एन्न
मन्त्रत्तत्ताल लार्यनुक्कुक काण्पवित्तु, 'आवहन्ती'
एन्न मन्त्रत्तत्ताल तरीक्क वेण्टुम्. अव्वित्तमे,
पोत्तायनारः:- तेवर्कौं, गुष्किं, पीत्तरुक्कौं
इवर्कैंात तर्पीत्तु, 'क्षिवः' एन्पत्ताल वस्तरत्तत्त
प्रेरोक्षित्तु, 'तेवस्यत्तवा' एन्पत्ताल ऎटुत्तु,
'अवत्तात्तम्' एन्पत्तालुत्तरी, 'उत्तयम्' एन्पत्ताल
लार्यनुक्कु काण्पवित्तु, 'आवहन्ती' एन्पत्ताल
तरीत्तुक केळाण्टु इरुमुरै आचमनम् चेय्य
वेण्टुम्.

पूर्वमनिवेशितवासोविषयो मनुरित्याह पारस्करः—
वासश्छत्रोपानहश्चा पूर्वश्चेन्मन्त्रः इति । यं तस्मादपि साधुपरिगृहीतं
सर्वत एव गाङ्गम् इति ॥ विवस्वानपि — एकतः सर्वतीर्थानि
जाह्व्येकैव चान्यतः । ब्रह्मलोकेशविश्वसः पतिता या महीतले इति ॥
मरीचिरपि — भूमिष्ठमुद्धृतं वाऽपि शीतमुष्ममथापि वा । गाङ्गं पयः
पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम् इति ॥ योगयाज्ञवल्क्यः —
त्रिरात्रफलदा नद्यो याः काश्चिदसमुद्रगाः । समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य
सरितांपतिः इति ॥

मुन्न उपयोगिक्कप्पत्ता वस्तर विष्यम् मन्त्रम्
एन्किरुर्. पारस्करारः:- वस्तरम्, कुट, पातरक्षु
इवेकौं मुन्न उपयोगिक्कप्पत्ता वेवकौकिल

மந்த்ரம் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். போதாயனர்:- அத்யயனம், மலமுத்ராதி விஸர்க்கம், தானம், போஜனம், ஆசமனம் என்ற இந்த ஜந்து கார்யங்களிலும் உத்தரீயத்தைத் தரிக்க வேண்டும். இது எல்லாக் கர்மங்களையும் சொல்வதற்காம். (ஏனெனில்) 'கச்சமில்லாதவனும், உத்தரீயம் இல்லாதவனும் எக்கார்யத்தையும் செய்யக் கூடாது' என்று நிஷேஷத்திகப்பட்டிருப்பதால். யோகயாக்ஞவல்க்யரும்:- ப்ராம்ஹணன் ஒரு வஸ்தரத்துடன், ஸ்நானம், தானம், ஜபம், ஹோமம், அத்யயனம், தர்ப்பணம், ச்ராத்தம், போஜனம் நற்கார்யங்கள் இவைகளைச் செய்யக் கூடாது. கோபிலரும்:- ஒரு வஸ்தரத்துடன் இருப்பவன், போஜனம், தேவபூஜை, ப்ராம்ஹண பூஜை, ஹோமம் இவைகளைச் செய்யக் கூடாது.

பராಶரः—**होमदेवार्चनाद्यासु क्रियासु पठने तथा । नैकवस्त्रः**
प्रबर्तेत द्विज आचमने जपे इति ॥ एकवस्त्रस्य लक्षणமாह स एव –
सव्यादंसाद्रष्टपटं कटिदेशधृताम्बरम् । एकवस्त्रं तु तं विद्यात् दैवे पित्र्ये
च वर्जयेत् इति । सर्वेऽसे पटहीनं कटिदेश एव धृतम्बरं येन स
तथोक्तम् ॥ **आपस्तम्बः** – **नित्यमुत्तरं वासः कार्यमपि वा**
सूत्रमेवोपवीतार्थैः इति ॥ **जातुकर्णः** – **वस्त्रोत्तरीयमावे द्वचज्जुलं त्यज्जुलं**
चतुरज्जुलं वा सूत्रैः वस्त्राकृति परिमण्डलं तदुत्तरीयं कुर्यात् इति ॥ तथा
चन्द्रिकायाम् – **यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि ।**
तृतीयमुत्तरीयं च वस्त्राभावे तदिष्यते इति ॥

பராசரர்:- ஹோமம் தேவபூஜை முதலிய கர்மங்கள், வேதம் முதலியதைப் படிப்பது, ஆசமனம், ஜபம் இவைகளில், ப்ராம்ஹணன் ஒரு வஸ்தரம் உடையவனின் வகைஞத்தைச் சொல்லுகிறார். **பராசரர்:-** இடது தோளினின்று நழுவிய வஸ்தரமுடையவனையும்,

इतिप्रिलं तरीक्कप्पट्ट उत्तरीयम् उटेयवैनायुम्
एकवस्तरम् एन्नरूप्यवुम्. अवैनेत् तेव कार्यत्तिलुम्,
पित्तरु कार्यत्तिलुम् तवीरक्क वेण्णुम्. अपस्तुम्परः-
नित्यमुम्, (एप्पेपामुतु) उत्तरीयत्तेतत् तरीक्क
वेण्णुम्, अल्लतु उत्तरीयत्तिरकाक नूलैयावतु
तरीक्कलाम्. ज्ञातुकर्ण्णयारः- वस्तरमाना उत्तरीयम्
इल्लावीष्टिल इरण्णु अन्कुलम् अल्लतु मुन्नरंग्कुलम्,
नान्नकन्कुलम् अकलम् उटेयताय नूल्कलाल
नेय्यप्पट्ट वस्तरम् पोलुलालतुम्
वैवायुम्लालते उत्तरीयमाय्च चेय्तु केलालाम्.
अव्वितम्, सन्तरीक्कयिलः- श्वरेलत कर्मत्तिलुम्
समारंत्त कर्मत्तिलुम् इरण्णु उपवीतंकलात् तरीक्क
वेण्णुम्. मुन्नरुवते उत्तरीयत्तिरकाकत् तरीक्क
वेण्णुम्. वस्तरम् इल्लावीष्टिल अतु
वित्तिक्कप्पटुकिरतु.

वृद्धमनुः - निष्पीड्य स्नानवस्तुं तु पश्चात् सन्ध्यां समाचरेत् ।
अन्यथा कुरुते यस्तु स्नानं तस्याफलं भवेत् ॥ प्रातः सन्ध्यामुपासीत
वस्त्रसंशोधनात् प्ररम् । उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्त्रसंशोधनं भवेत् ॥
वस्त्रं चतुर्गुणीकृत्य निष्पीड्य च जलाद्विः । वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य
द्विराचम्य विशुद्धति इति ॥ त्यक्तवस्त्रनिष्पीडने विशेषमाह हारीतः -
वस्त्रनिष्पीडनं तोयं श्राद्धे तूच्छिष्टभागिनाम् । भागधेयं श्रुतिः प्राह
तस्मानिष्पीडयेत् स्थले ॥ उच्छिष्टभागिनो दासा ये मृतास्ते
त्वमन्त्रकाः । तृप्यन्तु तरु(नु)तां प्रासा मम सम्बन्धिनो मृताः ॥ इति
स्नात्वाऽद्रवसनं शुचौ देशो प्रपीडयेत् इति ॥ भरद्वाजोऽपि -
वस्त्रोदकमपेक्षन्ते श्राद्धे तूच्छिष्ट(भोजि) भागिनः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन
जलं भूमौ निपातयेत् इति ॥

वंगुत्तमानुः:- संनान वस्तरत्तेतप्प पिष्ठिन्तु, पिऱकु
सन्त्या वन्तनाम् चेय्य वेण्णुम्. एवनीते मारीच
चेय्किरुणे अवनतु संनानम् वैण्णुकुम्. कालै लन्त्या

வந்தனத்தை வஸ்த்ரத்தைப் பிழிந்த பிறகு அனுஷ்டிக்க வேண்டும். மாத்யாஹ்னிக ஸந்த்யா வந்தனத்தைச் செய்து பிறகு வஸ்த்ரத்தைப் பிழிய வேண்டும். ஸ்நான வஸ்த்ரத்தை நான்காய் மடித்து ஜலத்திற்கு வெளியில் பிழிந்து இடதுகையின் மணிக்கட்டுக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டு இருமுறை ஆசமனம் செய்து சுத்தனைகிறோன். விடுத்த வஸ்த்ரத்தைப் பிழிவதில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறோர்.

ஹார்தார்:- வஸ்த்ரத்தைப் பிழிந்த ஜலம், ச்ராத்தத்தில் உச்சிஷ்டத்தைப் பெறும் சிலருக்குப் பாகமென வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகையால் ஸ்தலத்தில் பிழிய வேண்டும். ‘உச்சிஷ்ட + ம்ருதா’ என்ற மந்த்ரத்தால் ஸ்நான வஸ்த்ரத்தைச் சுத்தமான ஸ்தலத்தில் பிழிய வேண்டும். ஷி மந்த்ரத்தின் அர்த்த மிதுவாம் - ‘ச்ராத்தத்தில், உச்சிஷ்டத்தை அடைபவர்களான தாஸர்களும், மந்த்ரமில்லாமல் எவர் இறந்தவர்களோ அவரும், பாபத்தால் மரத்தன்மையை அடைந்தவரும், என்னைச் சேர்ந்தவர் எவர் இறந்தனரோ அவர்களும் த்ருப்தியை அடையக் கடவர்’ என்று. பரத்வாஜரும்:- ச்ராத்தத்தில் உச்சிஷ்டத்தை அடைபவர்கள் வஸ்த்ர ஜலத்தை அபேக்ஷிக்கின்றனர். ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் வஸ்த்ர ஜலத்தைப் பூழியில் விடவேண்டும்.

—★—

॥ ஸ்நானமேதா: ॥

பிராத: ஸ்நானப்ரஸ்ங்கே ஸ்நானாந்தராண்யுच்யந்தே ॥ தत्र ஶஸ்தி: - ஸ்நான் து டிவி஧ிங் ப்ரோக்டாங் ஗ௌணமுருஷ்யமேதா: । தயோஸ்து வாருண் முருஷ்ய தத்புநஷ்டவி஧ிங் மஹேது ॥ நித்யங் நைமித்திக் காஸ்யங் கியாஜ்ஞ் மலகர்ஷணம் । கியாஸ்நான் தथா ஷஸ்த் ஷோ஢ா ஸ்நான் பிரகிர்த்தம் । இதி ॥ எதேஷாஂ லக்ஷணமாஹ ஸ ஏவ - அஸ்நாதஸ்து புமாநாஹோ ஜப்யாயிஹவநாடிஷு । பிராத: ஸ்நான் தர்஦்஧ து நித்யஸ்நான் பிரகிர்த்தம் । சண்டாலஶங்காத்தூபாடு ஸ்பூஷ்வாதஸ்நாதாஂ ரஜஸ்வலம் ॥

स्नानार्हस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि तत् । पुष्पस्नानादिकं यत्तु देवज्ञविधिचोदितम् । तद्भिकाम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत् प्रयोजयेत् ॥ दैवज्ञः - ज्योतिर्वित् ॥ जपुकामः पवित्राणि ह्यर्चिष्यन् देवताः पितृन् । स्नानं समाचरेयत्तु क्रियाङ्गं तत् प्रकीर्तितम् ॥ मलापकर्षणं नाम स्नानमभ्यङ्गं पूर्वकम् ॥ मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा । सरस्सु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र मता क्रिया इति ॥ स्नानमेव तत्र क्रिया = कार्यतया विहितेत्यर्थः ॥ गोभिलोऽपि - नित्यं सततनिर्वर्त्यं काम्यं कामाय यद्भितम् । निमित्तादुपजातं तु स्नानं नैमित्तिकं स्मृतम् इति ॥ अनेन मध्यन्दिनस्नानस्यापि नित्यत्वमुक्तम् । तस्यापि सततनिर्वर्त्यत्वात् ॥ तदिदानीं प्रसङ्गेनाभिधीयते ॥

संनानपेत्तानुकरणं

प्ररातः संनानं प्ररसन्कर्त्तालं मर्ह लंनानंकर्णम् चेऽलप्पटुकिन्नरन् । अतिलं, चांकरं केळाणम्, मुक्यम् इन्नरं पेतत्तालं लंनानम् इग्रुवितमाकुम् । अवैकर्णं वारुणं लंनानम् मुक्यमेमनप्पटुम् । अतु आग्रुवितमाकुम् । नित्यम्, नैमित्तिकम्, काम्यम्, करीयाङ्कम्, मलापकर्षणम्, करीया लंनानम् इन्नरु आग्रुवितमाय लंनानम् चेऽलप्पटुत्तातु । इवैकर्णिन् लक्षणत्तेतत्स चेऽल्लुकिग्रुर् । चांकरोः - लंनानम् चेय्यात मनीतिन् ज्ञपम् अक्षिनि लेहामम् मुतवियवैकर्णिलं अर्ग्ग्रुत्वावैतिलै । अतर्हकाककं कालैयिलं चेय्यप्पटुम् लंनानम् नित्यं लंनानम् इनप्पट्टतु । चन्तोलाणं, पिण्ठत्तिनिं पुकेमुतवियतु, लंनानम् चेय्यात रज्जुस्वैले इवर्कैत तेताट्टालं लंनानत्तिनिर्कु उरीयवैकिं एप्पेपामुतु लंनानम् चेय्किग्रुतेन अन्त लंनानम् नैमित्तिकम् इनप्पटुकिरतु । पुष्यस्नानम् मुतवियतुम्, ज्ञेयानात्तिविकर्णं वित्तियालं वित्तिकप्पट्टतुमानं

ஸ்நானம் காம்யம் எனப்பட்டது. காமமில்லாதவன் அதைச் செய்ய வேண்டியதில்லை. சுத்தமான மந்த்ரம் முதலியவைகளை ஜபிக்க விரும்பியவனும், தேவதைகளை, அல்லது பித்ருக்களை ஆராதிக்கப் போகிறவனும் செய்யும் ஸ்நானம் க்ரியாங்க ஸ்நானமெனச் சொல்லப்பட்டது. அப்யங்கத்தை முன் செய்து கொண்டு, அதற்காகச் செய்யும் ஸ்நானம் மலாபகர்ஷனை ஸ்நானம் எனப்படும். அழுக்கைப் போக்குவதற்காகவே அந்த ஸ்நானம், வேறு ப்ரயோஜனத்திற்கல்ல என்று. ஸரஸ்ஸைகளிலோ, தேவர்களால் வெட்டப்பட்ட குளங்களிலோ, தீர்த்தங்களிலோ. நதிகளிலோ செய்யும் ஸ்நானம் க்ரியா ஸ்நானம் எனப்படும். அதில் ஸ்நானமே க்ரியையானதால் = கார்யமாய் விழிதமானது. கோபிலரும்:- ப்ரதிதினமும் செய்ய வேண்டிய ஸ்நானம் நித்யமெனப்படும். இஷ்டத்தை அடைவதற்கு அனுகூலமாகியது காம்யம் எனப்படும். நிமித்தத்தால் உண்டாகியது நைமித்திக ஸ்நானமெனப்படும். இதனால் மாத்யாஹ்னிக ஸ்நானமும் நித்யமெனச் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் ப்ரதிதினமும் செய்யப்பட வேண்டியதானதால். அதை இப்பொழுது ப்ரஸங்கத்தால் சொல்லுகிறோம்.



மா஧்யாஹிகஸ்நானம் ।

தत्र ஬ௌधாயனः - ததோ மத்யாஹஸமயे புனः ஸ்நானं ஸமாචரேत् ॥
 ஸூர்யஸ்ய சாப்யுபஸ்஥ானं ஜபஹோமாடிக் ததः இதி ॥ வஸிஷ்டः - பவித்ரகர
 ஏகாಗ்ரः பாஶ்சானவலோகயन् । அருங்கிவா சரேத் ஸ்நானं மத்யாஹாத்
 பிராங்கிஷேஷதः இதி ॥ அருகு - ரோගரஹிதः ॥ வ்யாஸः - ஸ்நானं மத்யந்஦ிநே
 குர்யத் ஸுஜிரீஞ்சே நிராமயः । ந ஭ுக்த்வா ஽லகூதோ ரோगி ஸ்நாயாடம்஭ஸி
 நாகுலः இதி ॥ விஷ்ணுः - பிராதः ஸ்நாதोऽபி வி஧ிவத் ஸ்நானं மத்யந்஦ிநே
 சரேத् । ஶக்தஶ்ஶேदந்யथா ரோगி ஛ாயா ஸம்மார்ஜனं சரேத் இதி ॥ அனேன பிராதः
 ஸ்நாதஸ்ய மா஧்யாஹிகஸ்நானாஶக்தௌ காபிலஸ்நானமநுஜாயதே ॥

मात्याहृनीकस्नानम्

अथिलं पोतायनारः:- प्रिऱ्कु मत्याहृन कालत्तिलं मरुपदि स्नानम् चेय्य वेण्णुम्. सैर्वयोपासल तान्तत्तेयुम्, ज्ञपम्, खेऋमम् मुतवियतेयुम् प्रिऱ्कु चेय्य वेण्णुम्. वलिष्टारः:- रोकमिल्लातवन्, पकलिलं मत्याहृन्नत्तिन्कु मुन्, केयिलं पवित्रम् उटेयवण्ण्य, कवनमुष्टेयवण्ण्यप् पक्कन्कज्ञोप पारामलं स्नानम् चेय्य वेण्णुम्. व्यालारः:- व्याति इल्लातवन्, अन्नम् नन्नरुयं ज्ञेर्ण्णमान प्रिऱ्कु, मत्याहृन्नत्तिलं स्नानम् चेय्य वेण्णुम्. पोजनम् चेय्त प्रिऱ्कुम्, अलंकारम् उटेयवण्णकवुम्, रोकमुलंवण्ण्युम्, व्याकुलण्ण्युम् ज्ञलत्तिलं स्नानम् चेय्यकं कूटातु. विष्णुः:- सक्तियुलंवण्णुकिलं, प्ररातःस्नानम् चेय्तवण्णुम् मत्याहृन्नत्तिलं वित्तिप्पदि स्नानम् चेय्य वेण्णुम्. सक्तियिल्लाविष्टिलं रोकमुलंवन् सर वस्तरत्तालं तुटेत्तुकं केळालंवेण्णुम्. इतगुलं, प्ररातःस्नानम् चेय्तवण्णुक्कु मात्याहृनीक स्नान्तत्तिलं सक्तियिल्लाविष्टिलं कापिलस्नानम् छप्पुकं केळालंपप्पुकिऱ्कु.

व्यासः—मन्त्रपूर्तैर्जलैःस्नानं प्राहुःस्नादफलदम् । न वृथावारिमग्नानां यादसामिव तत्समम् इति ॥ याज्ञवल्क्यः— मत्स्यकच्छपमण्डूकास्तोये मग्ना दिवानिशम् । न तेषां हि स्नानफलं तथैव विधिवर्जितम् इति ॥ कौशिकः— विधिष्टं तु यत्कर्म करोत्यविधिना तु यः । फलं न किञ्चिदाप्नोति क्लेशमात्रं हि तस्य तत् इति । विवस्वान्— अविदित्वैव यः स्मार्त विधानं स्नानमाचरेत् । स याति नरकं घोरमिति धर्मस्य शासनम् इति ॥ विष्णुः— ब्रह्मक्षत्रविशां चैव मन्त्रवत् स्नानमिष्यते ॥ तूष्णीमेव हि शूद्रस्य खीणां च कुरुनन्दन इति ॥ बोधायनः— अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्ववर्णिकम् । मन्त्रवत् प्रोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यते इति ॥

வ்யாஸர்:- மந்த்ரங்களால் சுத்தமான ஜலங்களால் செய்யப்படும் ஸ்நானமே ஸ்நான பலனைத் தருமென்பர். மந்த்ரமில்லாவிடல் செய்யும் ஸ்நானம் வீணாகும். அந்த ஸ்நானம் ஜலத்திலேயே முழுகியுள்ள ஜலசர ஜந்துக்களின் ஸ்நானத்திற்கு ஸமமாகும். யாக்ஞவல்க்யர்:- மீன், ஆமை, தவளை இவைகள் பகலிலும் இரவிலும் ஜலத்தில் மூழ்கியிருக்கின்றன. அவைகளுக்கு ஸ்நான பலனில்லை. விதியில்லாது செய்த ஸ்நானம் இவ்விதமேயாம், கெளசிகர்:- விதியுடன் செய்ய வேண்டிய கர்மத்தை விதியின்றி எவன் செய்கின்றாலே அவன் ஸ்வல்ப பலனையும் அடைவதில்லை. அந்தக் கர்மம் ச்ரமத்தை மட்டில் பலனுக உடையதாம். விவஸ்வான்:- ஸ்ம்ருதியிற் சொல்லிய விதியை அறியாமலே எவன் ஸ்நானத்தைச் செய்கிறாலே, அவன் பயங்கரமான நரகத்தை அடைவான் என்று தர்ம தேவதையின் ஆக்ஞரு. விஷ்ணு:- ஓ குருநந்தன! ப்ராம்ஹணன், கஷத்ரியன், வைச்யன் இவர்களுக்கே மந்த்ரத்துடன் ஸ்நானம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சூத்ரனுக்கும், ஸ்த்ரீகளுக்கும் மந்த்ரமில்லாமலே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. போதாயனர்:- ஜலத்தில் மூழ்குவதான ஸ்நானம் எல்லா வர்ணங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மந்த்ரத்துடன் ப்ரோக்ஷணமும் மூன்று வர்ணத்தாருக்கும் விசேஷமாய் விதிக்கப்படுகிறது.

—★—

ஸ்நாநாହ்ஜலானி ॥

நदீஷு ஦ேவ஖ாதேஷு தடாகேஷு ஸரஸ்ஸு ச । ஸ்நான் ஸமாச்சரேநித்யं ஗ர்த்திப்புஷேஷு ச இதி ॥ மனுஷைர஖ாதோ ஜலாಶயோ ஦ேவ஖ாத: । மனுஷை: ஖ாத: - தடாக: । க்ரஷிஸேவித் - ஸர: । ஗ர்த: - குல்யா । ப்ரஸ்வர் - நிர்ஜர: ।

गर्तलक्षणमुक्तं शौनक कात्यायनाभ्याम् - धनुः सहस्राण्यष्टौ तु
गतिर्यसां न विद्यते । न ता नदीशब्दवहा गर्तस्ता: परिकीर्तिताः इति ॥
अनेनार्थात् नदीलक्षणमप्युक्तं भवति ॥ विष्णुपुराणेऽपि —
नदीनदतटाकेषु देवखातजले च । नित्यक्रियार्थं स्नायीत गिरिप्रसवपैषु
च ॥ कूपेषूद्धृततोयेन स्नानं कुर्वति वा भुवि इति ॥ मार्कण्डेयोऽपि —
पुराणानां नरेन्द्राणां क्रषीणां च महात्मनाम् । स्नानं कूपतटाकेषु
देवतानां समाचरेत् । भूमिष्ठमुद्धृतात् पुण्यं ततः प्रसवणोदकम् ।
ततोऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्बादेयमुच्यते । तीर्थतोयं ततः पुण्यं गाङ्गं
पुण्यं तु सर्वतः ॥ तीर्थतोयं = साधुजुष्टजलम् ॥

संनानत्तिन्त्तिर्कुरीय ज्ञलंकक्षां

இனி संनानत्तिन्त्तिर्कुरीय ज्ञलंकक्षां
சொல்லப்படுகின்றன. அதில், மனு:- நதிகள்,
தேவகாதங்கள், தடாகங்கள், ஸரஸ்ஸாகள், கர்த்தங்கள்,
ப்ரஸ்ரவணங்கள் இவைகளிலொன்றில் ப்ரதிதினமும்
ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். மனுஷ்யர்களால்
வெட்டப்படாத ஜலாதாரம் தேவகாதம். மனுஷ்யர்களால்
வெட்டப்பட்ட ஜலாதாரம் தடாகம் ருஷிகளால்
ஸேவிக்கப்பட்டது ஸரஸ். வாய்க்கால் கர்த்தமெனப்
படும். ப்ரஸ்ரவணம் என்பது மலையருவி. கர்த்தத்தின்
லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. செனனகராலும்,
காத்யாயனராலும்:- எண்ணுயிரம் விற்கிடைத்தாரம்
எவைகளுக்கு ஒட்டமில்லையோ அவைகள் நதிசப்தத்தை
அடைவதில்லை. அவை கர்த்தமெனச் சொல்லப்
பட்டுள்ளன. இதனால் பொருளால் நதிலக்ஷணமும்
சொல்லப்பட்டதாயாகிறது. விஷ்ணுபுராணத்திலும்:- நதி,
நதம் தடாகம், தேவகாதம், மலையருவி இவைகளில்
நித்யகர்மத்திற்காக ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அல்லது
கிணறுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஜலத்தினால் கரையிலிருந்து
ஸ்நானம் செய்யலாம். மார்க்கண்டேயரும்:-
முன்னேர்களான அரசர்களுடையவும், மஹான்களான

ருஷிகளுடையவும், தேவர்களுடையவும் கிணறுகளிலும், தடாகங்களிலும் ஸ்நானம் செய்யலாம். எடுக்கப்பட்ட மலையருவி ஜலம், புண்யம். அதைவிட ஸ்ரோஜலம் புண்யம். அதைவிட நதீஜலம் புண்யம். அதைவிட தீர்த்த ஜலம் புண்யம். எல்லாவற்றிலும் கங்கா ஜலம் புண்யம். தீர்த்த ஜலம் என்பதற்கு ஸாதுக்களால் (ருஷிகளால்) ஸேவிக்கப்பட்ட ஜலம் என்று பொருள்.

विष्णुः - उद्धृतात् पुण्यं भूमिष्ठमुदकं तस्मान्ब्रादेयं तस्मादपि साधुपरिगृहीतं सर्वत एव गाङ्गम् इति ॥ **विवस्वानपि** - एकतः सर्वतीर्थानि जाह्नव्यैकैव चान्यतः । ब्रह्मलोकेशशिरसः पतिता या महीतले इति ॥ **मरीचिरपि** - भूमिष्ठमुद्धृतं वाऽपि शीतमुष्णमथापि वा । गाङ्गं पयः नयत्याशु पापमामरणान्तिकम् इति ॥ **योगयाज्ञवलक्ष्यः** - त्रिरात्रफलदा नघो याः काश्चिदसमुद्रगाः । समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य सरितां पतिः इति ॥

விஷ்ணு:- எடுத்த ஜலத்தைவிடப் பூமியிலுள்ளது புண்யமானது. அதைவிட நதி ஜலமும், அதைவிட ஸாதுக்களால் ஸேவிக்கப்பட்டதும், எல்லாவற்றிலும் கங்காஜலமும் புண்யமாம். விவஸ்வானும்:- ஸகல தீர்த்தங்களும் ஒரு பக்கத்தில், கங்கையொன்றே மற்றொரு பக்கத்தில். எந்தக் கங்கை ப்ரம்ஹ லோகத்தினின்றும் ஈசனின் தலையினின்றும் பூமியில் வந்துள்ளதோ. மரீசியும்:- பூமியிலிருப்பதாயினும், எடுக்கப்பட்டதாயினும், சிதமாயினும், உஷ்ணமாயினும், கங்காஜலம் மரணம் வரையுள்ள பாபத்தை உடனே போக்குகிறது. யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- ஸமுத்ர ஸங்கமமில்லாத நதிகள் எல்லாம் மூன்றுநாள் (க்ருச்ரானுஷ்டானம் செய்த) பலனைக் கொடுக்கும். ஸமுத்ர ஸங்கமமுள்ள நதிகள் ஒரு பகுத்தின் பலத்தைக் கொடுப்பனவாம். ஸமுத்ரம் ஒருமாத பலனைக் கொடுப்பதாகும்.

भरद्वाजः । महानदीनदस्रोतः सरस्विदशखातकाः । नालस्तटाकः कुण्डं च धारा कूपस्त्वमी दश ॥ चान्द्रायणं त्रयः कृच्छ्रा गायत्र्या अयुतत्रयम् । आस्त्रावनं महानद्यां तुल्यमेतच्चतुष्टयम् । उद्भूत्वा भूधरेऽम्भोधिं प्रविशत्यम्बुसन्ततिः । या सा महानदी इत्या सर्वपापप्रणाशिनी ॥ उद्भूता पूर्वदिग्भागे शैले सलिलसन्ततिः । या प्रत्यक्षागरं याति सा नदस्त्विति कथ्यते ॥ भूधरे भुवि वोद्भूता या मेघरससन्ततिः । नदीं विशति सा स्रोतः स्वयं वा यत्र लीयते । पर्वतस्य तटे वाऽग्रे वृत्ताकारं जलास्पदम् । अशोष्यं यत् सरस्तत् स्यात् प्रविशालं सुपक्षजम् ॥ भुव्यद्रौ वा तटस्पर्शमिश्रोष्यं यज्जलाशयम् । विशालमविशालं वा देवखात इति स्मृतः ॥ ग्रामार्थं वाऽथ सस्यार्थं नृभिस्सृष्टाऽम्बुपद्धतिः । या नद्याद्यम्बुधामभ्यस्सा नालाख्यमिति स्मृतम् ॥ अर्धचन्द्राकृतिर्यस्य संस्थानस्य तु वारिणः । ग्रामे वनेऽपि वा शैले तत्तटाकमिति स्मृतम् ॥ चतुरश्रं शिलाबद्धं ससोपान मधोजलम् । विशाल मविशालं वा तत्तकुण्डमिति स्मृतम् ॥ गिरिरन्ध्राद्विनिर्गत्य या पतत्यम्बुसन्ततिः । अनाधारमधो भूमौ सा धारेत्यभिधीयते । पञ्चहस्तविशालं यत् खातं वृत्तमधोजलम् । दार्विष्टकादिघटितं यत्तत् कूप इति स्मृतः इति ॥

परक्त्वाङ्गाः:- महोन्ति, नतम्, लंगोतस्व, लरस्व, तेवकातम्, नाळम्, तटाकम्, कुण्टटम्, तारे, कूपम् एन्ऱ इव उपत्तुलं जलाचयन्कलं. सान्तरायणम्, शुन्ऱु कंरुक्कंरंकलं, मुप्पत्तिञ्चयिरम् कायत्तर्हि जपम्, महोन्तियिलं लंगोनम् एन्ऱ इन्त नाळंकुम् लम्माकुम्. मलैलयिलं उण्टटाकि लम्मतरत्तेयटेयम् जलप्रवाहम्, लकल पापंकलैयम् अकर्त्रुम् 'महोन्ति' एन्ऱरीयप्पत् वेण्णुम्. किमक्किलुलंकल मलैलयिलुण्टटाकि मेंकु लम्मतरत्तेयटेयम् जलप्रवाहम् 'नतम्' एनक्क चेत्तलप्पटुकिरतु.

மலையிலாவது, பூமியிலாவது உண்டாகிய ஜலப்பெருக்கு நதியையடைவதும், அல்லது பூமியிலேயே எங்காவது மறைவதும் ‘ஸ்ரோதஸ்’ எனப்படும். மலையின் தாழ்வரையிலோ, உச்சியிலோ வட்டமாயும், வற்றூததாயும், விசாலமாயும், தாமரை உடையதுமான ஜலாசயம் ‘ஸரஸ்’ எனப்படும். பூமியிலாவது மலையிலாவது கரைகளுள்ளதும், வற்றூததுமான ஜலாசயம் விசாலமாயினும், சிறியதாயினும் ‘தேவகாதம்’ எனப் படும். க்ராமத்திற்காகவாவது, பயிர்களுக் காகவாவது, நதி முதலிய ஜலாசயங்களினின்றும் மனிதர்களால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜலப்பெருக்கு ‘நாளம்’ எனப்படும். எந்த ஜலாசயத்தின் ஆதாரம் பாதியாயுள்ள சந்தர்ண் போலுள்ளதோ, அது க்ராமத்திலோ, வனத்திலோ, மலையிலோ இருப்பின் ‘தடாகம்’ எனப்படும். நான்கு மூலைகளுள்ளதும், கருங்கற்களால் கட்டப்பட்டதும், படிகளுடையதும், கீழே ஜலமுடையதும். விசாலமாகவோ, சிறியதாகவோ இருப்பதுமான ஜலாசயம் ‘குண்டம்’ எனப்படும். மலையின் சந்திலிருந்து வெளியாகி ஆதாரமில்லாமல் கீழ்ப்பூமியில் விழும் ஜலப்பெருக்கு ‘தாரை’ எனப்படுகிறது. ஜந்துமுழுமகலமுள்ளதும், வட்டமானதும், அடியில் ஜலமுள்ளதும், வெட்டப்பட்டதும், கட்டை செங்கல் முதலியவைகளால் கட்டப்பட்டதுமான ஜலாசயம் ‘கூபம்’ (கிணறு) எனப்படும்.

வ்யாஸः— ந मेहेत जलद्रोण्यां स्नातुं च न नर्दी तरेत् ।
नातिक्रमेद्धथा सिन्धुं नानुष्ठातुं नर्दी तरेत् इति ॥ सिन्धुं नर्दी अनाचम्य
न लङ्घयेदित्यर्थः ॥ मनुः— परकीयनिपानेषु न स्नायाञ्चि कदाचन ।
निपान कर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ यानशाय्यासनान्यस्य
कूपोद्यानगृहणिच । अदत्तान्युपयुज्ञान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥**अस्य**
- परस्य । तुरीयभाक् - तुरीयांशभाक् ॥**नघाघलाभविषये** स एव -
அல்லமே தேவாதானா் ஸரஸா் ஸரிதா் ததா । உழூத்ய ச்துரः பிண்டாந்

पारक्ये स्नानमाचरेत् । इति ॥ अनेनैवाभिप्रायेण शौनकोऽपि – वापी
कूपटटाकेषु यदि स्नायात् कदाचन । उद्धृत्य मृत्तिकापिण्डान् दश
पञ्चाथवा क्षिपेत् इति ॥

வ்யாஸர்:- ஒடத்திலிருந்து மலழுத்ர விஸர்ஜனம் செய்யக் கூடாது. ஸ்நானம் செய்வதற்காக நதியைத் தாண்டிச் செல்லக் கூடாது. ஆசமனம் செய்யாமல் நதியைத் தாண்டக் கூடாது. அனுஷ்டானத்திற்காக நதியைத் தாண்டிச் செல்லக் கூடாது. மனு:- பிறருடையதான் ஜலாசயங்களில் ஒருகாலும் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. செய்தால் ஜலாசயத்தைச் செய்தவனின் பாபத்தின் கால்பாகத்தோடு ஸம்பந்தப்படுகிறுன். பிறனின் வாஹனம், படுக்கை, ஆஸனம், கிணறு, பூந்தோட்டம், வீடு இவைகளை அனுமதியின்றி உபயோகித்துக் கொள்ளுகின்றவன் (சொந்தக்காரனின்) பிறனின் பாபத்தின் நாலிலொரு பாகத்தை அடைவான். (தர்மத்திற்காக விடப்பட்டிருந்தால் தோஷமில்லை.) நதி முதலியவை கிடைக்காத விஷயத்தில், மனுவே:- தேவகாதங்கள், ஸரஸ்ஸூகள், நதிகள் இவை கிடைக்காவிடில், பிறருடைய ஜலாசயத்தில், நான்கு மண்டருண்டைகளை எடுத்து வெளியில் போட்டு விட்டு ஸ்நானம் செய்யலாம். இதே அபிப்ராயத்துடன். சௌனகரும்:- வாபி, கூபம், தடாகம் இவைகளில் எப்பொழுதாவது ஸ்நானம் செய்தால், அதிலிருந்து, பத்து அல்லது ஐந்து மண்ணுருண்டைகளை வெளியில் போடவேண்டும்.

जाबालिः - न पारक्ये जले स्नायात् न भुजीत महानिशि ।
नाद्रमेकं च वसनं परिदध्यात् कदाचन ॥ पञ्चपिण्डान् समुद्धृत्य पारक्ये
स्नानमाचरेत् इति ॥ याज्ञवल्क्यः - पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्
परवारिषु । स्नायान्बदीदेवखातहृदप्रस्वरणेषु च । इति
उदकप्रवाहाभिधातकृतः कूलमध्ययोः सजलो महानिम्नप्रदेशो हृदः ॥

නදීමහානදීසිට: කුළමධ්‍ය ප්‍රදේශයෝ: | සර්වදා යො ජලප්‍රායෝ භ්‍රද: ස පරිකිරීත්: ඇති බරදාජස්මරණාත् || යොගයාඝබලක්යෝඉපි - පරකීයනිපානේෂු යදි ස්නායාත් කදාචන | සස් පිණ්ඩාස්ථටොඡ්‍රත් තත: ස්නාන සමාචරෙත් ඇති ||

ඇෂාපාලි:- පිරුරුඟාය ජූලත්තිල් ස්නානම් රැස්යක් කුටාතු. මහාරාත්මියිල් පොඥනම් රැස්යක් කුටාතු. ඕරු බස්තරත්තෙ මට්ඩල් තරිත්තිරුක්කක් කුටාතු. පිරුර් ජූලත්තිල් ස්නානම් රැස්තාල් ජූන්ත මණ්ඩුරුන්ඩාක්කීනාක් ගැඹුත්තු බෙවෑශියිර් පොට්ටු ඩිට්ටු ස්නානම් රැස්ය වෙන්ගැඹුම්. **යාක්නුවල්ක්යා:-** පිරුර් ජූලාසයන්කෑල්, ජූන්තු මණ්ඩුරුන්ඩාක්කීනා ගැඹුත්තුප පොටාමල් ස්නානම් රැස්යක් කුටාතු. නත්, තේවකාතම, ඩ්රතම, පරස්රවණම් මූළුවකෑල් මණ්ඩෙනුගැඹුත්තුප පොටාමලේ ස්නානම් රැස්යලාම. ජූලප්‍රරවාහු වෙකත්තාල් රැස්යපප්ප්ටු, නතියින් කරෙයිලො, නගුවිලො අතික ඇමුමුල්ල ස්තලම් ඩ්රතම ගැඹුත්තුම්. ‘නත්, මහානති මූළුවකෑල් පරවාහුත්තින් කරෙයිලො, නගුවිලො ගැඹුපොමුතුම් ජූලමුල්ල පර්තේසම් ඩ්රතම ගැඹුත්තු’ ගැඹුත්තු පරත්වාඡර්සාල්වියිරුක්කීරුරා, යොකයාක්නුවල්ක්යා:- පිරුරුඟාය ජූලාසයන්කෑල් ඕරු කාලත්තිල් ස්නානම් රැස්තාල් ගැයු කෙ මණ්ඩුරුන්ඩාක්කීනා අතිවිරුන්තු ගැඹුත්තු බෙවෑශියිල් පොට්ටු ඩිට්ටු පිරුකු අතිල් ස්නානම් රැස්යලාම්.

ඡැනක:- නිරුද්‍යාසු න කුර්ඛන්ඡම්බාක්තත සේතුකුත් | තස්මාත්පරකුතානු සේතුනු කුපාංශ පරිවිජ්‍යේත් || ඉජුත් බාඉපි ත්‍රීනු පිණ්ඩානු කුරාදාපත්සු නො සදා || නිරුද්‍යාසු තු මුත්පිණ්ඩානු කුපාතු ත්‍රීනු ගඟාස්තථා | අනුජුත් තු යත්සාන පරකීයජලාශයේ | කුඩා බ්‍රවති තත්සාන කරු: පාපෙන ලිප්‍යාතේ || කුපතොයැරපි ස්නායාත් සර්වලාභේ සමුජ්‍රත්: || ස්නාන තු න ගඟු: කුරාන්බාසාචිඳ බිවජිත්: ඇති || කුපාත්‍රීනු ගඟානුජුත්

अमृन्मय पात्रावजितैर्जलैः स्नायादित्यर्थः ॥ तथा अखण्डादर्शे -
शूर्पवासुरीखाग्राम्बु स्नानवस्त्रं घटोदकम् । मार्जनीरेणुकेशाम्बु हन्ति पुण्यं
पुरातनम्' इति ॥ उत्सृष्टेषु सर्वार्थात् अनुद्धरणेष्वपि न दोषः ॥
यदाह व्यासः - अनुत्सृष्टे तु न स्नायात् तथैवासंस्कृतेष्वपि ।
आत्मीयेष्वपि न स्नायात् तथैवाल्पजलेषु तु इति ॥
सर्वसत्त्वोद्देशेनाकृतमनुत्सृष्टम् । असंस्कृतं - अप्रतिष्ठितम् ॥ अत्र
विज्ञानेश्वरोऽपि - सर्वसत्त्वोद्देशेनात्यक्तेषु तटाकादिषु पञ्चपिण्डा-
ननुद्धृत्य न स्नायात् । आत्मीयोत्सृष्टाभ्यनुज्ञातेषु तु पिण्डोद्धरण-
मन्तरेणापि स्नानमध्यनुज्ञातम्' इति ॥ अत्र स्वशक्त्यनुसारेण
पिण्डसङ्ख्याव्यवस्था द्रष्टव्या ॥

केळाणकारः:- 'पिऱ्णुले तेक्कप्पट्ट ज्ञलत्तिलं
संनाऩमं केय्यकं कूटातु. अज्ञेयेचं केय्यतवनं संनाऩ
पलत्तिलं पाकत्तेत अटेवाणं. आकेय्यालं पिऱ्णरालं
कट्टप्पट्ट अज्ञेकलायुमं, पिऱ्णरिं किणरुकलायुमं
तविरक्कं वेण्णुमं. अल्लतु मुन्नु कै
मण्णुरुण्णेटकलाएउत्तुप्प पेऋटु वीट्टु संनाऩमं
केय्यलामं. इतु आपत्त्कालत्तिलं मट्टुमं, एप्पेपामुतु
मल्ल. तेक्कप्पट्ट ज्ञलत्तिलं मुन्नु
मण्णुरुण्णेटकलायुमं, किणर्न्निविरुन्तु 'मुन्नुकूटमं
ज्ञलत्तेतयुमं एउत्तु. वेणीयिटामलं पिऱ्णरिं
ज्ञलातारत्तिलं संनाऩमं कूटातु. केय्यतालं अन्त संनाऩमं
वीण्णुकूमं. ज्ञलाचयत्तिन्ऱ्कु उटेयवनिं पापत्तेतोटु
सम्पन्तिप्पाणं. मर्न्न ज्ञलंकलं किटेक्काविष्टिलं
वेणीयिलेउक्कप्पट्ट किणर्न्निं ज्ञलत्ताव्युमं
संनाऩमं केय्यलामं. मुक्किल्लात कुटंक्कलालं संनाऩमं
केय्यकं कूटातु' एन्ऱ्गुर. 'किणर्न्निनीन्नुमं मुन्नु कूटमं
ज्ञलमेमेउत्तु वेणीयिलं वीट्टु मण्णपात्तरमल्लात
पात्तरत्तालं वीटप्पट्ट ज्ञलत्तालं संनाऩमं केय्य
वेण्णुमं.' एन्पतु बेपारुलं. अव्वितमं.
अकण्णातात्तरसत्तिलः- मुर्हत्तिन्कार्न्नु, नकत्तिन्नी नुनी

ஜலம், ஸ்நான வஸ்த்ரம், குடத்து ஜலம், துடைப்பத்தாலெழழும்பும், புழுதி, மயிர்ஜலம் இவை (ஸ்பர்சிக்கப்பட்ட) பூர்வபுண்யத்தைப் போக்கும். எல்லோருக்குமென்று விடப்பட்ட ஜலாசயங்களில் மண்ணுருண்டைகளை எடுக்காவிட்டனும் தோஷமில்லை. அவை எல்லோருக்குமென்பர். வ்யாஸர்:- பிறர் பயன்படுத்த விடப்படாததில் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. ஸம்ஸ்காரம் (ப்ரதிஷ்டை) இல்லாதவைகளிலும் ஸ்நானம் கூடாது. தன்னுடையதாயினும் ஸம்ஸ்காரம் மற்றதில் ஸ்நானம் கூடாது. ஸ்வல்பஜல முள்ளவை களிலும் ஸ்நானம் கூடாது. எல்லாப்ராணிகளையும் உத்தேசித்துச் செய்யப்படாதது, அனுத்ஸ்ரஷ்டம்' எனப்படும். 'அஸம்ஸ்க்ருத' என்பதற்கு ப்ரதிஷ்டையில்லாதது என்று பொருள். இதில், விக்ஞானேச்வரரும்: - எல்லா ப்ராணிகளையும் உத்தேசித்து விடப்படாத தடாகம் முதலியவைகளில் ஜந்து மண்ணுருண்டைகளை எடுத்துப் போடாமல் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. தன்னுடையதும் பிறருபயோகத்திற்கு விடப்பட்டு உத்தரவளிக்கப் பட்டதுமான தடாகாதிகளில் மண்ணுருண்டை எடுத்துப் போடுவதன்றியும் ஸ்நானம் செய்யலாமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதில் தனது சக்திக்குத் தகுந்தபடி மண்ணுருண்டைகளின் கணக்கில் வ்யவஸ்தை அறியத்தக்கது.

வृத्तमनुः—அன்யாயोபாத்தவித்ஸ्य பதிதஸ्य ச வார்஧ுஷீः । ந ஸ்யாடுடுபாநேஷு ஸ்நாத்வா கृच்஛्रं ஸமாச்சரேत् இதி ॥ ஶௌநகः—அன்யஜீः ஖ானிதாः கூபாஸ்தடாகா வாப்ய ஏவ வா । தேஷு ஸ்நாத்வா ச பீத்வா ச பிராஜாபத்யேந ஶு஧்யதி । அகாமாட् ஬்ராஹ்ம: ஶு஧்யே஦् ஬்ரஹ்மகூர்ச்சோபவாஸதः இதி ॥ யத்து ஶாதாதபவசனம्—அன்யைரபி கृதे கूபே ஸேதௌ வாப்யாடிகே தथா । தத्र ஸ்நாத்வா ச பீத்வா ச பிராயஶ்சித்த் ந வி஘டதே இதி, தத்யந்தாபத்ரிஷயம् ॥ சந்திரகாயாம्—நத்யாஂ து வி஘மானாயாஂ ந ஸ்யாடந்யவாரிஷு । ந ஸ்யாடல்பதோயே து வி஘மானே ஬ஹுகே இதி ॥

वंगुत्तमनुः:- अन्याय मार्ककत्ताल
सेर्ककप्पट्ट पञ्चमुष्टयवन्, पतितन्, वार्त्ततुषि
(वट्टियाल जीविप्पवन्) इवरिन् जलाशयन्कणील
सन्नानम् चेय्यकं कूटातु. चेय्तालं प्रराज्ञापत्यं करुचरम्
अनुष्ठिकं क वेणुम्. चेणानकारः:- संन्टाळार्कणाल
वेट्टुविक्कप्पट्ट किणरुकन्, तटाकन्कन्, वापीकन्
इवेकणील सन्नानम् चेय्तालुम् जलपानम्
चेय्तालुम् प्रराज्ञापत्यं करुचरत्तालं सत्तत्तानुकिरुन्.
अक्कुनानत्तालं चेय्तालं प्रमंहुकार्ष्च पन्ककव्य
प्रराशनम्, उपवासम् इवेकणालं सत्तत्तानुवान्.
शात्तात्परः:- 'संन्टाळार्कणालं चेय्यप्पट्ट किणरु,
सेतु (तेक्कम), वापी मुतवियवेकणालं सन्नान
पानन्कन् चेय्तालुम् प्ररायचं सित्तमिल्लै' एन्ऱु
चेल्लियूला वचनमेवेवनील अतिक
आपत्तविष्यमाम्. सन्त्तरीकेयिलः- नत्यिरुन्तालं मर्ह
जलन्कणील सन्नानम् चेय्यकं कूटातु. अतिक
जलमिरुन्तालं संवल्पज्जलत्तिलं सन्नानम् चेय्यकं
कूटातु.

शौनकोऽपि—प्रभूते विद्यमाने च उदके तु मनोहरे। नाल्पोदके
द्विः स्नायान्दी चोत्सूज्य कृत्रिमे इति ॥ यत्तु आपस्तम्बेनोक्तम्—
सशिरावमज्जनमप्यु वजयेत् इति तत्तटाकादिस्थावरविषयम्—
अल्पजलविषयं, समुद्रविषयं च ॥ तथा चन्द्रिकायाम्—स्वनदीषु च
स्नायात् प्रविश्यान्तः स्थितो द्विः । तटाकादिषु तोयेषु
प्रत्यक्षस्नानमाचरेत् इति ॥ शङ्खोऽपि—नाल्पोदके निमज्जेन
समुद्रोदकमवगाहेत इति । स्मृत्यन्तरे—गृहस्थस्तु स्वनन्तीषु निमज्ज्य
स्नानमाचरेत् । अन्यत्रासिच्य हस्ताभ्यामितरेषां तु मज्जनम् ॥
नाल्पाभ्यसि शिरो मज्जेनावगाहेन्महोदधौ । क्रियास्नाने शिरो
मज्जेदन्यत्रापि सरित्सु च इति । अन्यत्र—स्थावरोदके ॥

चेणानकरुमः:- मनत्तिर्कु इनीयतायुम्
अतिकमायुमूला जलमिरुक्कुम् वेपामुतु,

ஸ்வல்பஜலத்தில் ப்ராம்ஹணன் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. நதியிருந்தால் அதைவிட்டு, மனிதரால் செய்யப்பட்ட குளம் முதலியதில் முழுக்கூடாது. 'ஜலத்தில் தலையுடன் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது' (தலையை முழுக்கக் கூடாது, கைகளினால் இறைத்த ஜலத்தால் தலையை நனைக்க வேண்டும் என்பது பொருள்) என்ற ஆபஸ்தம்ப வசனமோவெனில் தடாகம் முதலிய ஸ்தாவரஜலத்தின் விஷயமும், ஸ்வல்பஜல விஷயமும், ஸமுத்ரஜல விஷயமாம். அவ்விதமே, சந்தரிகையில்:- ஒடும் நதிகளில் இறங்கி ஜலத்திலுள்ளிருந்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். தடாகம் முதலிய ஜலாசயங்களில் ப்ரத்யக்ஷ ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். (முழுக்கூடாது) சங்கரும்:- ஸ்வல்ப ஜலத்தில் முழுகக் கூடாது, ஸமுத்ரத்தில் முழுகக் கூடாது. மற்றெருள்ம்ருதியில்:- க்ருஹஸ்தன் நதிகளில் தலையை முழுகி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். மற்றவிடங்களில் கைகளால் இறைத்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு முழுகுதல் விவிதமாகும். ஸ்வல்ப ஜலத்தில் தலையை முழுக்கக் கூடாது. ஸமுத்ரத்தில் தலையை முழுக்கி ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. க்ரியா ஸ்நானத்தில் தலையை முழுக்கலாம். ஸ்தாவர ஜலாசயத்திலும், நதிகளிலும் தலையை முழுக்கலாம்.



ஸமுद்ரஸ்நானம்

ஸமுద்ரஸ்நானं து பர்வகாலே விஹிதம्, மஹாभாரதே— அஶ்வத்஥ஸாగரை
சேஷ்யை ந ஸ்பிஷ்டாயௌ கடாசன | அஶ்வத்஥ மந்஦வாரே து ஸாகர பர்வி ஸ்பூஞேத |
அந்யதா து குருஶேஷ ஦ேவயோனிரபாஂபதி: || குஜாய்ரோபி கௌந்தேய ந
ஸ்பிஷ்டாயோ மஹோத்திரி: || ஆஜந்மநஶதஸாஹஸ்ரே யத்பாப் குருதே கந்தித ||
முஞ்சதே ஸர்வபாபேத்ய: ஸ்நாதை லவணாம்஭ஸி || ஗ர்஭ிணி ஗ृஹிணி யஸ்ய
஦ூர்யாதா ஸ வர்ஜயேத | வபன் ஸாகரஸ்நான் ஶக்வாஹ் ச வர்ஜயேத் இதி ||

भरद्वाजः - क्षौरं च सागरस्थानं न कुर्याद्बिर्मिणीपतिः । कृतवान् यदि
चेतस्याः प्रजा न भवति ध्रुवम् ॥ सौरारबारयोरब्धौ पर्वणोरुभयोरपि ।
सन्तानकामी न स्वायात् कुर्यात् ग्रहणे तयोः इति ॥

लमुत्तरस्लन्नानम्

लमुत्तरस्लन्नानम् पर्वकालत्तिलं वित्तिक्कप्प
पट्टिर्लातु, महापारात्तत्तिलः - अस्वत्तत्तव्यक्षम्,
लमुत्तरम् इवंविरुवरयुम् लेविक्क वेण्णुमेऽ
अल्लातु तेऽटकं कृटातु. अस्वत्तत्तत्तत्तत्त
सन्निक्किमुमेयिलुम्, लमुत्तरत्तत्तप्प पर्वकालत्तिलुम्
तेऽटलाम्. ओ केळन्तेय ! मर्हकं कालत्तिलं
लमुत्तरत्तत्तकं कुस्तत्तिलिं नुनियालुम् कृटत् तेऽटकं
कृटातु. ओ रु मुरेह लमुत्तरत्तिलं स्लन्नानम्
सेय्वाग्नेकिलं, लक्ष्मि ज्ञन्मन्त्कविलं सेय्त पापम्
मुमुवत्तिलिन्ऱुम् विटुप्पुकिरुन्. एवनीनं पार्वय
कर्प्पिणीयो अवनं, तुरात्तेचप्परयाणत्तत्तयुम्,
वपनत्तत्तयुम्, लमुत्तर स्लन्नानत्तत्तयुम् चव
वह्नेनत्तत्तयुम् वर्ज्जीक्क वेण्णुम्. परत्वाज्ञाः -
कर्प्पिणीयिनं पतियायुल्लवनं, केष्ठलारम्, लमुत्तर
स्लन्नानम् इवेवक्किं सेय्यकं कृटातु. सेय्वाग्नेकिलं
अवरुक्कुकं कुम्नत्तत्त तरीत्तिरातु, निच्चयम्. पानुवारम्,
अन्कारकवारम् इवेवक्किलं पर्वन्त्कक्क नेर्नन्त्तालुम्
पुत्तराणे विरुम्पियवनं स्लन्नानम् सेय्यकं कृटातु.
कर्वह्नेनम् नेर्नन्त्तालं अवेवक्किलं सेय्यलाम्. इवंवित्तम्
सेव्वलियतु सत्तमानं पर्वन्त्कक्किलं पर्न्त्रियतु. वित्तमानं
पर्वन्त्कक्किलोवेवनीलं, परत्वाज्ञारोः - सत्तुर्तत्तियालं
वित्तमानं पर्वत्तिलं लमुत्तरत्तत्तिलं स्लन्नानम् सेय्यकं
कृटातु. अन्तत्सं सत्तुर्तत्तिये अन्कारक वारत्तिलं नेर्नन्त्तालं,
अन्तत्सं सत्तुर्तत्तिये अतिक्करमित्तत्त पर्वकालत्तिलं स्लन्नानम्
सेय्य वेण्णुम्. सत्तुर्तत्तियिनं कालत्तत्त विट्टु,
पर्वकालत्तिलेये लमुत्तर स्लन्नानम् सेय्य वेण्णुम्.
इवंवित्तम् सेय्पवनं कन्का स्लन्नानत्तत्तालं उन्नटाकुम्
पल्लियत्तेवानं. सुन्कर्वह्नत्तिलुम् : - वेगम्

வாரததுடன் க்ருஷ்ண சதுரதசியெதுவேர் அதில் பரவ காலமே ஸ்நானத்திற்கு யோக்யமானது. அதிலேயே ஸ்நானம் செய்தால் முன் ஜன்மங்களில் ஸம்பாதித்துள்ள பாபங்களை உடனே போக்குவரான். பரதவாஜர்:- க்ருஷ்ணங்காரக சதுரதசியில் எவன் ஸமுத்ர ஸ்நானம் செய்கின்றாலே அவனது முன் ஜன்மங்கள் பலவற்றில் செய்யப்பட்ட எல்லாப் பாபங்களும் நசிக்கின்றன. இந்த வசனம் பரவஸம்பந்தம் இல்லாத சதுரதசியைப் பற்றியதாம்.

புராண—सेतौ कवेरकन्याया गङ्गायाश्चापि सङ्गमे । न वारदोषभीक्षेत पर्वसु स्नानमाचरेत् इति ॥ जैमिनिः — सेतुनपिक्षते कालं नित्यं स्नानं प्रशस्यते । निषेधः कालभेदस्य सेतोरन्यत्र कहिचित् इति ॥ पराशरः — अग्निचित् कपिला सत्री राजा भिक्षुर्महोदधिः । दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात् पश्येत् नित्यशः इति ॥ अत्रोदकान्तरेषैवाचमनं कार्यम् । न समुद्रोदकेन, ‘अक्षाराभिराचामेत्’ इति स्मरणात् ॥ उक्तञ्च तैत्तिरीय श्रुतौ — तस्मात्समुद्रस्य न पिबन्ति इति । तर्पणादिकं तैनैव कार्यम् । निषेधाभावादिति चन्द्रिकायाम् ॥

புராணத்தில்:- ராம ஸேதுவிலும், காவேரி ஸங்கமத்திலும், கங்கா ஸங்கமத்திலும், வாரதோஷத்தைப் பார்க்க வேண்டாம். பரவங்களில் ஸ்நானம் செய்யலாம். **ஐஜிமினி:-** ஸேது காலத்தை அபேக்ஷிப்பதில்லை. ப்ரதிதினமும் ஸ்நானம் புகழப் படுகிறது. காலபேதத்திற்கு நிஷேஷதமென்பது ஸேதுவைத் தவிர்த்த மற்ற விடங்களைப் பற்றியது. **பராசரர்:-** அக்னி சயனம் செய்தவன், காராம்பசு, யாகத்தில் தீக்கிதன், அரசன், ஸன்யாஸி, ஸமுத்ரம் இவர்கள் பார்ப்பதாலேயே (பார்ப்பவரை) சுத்தராக்குகின்றனர். ஆகையால் ப்ரதிதினமும் பார்க்க வேண்டும். ஸமுத்ர ஸ்நானத்தில் வேறு ஜலத்தாலேயே ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.

समुत्तरं ज्ञवत्त्वालं आचमनम् कूटातु. 'उप्पिल्लात
ज्ञवत्त्वालं आचमनम् चेय्य वेण्णुम्' एन्ऱु स्मंग्रुति
इरुप्पत्ताल. तेत्तत्तीर्ये क्षुरुत्यिलुम् चेऽल्लप
पट्टुलालतुः - 'आकेयालं समुत्तरत्तेतप परुकुवत्तिल्लैल'
एन्ऱु. तर्प्पणम् मुत्तवियतेत समुत्तरं ज्ञवत्त्वालेये
चेय्य वेण्णुम्. निवेष्टम् इल्लात्ताल, एन्ऱु
सन्तीरिकयिलं चेऽल्लपपट्टुलालतु.

योग्याज्ञवल्क्यः - नद्यामस्तमिते स्नानं वर्जयेत् सदा बुधः ।
नद्यां स्नात्वा नदीमन्यां न प्रशंसेत धर्मवित् इति । शौनकोऽपि - न
नदीषु नदीं ब्रूयात् पर्वतेषु न पर्वतम् । नान्यत् प्रशंसेत्
तत्रस्थस्तीर्थेष्वायतनेषु च इति ॥ देवलः - एकां नदीं समासाद्य नान्यां
स्नाने नदीं स्मरेत् । यदि स्मरेकस्य सम्यक्तस्य पुण्यं प्रणश्यति इति ।
व्यासः - कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं नैमित्तं तथा । तीर्थान्वेतानि
सर्वाणि स्नानकाले स्मरेद्धुः इति ॥ सञ्चहेऽपि - गङ्गाग्याकुरुक्षेत्र-
प्रयोगादधिसङ्गमान् । तीर्थान्वेतानि संस्मृत्य ततो मज्जेज्जलाशये इति ॥

योकयाक्षुरवल्क्यरः - अरिन्तवनं, एप्पेपामृतुम
सल्लर्यास्तमयत्तिरुप्प विरुद्ध नत्यिलं स्नानत्तेतत्त
तविरक्क वेण्णुम्. तर्मम्म अरिन्तवनं नत्यिलं स्नानम्
चेय्तु विट्टु, (अनंके) मर्ग्गेरुरु नत्यियेप्प वुकमुक
कूटातु. **केलानकरुमः** - ओरु नत्यिलिरुन्तु मर्ग्गेरुरु
नत्यियेप्प वुकमुकं कूटातु. ओरु मलैयिलिरुन्तु मर्ग्गेरुरु
मलैयियेप्प वुकमुकं कूटातु. ओरु तीर्ततत्तत्तिलिरुन्तु मर्ग्गेरुरु
तीर्ततत्तेतयुम्, ओरु तेवालयत्तिलिरुन्तु मर्ग्गेरुरु
तेवालयत्तेतयुम् वुकमुकं कूटातु. **तेवलरः** - ओरु नत्यिय
अटेन्तु स्नानम् चेय्युम् वेपामृतु मर्ग्गेरुरु नत्यिय
स्मरीक्कक्क कूटातु. स्मरीत्ताणेकिलं अप्पेपामृतु
अवन्तु पुण्यम् नसिक्किणरतु. **व्यासरः** - गुरुकेष्ठरम्,
कण्ण, कन्क, प्रपालम्, नन्मिचम् इन्त तीर्ततन्कक्क
सल्लावर्ग्गेतयुम् अरिन्तवनं स्नान कालत्तिलं स्मरीक्क
वेण्णुम्. **संकरवृत्तीलुमः** - कन्क, कण्ण,

குருகேஷ்தரம், ப்ரயாகம், ஸமுத்ரஸங்கமம் இந்தத் தீர்த்தங்களை ஸ்மரித்துப் பிறகு ஜலாசயத்தில் முழுக வேண்டும்.

வஜ்யோடகம்

आह व्यासः— नद्या यच्च परिभ्रष्टं नद्या यच्च विनिस्सूतम् ।
गतप्रत्यागतं यच्च तत्तोयं परिवर्जयेत् इति ॥ परिभ्रष्टं विच्छिन्नम् ॥
विनिः सूतं - अविच्छिन्नम् ॥ गर्गः - प्रत्यावृत्तेऽम्भसि स्नानं वर्जनीयं
द्विजातिभिः इति ॥ बोधायनोऽपि - अधोबण्णोदके स्नानं वर्ज्य नद्यां
द्विजातिभिः । नद्यां रजकतीर्थं तु दशहस्तेन वर्जयेत् । स्नानं रजकतीर्थं तु
भोजनं गणिकागृहे । पश्चिमोत्तरशायित्वं शक्रादपि हरेच्छ्रयम् इति ॥

பரிஹ்ராரிக்கத்தகுந்த ஜலம்

தவிர்க்கத் தகுந்த ஜலங்களைச் சொல்லுகிறார், வ்யாஸர்:-
நதியினின்றும் வெளிவந்து தொடர்ந்துள்ளதும்,
ஓடித்திரும்பி வருவதுமான ஜலத்தை தவிர்க்க வேண்டும்.
கார்கார்:- திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் ஜலத்தில்
ஸ்நானத்தை த்விஜர்கள் (மூன்று வர்ணத்தார்) தவிர்க்க
வேண்டும். போதாயனரும்:- கீழ்வரணத்தானின்
ஜலத்தில் (துரையில்) த்விஜர்கள் ஸ்நானத்தை தவிர்க்க
வேண்டும். நதியில் வண்ணேன் துரையைப் பத்துமுழும்
தூரம் வரையில் தவிர்க்க வேண்டும். வண்ணேன் துரையில்
ஸ்நானமும், வேச்சயயின் க்ருஹத்தில் போஜனமும்,
மேற்கு வடக்கு திக்குகளில் தலையை வைத்துப்படுப்பதும்,
இந்தரனின் ஸம்பத்தையும் அபஹரிக்கும்.

शाण्डिल्यः—ग्राहादिसेविते रूक्षे नीचावासससमीपगे ।
श्मशानपाश्चीऽज्ञाते न स्नायानोपरोधिते ॥ न स्नायात् सह शूद्रेण न
स्त्रीभिर्न च नास्तिकैः । न पाषण्डैश्च बालैश्च न रोग्यशुचिभिरैः ॥
योगयाज्ञवल्क्यः— अग्राह्यास्त्वधमा आपः नद्याः प्राथमवेगिकाः ।
प्रक्षोभिता वा केनापि याश्च तीर्थविनाकृताः इति ॥ कात्यायनः—याः

शोषमुपगच्छन्ति ग्रीष्मे कुसरितो भुवि । तासु प्रावृषि न स्नायात् अपूर्णे
दशावासरे ॥ दशारात्रेण शुध्यन्ति भूमिष्ठं च नवोदकम् इति ॥

साञ्जाटिल्यारः:- मुतलै मुतवियतु उल्लातुम्,
कुमेमयुल्लातुम्, सज्जन्तालातिकलीन् वासूलत्तिन्हर्कुच
समीपत्तिलिरुप्पत्तुम्, स्मिकान्तत्तिन्हर्कुचसमीपत्तिलुल्लातुम्,
अर्धियप्पत्ताततुम्, तुक्कप्प पट्टतुमान ज्ञलत्तिल
स्वनानम् कूटातु. कुत्तरन्तुन्तुन्म, संतर्क्कण्टन्तुन्म,
नाल्लिकर्कण्टन्तुन्म, पाष्णंटर्कण्टन्तुन्म,
पालर्कण्टन्तुन्म, रोकिकण्टन्म, अस्तत्तरुमान
मनीतरुन्तुन्म चेर्न्तु स्वनानम् चेय्यक्क कूटातु.
योकयार्क्कुवल्लक्यारः:- नत्तियिन् बेरुक्किल मुतल
वेकत्तिलुल्ला ज्ञलम् अतमानताल अतेह कर्ल्लिककक
कूटातु. एवन्नलावतु कलक्कप्पत्ततेतयुम् कर्ल्लिककक
कूटातु. तुररयिल्लात इटत्तिलिरुन्तुम् कर्ल्लिककक
कूटातु. **कात्यायनारः:-** एन्तत्त चिरिय नत्तिकल
कोटेकालत्तिल ज्ञलमर्ह वर्हरुकिन्नरन्वेवा
अवेकलील, ममेम्मकालत्तिल पुतुज्ञलत्तिल पत्तत्तुनाट्कल
पूर्णमाकात वररयिल स्वनानम् चेय्यक्क कूटातु. अवेव
पत्ततु नाट्कण्टक्कुप्प पिऱ्कु सत्तमाकिन्नरन. पूमियिल
(कुलम् मुतवियतिल) उल्ला पुतु ज्ञलमुम् अवंवीतमें.

उष्णोदकं निषेधति शङ्खः - स्नातस्य वहितसेन तथैव
परवारिणा । शरीरशुद्धिविज्ञेया न तु स्नानफलं लभेत् इति ॥ याज्ञवल्क्यः
- वृथा तृष्णोदकस्नानं वृथा जप्यमवैदिकम् । वृथा त्वश्रोत्रिये दानं वृथा
भुक्तमसाक्षिकम् इति ॥ यत्तृष्णोदकविधानम् - आप एव सदा पूता:
तासां वहिर्विशेषकः । तस्मात् सर्वेषु कालेषु उष्णाम्भः पावनं स्मृतम्
इति, यदपि षट्क्रिंशन्मते - आपः स्वभावतो मेध्याः किं
पुनर्वहिसंयुताः । तेन सन्तः प्रशंसन्ति स्नानमुष्णेन वारिणा इति, यदपि
स्मृत्यन्तरे - आदित्यकिरणैः पूतं पुनः पूतं तु वहिना । स्नानं सन्तः
प्रशंसन्ति तस्मादुष्णेन वारिणा इति, तदातुरस्नानविषयम् ॥

உஷ்ணேதகத்தை நிஷேதிக்கின்றார். சங்கர்:- உஷ்ணேதகத்தாலும், பிறருக்குச் சொந்தமான ஜலத்தினாலும் ஸ்நானம் செய்தவனுக்குச் சர்வ சுத்திமட்டிலுண்டு. அவன் ஸ்நான பலத்தை அடைய மாட்டான். யாக்ஞவல்க்யர்:- உஷ்ணேதகத்தால் ஸ்நானம் செய்வது வீண். வேதஸம்பந்தமில்லாத ஜபம் வீண், வேதத்தைக் கற்காதவனிடம் கொடுக்கும் தரனம் வீண், ஸாக்ஷியில்லாத போஜனமும் வீணாகும். ‘ஜலம் எப்பொழுதும் சுத்தம், அதற்கு அக்னி தூய்மை தரும். ஆகையால் எக்காலத்திலும் உஷ்ணேதகம் சுத்திகரமென்று சொல்லப் பட்டுள்ளது’ என்று உஷ்ணேதகவிதையும், ஷட்டுரிம்சன்மதுத்தில் உள்ள ‘ஜலம் இயற்கையிலேயே சுத்தம்; அக்னியுடன் சேர்ந்தால் அதிக சுத்தம்; ஆகையால் உஷ்ணேதக ஸ்நானத்தை ஸாதுக்கள் புகழ்கின்றனர்’ என்ற வசனமும், மற்றும் ஸ்மர்த்தியிலுள்ள ‘ஸ்வர்யகிரணங்களால் சுத்தமாயும், மறுபடி அக்னியால் சுத்தமாயுமுள்ளது உஷ்ணேதகம், ஆகையால் ஸாதுக்கள் உஷ்ணேதகத்தால் ஸ்நானத்தைப் புகழ்கின்றனர் என்ற வசனமும் வ்யாதியுள்ளவன் விஷயமாம்.

तथा च यमः— आदित्यस्य करैः पूतं पुनः पूतं च वह्निः। आमातमातुरस्त्राने प्रशस्तं तु श्रूतोदकम् इति ॥ यदा तु नद्यादिकं न लभ्यते, तदाऽनातुरस्यायुष्णोदकस्त्रानमनिषिद्धमित्याह यमः— नित्यं नैमित्तिकं चैव क्रियाङ्गं मलकर्षणम् । तीर्थाभावे तु कर्तव्य मुष्णोदकपरोदकैः इति ॥ यत्तु वृद्धमनुनोक्तम्— मृते जन्मनि सङ्कान्तौ श्राव्ये जन्मदिने तथा । अस्पृश्यस्पर्शनै चैव न स्नायादुष्णवारिणा । सङ्कान्त्यां भानुवारे च सप्तम्यां राहुदशनै । आरोग्यपुत्रवित्तार्थीन स्नाया दुष्णवारिणा ॥ पौर्णमास्यां तथा दर्शयः स्नायादुष्णवारिणा । स गोहत्याकृतं पापं प्राप्नोत्येव न संशयः इति, एतेन उक्तेषु मरणादिषु

यमन्ःः - ऐ उर्यकिरणान्कलालं सुत्तमायुम्, मरुपाति
 अक्षियालं सुत्तमायुमूलातु उष्णेणेतकम्. आकेयालं
 अन्त उष्णं ज्ञलम् व्यातियुलावन्सं सन्नानत्तिलं
 संलाक्यमाक्षियतु एक्कालत्तिलं नति मुत्तवियतु किटेक्क
 विल्लैयो अप्पेपामृतु व्याति इल्लातवनुक्कुम्
 उष्णेणेतक सन्नानम् निष्ठित्तमल्ल एन्किरुर्. यमन्ःः-
 त्रीर्त्तम् इल्लाविष्टिलं, नित्यम् नेनमित्तिकम्, कर्माङ्कम्,
 मलापकर्षणम् एन्ऱ सन्नानन्कलै उष्णेणेत
 कत्तालुम्, पिररुटेयज्ञलत्तालुम् चेय्यलाम्.

वंगुत्तमन्तः - “इरप्पु, पिरप्पु, संक्रमणम्,
 सरात्तम्, ज्ञन्मतिनम्, तेताटकं कूटातवरीन् संपर्समं
 इन्त निमित्तन्करुक्कान सन्नानत्तेत उष्णेणेतकत्तालं
 चेय्यकं कूटातु. संक्रमणम्, पानुवारम्, सप्तमी,
 कर्हणम् इवेकलीलं आरोक्यम्, पुत्रनं, तनम्
 इवेकलै विरुम्पुक्रिवन्सं उष्णेणेतकत्तालं सन्नानम्
 चेय्यकं कूटातु. एवन्सं बेपार्णमालीयिलुम्,
 अमेयिलुम् उष्णेणेतकत्तालं सन्नानम्
 चेय्किन्ऱुतेन, अवन्सं, कोवत्तत्तालं उन्नटाकुम्
 पापत्तेत अटेकिरुन्सं, सम्चयमिल्लै” एन्ऱुर्.
 ‘इतगुलं, शोल्लिय मरणम् मुत्तवियवेकलीलं त्रीर्त्तम्
 इल्लाविष्टिनुम् उष्णेणेतकत्तालं सन्नानम् कूटातु.
 आगुलं, पिररुटेय ज्ञलंकलीगुलावतु,
 किणर्त्रिविरुन्तु वेलीयिलं एक्कप्पत्त
 ज्ञलंकलीगुलावतु सन्नानम् चेय्य वेण्ऱुम् एन्ऱु
 शोल्लियताकिरतु एन्पत्तालं विरोतमिल्लै’ एन्ऱु,
 सन्तरीकेयिलुम् मातवीयत्तिलुम् शोल्लप्पत्तुलैलातु.

उष्णोदकस्नाने विशेषमाहव्यासः - शीतास्वप्सु निषिच्योष्णा
 मन्त्रसम्भारसंभूताः । गेहेऽपि शस्यते स्नानं तज्जीनस्फलं बहिः इति ॥
 सम्भाराः - मृदादयः ॥ बहिः - तटाकादौ ॥ विवस्वान् -

மன்னஸம்஭ாரஸம்யுக்த முபஸ்பர்ஜன முச்சயதே । ஸ்நாநேவ஗ாஹநே சைவ ஸ்வந் வி஧ிவர्जிதம் இதி ॥ ஸ்மृत்யர்஥ஸரே – ஸர்வா நித்யகமர்஥ ஸ்நாயாடேவ கதஶ்வன । விநா மூத்திகயா வாடபி ஸ்கृதுஷ்ண வாடம்புனா இதி ॥ ஗ௌதம: – ஶிவலிங்கஸமீபேது யத்தோய் புரத: ஸ்஥ிதம் । ஶிவஙஜேதி விஜேயா தற ஸ்நாதா ஶி(தி)வங்வஜேத ॥ ஜலம் ஶுஷ்மஶுஷ்ம வா விஷ்ணுவாஸ்துஸமீபத: । விஷ்ணுங்ஜாஸம் தோய் மஹாபாதகநாஶநம் இதி ॥

உஷ்ணேதக ஸ்நானத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார், வ்யாஸர்:- குளிர்ந்த ஜலத்தில் உஷ்ண ஜலத்தைச் சேர்த்து மந்தரங்களுடனும், ம்ருத்திகை முதலியதுடன் சேர்ந்த அந்த ஜலத்தினால் செய்யும் ஸ்நானம் வீட்டிலானாலும் புகழப்படுகிறது. மந்தரங்களும் ஸம்பாரங்களும் இல்லாமல் வெளியில் தடாகம் முதலியதில் செய்தாலும் அது பலனற்றது. விவஸ்வான: - மந்தரங்களுடனும், ஸம்பாரத்துடனும் கூடியதே ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. அவையில்லாத ஸ்நானமும் அவகாஹனமும் மிதப்பது போலாகும். ஸ்மிருத்யார்த்த ஸாரத்தில்: - எப்பொழுதும், நித்ய கர்மத்திற்காக எவ்விதமாயாவது ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ம்ருத்திகையில்லாமலாவது உஷ்ணேதகத்திலாவது ஒருமுறை ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். கெளதமர்: - சிவவிந்கத்தின் ஸமீபத்தில் எதிரில் எந்த ஜலமிருக்கின்றதோ, அது சிவகங்கை என்று அறியத்தக்கது. அதில் ஸ்நானம் செய்தால் சிவனை அடைவான். விஷ்ணுவின் ஆலயத்திற்குச் சமீபத்திலுள்ள ஜலம் சுத்தமாயினும், அசுத்தமாயினும், அது விஷ்ணு கங்கைக்குச் சமமானதும், மஹா பாபங்களை அகற்றுவதாயுமாகும்.



॥ अथ सृदाच्याहरणम् ॥

चतुर्थे च तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत् । तिलपुष्पकुशादीनि
स्नानं चाकृत्रिमे जले इति ॥ याज्ञवल्क्यः - मृत्तिकां गोमयं दभान्
पुष्पाणि सुरभीणि च । आहरेत् स्नानकाले तु स्नानार्थं प्रयतः शुचिः
इति । शातातपः - शुचिदेशात् सङ्घाद्या शर्कराद्यमविवर्जिता । रक्ता
गौरा तथा श्वेता मृत्तिका त्रिविधा स्मृता ॥ बल्मीकिखूत्करा-
लिसाज्जलाच्च पथि वृक्षयोः । कृतशौ चावशिष्टाच्चसप्त मृत्तिकाः ॥
मृत्तिकां गोमयं चापि न निशायां समाहरेत् । न गोमन्त्रं प्रदोषे तु
गृह्णीयाद्युद्धिमान्बरः ॥ न प्रात्मृत्तिकास्नानं न च भौमार्कवारयोः ।
मध्यन्दिने तु कर्तव्यं नातिमध्यन्दिने रघौ इति ॥

मंगुत्तीके मुत्तलीयतेतकं केाण्णु वरुत्तलं

तुक्षीरः - एट्टोऽप्पं प्रिक्कप्पपट्ट पकविणं
नांकावतु पाकत्तील, लंनानत्तिर्गु मंगुत्तीके, ऎं,
पुंपम, ऊसं मुत्तलीयतेतकं केाण्णु वरवेवेण्णुम.
मनीतरालं केाण्णु वरप्पटात ज्ञलत्तीलं लंनानमं
चेय्य वेण्णुम. याक्कुवल्क्यरः - लंनानत्तिर्गुकाक
मंगुत्तीके, केामयम, तर्प्पनकं, वालैन्युलं
पुंपनकं, इवेकौलं लंनान कालत्तीलं सुत्तग्नेय्यकं
केाण्णु वरवेवेण्णुम. शात्तातुपारः - सुक्कानं, कलं
इवेयिल्लात मन्नैन सुत्तमानं प्रतेतेत्तिविरुन्तु
करव्वीक्क वेण्णुम. चिवप्पु, मन्नुकं, वेळौ ऎन्न
मुन्नै वित्तमुलं लतु मंगुत्तीके. पुन्नै, ऎली वौ,
पुच्पपट्ट इटम, ज्ञलम, वयी, वरुक्षम, चेळकम चेय्यतु
मीत्तियुलं लतु ऎन्नै एमु इटनकौलिरुन्तु मंगुत्तीके
करव्वीक्ककं कूटातु. मंगुत्तीके येय्यम, केामयत्तेतय्यम,
रात्तीयिलं केाण्णु वरकं कूटातु. पुत्तियुलं मनीतनं
केामुत्तरत्तेत प्रतेतोष्टत्तीलं करव्वीक्ककं कूटातु.
कालैयिलं मंगुत्तीका लंनानत्तेतसं चेय्यकं कूटातु.
मन्नकौवारम, पाणुवारम इवेकौलुम कूटातु.

මත්‍යන්තින්තිල් ගෙයෝ වෙන්ගැමීම්. මත්‍යන්තින්තිල්හිර් ගුප්‍රියා පිශ්චුම් ගෙයෝක් කුටාතු.

ව්‍යාස:— තත් මධ්‍යාභ්‍යසමයේ ස්වානාර්ථ මුදමාහුරේතු। ප්‍රාක්ෂාතානු කුෂතිලානු ගොමර් ගන්ධමේව ඡ ඇති ॥ ගුහාපරිඛිඥේ — ගුදුදෙෂෙ ඖනිත්‍රෙන බ්‍රුං ගායත්‍රා (ක්‍රේණ) භාත්වා ප්‍රපරිමුද ඡ තුරකුළාමුදස්‍යාධස්ථානමුද ඡ තත් භාත්වා ගායත්‍රාජදාය මුදමුපාත්තා ගුච්චා තීරේ නිධාය ගායත්‍රා ප්‍රොක්ෂේතු ඇති । යොගයාඝාවල්ක්‍රය: — ගත්වොදකාන්ත බිධිවතු ප්‍රථාපයේතු ඡ තතුත්ත්වකු නිශ්චිතු । ත්‍රිධා කුරාන්මුද ඡ ත්‍රිධා ඡ ගොමර් ඡ බිචක්ෂණ: । අධමොත්මමධ්‍යානාමඝානා මුදසක්‍රර: ඇති ॥ ඡැනක: — ප්‍රයත් මුදමාජදාය දුර්වාපාමාර්ගොමයමු । ගත්වොදකාන්ත බිධිවතු ප්‍රථාපයේතු ඡ තතුත්ත්වකු නිශ්චිතු । මාධ්‍යමීයේ — ද්‍රාහිනේන බ්‍රේණ ස්වායාතු කැපීනකාඩාතේ । නාන්යදීයෙන නාද්‍රේණ න සුච්‍යා ග්‍ර්‍යිතෙන ඡ ॥ ජල දෙවගුහ් ඡ තුව තුව නිශ්චිතු । නිර්ජිතපාද: ප්‍රවිශ්‍යාන්‍යික්ත: කත්චන ඇති ॥

ව්‍යාපාලර්:- පිරිගු මත්‍යාව්ලන කාලත්තිල් ස්වානාන්තින්තිර්කාක, ම්‍රුත්තිශී, ප්‍ර්‍රේඛ්පම, අක්ෂාතා, ගුෂම, තිලම, කොමයම, කන්තම නිශ්චිතක් ගොණ්ගු ටරවෙන්ගැමීම. කරුව්‍රයපරිසිං්න්තිල්:— ස්ත්‍රීමාන ස්ත්‍රීලත්තිල් ඡ මණ් බෙට්මියාල, කායත්රී මන්තරත්තාල පුමියෙය්ප පරිත්තු, මෙලුව්ල මණ්ඩීන නාලන්ගුල අන්ව ත්‍රේල්ලි, අඩියිලුව්ල මණ්ඩීන අප්පමියේ පරිත්තු, කායත්රියාල ගැන්ත්තු, ගැන්ත්තු මණ්ඩීනස ස්ත්‍රීමාන ඇලක්කරායිල ටෙත්තු, කායත්රියාල ප්‍රේරාක්ෂික්කවුම්.

යොක්‍යාක්නුවල්ක්‍රයර්:- ජ්‍යෙෂ්ඨතින් සම්පත්තිර්ගුස ගෙන්රු, අතෙත් තනීයාය්ප පුමියිල ටෙක්කවුම්. අන්ත මණ්ඩීනයුම, කොමයත්තෙයුම පුම්‍ර පාකමාය්ප පිරික්ක ටෙන්ගැමීම. තාම්ත අංකම, මත්‍යමමාන අංකම, ඉත්තමමාන අංකම නිශ්චිතගුක්කාක මණ්ඩීනස

चेरक्कामलं वैवक्क वेण्णुम्. चेळानकारः:- सुत्ततुयं मंगुत्तिकै, अरुकु, नायुरुवी, कोमयमं इवेकैना एन्त्तु ज्ञलसमीपत्तिन्ऱ्चेस्त्रु, अवैवकैना वित्तिप्पटि पूमियिलं वैवक्कवुम्. मातृवीयत्तिलः:- तैलैप्पिल्लात वैस्तरत्तुटनुम्, केळाटिनमिल्लामलुम्, पिऱरीनं वैस्तरत्तुटनुम्, सर वैस्तरत्तुटनुम्, उन्चियालं तैत्तकप्पट्ट वैस्तरत्तुटनुम् लंनानम् चेय्यक्कूटातु. ज्ञलम्, तेवालयम्, पटुक्कै, प्रराम्भूणक्करुहम् इवेकैनीलं काल्कैना अलम्पीये प्रवेशिक्क वेण्णुम्. एक्कारणत्तालुम्, काल्कैना अलम्पामलं प्रवेशिक्कक्कूटातु.

बसिष्ठः - मृदैक्या शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । अधश्रतसूभिः क्षाल्यः षड्भिः पादौ तथैव च ॥ प्रक्षाल्य सर्वकार्यं तु द्विराचामेद्यथाविधि इति ॥ व्यासः - षट्भिः पादौ चतुर्भिश्च जञ्जे नाभिं कटिं त्रिभिः । मृदैक्या शिरः क्षाल्य ततः कुर्यात् प्रमार्जनम् ॥ मृत्तिका च समादिष्टा त्वाद्र्घमिलकमात्रतः । गोमयस्य प्रमाणं तत्तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥ प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नायात् समाहितः इति ॥ दक्षः - मृद्वोमयादिभिर्देहो मलदिग्धो विशुद्ध्यति । स्नानकाले तथा विप्रः स्त्रियं लेपं विवर्जयेत् । प्रक्षाल्य यज्ञसूत्रं तु मृद्विरद्दिः शनैः शनैः । आपादमस्तकं देहं तथैव क्षालयेद्धुधः इति ॥

वलीष्टारः:- ओरु मण्णालं तैलैययुम्, इरण्णु मण्णकूलं नापीक्कु मेलुम्, नानंकु मण्णकूलं नापीक्कुक्कैमुम्, आरु मण्णकूलं पातन्कैनायुम् अलम्पी, तेहम् मुमुवतैयुम् अलम्पी, वित्तिप्पटि इरुमूरै आसमनम् चेय्य वेण्णुम्. व्यासाराः:- आरु मण्णकूलं काल्कैनायुम्, नानंकु मण्णकूलं मुमुक्काल्कैनायुम्, नापी, इटुप्पु इवेकैना मून्ऱ्चु मण्णकूलुम्, ओरु मण्णालुलं चिरस्सलैयुम् अलम्पी, पिऱकु ज्ञलत्तालं अलम्प वेण्णुम्. मण्णानीनं अ॒ल॑वु सर नेल्लीक्कनीय॒ल॑वु ऎन्ऱ्चु च॒ल॑ल॑प्पट्टु॒ल॑तु॒ल॑तु॒.

கோமயத்திற்கும் அதே ப்ரஹாணம். பிறகு கோமயத்தால் தேஹத்தைப் பூசவேண்டும். பிறகு அலம்பி, ஆசமனம் செய்து விதிப்படி கவனமுள்ளவனுய் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். தக்ஷர்:- அழுக்கால் பூசப்பட்ட தேஹம், மன் கோமயம் முதலியவைகளால் சுத்தமாகிறது. ப்ராம்ஹணன் ஸ்நான காலத்தில் பசையுள்ள பூச்சை வர்ஜிக்க வேண்டும். யக்ஞோப வீதத்தை மன்னைலும் ஜலத்தாலும் மிக மெதுவாய் அலம்ப வேண்டும். கால் முதல் தலை வரையிலுள்ள தேஹத்தை அவ்விதமே அலம்ப வேண்டும்.

காயக்ஷாலநானந்தரகृத்யமாह ஶौனகः – ஗ாயத்ரயாத்வதாயாभ्य-
க்ஷாதோदேவா இதி மृदமभिमந்தயेत् । ததோ யத இந்஦्र ஸ்வஸ்தி஦ாவிஜஸ்பतி:
விரக்ஷோ விமு஧ இஂ சுமேஜனிதரிதி ப்ரதிமந்த் ப்ரதி஦ிஶங் க்ஷிபேத
பூர்வாக்ரமேண । தத: ஸம்மார்ஜன் குர்யாந்மூடா பூர்வ து மந்த்ரவித ॥ । அஶ்க்ராந்த
இத்யாடயோ மூந்தா மந்த்ரா யஜுவே஦ப்ரஸி஦்஧ா: । புனஶ் ஗ோமயேநைவம஗்ரம஗்ரமிதி
ஷுவந् ॥ । அ஗்ரமங் சர்ந்திநாமாஶே஧ிநாஂ வனேவனே । தாஸாமृஷமஷந்திநா
ஸுரமீணாஂ ஶரீரத: ॥ உத்பந்த லோகஸௌல்யார்஥ பவித்ர காயஶோ஧னம् । த்வं மே
ரோగாஂஶ ஜோகாஂஶ பாபானி நுட ஗ோமய இதி ஗ோமயமந்த: ॥
காப்டாத்காப்டாடிதி-த்ராம்யா மஜ் மஜ்முபஸ்பூஷேத् । ஦ூர்யேதி ஶே: ।
அபபாபமபகிலி஬ஷமப-கृத்யாமபோவ: । அபாமார்த்வமஸ்மாகமபடுஷ்
பயநுட ஸ்வாஹேத்யங்-மபாமார்ணோபஸ்பூஷேத् ॥ । அ஥ ஹிரண்யஶூங்
மாபோவீரித்யப உபஸ்஥ாய ஸுமித்ரா ந ஆப இதி அப உபஸ்பூஶ்ய ஦ுர்மித்ரா
இதி வஹி: க்ஷிபேத ॥ । தத இந்஦ிஃ ஶுஞ்ச இத்யூசாதப: ப்ரவிஶய மனஸா ஜபேத ॥
தத ஗ாயேத ஸாமானி அபி வா வ்யாஹ்தீர்ஜ்பேத் இதி ॥

தேஹத்தை அலம்பிய பிறகு கார்யத்தைச் சொல்லுகிறார். செளன்கார்:- காயத்ரியால் மண்ணை எடுத்து, ப்ரோக்ஷித்து, ‘அதோ தேவா:’ என்று அபிமந்த்ரித்து, பிறகு ‘யத்திழுந்த்ர, ஸ்வல்லதிதா:, விரக்ஷ:, இதம் ஸ்வமே’ என்ற

नाञ्चकु मन्त्ररंगकालाल॒ ओवंवेवारु मन्त्ररथत्ताल॒ ओवंवेवारु
 त्रिक्किलुम् किमुक्कु मुतलाकप॒ पोट वेण्णुम्. मन्त्रर
 मरिन्तुंवाल॑ मुतलिल॒ ओरु मंगुत्तिकैयाल॒ सुत्ति चेय्तु
 केकाळींवेण्णुम्. 'अच्चवकरान्तेऽते' मुतलिय मन्त्ररंगकाल॑
 यज्ञार्थ वेतत्तिल॒ प्ररणीत्तनंकाल॑. मरुपाति केकाळींवाल॑
 'अक्करमकरम्' एन्नर मन्त्ररथत्ताल॒ सुत्ति चेय्तु केकाळींवाल॑.
 'अक्करमकरम् + केकाळीय' एन्पतु केकाळीयमन्त्ररम्.
 'काण्टात् काण्टात्' एन्नर इरण्णु मन्त्ररंगकालाल॑
 अरुकिल॒ ओवंवेवारु अंकत्तत्तयुम् तेताट वेण्णुम्.
 'अपपापम् + नुतल्लवाह्ना' एन्नरु नायुरुवीयिल॒
 अंककंकाल॑ तेताटवेण्णुम्. प्रिंकु ल्लिरण्णयस्त्रुंकम्,
 आपोतेवैः' इवेकालाल॒ ज्ञलेवापस्तानम् चेय्तु,
 'सामित्राः' एन्नरु ज्ञलत्तत्तत्त तेताट्टु, 'तुर्मित्राः'
 एन्नरु वेलीयिल॒ ज्ञलत्तत्त एरीयवेण्णुम्. प्रिंकु
 'इन्त्ररच्चसुत्तः' एन्नरु गुक्किल॒ ज्ञलत्तिलिनंकि मन्ताल॑
 ज्ञपिक्क वेण्णुम्. अंकु ल्लामन्काल॑ काळाम् चेय्य
 वेण्णुम्. अल्लतु व्याहृतिकाल॑ ज्ञपिक्क वेण्णुम्.

वसिष्ठः—ये ते शतभितिद्वाभ्यां तीर्थन्यावाह्येद्धुधः। कुरुक्षेत्रं
 गयां गज्जां प्रभासं नैमिज्जं तथा ॥ देवांश्च वरदान् सर्वान्
 सर्वानप्सुषदस्तथा इति ॥ **शङ्खः**— प्रपद्ये वरुणं देव मम्भसां
 पतिमीथरम् । याचितं देहि मे तीर्थं सर्वपापनुत्तये ॥
 तीर्थमावाहयिष्यामि सर्वाघनिषूदनम् । सान्निध्यमस्मिंश्चित्तोये क्रियतां
 मदनुग्रहात् । रुद्रान् प्रपद्ये वरदान् सर्वानप्सुषदस्तथा ॥ अपः पुण्याः
 पवित्राश्च प्रपद्ये वरुणं तथा ॥ शमयन्त्वाशु मे पापं रक्षन्तु च सदैव माम्
 इति ॥ **वसिष्ठः**— आपो हिष्ठेदमापश्च द्रुपदादिव इत्यपि । तथा
 हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरन्ततः । ततोऽर्कमीक्ष्य सोङ्कारं
 निमज्ज्यान्तर्जले बुधः । प्राणायामांश्च कुर्वीत गायत्री चाघमर्षणम् ।
 प्रपद्यान्मूर्धिं च तथा महाव्याहृतिभिर्जलम् इति ॥

வளிஷ்டர்:- 'யேதேசதம்' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால் தீர்த்தங்களை ஆவாஹனம் செய்ய வேண்டும். குருக்ஷேத்ரம், கயை, கங்கை, ப்ரபாஸம், நெமிசம், இவைகளையும், வரத்தையளிக்கும் ஸகல தேவர்களையும், ஜலத்திலுள்ள எல்லோரையும் ஆவாஹனம் செய்ய வேண்டும். சங்கர்:- 'ப்ரபத்யே + ஸதைவமாம்' என்பவை மந்த்ரங்கள், இவைகளின் பொருள் - 'ஜலாதிபதியான வருணைச் சரணடைகிறேன். பாபங்களையல்லாம் போக்குவதற்காகத் தீர்த்தத்தைக் கொடுப்பீராக. தீர்த்தத்தை ஆவாஹனம் செய்கிறேன். இந்த ஜலத்தில் என்னை அருளவேண்டி ஸான்னித்யம் செய்ய வேண்டும். ருத்ரர்கள், ஜலத்திலிருப்பவர், ஜலங்கள், வருணன் இவர்களைச் சரணடைகிறேன். அவர்கள் உடனே என் பாபத்தைத் தணிக்க வேண்டும். எப்பொழுதுமே என்னைக் காக்க வேண்டும்.' என்பது.

வளிஷ்டர்:- 'ஆபோஹிஷ்டா, இதமாப:, த்ருபதாதிவ, ஹிரண்யவர்ணை:, பாவமானிகள்' இவைகளால் மார்ஜனம் செய்து, ஸமர்யனைப் பார்த்து, ஒங்காரத்துடன் ஜலத்தில் மூழ்கி, ப்ரானை யாமங்கள் செய்து, காயத்ரீ, அகமர்ஷனம் இவைகளை ஜபித்து, மஹாவ்யாஹ்ருதிகளால் தலையில் ஜலத்தை விடவேண்டும்.

सङ्ग्रहे—सङ्कल्प्य सहस्रपरमा देवीति दूर्वा शिरसि निधाय 'अश्वक्रान्ते रथक्रान्त' इति मृदं गृहीत्वा 'उच्छृताऽसि वराहेणेति हस्तस्थां मृदमभिमन्त्य 'मृत्तिके हन मे पापमित्यादिना 'त्वयि सर्वं प्रतिष्ठित' मित्यन्तेन मृत्तिकामङ्गेष्वालिप्य 'गन्धद्वाराभिति गोमयेनाङ्गमालिप्य प्रक्षाल्य सलिलमनुप्रविश्य तदधिष्ठातारं वरुणं तीर्थं याचेत 'हिरण्यशृङ्ग' मिति द्वाभ्यां ततः 'सुमित्रा न आप औषधयः सन्त्विति उदकाञ्जलिं शिरसि निधाय 'दुर्मित्रास्तस्मा' इति उदकाञ्जलिं नैऋत्यां दिशि निरस्य जलस्थ एव नमोऽग्नयेऽप्सुमत इति

तीर्थं नमस्कृत्य उपस्थाय यदपां क्रूरभित्यमेध्यांशं दक्षिणतो निरस्य
 ‘अत्याशना’ दिति द्वाभ्यां पाणिना प्रदक्षिणमुदकमावर्त्य ‘इमं मे गङ्गा’
 इति गङ्गाद्या दक्ष नदीः स्वस्थानजल आवाहयेत् । अथ जले पिहित
 श्रोत्रदण्डनासिकामुखो निमज्ज्य ऋतञ्च सत्यञ्चेत्यृचमघमर्षण सूक्तं च
 प्राणायामेन त्रिजपेत् ॥ अस्य सूक्तस्य माधुच्छन्दसाधर्मण ऋषिः ।
 अनुष्टुप्छन्दः । भाववृत्तः परमात्मा देवता । भावस्य सत्तामात्रस्य
 ब्रह्मणो वृत्तं जगत्सृष्टिः सूक्तस्य प्रतिपाद्यम् । तत उत्तराभिस्तसृभिः
 ‘यत्पृथिव्या’ भित्यादिभिः स्नात्वा ‘आर्द्ध ज्वलती’त्यप आचम्य
 ‘अकार्यकार्यवकीर्णीति पुनःस्नात्वा रहस्यकृतपापक्षयाय;
 ‘रजोभूमि’रिति पुनःस्नात्वा ‘आक्रान्तसुद्र’ इति जपेत् ॥ एष
 स्नानविधिः प्रोक्तः सर्वाघौघनिषूदनः इति ॥

लंकंकराहृत्तकीलः:- लंकंकलंप्पित्तु, ‘लंहैस्रपरमा’
 ऎन्ऱु अरुकैकत्त तैलैयीलं वैवत्ततु, ‘अक्षवक्त्रान्तेते’ ऎन्ऱु
 मण्जैज्ञे ऎटुत्तु, ‘उत्तरुत्ताली’ ऎन्ऱु कैयीलुूलंूला
 मण्जैज्ञे अप्यमिन्तर्गत्तु, ‘मंगुत्तकेलून + प्रतिष्ठितम्’
 ऎन्ऱु मण्जैज्ञत्त तेहूत्तकीलं पूषि, ‘कन्तत्तवाराम्’
 ऎन्पत्तालं कोमयत्तत्तालं तेहूत्तत्तेतपं पूषि, अलम्पि,
 ज्ञलत्तुविरन्कि, वरुणज्ञैन ‘हरिरण्यं संरुक्कम्’ ऎन्ऱ
 इरण्टु मन्तरंकूलाूल त्रीर्तत्तत्तत्तेत याचिक्क वेण्टुम्.
 पिऱकु ‘लामित्तरानः’ ऎन्पत्तालं ज्ञलाञ्ज्ञवियेचं चिरलीलं
 वीट्टु, ‘तुर्मित्तरा॒’ ऎन्पत्तालं ज्ञलाञ्ज्ञवियेय निर्गुति
 त्रिक्किलं एरीन्तु, ज्ञलत्तुविरुन्तेते ‘नमोक्नये’
 ऎन्पत्तालं त्रीर्तत्तत्तेत नमस्कारीत्तु, उपस्त्तानमं चेय्तु,
 ‘यतपामं करुराम्’ ऎन्पत्तालं ज्ञलत्तुनिं अक्षत्तत्तामं सत्तत्तेतत्त
 तेत्रंकिलं तत्तली, ‘अत्याचन्नात्’ ऎन्ऱ इरण्टु
 मन्तरंकूलाूल ‘कैयीलुूलं प्रतक्षिणमायं ज्ञलत्तत्तेतसं
 सर्नृ, ‘इमंमेकन्केऽके’ ऎन्पत्तालं कन्तकै मुतविय पत्तु
 नतिकैनात् तत्त लंनान ज्ञलत्तुलं आवाहनमं चेय्य
 वेण्टुम्. पिऱकु कातु, कन्न, मुक्कु, मुकमं इवेकैना

மூடிக்கொண்டு ஜலத்தில் மூழ்கி, 'ருதஞ்ச ஸத்யஞ்ச' என்ற ருக்கையும், அகமர்ஷன் ஸாக்தத்தையும், ப்ராணையாமத்துடன் மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும். இந்த ஸாக்தத்திற்கு மாதுச்சந்தஸாகமர்ஷனர் ருஷி, அனுஷ்டுப் சந்தஸ், பாவவர்த்த: பரமாத்மா தேவதை, ஸத்தா மாத்ரமான ப்ரம்ஹத்தின் ஜகத்ஸ்ருஷ்டி இந்த ஸாக்தத்திற்கு ப்ரதிபாத்யமாம். பிறகு 'யத்ப்ருதிவ்யாம்' என்பது முதலான மூன்று ருக்குகளால் முழுகி, 'ஆர்த்ரம்+ஜ=ஹோமி ஸ்வாஹா' என்று ஜலத்தைப் பருகி, 'அகார்யகார்யவ +முச்யதே' என்று மறுபடி முழுகி, ரஹஸ்யக்ருத பாபகஷுயத்திற்காக 'ரஜோபூமி + தீரா:' என்று மறுபடி முழுகி, 'ஆக்ரான் + இந்து:' என்று ஜபிக்க வேண்டும். இந்த ஸ்நானவிதி ஸகல பாபங்களையும் அகற்றுவதாகும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வ்யாஸः—‘அஜ்ஞாஜ்ஞுலி஭ிஶைவ ஶாத்திராஸிகாமுखம् । பீடங் மதः பிதிஸோதனிஜபீட஘மர்ணம् ॥ திருப்பார்நாமாயத்ரி வேடே வாஜஸனேயகே । சக்ராந்தர்ஜலே ஜஸ்வா ஬்ரஹ்மத்யா வ்யபோஹதி இதி ॥ யோगயாஜவல்க்யோऽபி – ஹத்வா து லோகானபி வா த்ரி: பதே஘மர்ணம् । யथா�ஶமே஧ாவமூத ஏவந்தந்மனுராக்ரவித் ॥ அ஘மர்ண ஸுக்தஸ்ய க்ரஷிரெகோऽ஘மர்ண: । ஸந்஦ோऽநுஷுப்தா ஦ேவோ ஭ாவவுத்தஸ்து கிர்தித: ॥ க்ரதஶ்வேதி த்ர்யாசஸ்யார்ஷி மனஸ்யே விசிந்தயேத் । திருப்பார்நாமாயத்ரி யஜுர்வேஷ்டப்ரதிஷ்டாம् । அந்தர்ஜலே திராவார்த் முச்யதே ஬்ரஹ்மத்யா । சந்வாஹத்திகாங் ஗ாயத்ரீ பிரணவ் வா ஜலே ஜபேத் ॥ ஧்யாயேநாராயண் ஦ேவன் ஸர்வபாபப்ரஶாந்தயே । அப: பாணை ஸமாடாய த்ரி: பதேத் திருப்பார்நாமுச்யம் । தத்தோய் மூர்த்தி விந்யஸ்ய ஸர்வபாபை: பிரமுச்யதே இதி ॥

வ்யாஸர்:- பெருவிரல், மற்ற விரல்கள் இவைகளால் காது, கண், மூக்கு, வாய் இவைகளை மூடிக்கொண்டு ஜலத்தில் ப்ரவாஹத்திற்கெதிராய் முழுகிக் கொண்டு, அகமர்ஷன் ஸாக்தத்தை மூன்று

मुरेह जपिक्क वेण्णुम्. वाज्ञलनेय वेतत्तिलं 'त्रुपता' एन्न कायतरी उल्लातु. अतेह जलत्तिनु० मुमुक्षि ओरु मुरेह जपित्ततालं प्रमंह॒ ल॒ह॒त्य॒य॒य॒म् पोक्कुकिरुन्. येऽक्याक्ङुवल्क्यरुम्:- ऐन्न॒रु उलकन्कौय॒म् केान्न॒रुल॒म्, अतेहप॒ पोक्कुवत्तर्कु अकमर्ष्ण॒त्तेह ऐन्न॒रु मुरेह जपिक्कला॒म्. अतु अस्व॒मेतत्तिलं अवप्प॒रुत्तम् एव॒वित्तमो अव॒वित्तम् एन्न॒रु मनु॒ चेान्न॒र. अकमर्ष्ण॒ ल॒ल॒क॒त्तत्तिल॒र्कु अकमर्ष्ण॒रु ओरुवरेऽरुषी, अनुष्टुप॒ सन्तत्स॒. पा॒व॒ व्य॒रुत्तत्तर॒ तेवतेह. 'रुतम्च' एन्पतु॒ मृत्तलाण॒ ऐन्न॒रु रुक्कुक॒रुक्कुम् रुषीय॒ मन्तुल॒य॒ चिन्तुक्क॒ वेण्णुम्. यज्ञार॒वेतत्तिल॒लं 'त्रुपता' एन्न कायत्तरीय॒ जलत्तिनु० मुमुक्षि ऐन्न॒रु मुरेह जपित्ततालं, प्रमंह॒ ल॒ह॒त्य॒य॒या॒ल॒म् वीटुप॒चुवा॒न्. व्या॒ह॒रुत्तिक॒रुन्ट॒लं कू॒ट्य॒ कायत्तरीय॒ अल्लतु॒ प्रणवत्ततेह जलत्तिनु० इ॒रुन्तु॒ जपिक्क वेण्णुम्. अल्लतु॒ नारायण॒ल॒ ल॒कल॒ पा॒पञ्कौय॒म् अप्तिक्क॒ त्याणीक्क॒ वेण्णुम्. जलत्तेहक॒ ल॒कयी॒ल॒ ए॒त्तत्तु॒, 'त्रुपता॒' एन्न रुक्केक॒ ऐन्न॒रु मुरेह जपिक्क वेण्णुम्. अन्त जलत्तेहत्त त॒ल॒यी॒ल॒ वीटुप॒क॒ केान्न॒टा॒ल॒ ल॒कल॒ पा॒पञ्क॒ला॒ल॒म् वीटुप॒चुवा॒न्.

गौतमः—गायत्रीं पच्छोऽद्विचेशः समस्तामपि त्रिरन्तर्जले जपन् सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते । अपि वा प्रणवं त्रिरन्तर्जले जपन् सर्वस्मात्पापात् प्रमुच्यते इति ॥ सुमन्तुरपि — हंसः शुचिषदित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले जपन् सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते । अपि वा व्याहृतीः त्रिरन्तर्जले जपन्सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते इति ॥ यमः — अन्तर्जले जपेन्मग्नः त्रिः कृत्वस्त्वघमर्षणम् । द्रुपदां वाऽवत्येत् त्रिः इयं गौरिति वा ऋचम् ॥ सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं त्रिजपित्तथा । आवर्तयेद्वा प्रणवं स्मरेद्वा विष्णुमव्ययम् ॥ ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु । प्रायश्चित्तं हि सर्वस्य दुष्कृतस्येति वै श्रुतिः इति ॥

கெளாதமர்:- காயத்ரியை, பாதங்களாயும், பாதி ருக்காயும், முழுவதாயும் மூன்று முறை ஜலத்தினுள் முழுகி ஜபித்தால், அல்லது ப்ரணவத்தை மூன்று முறை ஜபித்தால் ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான். **ஸாமந்துவும்:-** 'ஹம்ஸச்சிஷ்த' என்ற இந்த ருக்கை ஜலத்தினுள் முழுகி மூன்று முறை ஜபிப்பவன் ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான். அல்லது வ்யாஹ்ருதிகளை ஜலத்தினுள் மூன்று முறை ஜபிப்பவன் ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான். **யமன்:-** ஜலத்தினுள் முழுகி அகமர்ஷணத்தை, அல்லது த்ருப்பதையை, அல்லது 'ஆயங்கெளா:' என்ற ருக்கை, அல்லது வ்யாஹ்ருதிகளுடனும் ப்ரணவத்துடனும் கூடிய காயத்ரியை மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும். அல்லது ப்ரணவத்தையாவது ஆவ்ருத்தி செய்யலாம். அல்லது விஷ்ணுவையாவது ஸ்மரிக்க வேண்டும். ஸநானம் முதலிய கர்மங்களில் நாராயணை ஸ்மரிக்க வேண்டும். இது ஸகல பாபங்களும் ப்ராயச்சித்தம் என்கிறது வேதம்.

யாஹவல்க்ய:—ஜலமधை ஸிதோ விப்ர: ஶுद்஧மாவோ ஹரிஃ ஸ்மரेत् । தத்திஷ்ணோரிதி மந்திர மஜேப்ஸு புனः புனः ॥ ஗ாயத்ரி வைஷ்ணவி ஹோ விஷ்ணோ: ஸ்ஸ்மரணாய வை இதி ॥ சந்திரகாயாம்— விஷ்ணோராயதன் ஹாப: ஸஹபாஂபதிருச்சியதே । தஸ்யैவ ஸூநவஸ்த்வாபஸ்தஸ்மாத்த ஹாப்ஸு ஸ்ஸ்மரெத் ॥ ஆபோ ஹிஷ்டேதி திஸஸ்துமிர்யதாவத்துபூர்வஶः । ஹிரண்யவர்ண இதி ச த்ரக்ஞமிஶ்ரதஸஸ்துமிஸ்ததா ॥ ஶந்தோதேவீரிதி ததா ஶந்த ஆபஸ்ததைவ ச । இதமாப: ப்ரவஹதேत்யேவ ச ஸமுದீரயேத் ॥ ஏவ ஸம்மார்ஜன் கृதா ஛ந்஦ ஆர்ச ச தைவதம் । அ஘மர்ணஸ்குதஸ்ய ஸ்ஸ்மரெத் ப்ரயத: ஸदा ॥ ததோத்மஸி நிமயஸ்து திரி: பதேத்மர்ணம் । ப்ரத்யாந்மூர்ஜனி ததா மஹாந்யாஹதிமிர்ஜலம் ॥ இதி ॥

யாக்ஞவல்க்யர்:- ப்ராம்ஹணன் ஜலத்தின் நடுவிலிருந்து சுத்தசித்தமூய் ஹரியை ஸ்மரிக்க

वेण्णनुम्. 'तत्त्विष्टतेऽन्नः' एन्ऱ मन्त्रतत्त्वालं अष्टिक्कटि
मुमुक्षेवेण्णनुम्. इन्त वैवष्ट्यन्व कायतर्दी, विष्ट्यन्विन
स्मरणत्तिर्गु आक्षयताम्. सन्तुरीकेयालिः:- ज्ञलमं
विष्ट्यन्विन इरुप्पिटमाम्, 'अवर ज्ञलत्तिर्गु
अरचेननप्पटुकिरुर. अवरुत्तेय तुम्हन्तेतकलाम
ज्ञलंकला. आकेयालं अवरे ज्ञलत्तिलं स्मरिक्क
वेण्णनुम्. 'आपोवृष्ट्या' मुतविय मुन्नरु रुक्कुकला,
'हरिरण्यवर्णः' मुतविय नान्कु रुक्कुकला,
'सन्तेनेतेवीः' 'सन्नाशुपः' 'इतमापः प्रववहत' एन्ऱ
मन्त्रतंकला इवेवकला ज्ञप्तिक्क वेण्णनुम्. इव्वितमं
मार्ज्जनामं चेष्टु केळाण्णु अकमर्ष्ण लाक्तत्तिन्न
रुवी, सन्तुलं, तेवत्ते इवेवकला सत्तग्नुयं स्मरिक्क
वेण्णनुम्. प्रिंगु ज्ञलत्तिलं मुमुक्षयवन्नुयं अकमर्ष्ण
लाक्तत्तत्ते मुन्नरु मुन्नरु ज्ञप्तिक्क वेण्णनुम्.
महाव्याहृत्तिकलालं तालयिलं ज्ञलत्तिलं विट
वेण्णनुम्.

वसिष्ठः—आपोहिष्टेदमापश्च द्रुपदादि च इत्यपि । तथा
हिरण्यवर्णामिः पावमानीभिरन्ततः ॥ ततोऽर्कमीक्ष्य सोङ्कारं
निमज्ज्यान्तर्जले बुधः । प्राणायामांश्च कुर्वीत गायत्री चाधमर्षणम् ॥
योऽनेन विधिना स्नाति यत्र कुत्राम्भसि द्विजः । स तीर्थफलमाप्नोति
तीर्थे तु द्विगुणं फलम् इति ॥ विष्णुरपि – ततोऽप्सु मग्नस्त्रिरघमर्षणं
तद्विष्णोः परमं पदमिति वा सावित्री वा युञ्जते मन इत्यनुवाकं वा
पुरुषसूक्तं वा जप्त्वाऽद्वेवासा देवर्षिपितृतर्पणमम्भः स्थ एव कुर्यात्
इति ॥

वलीष्टारः:- 'आपोवृष्ट्या' 'इतमापः' 'तत्त्वपता'
'हरिरण्यवर्णः' 'पावमानीकला' इवेवकला ज्ञप्तित्तु,
लार्यज्ञेनप्प पार्त्तु, छंकारत्तुलान्मुक्ति, ज्ञलत्तिन्वूल
प्रराणेयामन्कलौक्ष चेष्टु, कायतर्दीययुम्,
अकमर्ष्णत्तेयुम् ज्ञप्तिक्क वेण्णनुम्. एन्त
प्रराम्भूणान्म इन्त वित्तियुलान्म एन्त ज्ञलत्तिलं स्मरान्म

செய்தாலும் அவன் புண்ய தீர்த்த ஸ்நான பலனை அடைகிறான். புண்ய தீர்த்தத்தில் ஆனால் இருமடங்கு பலனை அடைகிறான். விஷ்ணுவும்:- பிறகு, ஜலத்தினுள் முழுகியவனும் மூன்று முறை அகமர்ஷனத்தை, அல்லது 'தத்விஷ்ணே:' என்பதை அல்லது காயத்ரியை, அல்லது 'யுஞ்ஜதேமன: ' என்ற அனுவாகத்தை, அல்லது புருஷஸ்தக்த்தை ஜபித்து, ஸ்நானம் செய்து ஈரவஸ்தரம் உடையவனும் தேவ ருஷி பித்ரு தர்ப்பணத்தை ஜலத்தில் இருப்பவனுக்கவே செய்ய வேண்டும்.

வ்யாஸः—**मृदोमयान्यामालिप्य तस्मिन्नादेव मन्त्रतः ।**
प्रक्षाल्याचम्य विधिवत् ततः स्नायात् समाहितः । प्रेक्ष्य सोङ்கारमादित्यं
त्रिनिमज्जोज्जलाशये । आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणोनेन मन्त्रवित् ॥
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो
ज्योतीरसोऽभूतम् ॥ ततः सम्मार्जनं कुर्यात् आपोहिष्ठा मयो भुवः ।
इदमापः प्रबहत व्याहृतीभिस्तथैव च ॥ ततोऽभिमन्त्र्य तत्तीर्थ
आपोहिष्ठादि मन्त्रकैः । अन्तर्जलगतो मग्नो जपेत् त्रिरघुमर्षणम् ॥
द्रुपदां वा त्रिरभ्यस्येद्वाहृतिं प्रणवादिकाम् । सावित्रीं वा जपेष्ठिद्वान्
तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ आवर्तयेद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्वरिम् ॥
द्रुपदा हि परो मन्त्रो यजुर्वेदे प्रतिष्ठितः ॥ अन्तर्जले त्रिरावर्त्य सर्वपापैः
प्रमुच्यते ॥ यथाऽक्षमेधः क्रतुराट् सर्वपापप्रणोदनः । तथाऽघमर्षणं
सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ इति ॥

வ்யாஸர்:- ம்ருத்திகை, கோமயம் இவைகளால், அவைகளின் மந்த்ரங்களால் தேஹத்தைப் பூசி அலம்பி, ஆசமனம் செய்து விதிப்படி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஒங்காரத்துடன் ஸமர்யஜைப் பார்த்து, ஜலாசயத்தில் மூன்று முறை முழுக வேண்டும். ஆசமனம் செய்து, 'அந்தச் சரளி - ரஸோமர்தும்' என்ற மந்த்ரத்தால் ஜலத்தைப் பருகிப் பிறகு 'ஆபோஹிஷ்ட' 'இதமாபः'

वंयाहर्गुरुतीकलं इववकलालं मार्जनामं चेयंतु केळालं वेण्णुम्. पिरु 'आपोव्विष्ट' मुतविय मन्त्ररंकलालं अन्तत तीर्त्ततत्तत्तत अपिमन्तरीत्ततु, जलत्तिनुमं मुमुक्षियवण्णय अकमर्षज्ञतत्तत रुन्नरु मुरेज प्रिक्क वेण्णुम्. 'तरुपता' मन्त्ररत्ततयावतु रुन्नरु मुरेज प्रिक्कलाम्. प्ररणवत्ततयावतु आवतु, सावित्रीय आवतु, 'तत्तविष्टेणोः' एन्पतेयावतु जपिक्कलाम्. प्ररणवत्ततयावतु आवृत्ति चेय्यलाम्. विष्टनुवेवयावतु लमरीक्कलाम्. यज्ञार्वेतत्तिलुलां 'तरुपता' एन्नरतु चिरन्त मन्त्रम्. अतेज जलत्तिनुलां रुन्नरु तटवेज प्रित्तालं लकल पापंकलालुम् विट्टुपट्टुवाण. याकंक्कलां चिरन्त अच्वमेतम् एप्पटि लकल पापनाशनमो, अप्पटि अकमर्षज्ञ लाक्तम् लकल पापनाशनमाम्.

बोधायनः—अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृत्पिण्डं च सञ्जृत्य तीर्थं गत्वा त्रिः पादौ प्रक्षालयते त्रिरात्मानमथ हैके ब्रुवते। इमशानमपो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य तु पादौ तान् प्रवेष्टव्यमिति। अथाऽभिप्रपद्यते हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्य इति द्वाभ्यामथाञ्जलिनाऽप उपहरति सुमित्रान आप औषधयस्सन्त्विति तां दिशं निरीक्षति यस्यां दिशि द्वेष्यो भवति 'दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुः योस्मान् द्वेष्टि यच्च वर्यं द्विष्म इत्यथाप उपस्पृश्य 'नमोऽग्न्येऽप्सुमत' इत्युपस्थाय त्रिः प्रदक्षिणमुदकमावर्तयति 'यदपां क्रूर'मिति 'इमं मे गङ्गं' इति तीर्थमावाह्याञ्जिमर्जियत्यापोहिष्ठामयोभुव इति तिसृभिः 'हिरण्यवर्णः शुचयः पावका' इति चतसृभिः 'पवमानः सुवर्जन' इत्येतेनानुवाकेन च मार्जियत्वाऽन्तर्जलगतोऽघर्षणेन त्रीन् प्राणायामान्धारयेद्दत्त्वं सत्यञ्चेत्येतदघर्षणं त्रिरन्तर्जले पठेत् सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते। 'आयं गौः पृश्चिरक्रमी'त्येतां च त्रिरन्तर्जले पठन् सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते।

‘हृसशशुचिषदित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पठन् सर्वस्मात् पापात्
प्रमुच्यते । अपि वा सावित्री गायत्री पञ्चोऽर्घ्यर्चिशः समस्तामिति
त्रिरन्तर्जले पठन् सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते । अपि वा
व्याहृतीव्यस्ताः समस्ताश्वेति त्रिरन्तर्जले पठन् सर्वस्मात् पापात्
प्रमुच्यते । अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तर्जले पठन् सर्वस्मात् पापात्
प्रमुच्यते’ इति ॥

போதாயனர்:- பிறகு, கைகளை அலம்பி,
கமண்டலுவையும், மண்கட்டியையும் எடுத்துக் கொண்டு
தீர்த்தத்திற்குச் சென்று, மூன்று தட்டவை கால்களை அலம்ப
வேண்டும், மூன்று முறை தன்ஜெயும் சுத்தி செய்து
கொள்ள வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் சிலர் இவ்விதம்
சொல்லுகின்றனர் - ‘ச்மசானம், ஜலம், தேவக்ருஹம்,
மாட்டுக் கொட்டில், ப்ராம்ஹணர் இருக்குமிடம்
இவைகளில் கால்களை அலம்பாமல் ப்ரவேசிக்கக் கூடாது’
என்று. பிறகு, ‘ஹிரண்யச்ரங்கம்’ என்ற இரண்டு
மந்த்ரங்களால் ஜலத்தில் இறங்கவும். பிறகு ‘ஸாமித்ராநா:’
என்ற மந்த்ரங்களால் ஜலாஞ்ஜலியை தன்மேல் சேர்த்து,
‘துர்மித்ரா:’ என்ற மந்த்ரங்களால் சத்ருவிருக்கும் துக்கில்
ஜலாஞ்ஜலியை எறிந்து, ஜலத்தைத் தொட்டு,
‘நமோக்னேயே’ என்பதால் உபஸ்தானம் செய்து,
‘யதபாம்’ என்பதால் ஜலத்தை மூன்று முறை
ப்ரதிக்ஷணமாய்ச் சுற்றி, ‘இமம்மே’ என்பதால் தீர்த்தத்தை
ஆவாஹனம் செய்து, ஜலத்தால் மார்ஜனம் செய்யவும்.
‘ஆபோஹிஷ்டா’ முதல் மூன்று மந்த்ரங்கள்,
‘ஹிரண்யவர்ணை:’ முதல் நான்கு மந்த்ரங்கள்,
‘பவமானஸ்ஸவர்ஜன:’ என்ற அனுவாகம் இவைகளால்
மார்ஜனம் செய்து கொண்டு, ஜலத்தினுள் முழுகி
அகமர்ஷணத்துடன் மூன்று ப்ராணையாமங்கள் செய்ய
வேண்டும். ‘ருதம்ச ஸத்யம்ச’ என்ற இந்த
அகமர்ஷணத்தை ஜலத்தினுள் மூன்று முறை படித்தால்,
ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான். அல்லது

‘अुयंकेळा:’ एन्ऱ रुक्केक, अल्लतु तंरुपताक्तिव’ एन्ऱ रुक्केक, अल्लतु ‘लम्लसक्सक्षिष्ठत्’ एन्ऱ रुक्केक, अल्लतु कायत्रीये पात्तमायुम्, पात्तिरुक्कायुम्, समस्तमायुम्, अल्लतु व्याहरुक्तिकौ तनीयायुम्, चेरत्तुम्, अल्लतु प्रणवत्तते ज्ञलत्तिनुं मुमुक्षियवग्नेय ऐन्ऱु तटवे प्रतित्तालं लकल पापत्तिन्ऱुम् वीटुपटुवान्.

मृत्तिकास्त्रानविधिरप्युक्तो बोधायनेन— अथातो
 मृत्तिकास्त्रानविधिं व्याख्यास्यामो ब्रह्मचारिगृहस्थवान्
 प्रस्थपरिव्राजकानामश्वक्रान्ते सहस्रपरमा देवीति भूमिर्द्वी
 अभिमन्त्योद्घृताऽसीति नदीतटे लोष्टमादाय काण्डात् काण्डात्
 प्ररोहन्तीति द्वाभ्यां द्व॒र्वामादाय मृत्तिके हन मे पापमिति द्व॒र्वा लोष्टे
 प्रतिष्ठाप्य यत इन्द्र भयामहे स्वस्तिदाः स्वस्तिन इन्द्रो वृद्ध
 श्रवास्त्रातारमिन्द्रमावान्मन्युः परं मृत्यो अनुपरेहीति षड्भिः प्रतिमन्त्रं
 प्रतिदिशं लोष्टमुत्सृज्य गन्धद्वारामिति लोष्टमादाय उदुत्यं
 जातवेदसमिति लोष्टमादित्यं दर्जयित्वा श्रीर्मे भजत्वलक्ष्मीर्मे
 नश्यत्विति शिरः प्रदक्षिणीकृत्य सहस्रशीर्षेति शिर आलिप्य
 विष्णुमुखा इति भुजोग्रीवाभिरिति ग्रीवां महाऽऽन्द्रोवज्ञबाहुरिति बाहू
 सोमान् ऽस्वरणमिति कक्षौ ज्ञारीं यज्ञशमलमिति ज्ञारीं नाभिर्मे चित्तं
 विज्ञानमिति नाभिमापान्तमन्युरिति कटिं विष्णोराटमसीति पृष्ठं
 वरुणस्य स्तंभनमसीति मेद्रमानन्दनन्दावित्यण्डा वूरुवो रोज इत्यूरू
 ऊरुअरन्ती इति जानुनी जञ्जाभ्यामिति जञ्जयोश्वरणं पवित्रमिति
 चरणयोरिदं विष्णुस्त्रीणिपदेति द्वाभ्यां पादौ सजोषा इन्द्रेति शेषं
 द्व॒र्वासिहितं लोष्टं शिरसि निधाय हिरण्यशृङ्गमिति तीर्थं गत्वा सुमित्रान्
 आप औषधय इत्यात्मानमभिष्वेदुदकाञ्जलिमादाय लोष्टदेशे निनीय
 दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुरिति प्रथमं योऽस्मान् द्वेष्टीति द्वितीयं यश्च वयं
 द्विष्म इति तृतीयमापो हिष्ठा मयोभुव इति तिसुमिर्हिरण्यवर्णः शुचयः

பாவகா இதி சத்ஸूभಿः பவமானः ஸுவர்ஜன இत्येतொனுவாகேன ச
மார்ஜியித்வா நமोऽग्रयेऽप्सुमत இதி நமस்கृत्य யदपां
क्रूरमित्यन्दिखिरावर्त्य इமं மே ஗ङ்஗ இत्यपोऽभिमन्त्यर्तच्च
सत्यञ्चेत्यघமर्षणसूक्तेनापोऽवगाहेत देवानृषीन् पितृस्तर्पयित्वा शुची
வோ ஹவ்யேதி வக்ஷமஜ்ஜி: ப்ரோக்ஷ ஦ேவஸ்யத்வேதி வக்ஷமாடயாவ஧ூதஞ்சக
இத்ய஧ூய உடுத்யஞ்ஜாத வேடஸமிதி வக்ஷமாடித்யங்கியித்வா�வஹந்திதி
வாஸ: பரி஧ாய ஦ிராசம்யோத்காந்த: ‘भूतप्रेतपिशाचा ये ये भूता ये
निशाचराः । सर्वेषा मविरोधेन ब्रह्मकर्म समारम्भे इति दर्मासनं
प्रतिष्ठाप्य त्रिः प्राणानायम्याष्टोत्तरशतं गायत्री जपेद् ब्राह्मणः पूतो
भवति । பிரதிஷ்டாப்ய வேஷா மாற்றம் குருதல்பங்கம் ஸ்வர்ணஸ்தேய சுராபாநாடி
ஸ்வர்ணப்பிரபாஶனமிதி விஜாயதே । ஹித்வைத்வை ஹெவ் நாராயண் ப்ரபந்த
இத்யாஹ ஭஗வான் ஬ோधாயன: இதி ॥

ம்ருத்திகா ஸ்நான விதியும் போதாயனரால்
சொல்லப்பட்டடுள்ளது. இனி ப்ரம்ஹசாரி க்ருஹஸ்த
வானப்ரஸ்த ஸன்யாஸிகளுக்கு ம்ருத்திகா ஸ்நான
விதியைச் சொல்லுகிறேன். ‘அச்வக்ராந்தே’
‘ஸஹஸ்ரபரமாதேவி’ என்ற மந்த்ரங்களால், பூமியையும்,
அறுகையும் அபிமந்த்ரித்து, ‘உத்தருதாஸி’ என்ற
மந்த்ரங்களால் நதிக்கரையில் மண்கட்டியை எடுத்து,
'காண்டாத் காண்டாத்' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால்
அறுகை க்ரஹித்து, ‘ம்ருத்திகே ஹநமேபாபம்’ என்ற
மந்த்ரத்தால் அறுகை மண்கட்டியின் மேல் வைத்து,
'யத்இந்தர' 'ஸ்வஸ்திதா:' 'ஸ்வஸ்திந இந்தரः' 'த்ராதாரம்'
'ஆபாந்தமன்யு:' 'பரம்ம்ருத்யோ' என்ற ஆறு
மந்த்ரங்களால் முறையே ஒவ்வொரு திக்கிலும்
மண்கட்டியை எறிந்து, 'கந்தத்வாராம் என்பதால்
மண்கட்டியை எடுத்து, 'உதுத்யம்' என்பதால்
மண்கட்டியை ஸமர்யனைக் காண்பிவித்து, 'ஸ்ரீரமே'
என்பதால் தலையைச் சுற்றி, 'ஸஹஸ்ரசீர்ஷா' என்பதால்

तैलैयिलं पूचि, 'विष्णुमुकाः' एन्पतालं मुक्ततेयुम्, 'ओज्जोक्कीवापीः' एन्पतालं कमुक्ततेयुम्, 'महामं इन्तरः' एन्पतालं कैकौलायुम्, 'सेलामानम्' एन्पतालं कक्षनंकौलायुम्. 'शरीरमयज्जंगु' एन्पतालं शरीरततेयुम्, 'नापीरमें' एन्पतालं नापीयेयुम्, 'आपान्तमन्यः' एन्पतालं इट्रुप्पेयुम्, 'विष्णेन्नेरराटम्' एन्पतालं मुतुकैयुम्, 'वरुणस्य' एन्पतालं कुत्र्यततेयुम्, 'अनन्तनन्ततेला' एन्पतालं प्रैज्ञंकौलायुम्, 'उरुवोरोज्जः' एन्पतालं तुष्टकौलायुम्, 'उरु अरथनी' एन्पतालं ज्ञानुकौलायुम्, ज्ञन्काप्याम्' एन्पतालं ज्ञन्कैकौलायुम्, 'शरणम्' एन्पतालं शरणनंकौलायुम्, 'इतमविष्णुः' 'तर्णीपता' एन्पवेक्षालं पात्रकौलायुम्, मन्त्रिनिलं पूचि, 'सल्लेज्ञाषा इन्तरः' एन्पतालं मेति मन्त्रिना अरुकृतनं चेर्ततु तैलैयिलं वैततु, 'हरिरण्य स्त्रुन्कम्' एन्पतालं ज्ञलत्तिविरन्कि, 'सामित्रराः' एन्पतालं तनक्कु अपिषेषकम् चेयतु केऽन्तु, उत्काञ्जलिये एटुत्तु मन्त्रकट्टि उल्ला ल्लत्वत्तिल, 'तुर्मित्रराः' एन्पतालं, उत्काञ्जलिये विट्टु, 'योस्मान्तवेष्टि' एन्पतालं इरण्टावतु तटवैयुम्, 'यम्चवयमंतविष्मः' एन्पतालं मुन्नरुवतु तटवैयुम् विट्टु, 'आपोवृष्टि' मुतलिय मुन्नरु रुक्कुकौं, 'हरिरण्यवर्णः' एन्पतु मुतलं नान्कु रुक्कुकौं, 'पवमानः' एन्ऱ अनुवाकम् इवेक्षालं मार्ज्जनम् चेयतु, 'नमेक्षनये' एन्पतालं नमस्कारिततु, 'यतपाम्' एन्पतालं मुन्नरु तटवै ज्ञलत्तेत ऐतुक्कि, 'इमम् मेम कन्केऽ' एन्पतालं ज्ञलत्तेत अपिमन्तरीततु, 'रुतम्च' एन्ऱ ल्लाक्तत्तिल ज्ञलत्तिल मुमुक वेण्टुम्. तेव रुषि पित्तरु तर्प्पनततेच चेयतु, 'क्षेवः' एन्पतालं वस्त्रततेत प्रेरोक्षिततु, 'तेवस्यत्वा' एन्पतालं वस्त्रततेत एटुत्तु, 'अवतातम्' एन्पतालं उत्र, 'उतुत्यम्' एन्पतालं वस्त्रततेत ल्लार्यनुकूक्कौंपित्तु, 'आवलून्ति' एन्ऱ वस्त्रततेत तरीततु,

இருமுறை, ஆசமனம் செய்து, வெளிவந்து, 'பூத + ரபே' என்பதால் தர்ப்பாஸனத்தைப் பூமியில் வைத்து, மூன்று முறை ப்ராணையாமம் செய்து, 108 முறை காயத்ரியை ஜபிக்க வேண்டும். ப்ராம்ஹணன் சுத்தனாகிறுன். ப்ரம்ஹவுத்தை, கோவதம், குருதல்பகமனம், ஸ்வர்ணஸ்தேயம், ஸாராபானம் முதலிய ஸகல பாபங்களையும் போக்குவதாமிது என்று தெரிகின்றது. இவ்வுடலை விட்டு நாராயணனை அடைகிறுன் என்றார் பகவான் போதாயனர்.

அனுகல்பமாஹ யாஜாவல்க்யः — ய ஏष விஸ்தரः ப்ரோக்தः ஸ்வானஸ்ய வி஧ிருத்தமः । அஸாமர்஥ானி குர்யாचீத்தாயং வி஧ிருच்யதோ ஸ்வானமந்தர்ஜலே சைவ மார்ஜநாசமனே தथா । ஜலாभிமந்திரம் சைவ தீர்஥ஸ்ய பரிகல்பனம् ॥ அघமர்ஷணஸூக்தேந திராவுத்தேந நித்யஶः । ஸ்வானாசரணமித்யேததுபதிஷ்டஂ மஹாத்மமி: இதி ॥

அனுகல்பத்தைச் சொல்லுகிறூர், யாக்ஞவல்க்யர்:- விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள சிறந்த இந்த ஸ்வான விதியை, சர்வ ஸாமர்த்தயம் இல்லாததால் செய்ய முடியாவிடில், அப்பொழுது, மற்றொரு விதி சொல்லப்படுகிறது. ஜலத்தினுள் ஸ்வானம், மார்ஜனம், ஆசமனம், ஜலாபி மந்த்ரணம், தீர்த்த பரிகல்பபனம், அகமர்ஷண ஸாக்தத்தை மூன்று முறை ஜபித்து நித்யமும் ஸ்வானம் செய்வது என்ற விதி மஹான்களால் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்஥பரிகல்பனமாஹ வसிஷ்஠ः — சதுர்ஹஸ்தஸமாயுக்தं சதுரஶ் ஸமந்ததः । பிரகல்ப்யாவாஹயேந்திராம் மந்திரானேந மந்திரிதி । விஷ்ணो: பாடப்ரஸूதாऽஸி வைஷ்ணவி விஷ்ணுदேவதா । தொகை நஸ்தேநஸஸ்தஸமாடா- ஜந்மரணாந்திகாத् । திஸः கோட்யோऽர்ஜ்ஞகோடீ ச தீர்஥ானாஂ வாயுரவைத் । ஦ிவி முஷ்யந்தரிக்ஷே ச தானி மே ஸந்து ஜாஹ்வி இதி । ஸ்மृத்யந்தரே – சதுரஶ் தீர்஥பீठं பாणிநோல்லிருப்பு வாரிஷு । ஆவாஹ்யாமி த்வாஂ ஦ேவீத்யாவாஹா தைவ

जाह्नवीम् ॥ इमं मे गङ्गा इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत् ॥ स्नानं
सूबग्नमस्येव कृतं विधिविनाकृतम् । वृथा द्विजन्मनस्तस्माद्विधिना
स्नानमाचरेत् इति ॥

त्रीर्त्त परीकल्पनात्तदेत्तसं चेऽल्लुकिरुर्.
वलीष्टारः:- नान्कु मुमुम् कृत्तरूपू उल्लतायुम् नान्कु
मूलैकरुल्लतायुम् ओरु पीटत्तेत ज्ञलत्तिल कल्पपीत्तु
मन्तरमर्तिन्तवन्न इन्त मन्तरत्तताल कन्केय
आवाहूनमं चेय्य वेण्टुम्. मन्तरम् - 'विष्णेऽन्नोः +
ज्ञात्तरुनवी' एन्पतु. इतन्न बेपारुल्ल - 'ओ कन्केयो ! नी,
विष्णुवीन्न पात्तत्तिनीन्नुम् उन्नटाकियवरुम्,
विष्णुवीनुउटेयवरुम्, विष्णुवेवत्त तेवत्तयाय
उटेयवरुमाय इरुक्किन्नुम्. आकेयाल ज्ञन्ममं
मुत्तल मरणमं वरयिल लम्पवीक्कुम् पापत्तिनीन्नुम्
एन्कैलैक काैक वेण्टुम्. आकाशत्तिलुम्, पूमियिलुम्,
अन्तरीक्षत्तिलुम्, मून्नररेक केऽपि त्रीर्तत्तन्कैल
इरुक्किन्नरून एन्नु वाय चेान्नुरुर्. अत्तीर्तत्तन्कैल
एन्कैकाैक इन्कु इरुक्क वेण्टुम्' एन्पत्ताम्. मर्त्तिरुरु
संम्रुत्तियिलः:- नान्कु मूलैयुलै त्रीर्तत्त पीटत्तेत
ज्ञलत्तिल कैयिलै ऎमुति 'ओ तेवी! उन्नैन
आवाहूनमं चेय्किरेन्न' एन्नु पीटत्तिल कन्केय
आवाहूनमं चेय्तु 'इमम् मेकन्कैक' एन्नर मन्तरत्तताल
पात्तित्तुप चुन्य त्रीर्तत्तन्कैलैयुम् निनैकैवेण्टुम्.
वित्तियिलैलामल चेय्यप्पट्ट संनानमं कुरुक्किन्न
मुमुक्कुप पोल वीैन्नुकुम्. आकेयाल वित्तियुट्ट
संनानमं चेय्य वेण्टुम्.

स्मृत्यर्थसारे—नान्योन्यं पृष्ठो मञ्च लिम्पेत् पृष्ठो मिथः ।
स्नाता न धावयेद्न्तान् न मृज्याद्वाससा मुखम् ॥ अवगाह्य जले नग्नो
वस्त्रं यः परिशोधयेत् । कुञ्चस्तत्र निवर्तन्ते देवताः पितृभिः सह इति ॥
रक्षावल्याम्—दर्श स्नानं न कुर्वति मातापित्रोस्तु जीवतोः । कुर्वस्तत्र
निराचष्टे पित्रोरुन्ति जीविते ॥ न रात्रौ मृत्तिकास्नानं नैव

भौमार्कवारयोः । सन्ध्ययोर्नैव गोमूत्रं न शुद्धचै गोमयं निशि ॥
दिवाऽम्बुगोशकृन्मूत्रैः शुद्धिनिर्शयम्बुमसमिः । नाम्बुहन्यान् नन्देन
तीर्थे तीर्थान्तरं स्मरेत् ॥ सङ्कल्पैव तथा कुर्यात् स्तान दानव्रतादिकम् ।
अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्कलानि भवन्ति वै इति ॥

ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தில்:- ஒருவன் பின் ஒருவனிருந்து முழுகක் கூடாது. ஒருவர்க்கொருவர் முதுகைத் துடைக்கக் கூடாது. ஸ்நானம் செய்து பிறகு பற்களைச் சுத்தி செய்யக் கூடாது. வஸ்த்ரத்தால் முகத்தைத் துடைக்கக் கூடாது. ஜலத்தில் அமிழ்ந்து கொண்டு வஸ்த்ரமில்லாதவருடைய எவன் வஸ்த்ரத்தைச் சுத்தி செய்கின்றானே அவனிடத்தில் கோபமுடையவராய்த் தேவர்கள் பித்ருக்களுடன் திரும்பிச் செல்கின்றனர். ரத்துவளியில்:- மாதாபிதாக்களின் ஜீவிதத்திருக்கும் பொழுது அமாவாஸ்யையில் ஸ்நானத்தைச் செய்யக் கூடாது. செய்பவன் மாதாபிதாக்களின் உயர்வு, உயிர் இவைகளை மறுக்கிறான். இரவில் ம்ருத்திகா ஸ்நானம் கூடாது. பெளமவாரத்திலும், பானுவாரத்திலும் கூடாது. ஸந்த்யா காலங்களில் கோழுத்ரத்தை உபயோகிக்கக் கூடாது. ராத்திரியில் சுத்திக்காகக் கோமயத்தை உபயோகிக்கக் கூடாது. பகலில் ஜலம், கோமயம், கோழுத்ரம் இவைகளாலும், இரவில் ஜலம், பஸ்மம் இவைகளாலும் சுத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஜலத்தை அடிக்கக் கூடாது. நிந்திக்கக் கூடாது. ஒரு தீர்த்தத்திலிருந்து மற்றொரு தீர்த்தத்தை ஸ்மரிக்கக் கூடாது. ஸ்நானம், தானம், வ்ரதம் முதலியதை ஸங்கல்பம் செய்து கொண்ட பிறகே செய்ய வேண்டும். அவ்விதம் இல்லாவிடில் புன்ய கர்மங்கள் பயனற்றவைகளாய் ஆகின்றன.

भरद्वाजः - सङ्कल्परहितं कर्म यच्छ्रुतिस्मृतिचोदितम् । यतो
यद्यफलं तत् स्यात् सङ्कल्प्यातः समाचरेत् । हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य
समुपस्पृश्य वाग्यतः । प्राङ्गुखोदङ्गुखो वाऽपि स्थित्वा दर्मसिने

शुचिः । सदर्भहस्तौ जानूध्येदक्षिणे दक्षिणोत्तरौ । कृत्वा वारादि
संस्मृत्य एतत् कर्म करोति यत् ॥ स्वमानसे संस्मरणं तत् सङ्कल्प
इतीरितः ॥ स्नानमर्दितनेत्रस्य कर्णरोगातिसारिषु । आध्मानपीन-
साजीणभुक्तवत्सु च गर्हितम् । अनार्तश्वोत्सृजेघस्तु स विषः
शूद्रसम्मितः । प्रायश्चित्तीभवे देव लोके भवति निन्दितः इति ॥

प्रत्यवाङ्मूर्तिः - संग्रहितिकलीलं
सेवालभप्पट्टुं गतं कर्मम् लग्नं कलं भप्पम् इल्लावीष्टिलं
वीज्ञेयिन्नरुतु. आकेयालं लग्नं कलं भप्पम् इत्तुकं केऽन्नेते
भेष्य वेणुं गतं. कालं कलायुम्, केकलायुम् अलम्पी,
आशमनम् भेष्यतु, मेंगलनीयाय, किञ्चकु अलंतु वटकंकु
नेनोक्तियवाणुयत्तं तरप्पासनं त्तिलं अमर्नन्तु, सत्त्वाणुयत्तं,
तरप्पापन्कर्त्तानं कूटियकेकलावलतु मुमन्कालिनं मेलं
वलतुके मेलिरुक्तुम् भप्ति भेष्यतु, वारम् मुतलियते
लमरीत्तु, एन्तकं कर्मत्तत्तेत्तस् भेष्यकिन्नरुं गते अते
मन्त्रिलं लमरीप्पत्तु लग्नं कलं भप्पम् एनप्पटिरुतु.
कण्ठरोकम् उंगलवाणुक्तुम्, कातु रोकमुं गतव
नुक्तुम्, अक्षिलारमुं गतवाणुक्तुम्, वयिन्ऱ्ऱु उप्पुकम्,
प्रेणलम्, अज्ञीर्ण्णम् उंगलवाणुक्तुम्, पञ्जीत्तवाणुक्तुम्
सेन्नाणम् निषित्तमाकुम्. व्यातियिल्लात एन्त
प्रराम्भाणनं लेन्नाणन्तत्ते विटुवागते अवाण
कुत्तराणुक्तुस् समाणवाण. प्ररायस् चित्तारंभाणवाण.
उलकिलं निन्तित्वाणुय आवाण.

भूगः—नैकवासो न च द्वीपे नान्तराले कदाचन ।
श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म न कुर्यादशुचिः कचित् इति ॥ तत्र ग्राह्यद्वीपमाह स
एव — ‘वृषभैकशतं यत्र गवां तिष्ठत्यसंशयम् । न तद्भर्महतं द्वीपमिति
ब्रह्मविदो विदुः इति ॥ मनुः — नित्यं सात्त्वा शुचिः कुर्यात्
देवर्षिपितृतर्पणम् इति ॥ जाबालिः — देवान् ब्रह्मऋषीश्वैव तप्ये
दक्षतोदकैः । तर्पयेत्तु पितृन् भक्त्या सतिलोदकचन्दनैः इति । यमः—

தில்஦ர்஭ஸமாயுக்தं ஸ்வधயா யத् பிரதியதே । தத् ஸ்வர்மமுதं மூத்வா
பிதுணாமுபதிஷ்டதே இதி ॥

ப்ரகு:- ச்ருதியாலும், ஸ்ம்ருதியாலும்
சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மத்தை, ஒரு
வஸ்தரமுடையவனையும், தீவிலும், நடுவிலும்,
அசுக்தனையும் ஒரிடத்திலும், ஒருகாலும் செய்யக் கூடாது.
அங்கு, க்ரஹிக்கத் தகுந்த தீவினைச் சொல்லுகிறார்,
பிருகுவே:- எந்தத் தீவில் ஒரு எருதுடன் கூடிய நாறு
பசுக்கள் இருக்கின்றனவோ அந்தத்தீவு தர்மத்திற்கு
நிவித்தமான தீவாய் ஆகாது, ஸம்சயமில்லை என்று
வேதமுணர்ந்தவர் உரைக்கின்றனர். **மனு:-** ப்ரதிதினம்
ஸ்நானம் செய்து, சுத்தனைய் தேவர், ருஷிகள், பித்ருக்கள்
இவர்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். **ஐபாலி:-**
தேவர்கள், ப்ரம்ஹ ருஷிகள் இவர்களுக்கு
அகஷதங்களுடன் கூடிய ஜலங்களாலும், பித்ருக்களுக்குத்
திலம், சந்தனம் இவைகளுடன் கூடிய திலோதகங்களாலும் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும்.
யமன்:- திலங்கள், தர்ப்பங்கள் இவைகளுடன் கூடிய எந்த
வஸ்து, 'ஸ்வதா' சப்த்துடன் கொடுக்கப்படுகிறதோ, அது
முழுவதும் அம்ருதமாயாகிப் பித்ருக்களை அடைகின்றது.

—★—

நைமித்திகஸ்தாநம் ।

அथ நைமித்திகஸ்தாநம் । ஸ்மृத்யர்஥ஸரை - உच்சிஷ்டாஸுபதாதேஷு
அஸ்பூதியஸ்பஶ்நைஷு ச । ஗ிரஸ்க்ரமணாடௌ ச ஸ்தாந் நைமித்திக் ஸ்மृதம் ॥
சுண்டாலாடிஸ்பஶ்நை து கார்ய வாருணமேவ து । காம்ய மலாபகர்ஷ ச
க்ரியாஸ்தாந் ச வாருணம் ॥ இதராणி யथாயோங்ய ஦ேசகாலாடியபேக்ஷயா இதி ॥
஗ார்யः - குர்யாநைமித்திக் ஸ்தாந் ஶிதாஞ்சிஃ: காம்யமேவ ச । நித்ய
யாட்சித்தங்க் சைவ யதாருசி ஸமாச்சரேத் இதி ॥ **மனுः** - ஦ிவாகிரித்முடக்யாங்
ச ஸூதிகாங் பதிதம் ததா । ஶவங் தத்ஸ்பூஷிணங் சைவ ஸ்பூஷ்ஜா ஸ்தாநேன் ஜு஧்யதி

इति ॥ दिवाकीर्तिः चण्डालः ॥ उदक्या - रजस्वला ॥ अङ्गिराः - शवस्पृशमथोदक्यां सूतिकां पतितं तथा। स्पृष्टा स्नानेन शुद्धिः स्यात् सचेलेन न संशयः इति ॥ गौतमोऽपि - पतितचण्डालसूतिकोदक्या- शवस्पृष्टि तत्स्पृष्टचुपस्पर्शने सचेलोदकोपस्पर्शनाच्छुद्धयेत् इति ॥

नैमित्तिक संनानम्

इनी नैमित्तिक संनानम् चेाल्लप्पटुकिरतु. संम्रुत्यार्त्तसारत्तिलिः:- उच्चिष्ठम् मुतलियतिन् संपर्चत्तिलुम्, तीन्टकं कूटातवरिन् संपर्चत्तिलुम्, कर्हरण्णम्, लंकंकर्मण्णम् मुतलियतिलुम् चेय्यप्पटुम् संनानम् नैमित्तिकम् एनप्पटुकिरतु. संन्टाळार् मुतलियवरिन् संपर्चत्तिल् वारुण संनानत्तेतये चेय्य वेण्टुम्. काम्यम्, मलापकर्षण्णम्, करीया संनानम् एन्ऱ इवेकौ वारुण संनानमाकवे चेय्य वेण्टुम्. मर्त्र संनानंकौ, तेचकालानु सारमाय उचितप्पटि अनुष्टुक्कलाम्. कार्क्क्यारः:- नैमित्तिकम्, काम्यम् एन्ऩुम् संनानंकौचं चित्जलत्ताल् चेय्य वेण्टुम्. नित्यम्, यात्रुचिकम् एन्पतेत इष्टप्पटि चेय्यलाम्. मनुः:- संन्टाळाण्, रज्जस्वलै, लातुकै, पतितन्, पिण्णम्, पिण्णत्तेतत्त तेताट्टवै इवर्कौ संपर्चित्ताल् संनानत्ताल् सत्तत्तगुकिरुण्. अङ्किरासः:- पिण्णत्तेतत्त तेताट्टवै, रज्जस्वलै, लातुकै, पतितन् इवर्कौ संपर्चित्ताल्, लचेल संनानत्ताल् सत्तत्तियुन्टाकुम्. लम्चयमिलै (तरीत्त वस्तरत्तुटन् मुमुक्षुवतु लचेल संनानम्.) केणत्तमरुम्:- पतितन्, संन्टाळाण्, लातुकै, रज्जस्वलै, सवत्तत्तत्त तेताट्टवै, अवैनित्त तेताट्टवै इवर्कौ संपर्चित्ताल् लचेल संनानत्ताल् सत्तत्तगुकिरुण्.

अनेन पतितादिस्पृष्टिनमारभ्य तृतीयस्यापि सचेलस्नानमित्युक्तं भवति ॥ स्मृत्यन्तरेऽपि - शवचण्डालपतित

ஸूதिकोदक्यास्पृष्टि तत्स्पृष्टिस्पर्शे सचेलस्नानम् इति ॥ चन्द्रिकायाम् –
चण्डालः सूतिकोदक्या पतितः शब एव च । एतेषामेव संस्पृशे
तत्स्पृष्टिन्याय इष्यते इति ॥ एवकारः कटधूमादिस्पृशि
तत्स्पृष्टिन्यायनिवृत्यर्थः ॥ तथा च तत्रैव – कटधूमस्पृशं वान्तं
विरिक्तं क्षुरकर्मणि । मैथुनाचरितारं च स्पृशा स्नानं विघ्नते इति । यत्तु
संवर्त आह – तत्स्पृष्टिनं स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ।
ऊर्ध्वमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा इति, यदपि व्यासः –
ससूतकं समृतकं प्रसूतां वा रजस्वलाम् । स्पृशा स्नायाच्च तत्स्पृष्टं
तत्स्पर्शादाचमेद्युधः इति, तदबुद्धिपूर्वस्पर्शविषयम् ॥

இதனால் பதிதன் முதலியவரை ஸ்பர்சித்தவன் முதல்
மூன்றுமவனுக்கும் ஸ்சேலஸ்நானம் உண்டு, என்று
சொல்லியதாய் ஆகிறது. மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- சவம்,
சண்டாளன், பதிதன், ஸ்திரை, ரஜஸ்வலை இவர்களைத்
தொட்டவனையும், அவனைத் தொட்டவனையும் தொடுதல்.
இதில் ஸ்சேல ஸ்நானம்.

சந்திரிகையில்:- சண்டாளன், ஸ்திரை,
ரஜஸ்வலை, பதிதன், சவம் இவர்களின் ஸ்பர்சத்திலேயே
'தத்ஸ்ப்ரஞ்சிடி ந்யாயம்' சொல்லப்படுகிறது. 'ஏவ'
என்பது, சவப்புகை முதலியதை ஸ்பர்சித்த இடத்தில்
தத்ஸ்ப்ரஞ்சிடி ந்யாயம் இல்லை என்பதற்காம். அவ்விதமே,
சந்திரிகையிலேயே:- சவப்புகையை ஸ்பர்சித்தவனையும்,
வாந்தி செய்தவனையும், விரேசனம் செய்தவனையும்,
கெஷளரம் செய்து கொண்டவனையும், ஸ்தரீஸங்கம்
செய்தவனையும் தொட்டால் ஸ்நானம் வேண்டியதில்லை.
ஸ்ம்வர்த்தர்:- “அவர்களைத் தொட்டவனை எவன்
தொடுவானாலே அவனுக்கு ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது.
அதற்கு மேலுள்ளவனுக்கு ஆசமனமும், தரவ்யங்களுக்கு
ப்ரோகஷனமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது” என்று
சொல்லியதும். வ்யாஸர்:- “ஜனானசௌகம் உள்ளவன்,
மரணசௌகம் உள்ளவன். ஸ்திரை, ரஜஸ்வலை

இவர்களைத் தொட்டால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். தொட்டவனைத் தொட்டாலும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அவனைத் தொட்டால் அறிந்தவன் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்” என்று அவ்விதமே சொல்லப்பட்டுள்ளது.

तथा च चन्द्रिकामाधवीययोः – अबुद्धिपूर्वसंस्पर्शे द्वयोः स्नानं विधीयते। त्रयाणां बुद्धिपूर्वे तु तत्स्पृष्टिन्याय कल्पना इति ॥ चतुर्थस्य त्वाचमनमेव, ‘उपस्पृशेच्चतुर्थस्तु तदूर्ध्वं प्रोक्षणं मतम्’ इति मरीचिस्मरणात् ॥ यत्तु कूर्मपुराणे – चण्डालसूतिकाशावैस्संस्पृष्टं संस्पृशेद्यदि । प्रमादात्तत आचम्य जपं कुर्यात् समाहितः ॥ तत्स्पृष्टिस्पृष्टिं स्पृज्ञा बुद्धिपूर्वं द्विजोत्तमः । आचमेत्तु विशुद्ध्यर्थं प्राह देवः पितामहः इति तद्वर्बलद्वितीयादिविषयम् ॥ अन्यथा गौतमादिवचनविरोधात् ॥

சந்தர்கா, மாதவீயங்களில்:- நினைவில்லாமல் செய்த ஸ்பர்சத்தில் இருவருக்கு ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகின்றது. புத்தி பூர்வமாய்ச் செய்த ஸ்பர்சத்திலானால் மூன்று பேருக்கும் ஸ்நானம். இங்கு ‘தத்ஸ்ப்ருஷ்டி ந்யாயம்’ ஏற்படுகிறது. நான்காமவனுக்கு ஆசமனம் மட்டில். ‘நான்காமவன் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். அதற்கு மேல் ப்ரோக்ஷணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று மாசி ஸ்ம்ருதியால். கூர்மபுராணத்தில்:- ‘சண்டாளன், ஸ்திரை, சாவா சௌசி இவர்களால் தொடப்பட்டவனைக் கவனமில்லாமல் தொட்டால், பிறகு ஆசமனம் செய்து, கவனமுடையவனுய் ஜபிக்க வேண்டும். சண்டாளாதிகளைத் தொட்டவனை ஸ்பர்சித்தவனை புத்தி பூர்வமாய்த் தொட்டால் சுத்திக்காக ஆசமனம் செய்ய வேண்டும் என்று ப்ரம்லைதேவர் சொன்னார்’ என்றுள்ள வசனம் தூர்ப்பலனை இரண்டாமவன் முதலியவரைப் பற்றியது. இவ்விதம் இல்லையெனில் கௌதமர் முதலியவரின் வசனத்திற்கு விரோதம் வரும்.

யत்து யாஜனல்கயேநோக்தம்— உடக்யாஶுசி஭ி: ஸ்நாயாத் ஸ்ஸ்பூஷ்டஸ்தைருபஸ்பூஶேத்। அப்லிங்னானி ஜபேஞ்சைவ ஗ாயத்ரீ மன்ஸா ஸ்கூத் இதி யदபி ஦ேவலேநோக்தம்— ஸ்ஸ்பூஶ்யாஶுசிஸ்ஸ்பூஷ் ஦்விதீய வாடபி மாநவः। ஹஸ்தௌ பாடௌ ச தோயே ந ப்ரக்ஷால்யாசம்ய ஶு஧்யதி இதி । யदபி வृஷ்ணாதாதபேநோக்தம்— ‘அஶுசிஂ ய: ஸ்பூஶேந்ய் ஏக எவ ஸ துஷ்யதி । தத்ஸ்பூஷோட்ந்யோன துஷ்யேத ஸ்ர்வங்காந்யேஷ்யம் வி஧ி: இதி, எத்த ஸ்ர்வ ஹண்டாதிஸ்பர்ச்விஷயமிதி மா஧வீயே । சண்டாலாதிவ்யதிரிக்தாஶுசிஸ்பர்ச் விஷயமித்யந்யே । ததேந் சண்டாலாதிஸ்பர்சே தூதியஸ்யாசமனபர் வசனமகாமவிஷயம் । ஸ்நானபர் வசன் ஸகாமவிஷயம் । ஦்விதீயஸ்யா- சமனவசன் ஹண்டாதிஸ்பர்ச்விஷயம் । சண்டாலாதிவ்யதிரிக்தஶவ஧ூமாய ஶுசிஸ்பர்சே அஶுசிஸ்பூஶ ஏவ ஸ்நானம் । ஦்விதீயஸ்ய த்வாசமனமேவேதி வ்யவस்஥ா ॥

யாக்ஞவல்க்யர்:- “‘ரஜஸ்வலையாலும், சவம், சண்டாளன், பதிதன், ஸ-உதிகை முதலியவர், சாவாசெளசிகள் இவர்களாலும் தொடப்பட்டவன் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ரஜஸ்வலை முதலியவர்களால் தொடப்பட்டவர்களால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டவன் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும், ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மூன்று மந்த்ரங்களை ஜபிக்க வேண்டும். காயத்ரியையும் மனதால் ஒருமுறை ஜபிக்க வேண்டும்’’ என்று சொல்லியதும். **தேவவர்:-** “அசுத்தர்களால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டனையும், அவனால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டனையும், மனிதன் தொட்டால், கைகளையும், கால்களையும் ஜலத்தால் அலம்பி, ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறுன்” என்று சொல்லியதும், **வருத்த சாதாதுபர்:-** “அசுத்தனாகிய மற்றவனை எவன் ஸ்பர்சிப்பானே. அவனைருவனே அசுத்தனாவான். அவனால் தொடப்பட்ட மற்றவன் அசுத்தனாவதில்லை. எல்லா த்ரவ்யங்களிலும் இதே விதியாம்” என்று சொல்லியதும், ஆகிய இவையெலாம், கழி முதலியதால்

चेयंत स्पर्स विषयम् एन्ऱु मातवीयत्तिल उल्लातु. संन्टाळान् मुतवियवरेत् तविर्त्तत मर्ह अस्ततरीन् स्पर्स विषयम् एन्ऱु चिलर. इववितमिरुप्पताल, संन्टाळातिकलीन् स्पर्सत्तिल मुन्नमवनुक्कु आसमन्ततेत वित्तिक्कुम वसनम् अकाम विषयम्. संनाणत्तेत वित्तिक्कुम वसनम् लकाम विषयम्. इरण्टामवनुक्कु आसमन्ततेत वित्तिक्कुम वसनम् कमि मुतवियताल एन्पट्ट स्पर्स विषयम्. संन्टाळान् मुतवियवरेत् तविर्त्तत सवतुमम् मुतविय अस्तत स्पर्सत्तिल अस्तत स्पर्सिक्कु मट्टिल लन्नाणम्. इरण्टामवनुक्कु आसमनम् मट्टिल एन्पतु व्यवस्थेत.

अत्र पराशरः - दुःस्वप्नं यदि पश्येत् वान्ते च क्षुरकर्मणि । मैथुने प्रेतधूमे च स्नानमेव विधीयते इति ॥ मैथुने स्नानमृतुकालविषयम् ॥ तदाह शातातपः - क्रतौ तु गर्भशक्तिवात् स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत् इति ॥ अनृतावपि कचित् स्नानं स्मर्यते - अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम् । कृत्वा सचेलं स्नात्वा तु वारुणीभिश्च माजयेत् इति ॥

इन्कु, प्राचरार्दः - तुः स्वप्नम् कण्टालुम्, वान्ति चेयतालुम्, केषु लरत्तिलुम्, मेमतुन्ततिलुम्, सवतुम् स्पर्सत्तिलुम्, लन्नाणमेव वित्तिक्कप्पट्टिल इति. इन्कु मेमतुन्ततिल लन्नाणमेन्नरतु रुतुकाल विषयम्. अतेच्च चेाल्लुकिरुर् चात्तात्तपारः - रुतुकालत्तिल मेमतुन्म चेयतवनुक्कु, कर्पपम उन्टाकुम एन्ऱ चन्कके इरुप्पताल लन्नाणम् वित्तिक्कप्पट्टिल उल्लातु. रुतुकालमर्ह कालत्तिलाग्ल मलमूत्र विलर्जुन्ततिर्ह पोाल चेलाचम् मट्टिल. रुतुकालम् इल्लाविष्टिल चिल कालत्तिल लन्नाणम् चेाल्लप्पट्टिल इति:- अष्टमी, कतुर्तचि, पकल, पर्वम, इक्कालन्कलील मेमतुन्म चेयताल, लसेल लन्नाणम् चेयतु वरुणतेवताकमान रुक्कुकलाल मार्जुनमुम चेय्य वेण्टिल.

காத்யாயன: – சண்டாலஸூதிகோட்க்யாபதிதா ஶௌचகृच்஛வாந् । ஸ்பூஷ்டா ஸ்நாத்வா ஶுஞ்சி: ப்ரேதமனுగம்யானல் ஸ்பூஷோத् । இத்யெத்த்ப்ரமாடஸ் ஸ்பர்ஶவிஷயம் । பதிதம் ஸூதிகாமந்த்யங் ஶவம் ஸ்பூஷ்டா ச காமதः । ஸ்நாத்வா ஸஞ்சேல் ஸ்பூஷ்டாத்திங் ஘ृதம் ப்ராಶ்ய விஶு஧்யதி ॥ ஶவஸ்பூஞ் ஦ிவாகிர்த்ய சிதி஧ூம் ரஜஸ்வலாம் । ஸ்பூஷ்டா ப்ரமாடதோ விப்ர: ஸ்நான் கூத்வா விஶு஧்யதி இதி ஸ்மரணாத् ॥ பராஶராஓபி – சைத்யவுக்ஷாஶிதே஧ூம: சண்டால: ஸோமவிக்ரயி । எதாஂஸ்து ஬்ராஹ்ண: ஸ்பூஷ்டா ஸ்வாசா ஜலமாவிஶோத் இதி ॥ சிதேயோங்யம் இமஶானம் சைத்யம் । தற ஸமாராபிதோ வுக்ஷாஶைத்யவுக்ஷ: ॥

காத்யாயனர்: - சண்டாளனங், ஸ்மதிகை, ரஜஸ்வலீல, பதிதன், ஆசெளாசி, சவம் இவர்களைத் தொட்டால், ஸ்நானம் செய்து சுத்தனாகிறான். சவானுகமனம் செய்தால், ஸ்நானம் செய்து அக்னியையும் ஸ்பர்சிக்க வேண்டும். இந்த வசனம் கவனமில்லாமல் செய்த ஸ்பர்ச விஷயம். ‘பதிதன், ஸ்மதிகை, சண்டாளன், சவம் இவர்களை ஞானத்துடன் தொட்டால், ஸ்வேல ஸ்நானம் செய்து, அக்னியைத் தொட்டு, நெய்யைப் பருகினால் சுத்தனாகிறான்; சவத்தைத் தொட்டவன், சண்டாளன், சவதூமம், ரஜஸ்வலீல, இவர்களைப்ராம்ஹணன் அறியாமல் தொட்டால், ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தனாகிறான்’ என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். பராசரரும்:- சைத்யவ்ருக்ஷம், சவதூமம், சண்டாளன், லோமவிக்ரயீ இவர்களைப்ராம்ஹணன் தொட்டால் ஸ்வேல ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். சைத்ய வ்ருக்ஷம் = சம்சானத்தில் வளர்க்கப்பட்டுள்ள வ்ருக்ஷம்.

ஸ்வர்தோபி – சண்டாலம் பதிதம் ஸ்பூஷ்டா ஶவமந்த்யஜமேவ ச । உடக்யம் ஸூதிகாங் நாரீ ஸ்வாசா: ஸ்நானமாச்சரேத் இதி ॥ ஆபஸ்தம்஭: - சண்டாலோபஸ்பஞ்சை ஸம்஭ாஷாயாங் ஦ர்ஶனை ச ஦ோஷஸ்தத் ப்ராயஶித்த மவாஹனமபாமுபஸ்பஞ்சை ஸம்஭ாஷாயாங் ஬்ராஹ்ணஸ்மாஷா ஦ர்ஶனை ஜ்யோதிஷாங் ஦ர்ஶனம் இதி ॥ உபஸ்பஞ்சை ஸத்யபாமவாஹனம் ப்ராயஶித்தமித்யர்஥: ॥

लेम्बवर्त्ततरुमः:- संन्टाळानं, पतितनं, सवम्, अन्त्यज्ञनं, रजुस्वलै, स्वातुकिके इवर्कौत्त तेऽट्टालं सचेलं स्नानम् चेय्य वेण्टुम्. आपस्तम्परः:- संन्टाळाज्ञेत तेऽट्टालुम्, अवन्नुटनं पेचिणेलुम्, अवज्ञेप्प पार्त्तालुम् तेऽश्वमुञ्जु. अवेक्खुं, तेऽउवतिलं स्नानम् प्रायस् चित्तम्. पेक्षवक्तिलं प्रायम् खण्णनुटनं पेक्षवतु प्रायस् चित्तम्. पार्पपतिलं स्वार्यन् मुत्तवीय औद्योगिस्स्वाकौन्प पार्पपतु प्रायस् चित्तम्. व्याख्याताः:- संन्टाळानं, पतितनं इवर्कौन्प पार्त्तालं मनीतनं स्वार्यज्ञेप्प पार्क्क वेण्टुम्. स्नानम् चेय्यतवृटनं इवंविरुवरेयम् पार्त्तालं मरुपाति स्नानम् चेय्यतालं कृत्तनुकिरुन्.

चण्डालादीनां व्यवधाने देशपरिमाणमाह पराशारः - युगं युद्धयं चैव त्रियुगं च चतुर्युगम्। चण्डालसूतिकोदक्यापतितानामधः क्रमात्॥ ततः सन्निधिमात्रेण सचेलस्नानमाचरेत् ॥ स्नात्वाऽवलोकयेत् सूर्यमज्ञानात् स्पृशते यदि इति। अधः क्रमात् - विपरीतक्रमात्॥ युगपरिमाणं लोकव्यवहारादवगन्तव्यमिति माधवीये। नवपदं रथयुग मष्टपदमनोयुगमिति लौकिकाः प्रतियन्ति॥ उक्तव्यवधानात् सन्निहिते सचेल स्नानम्, अज्ञानात् गात्रस्पर्शे सूर्यविलोकन मधिकमित्यर्थः॥ बुद्धिपूर्वज्ञस्पर्शे तु सचेल स्नानमग्निस्पर्शनं घृतप्राशनं च पूर्वोक्तं द्रष्टव्यम्॥ अज्ञस्पर्शे मज्जनसङ्ख्याऽपि स्मर्यते - वृषलं चान्त्यजातिं च चण्डालं पतितं तथा। आतिवाभिष्ठुतां नारी स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्॥ एकं च दशकं चैव द्वाविंशत् त्रिंशकं तथा। द्वात्रिंशत्त्र क्रमेणैव मज्जनं विधीयते इति॥

संन्टाळानं मुत्तवीयवर्कौन्प विलक्कुवत्तर्त्तु तेऽक्तुक्तिनं अवेक्खुं चेऽलुकिरुर्प्राक्षराः- संन्टाळानं, स्वातुकिके, रजुस्वलै, पतितनं इवर्कौन्प विष्यत्तिलं मुरेये, नान्कु, युकम्, मुन्नु युकम्, इरण्डु युकम्, ओरु युकम् एन्न अवूला प्रतेत्तस्म-

விலகுவதற்கு அளவானதாம். அந்த அளவுக்குள் ஸமீபத்தில் சென்றால் ஸசேல் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அறியாமையால் தொட்டுவிட்டால், ஸ்நானம் செய்து ஸ்ரீர்யன்ஜயம் பார்க்க வேண்டும். இங்கு 'யுகம்' என்றதின் அளவு லோகவ்யவஹாரத்தால் அறியப்பட வேண்டும் என்று மாதவீயத்தில் உள்ளது. யுகமென்பதற்கு நுகத்தடி என்று பொருள். தேரின் நுகத்தடி ஒன்பது அடியுள்ளது, வண்டியின் நுகத்தடி எட்டு அடியுள்ளது என்கின்றனர் வெளகிகர்கள். சொல்லிய அளவுக்கு ஸமீபத்திற் சென்றால் ஸசேல் ஸ்நானம். அறியாமல் சரீரத்தைத் தொட்டால் ஸ்ரீர்யதர்சனமும் அதிகம் என்பது பொருள். புத்தி பூர்வமாய் அங்க ஸ்பர்சம் செய்தால், ஸசேல் ஸ்நானம், அக்னி ஸ்பர்சம், ஆஜ்யப்ராசனம் என்று முன் சொல்லியதை அறிந்து கொள்ளவும்.

ஸசேல் ஸ்நானத்தில் முழுக்கின் கணக்கும் சொல்லப்படுகிறது - “குத்ரன், அந்தயஜன், சண்டாளன், பதிதன், ரஜஸ்வலை இவர்களை ஸ்பர்சித்தால், முறையே, ஒன்று, பத்து, இருபத்திரண்டு, முப்பது, முப்பத்திரண்டு என்ற கணக்குடன் முழுக்கைச் செய்ய வேண்டும்” என்று.

स्मृत्यन्तरे – चण्डालस्य चतुष्षष्टिपदं श्रेष्ठाः शतद्वयम् ।
 द्वात्रिंशदथ वा तस्य मनः शुद्धिदमाचरेत् ॥ अविज्ञाते रजःस्वावे
 मलवद्वख्या गृहे । स्पृष्टं यद्वस्तु तदुष्टं न दुष्टं सन्विकर्षतः इति ॥
 अस्पृश्यस्पर्शने चैव त्रयोदश निमज्ज्य च । आचम्य प्रयतः पश्चात् स्वानं
 विधिवदाचरेत् इति भरद्वाजवचनमज्जस्पर्शभावविषयम् ।
 चण्डालादिव्यतिरिक्तास्पृश्यस्पर्शविषयं च ॥ व्यासः –
 सूतिकापतितोदक्याः चण्डालश्च चतुर्थकः । यथाक्रमं परिहरे देकद्वित्रि
 चतुर्युग्म इति ॥ अत्र व्यासपराशरवचनयोर्विरोधे विकल्पो द्रष्टव्यः ।
 यत्तु – चण्डालं पतितं चैव दूரतः परिवर्जयेत् । गोवालव्यजनादवर्क
 सवासा जलमाविशेत् इति वैयाघ्रपादवचनम्, तत्सङ्कटादिविषयम् ॥

மற்றெனுரு ஸ்ம்ருதியில்:- சண்டாளனுக்கு அறுபத்து நான்கு அடியும், ச்ரேணி க்கு இருநூறு அடியும் விலகவேண்டும். அல்லது அவனுக்கு முப்பத்திரண்டு அடியாவது மனச்சுத்திக்குத் தகுந்தபடி விலகவேண்டும். ரஜோநிர்கமம் தெரியாமல் ஸ்த்ரீ வீட்டில் தொட்ட வஸ்து எதுவோ அது மட்டில் தோஷமுள்ளதாகும். அவளுடைய ஸாமீப்யத்தால் மற்ற வஸ்துக்கள் துஷ்டமாவதில்லை. “தொடக்கூடாதவர்களைத் தொட்டால் பதினுன்று தடவை முழுகி, ஆசமனம் செய்து, சுத்தனைய், பிறகு விதிப்படி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்” என்றுள்ள பரத்வாஜ வசனம், அங்கஸ்பர்சம் இல்லாத விஷயத்தைப் பற்றியதும், சண்டாளன் முதலியவரைத் தவிர்த்த அஸ்பர்சுச்யர்களின் ஸ்பர்ச விஷயமுமாம்.

வ்யாஸர்:- ஸுதிகை, பதிதன், ரஜஸ்வலை, சண்டாளன் இவர்களுக்கு, முறையே, ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, நுகத்தடி தாரம் விலகவேண்டும். இங்கு வ்யாஸ வசனத்திற்கும், பராசர வசனத்திற்கும் விரோதத்தில் விகல்பம் அறியத்தக்கது. “சண்டாளன், பதிதன் இவர்களை தூரத்தில் பரிஹரிக்க வேண்டும். கோவாலவ்யஜனத்திற்கு (பசவின் வால்வீச்சிற்கு) ஸமீபத்தில் நெருங்கினால் ஸ்சேல ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்” என்றுள்ள வையாக்ர பாதவசனம் எதுவோ அது ஸங்கடமான ஸ்தலம் முதலியதின் விஷயமாம்.

யदாह ஸ்வர்த: - ஸக்டே விஷமே சைவ டுர்சைவ விஶேஷதः । ஹஸ்பத்தநமார்஗் ச யथாஸம்஭வமிஷ்யதे ॥ துணகாஷாடி஘ாதேந குட்சேநாந்தரிதே தथா । ஗ோவாலவ்ய(வீ) ஜேவாடபி ஸ்நான் தत्र ந விஷதே இதி ॥ **ப்ரசேதா: -** வஸ்தாந்தரிதஸஸ்பஶ: ஸாக்ஷாத் ஸ்பஶீர்வி஧ியதே । ஸாக்ஷாத் ஸ்பஶீர்வு யத்போக்தன் தத்தாந்தரிதேபி ச இதி ॥ **அஜ்ஜிரா: -** யஸ்து தாயா் ஶபாகஸ்ய ஬ால்ணோ ஹ்விரோஹதி । தத்த ஸ்நான் பிரகுவீர்த யூத் ப்ராய விஶு஧்யதி ॥ சண்டாலபதித்ச்஛ாயா் ஸ்பூஜ்வா ஸ்நான் ஸமாசரேத் இதி ॥

ஸம்வர்த்தரா:- நெருக்கமான இடத்திலும், மேடுபள்ளமுள்ள இடத்திலும், அதிகமாய்ச் செல்லமுடியாத இடத்திலும், ஹட்டம் (கடைத்தெரு), பட்டனம் இவைகளின் மார்க்கத்திலும் கூடியவரையில் ஒதுங்க வேண்டும். புற்களாலாவது, கட்டட முதலியவைகளாலாவது, சுவரினாலாவது மறைவுள்ள இடத்தில், கோவால வீஜனத்திற்கு உட்பட்டிருந்தாலும் ஸ்நானம் வேண்டுவதில்லை. (ஒரு பசு நின்று வாலை வீசினால், அந்த அளவுள்ள தூரம் கோவாலவீஜனம் எனப்படும்.) ப்ரசேதங்கள்:- வஸ்த்ரத்தால் மறைத்துத் தொடுவதும், நேராகத் தொடுவதாகவே கருதப்படுகிறது. நேராகத் தொடுவதில் எந்தவிதி சொல்லப்பட்டுள்ளதோ, அதுவே வஸ்த்ரத்தால் மறைத்துத் தொடுவதிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அங்கிருள்ளேன் எந்த ப்ராம்ஹணன் ச்வபாகனின் (நாய் மாம்ஸத்தைப் புஜிப்பவனின்) நிழலை மிதித்தானே அவன் ஸ்நானம் செய்து, நெய்யைப் புஜித்தால் சுத்தஞ்சானன். சண்டாளன், பதிதன் இவரின் நிழலைத் தொட்டால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.

ஸ்முரிதே—தாயாமந்த்யஶ்பாகாடே: ஸ்பூஷ்ண ஸ்நானं ஸமாச்ரேத् । சத்வாரிஂஶத் பदாදூர்஧் தாயாடோ ந வி஘ுதே இதி ॥ ஆபஸ்தம்஬: - எக்ஶாக்ஷி ஸமார்க்ஷஶ்பாலாடியீடா ஭வேத् । பிராஹ்ணஸ்தந் நிவஸன் ஸ்நானேந ஶுचிதாமியாத् இதி ॥ ஶாக்ஷா஗்ரஹணமேவங்ஜாதீயநாயோப-லக்ஷணார்஥ம् । அத ஏவ சந்திரகாயாம् - தாரே ஸ்ஸ்தர ஏகஸ்மிந் அஸ்பூஷை: ஸஹ திஷ்டதி । அஸ்பூஷஸ்தைருடுஷ்டோஸ்தித்யேவ் மூட்ஸ்து மன்யதே இதி ॥ தாரே - துணனிமீதே ॥

ஸ்ம்ருதிரத்தனத்தில்:- அந்தயஜன், ச்வபாகன் முதலியவரின் நிழலைத் தொட்டால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். 40 அடிக்கு மேல் நிழலின் தோஷமில்லை. ஆபஸ்தம்பார்:- ஒரு கிளையில் சண்டாளன் முதலியவன் ஏறியிருந்தால், ப்ராம்ஹணனும் அங்கிருந்தால்,

(तुरात्तिलिरुन्त्तालुम) अनंतप्रामूलेणानं स्नानत्तालं कुत्तगुवाणं कीला एन्नरुत्ता इम्मातीरीयाण त्रवंयन्कीला सेचाल्वतर्नकाक. आकेयालं, सन्तरीकेयिलः- पुरंकलालं चेय्यप्पट्ट ओरे पायं मुत्तलीयत्तिल, तेताटकं कुटातवरुटनं चेर्नंतिरुन्त्ताल. अवरालं नाणं तेताटप्पटातलालं तेताष्मिल्लातवण्ये इरुक्किण्ऱेण एन्नरु नीजेक्किण्ऱुनं मुटनं. (अवंवितम् नीजेप्पतु तवरु. अवनं तुष्टिनेयाम्.)

आपस्तम्बस्तु – मूढः स्वस्तरे चासंस्पृशन्यानप्रयतान् प्रयतो मन्येत तथा तृणकाष्ठेषु निखाते इति ॥ अत्र हरदत्तः – पतितचण्डाल-सूतिकोदक्याशवस्पृष्टितस्पृष्टच्युपस्पर्शने सचेलोपस्पर्शनाच्छुद्धयत् इति गौतमः । तस्मिन्विषये इदमुच्यते । शयनतया आसनतया वा सुषु आस्तीर्णः पलालादिसङ्घातः स्वस्तरः । पृष्ठोदरादिषु दर्शनाद्वूप-सिद्धिः । यत्रातिश्लक्षणतया पलालादेर्मलाग्रविभागो न ज्ञायते, स मूढः । मूढश्चासौ स्वस्तरश्चेति मूढस्वस्तरः । तस्मिन् पतितादिष्व-प्रयतेष्वासीनेषु यदा कश्चित् प्रयत उपविशेत्, न च तान् स्पृशेत्तदा स प्रयतो मन्यते । यथा प्रयत आत्मानं मन्यते प्रयतोऽस्मीति, तथैव मन्येत । नैवंविधविषये तत्स्पृष्टिन्यायः प्रवर्तते । तथा तृणकाष्ठेषु च भूमौ निखातेषु तत्स्पृष्टिन्यायो न भवति इति ॥

अुपसंत्तम्पारः- ‘मूटसंवसंतरे + निकातेष्वा’ एन्किऱुर. इतरंकु ल्लारत्तत्त्वाणि व्याक्याणम् - “पतितनं, सज्जंटाळाणं, लैत्तिके, रज्जसंबैल, सवत्ततेतत् तेताट्टवनं, अवैनेत् तेताट्टवनं एन्नरु इवर्कीला संपर्शित्तालं लैसेल ल्लानत्तालं कुत्तगुवाणं एन्ऱुर. केळात्तमार- अनंत वीष्यत्तिल इतु सेचाल्वप्पटुकिरतु. पटुक्केक्याक्वेवा, आसेनमाक्वेवा नन्ऱुय वीरीकप्पट्ट वेवक्केओलं मुत्तलीयत्तिलं तुवीयलं ‘संवसंतरम्’ एनप्पटुकिरतु. रेराम्प मंगुतुवाय इरुप्पत्तालं एत्तिल अष्टि नुनी एन्नरु वीपाकमं

தெரியவில்லையோ அது மூடம். அவ்விதமான ஸ்வஸ்தரம் மூடஸ்வஸ்தரம் எனப்படுகிறது. அதில் பதிதன் முதலிய அசுத்தர்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது, சுத்தனை ஒருவன் உட்கார்ந்தால், அவர்களைத் தொடாமலிருந்தால், அப்பொழுது அவன் சுத்தனென்று நினைக்க வேண்டும். சுத்தனையிருப்பவன் எப்படித் தன்னை சுத்தனையிருக்கிறேன் என்று நினைக்கின்றாலே அவ்விதமே நினைக்க வேண்டும். இவ்விதமான விஷயத்தில் தத்ஸ்ப்ரஷ்டி ந்யாயம் ப்ரவர்த்திப்பதில்லை அவ்விதமே, பூமியில் புதைக்கப் பட்டுள்ள புல், கட்டை இவைகளின் விஷயத்திலும் தத்ஸ்ப்ரஷ்டி ந்யாயம் ப்ரவர்த்திப்பதில்லை" என்று.

ஸ்நானस्य நிமித்தாந்தரமுக्तं சतுर்விஶதिमते— வௌதான्
பாஶுபதான् ஜைநான् லோகாயதிக காபிலான् । விகர்மஸ்஥ான் ஦ிஜான்
ஸ்பृஷ்டா ஸஞ்சேலோ ஜலமாவிஶேத् ॥ காபாலிகாஸ்து ஸஂஸ்பृஷ்ய
ப்ராணாயாஸோ஽஧ிகோ மதः இதி ॥ சந்திரகாயாம் – ஜைநான் பாஶுபதான்
ஸ்பृஷ்டா லோகாயதிகநாஸ்திகான் । விகர்மஸ்஥ான் ஦ிஜான் ஶதான் ஸவாஸா
ஜலமாவிஶேத् ॥ அவகிரிணமன்த்யஂ ச ஸ்பृஷ்டா ஸ்நானேந ஶுட்யதி । ஸ்பृஷ்டா
தேவலக்க் சைவ ஸவாஸா ஜலமாவிஶேத् ॥ தேவார்சனபரோ யஸ்து வித்தார்஥ி
வத்ஸரத்ரயம் । ஸ வை தேவலக்கோ நாம ஹ்யகவ்யேஷு ஗ர்ஹிதः இதி ॥

ஸ்நானத்திற்கு வேறு காரணமும் சொல்லப் பட்டுள்ளது, சதுர்விமசதுமைத்துதில்:- பெளத்தர், பாகுபதர், ஜெனர், லோகாயதிகர், காபிலர், நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்யும் ப்ராம்ஹணர்கள் இவர்களைத் தொட்டால் ஸகேல ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். காபாலிகர்களைத் தொட்டால் ப்ரானையாமமும் செய்ய வேண்டும். சந்தர்ரிகையில்:- ஜெனர், பாகுபதர், லோகாயதிகர், நாஸ்துகர், நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்யும் ப்ராம்ஹணர், சூத்ரர் இவர்களைத் தொட்டால் ஸகேல ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அவகீர்ணி, அந்தயஜன் இவர்களைத் தொட்டால் ஸ்நானத்தால் சுத்தனைகிறுன். தேவைகளைத் தொட்டாலும்

लेचेल लंगानम् चेय्य वेण्णुम्. नवनि पण्ठत्तेत
वेण्णटियवाण्णय, झुन्ऱु वरुषम् तेवप्पुज्जे चेय्किं
रुन्नेत्र, अवनि तेवलकन्न नन्प्पेटवान्न. अवनि
ह्रव्यंकलीलुम्, कव्यंकलीलुम् निन्तिक्कप पट्टवन्न.

यमः—शुना चैव श्वपाकेन मृतनिर्हरणेन वा । स्पृष्टमात्रस्तु
कुर्वित सचेलं प्लावनं द्विजः । दुःस्वप्ने दुर्जनस्पर्शेऽभ्युदिते स्नानमाचरेत्
इति । अभ्युदिते—शयानस्यादित्योदये ॥ स्मृत्यन्तरे—स्पृष्टा रुद्रस्य
निर्माल्यं सवासा आप्नुतः शुचिः इति ॥ संवर्तः—श्वराहखरानुष्ट्रान्
वृकगोमायुवानरान् । काककुक्कुटगृध्रांश्च स्पृष्टा स्नानं समाचरेत् इति ॥
हारीतः—चाटकं कुक्कुटं कांकं श्वसृगालशिवावृकान् । चितिधूमश्म-
शानानि विद्वराहखराशुचीन् ॥ अवकीर्णिमन्त्यं च स्पृष्टा स्नानं
विधीयते इति ॥ पैठीनसिः—काकोलूकस्पर्शने स्नान
मनुदकमूत्रपुरीषकरणे सचेलस्नानं महान्याहृतिहोमश्च इति ॥ अङ्गिराः
—कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा यदा नैवोदकं भवेत् । स्नात्वा लब्धोदकः पश्चात्
सचेलस्तु विशुद्ध्यति ॥

यमनः:- नाय्य, चंवपाकन्न, चवत्ततेत्स चमप्पवन्न
अिवर्कलाल लंपर्सिक्कपपट्टाल, उटेने लेचेल
लंगानम् चेय्य वेण्णुम्. तुष्टल्लवप्पनम्
कन्नटालुम्, तुर्जनैनत तेत्ताट्टालुम्, पात्तिरुक्कुम
पेपामुत्र लंगर्येयात्यमाणेलुम्, लंगानम् चेय्य
वेण्णुम्. मर्त्तेन्नुरु लंमंरुत्तीयिलः- चिवनिर्माल्यत्ततेत्त
तेत्ताट्टाल लेचेल लंगानत्ताल चत्तत्तालुवान्न.
लंमवार्त्ततरः:- नाय्य, पन्नरि, कमुतेत, ओट्टकम, चेन्नाय्य,
नरी, कुरंकु, काक्केक, केंद्री, कमुकु अिवेकलैत
तेत्ताट्टाल लंगानम् चेय्य वेण्णुम्. ह्रार्त्तारः:-
साटकम, केंद्री, काक्केक, नाय्य, नरी, बेपन्न नरी, चेन्नाय्य,
चवप्पुकेक, स्मकानम्, पन्नरि, कमुतेत, अक्षत्तन्न,
अवकीर्णी, अन्त्यज्जन अिवर्कलैत तेत्ताट्टाल लंगानम्
चेय्य वेण्णुम्. घेवान्नलीः- काक्केक, केंद्राट्टालं

இவைகளின் ஸ்பர்சத்தில் ஸ்நானம். ஜலமில்லாமல், மூத்ரமல விஸர்ஜனம் செய்தால் ஸ்ரோதை ஸ்நானமும், மஹாவ்யாஹ்ருதிகளால் ஹோமமும் விதிக்கப்படுகின்றன. அங்கிரஸ்:- மல மூத்ர விஸர்ஜனம் செய்தவன் ஜலமே கிடைக்காவிடில், பிறகு கிடைத்த பொழுது செளசத்துடன் ஸ்ரோதை ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தனாகிறுன்.

ஸ்ரங்கூரை— ஗ौल्याश्र स्पर्शमात्रे तु सरटाकृकलासयोः । श्रुभे वाऽप्यशुभेवाऽपि सचेलस्तानमाचरेत् इति ॥ मनुः— नारं स्पृष्टाऽस्थि सखेहं स्त्रात्वा विप्रो विशुद्ध्यति । आचम्यैव तु निः स्त्रेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा इति ॥ विष्णुः— भक्ष्यवर्ज पञ्चनखं तदस्थि सखेहं च स्पृष्टा स्त्रायात् इति ॥

ஸ்மிருதஹத்தில்:- பல்லி, அரணை, ஒண்ண் இவைகளின் ஸ்பர்சம் சுபத்திலானாலும், அசுபத்திலானாலும், ஸ்ரோதை ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். மனு:- ப்ரராம்ஹணன், மனிதனின் பசையுள்ள எலும்பைத் தொட்டால் ஸ்நானத்தால் சுத்தனாகிறுன். ஈரமில்லாத எலும்பைத் தொட்டால் ஆசமனம் செய்து, பசுவை ஸ்பர்சித்து, அல்லது ஸ்ரோதைத் தர்சித்துச் சுத்தனாகிறுன். விஷ்ணு:- பக்ஷணத்திற்கு அர்ஹமல்லாத பஞ்சநகப்ரராணியை ஸ்பர்சித்தாலும், பஞ்ச நகத்தின் (ஜந்துநகமுள்ள ப்ரராணியின்) ஈரமுள்ள எலும்பை ஸ்பர்சித்தாலும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.

श्रस्पर्शे विशेषमाह आपस्तम्बः— शुनोपहतः सचेलोऽवगाहेत प्रक्षाल्य वा तं देश मग्निना संस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाचम्य प्रयतो भवति इति ॥ व्यवस्थितविकल्पोऽयम् ॥ तथा च मनुः— ऊर्ध्वं नामे: करौ मुक्त्वा यदज्ञमुपहन्यते । तत्र स्त्रानविधिः प्रोक्ता व्यधः प्रक्षालनं स्मृतम् इति ॥ விஷ்ணுரपி— நாமேர஧: கராற்வா ஶுனா யதுபஹந்யதே । பிரக்ஷால்ய தத்திவ்வால்ய புனராசம்ய ஶுநாஸ்பூஷே

लिसोऽमेध्येन वा पुनः । प्रक्षाल्य मृद्धिरङ्गानि सचेलं स्नानमर्हति ॥
 शातातपः— रजकश्चर्मकृचैव व्याधजालोपजीविनौ । निर्णेजकः
 सौनिकश्च नटः शैलूषकस्तथा ॥ मुखेभगस्तथाश्च ग्रामकुकुटसूकरौ ।
 एतैर्यदञ्जं स्पृष्टं स्यात् शिरोबर्जं द्विजातिषु । तोयेन क्षालनं कृत्वा
 आचान्तः प्रयतो मतः इति ॥ अत्रापि शुना साहचर्यात् शिरोग्रहणं
 नामेष्वर्धवन्निपलक्षणार्थम् ॥

नायिनं संपर्चत्तुलं विचेष्ठत्तेतत्सं चेऽल्लुकिरुर्.
 आपस्तम्पराः— नायालं तिण्टप्पट्टवं लचेल
 संनानमं चेय्य वेण्टुम्. अल्लतु अन्त प्रतेषत्तेत
 अलम्पि, अक्णीयिणुलं तेऽटु, मरुपटि अलम्पि,
 काल्कजैयुमं अलम्पि, आचमनमं चेय्तालं सत्तत्तेणिरुन्.
 इतु व्यवस्तीत विकल्पम्. अववितमे, मनुः— नापिक्कु
 मेलं केकलं तवीर एन्त अंकमावतु नायालं तिण्टप्पट
 अतिलं संनानमं वित्तिकप्पटुकिरतु. नापिक्कुकं क्षिरान
 अंकमाणुलं अलम्पुतलं वित्तिकप्पटुलातु. विष्णुवुमः— नापिक्कुकं क्षिरुलां
 अंकमावतु, इरुमुरै आचमनमं चेय्तालं सत्तत्तेणिरुन्.
 नापिक्कु मेलं नायालं तिण्टप्पट्टालं, अल्लतु
 मलत्तालं सम्पन्तप्पट्टालं, मण्णुलं अंकनंकजै
 अलम्पि, लचेल संनानमं चेय्य वेण्टुम्. शातातुपराः—
 वण्णुन, सक्किली, वेटन, वलयन, नीरेणेज्जकन,
 माम्सलवीकर्यै, नटन, शेलुषकन, मुकेपकन, नाय,
 ऊर्क्केऋै, पन्नी इवर्कलाल, तलैयेत तवीर एन्त
 अंकमं तेऽटप्पट्टेऽ अतेत ज्ञलत्तालं अलम्पि
 आचमनमं चेय्तालं प्रराम्भणनं सत्तत्तेणिरुन्.
 इंकुम, नायुतनं चेस्नंतिरुप्पतालं, तलैयेयन्ततु
 नापिक्कु मेन्पट्ट अंकनंकजैयुमं चेऽलवत्तरं कामं.

जातुकर्णोऽपि—ऊर्ध्वं नामे: करौ मुक्त्वा यदञ्जं स्पृशते खगः ।
 स्नानं तत्र प्रकुर्बीत शेषं प्रक्षाल्य शुध्यति इति ॥ खगः— पक्षी ॥ शङ्खः—

රූත්‍යාකර්ධීමතියෙන එළිවනාදෙන බා තත්‍ය | නාමේරුද්ධ්‍ය නර: සැපුෂ: සය: සානෙන ගුද්‍යති ඇති || ය්‍යාස: - බාසබානරමාජරිකරෝධාණා ගුනා තත්‍ය | සුකරාණාමමේද්‍ය වේ සැපුෂ්ඩා ස්‍යායාත් සන්චේලකම් ඇති ||

ඇෂාතුකාර්ණාරුම්:- නාපික්කු මෙල් ගෙකකෙන් තවිර ගන්ත අන්කත්තෙයාවතු පක්ෂී ස්පර්ශිත්තාල්, අප්පොමුතු ස්නානම් රෙස්ය වෙන්ගුම්. මත්ත අන්කත්තෙයාගෙන් අලම්පියතාල් ස්ත්තගුණිගුණ්. සාන්කාර්:- බේතියිලුණ්ල සේරුලාවතු තණ්ණ්රාලාවතු, ගස්සිල් (කොමු) මුතලියතාලාවතු නාපික්කු මෙල් මණිතන් තොටප්පට්ටාල් ඉතුනේ ස්නානත්තාල් ස්ත්තගුණිගුණ්. බ්‍යාසර්:- පරුන්තු, කුරංකු, පුණී, කමුතෙ, ඉට්ටකෙ, නාය්, පන්ති මිශ්චෙකාලීන් මලත්තෙ ස්පර්ශිත්තාල් එසේල ස්නානම් රෙස්ය වෙන්ගුම්.

චිජු:— ආජානුම්‍යා බහේතු ස්‍යානමානාම්‍යුපත්සේදහ: | ඇද්ධ්‍ය නාමේන්නිරාත්‍ර ස්‍යාදමේද්‍යසැපුජ්‍යා තිඝි: ඇති || මනු: - ප්‍රශ්න බිඳාලක් සැපුෂ්ඩා ස්‍යාත්වා විප්‍රෝ විගුද්‍යති | බෞජනේ කර්මකාලේ ඡ විධිරෙශ තදාහුත: ඇති || ඝතරාජසැපුජ්‍යාත්වාචමනමේව, මාජරිමුඩිකසැපුජ්‍යා කර්ම කුරුඛුපසැපුජ්‍යාතු ඇති බුහස්පති ස්මරණාතු || අන්යකාලේ මාජරිසැපුජ්‍යානාඡුජි: | තත්‍ය ඡ මනු: - මාජරිඹෑව දර්වී ඡ මාරුත්ත්‍ය සඬා ගුජි: ඇති ||

විශ්නු: - පාතම් මුතල් මුෂ්‍රණකාලුක්කුල් මලත්තාල් ස්පර්ශම ග්‍රහප්පට්ටාල් ස්නානම් රෙස්ය වෙන්ගුම්. අතර්කු මෙල් නාපි බැරෙයිලාගෙන් පකල් මුෂ්‍රණවතුම් ඉපවාසමිගුරුක්ක වෙන්ගුම්. අමෙත්ය ස්පර්ශත්තිල් මූල්‍යවිතම් බිතියාම්. මතු: - පරාම්ඛුණන් පුණියාය වාවිල් තොට්ටාල් ස්නානම් රෙස්තාල් ස්ත්තගුණිගුණ්. පොජන කාලත්තිලුම්, කර්මානුජ්‍යාන කාලත්තිලුම් මින්ත බිති නොලැබප්පට්ටුණ්ලතු. මත්ත අන්කංකාලීන් ස්පර්ශත්තිල්

आचमनम् मट्टिलं. 'कर्मानुष्टानम् चेय्पवनं पूजैन,
तःलि इवेकौला॑स्पर्शित्तालं आचमनम् चेय्य वेण्टुम्
एन्ऱु प्रगुहूस्पति चेऽल्लियिरुप्पतालं. मन्त्रकं
कालत्तिलं पूजैनयेयं तेऽलुवतालं अस्त्तियिल्लै.
अव्वित्तमेम, मनुः- पूजैन्युम्, परीमारुकिरु करण्णियुम्,
कार्त्त्रुम् एप्पेबामुतुम् स्त्तमाम्.

पराश्वरोऽपि - मार्जरिमक्षिकाकीटपतञ्जूमिदर्दुराः । मेध्यामेध्यं
स्पृशन्तोऽपि नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत् ॥ यदा पुनरशुद्ध शादीन् स्पृशति,
तदा विशेषो देवलेन दर्शितः - श्वाकं पतितं चान्त्यमुन्मत्तं शबदाहकम्।
सूतिकां साविकां नारी रजसा च परिस्तुताम् । श्वकुक्तवराहांश्च ग्राम्यान्
संस्पृश्य मानवः । सचेलः सशिराः स्नात्वा तदानीमेव शुध्यति ॥
स्वयमेवैतानशुद्धस्तु यदि स्पृशेत् । विशुध्यत्युपवासेन तथा कृच्छ्रेण वा
पुनः इति । साविका - प्रसवस्य कारियित्री ॥ एतद्विष्टपूर्वस्पर्शविषयम्।
तथा च कूर्मपुराणम् - उच्छिष्टोऽन्दिरनाचान्तश्चण्डालादीन् स्पृशेद्विजः ।
प्रमादाद्वै जपेत् स्नात्वा गायत्र्यष्टसहस्रकम् ॥ चण्डालपतितादीस्तु
कामाद्यः संस्पृशेद्विजः । उच्छिष्टस्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये इति ॥

प्राचरणम्:- पूजैन, ई, पूस्चि, वीट्टिलं, पुमु, तवौला
इवेकौलं स्त्त वस्तुकंकौलायुम् अस्त्त वस्तुकंकौलायुम्
तेऽलुकिन्ऱनवायिन्नुम्, अवेकौलिं स्पर्शित्तालं
अस्त्तियिल्लै एन्ऱु मनु चेऽल्लियुलोर. एप्पेबामुतु
तालं अस्त्त गुण्यिरुन्तु नायं मुतलियतेत्त
तेऽलुकिन्ऱुलेऽ, अप्पेबामुतु विशेषम् तेवलरालं
काण्णपिक्कप्पट्टुलोतु. क्वपाकनं, पतितनं, अन्त्यज्जनं,
उन्मत्तनं, सवत्ततेत्त तल्लिप्पवनं, लैलिकै,
सरावीकै, रज्जुस्वलैल, करामत्तिलुलो, नायं, कोम्मि,
पन्नरि इवर्कौलामनीतनं स्पर्शित्तालं वस्त्रत्तुटनं तलै
मुमुक्तिलै अप्पेबामुतेऽस्त्त गुण्यिरुन्तु. अस्त्त तर्कौलान
इवर्कौला॑स्वयम् अस्त्त गुण्यिरुप्पवनं स्पर्शित्तालं
उपवासत्तालं, अल्लतु करुचरत्तालं, स्त्त गुण्यिरुन्तु.
(सरावीकै = प्रसवम् चेय्विप्पवनं) इतु पुत्ति

பூர்வமாய் ஸ்பர்சித்த விஷயம். அவ்விதமே, கூர்மபுராணம்:- அசுத்தனையிருக்கும் ப்ராம்ஹணன் ஆசமனம் செய்யாமல் சண்டாளன் முதலியவரைக் கவனிக்காமல் ஸ்பர்சித்தால், ஸ்நானம் செய்து, 1008 - முறை காயத்ரியை ஜபிக்க வேண்டும். எந்த ப்ராம்ஹணன் தான் அசுத்தனையிருந்து, சண்டாளன், பதிதன் முதலியவரை புத்தி பூர்வமாய் ஸ்பர்சித்தானே அவன் சுத்திக்காக ப்ராஜாபத்ய க்ருச்ரத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

அனேனைவாமிப்ராயேண விஷ்ணுரपி – அனுच்஛ிஷ்டேந ஸ்ஸ்பூஷே ஸாந் யேந வி஧ீயதே | தேநௌஞ்சிஷ்ட ஸ்ஸ்பூஷः ப்ராஜாபத்யேந ஶு஧்யதி இதி | பராஶரः – அனுஞ்சிஷ்டேந ஶூதேந ஸ்பூஷே ஸாந் வி஧ீயதே | தேநோஞ்சிஷ்டேந ஸ்ஸ்பூஷः ப்ராஜாபத்ய ஸமாசரேத् | உஞ்சிஷ்டோஞ்சிஷ்டஸ்ஸ்பூஷः ஶுநா ஶூதேந வா ஦ிஜः | உபோஷ்ய ரஜநிமேகாங் பஞ்ச஗வ்யேந ஶு஧்யதி இதி | அனுஞ்சிஷ்டஸ்ய னிப்ரஸ்ய அனுஞ்சிஷ்டஶூதஸ்பூஷே ஸாநமாநம्, உஞ்சிஷ்ட ஶூதஸ்பூஷே கृஞ்சம् | உஞ்சிஷ்டஸ்ய ஦ிஜஸ்யாந்யேந உஞ்சிஷ்டேந ஦ிஜேந ஶுநா வா | அனுஞ்சிஷ்ட ஶூதேந வா ஸ்பூஷே ஏக்஦ிநமுபவாஸः, பஞ்ச஗வ்யப்ராஶனங்சேत்யर्थः: ||

இதே அபிப்ராயத்தினால், விஷ்ணுவும்:- உச்சிஷ்டனல்லாத எவனால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டதில் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகின்ற தோ, அவனால் உச்சிஷ்ட னானவன் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் ப்ராஜாபத்ய க்ருச்ரத்தால் சுத்தனைகிறுன். பராசரர்:- உச்சிஷ்டனல்லாத சூத்ரனால் ஸ்பர்சமானால் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகின்றது. உச்சிஷ்டனை சூத்ரனால் ஸ்பர்சமானால் ப்ராஜாபத்ய க்ருச்ரத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். உச்சிஷ்டனல்லாத ப்ராம்ஹணனாக்கு, உச்சிஷ்டனல்லாத சூத்ரனின் ஸ்பர்சத்தில் ஸ்நானம் மட்டில். உச்சிஷ்டனை சூத்ரனால் ஸ்பர்சத்தில் க்ருச்ரம். உச்சிஷ்டனை ப்ராம்ஹணனாக்கு, உச்சிஷ்டனை ப்ராம்ஹணால், அல்லது நாயினால், அல்லது உச்சிஷ்டனல்லாத சூத்ரனால் ஸ்பர்சத்தில் ஒருநாள் உபவாஸமும், பஞ்சகவ்ய ப்ராசனமும் என்பது பொருள்.

स्मृत्यन्तरे – चण्डालं पतितं श्वानमुदक्यां सूतिकां तथा । दृष्ट्वा भुक्त्यन्तरे स्नात्वा मानस्तोकेत्यृचं जपेत् ॥ उच्छिष्टबदनो विप्रः शूद्रादीनावलोकयेत् । अवलोकयेत् प्रमादाचेत् सह तैर्भुक्तवान् भवेत् इति ॥ भरद्वाजः – शाबे शवगृहं गत्वा श्मशाने बाऽन्तरेऽपि वा । आतुरव्यञ्जनं कृत्वा दूरस्थोऽप्यशुचिर्भवेत् इति ॥ आतुरव्यञ्जनम् - मृतविषयविलापादि ॥ पराशारः – अस्थिसञ्चयनादूर्ध्वं रुदित्वा स्नानमाचरेत् । अन्तर्देशाहे विप्रस्य ह्यूर्ध्वमाचमनं भवेत् ॥ शिशो रम्युक्षणं प्रोक्तं बालस्थाचमनं स्मृतम् । रजस्वला(मि)दिसंस्पर्शे स्नानमेव कुमारके शिशुरादन्तजननादाचलद्वालकः स्मृतः । कुमारः स तु विज्ञेयो बुधैरामौजिबन्धनात् इति ॥

मर्गिण्युरु संमंगुक्तीयिलः - चण्डालान्, पतितान्, नायं, रजुस्वलै, सौभिकै, इवर्कैनपि पोज्जन मत्यत्तिलं पार्त्त्वाल, स्नानमं चेय्तु, 'माणस्तेऽको' एन्ऱ रुक्कै ज्ञपिक्क वेण्णुम्. उच्चिष्टमान वाययुतैय प्रराम्भैन्न शुत्रानं मृतवियवरैपि पार्ककक्क कूटातु. कवनमिल्लामलं पार्त्त्वाल अवरुटनं पूज्यत्तवैन्य आवानं. प्रत्त्वाज्ञारः - सावत्तिलं सवक्कुरुहमं चेन्ऱुलुम, चंमचानत्तिलेला न उविलेला आतुरव्यञ्जनमं चेय्तालुम, तुरत्तिलं इरुप्पवैन्यलुम असत्त्वावानं. (आतुरव्यञ्जनमं = इरन्ततवैनकं कुरित्तु अमुवतु मृतवियतु) पराशराः - अस्ति उर्ज्जयनत्तिन्ऱ्कुपि प्रिरकु पत्त्वुनाट्करुन्न अमुत्वालं स्नानमं चेय्य वेण्णुम्. अतर्कुपि प्रिरकु प्रराम्भैन्न अुक्कु आचमनमं वित्तिकप्पट्टुैन्न तु. चिकुकु प्रेरोक्षनमं चेाल्लप्पट्टुैन्न तु. पालनुक्कु आचमनमं चेाल्लप्पट्टुैन्न तु. रजुस्वलाति स्पर्सत्तिलं कुमारनुक्कु स्नानमेव वित्तिकप्पट्टुैन्न तु. पर्कै मैनैक्कुमं वरै चिकुवाम. चेसाचमं वरैयिलं पालनं एनप्पट्टुैकिरुन्न. उपन्यानमं वरैयिलं कुमारनं एन्ऱ वित्वान्कै चेाल्लुकिन्ऱनर.

निमित्तान्तरमाह स एव – तस्मिन्ब्राचमनं कुर्यादित्र भाष्टेऽथ
भुक्तवान् । यद्युत्तिष्ठत्यनाचान्तः भुक्तवानासनात्ततः । स्तानं सद्यैः
प्रकुर्वीत सोऽन्यथाऽप्रयतो भवेत् इति ॥ स एव – वृक्षधानसृगालाद्यैः
दष्टो यस्तु द्विजोत्तमः । स्तात्वा जपेत् स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम् ॥
गवां शृङ्गोदकस्तानं महानद्योस्तु सज्जमे । समुद्रदर्शनाद्वाऽपि शुनादष्टः
शुचिभवेत् । वेदविद्यात्रतस्तातः शुना दष्टो द्विजो यदि । स हिरण्योदके
स्तात्वा घृतं प्राश्य विशुद्धति ॥

वेरु निमित्ततमुम चेऽल्लुकिरुर्. पराचररोः:- एन्तप्प
पा॒त्रत्तु॒ल॒ उ॒ल॒ अ॒ति॒ल॒ ये आ॒चमनम् चेय्य
वेण्टु॒म्. आ॒चमनम् चेय्यामलं अ॒न्त आ॒ल॒त्तु॒ल॒ इ॒रुन्तु॒
ए॒मुन्तु॒त्ता॒लं उ॒ट॒ल॒ ल॒न॒ ल॒न॒ चेय्य वेण्टु॒म्.
இல்லாவிடில் அவன் அசுத்தனைவான். பராசரரே:-
செந்நாய், நாய், நரி முதலிவைகளால் கடிக்கப்பட்ட
ப்ராம்ஹணன் ஸ்நானம் செய்து சுத்தமாகியதும்,
வேதமாதாவாகியதுமான காயத்ரியை ஐபிக்க வேண்டும்.
பகவின் கொம்பிலுள்ள ஜலத்தால் ஸ்நானம்,
மஹாநதிகளின் ஸங்கமத்தில் ஸ்நானம், ஸமுத்ர தர்சனம்
இவைகளில் ஒன்றினால் நாயால் கடிக்கப்பட்டவன்
சுத்தனைவான். வேதாத்யயனம் செய்து வித்யாவ்ரத
ஸ்நாதனை ப்ராம்ஹணன் நாயால் கடிக்கப்பட்டால்
ஸ்வர்ணத்துடன் கூடிய ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்து,
நெய்யை ப்ராசனம் செய்தால் சுத்தனைகிறன்.

सब्रतस्तु शुना दष्टो यस्त्रिरात्रमुपावसेत् । घृतं कुशोदकं पीत्वा व्रतशेषं
समाप्येत् । अब्रतः सब्रतोवाऽपि शुना दष्टो भवेद्द्विजः । प्रणिपाताऽद्वेत्
पूतो विप्रैश्चक्षुर्निरीक्षितः ॥ शुनाऽऽघ्रातावलीडस्य नखैर्विलिखितस्य
च । अद्विः प्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोप(चूल)धूपनम् ॥ शुना तु ब्राह्मणी
दष्टा जम्बुकेन वृक्षेण वा । उदितं ग्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सद्यः शुचिभवेत् ॥
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । यां दिशां व्रजते सोमस्तां दिशां

चावलोकयेत् ॥ असद्ब्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टो द्विजोत्तमः । वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नात्वा विशुध्यति इति ॥ वृकः - आरण्यकश्चा आदिशब्देन वराहादयो गृह्यन्ते । तैर्दष्टः स्नात्वा गायत्र्यष्टशतं जपेत् । एतच्चासमर्थविषयम् ।

वरतानुष्टानत्तिलं इरुक्कुमं प्रामंहृणन्न नायालं कटिक्कप्पट्टालं रुन्नरु नाळं उपवासमिरुक्क वेण्णुम्. नेयं, कुसोतकमं इवेवकौलाप्राचनमं चेय्तु. वरतत्तिनं चेष्टत्तेत मुटिक्क वेण्णियतु. वरत मनुष्टिप्पवनं आग्नेयुम्, अनुष्टिक्ककातवनं आग्नेयुम्, नायिणेलं कटिक्कप्पट्ट प्रामंहृणन्न, प्रामंहृणरकौला नमस्करीत्तु, अवर्करीनं कण्णकौलं पारक्कप्पट्टालं सृत्तानुकिरुन्. नायालं मुकरप्पट्टतुम्, नाक्किणेलं नक्कप्पट्टतुम्, नक्कंकौलं क्षेप्पट्टतुमान अंकत्तित्रिं क्षेत्रालं अलमंपुत्रुम्, अक्किण्या स्पर्शमुम् चेऽल्लप्पट्टुलातु. नायं अल्लतु नरी, अल्लतु चेन्नायं इवेवकौलं कटिक्कप्पट्ट प्रामंहृण सेतरी, उत्यमान क्षरहृम्, नक्किरमं इवेवकौलप्प पारक्कलं अप्पेबामु तेऽसृत्तेयाकिरुन्. क्षरुष्णेन पक्षुत्तिलं एप्पेबामुत्तावतु सन्तरनं काणप्पटावीटिलं, एन्तक्क तिक्किलं सन्तरनं चेल्किरुणेऽनंतत्त तिक्केकप्प पारक्क वेण्णुम्. प्रामंहृणर इल्लात क्षरामत्तिलं, नायालं कटिक्कप्पट्ट प्रामंहृणन्न, उटेने सेन्नाणमं चेय्तु वंगुष्ठपत्तेत प्रतकौलिणमं चेय्तालं सृत्तानुकिरुन्. इन्कु आतिच्पत्तत्तालं पन्नी मुत्तियवै चेऽल्लप्पटुकिन्नरन्. अवेवकौलं कटिक्कप्पट्टवनं, सेन्नाणमं चेय्तु 108 - मुरै कायत्रीये ज्यपिक्क वेण्णुम्. इतु असक्तविष्यम्.

समर्थस्तु गोशृजोदकस्नानादिकमाचरेत् । तत्र शृजोदकस्नानं नाम शृजपूरितेनोदकेन गायत्र्या शतवारमभिमन्त्रितेन सेचनम् । शृजोदकस्नान सञ्जमस्नान समुद्रदर्शनानामधम मध्यमोत्तमभेदेन वा दंशतारत्येन वा

வயவச்சா | ஸாவ்ரதாவுமாவபி விப்ரான् ப்ரபுஷிபதி தைநிரிக்ஷிதௌ யதோக்தப்ராயக்ஷிதாசரணே பூதை ஭வத: | யஸ்மிந् ஗்ராமே ஬ாஹ்ணா ந ஸந்தி, தத்து ஬ாஹ்ணப்ரபுஷிபதனிரிக்ஷிதயோ: ஸ்஥ானே வூஷப்ரபுஷிபதனை ஦ிஷ்டஷ்யே | யஸ்து ஶுனா ந ஦ஷ: , கிஞ்சு நாஸிக்யாட்டப்ராத: , ஜிஹ்வாட்வலீட: , நகைவா விலி஖ித: , எதே திரயோடபி தஂ ப்ரதேஶம் ப்ரக்ஷால்ய வஹிநா ஸ்ந்தாப்ய ஶுஞ்ச: ஸ்யுரிதி மா஧வீயே வ்யாக்ஷாதம் ||

சக்தஞ்சூகில் கோச்சுங்கோதக ஸ்நானம் முதலியதைச் செய்ய வேண்டும். அதில் கோச்சுங்கோதக ஸ்நானம் என்பது, (இறந்த) பசுவின் கொம்பில் ஜலத்தை நிரப்பி, காயத்தியால் நூறுமுறை அபிமந்திரித்து அதனால் ஸ்நானம் செய்வதாம். ச்சுங்கோதக ஸ்நானம், ஸங்கம ஸ்நானம், ஸமுத்ரதர்சனம் இவைகளுக்கு உத்தமமத்யம அதமதாரதம் யத்தாலாவது, கடியின் தாரதம்யத்தாலாவது வ்யவஸ்தையை அறியவும். வரதமுடையவன் வரதமில்லாதவன் இருவரும், ப்ராம்ஹணர்களை நமஸ்கரித்து அவர்களால் பார்க்கப்பட்டால் யதாவிது ப்ராயச் சித்தத்தால் சுத்தராகின்றனர். எந்த க்ராமத்தில் ப்ராம்ஹணர் இல்லையோ அங்கு, ப்ராம்ஹண நமஸ்கார தர்சனங்களின் ஸ்தானத்தில், வருஷப ப்ரதக்ஷிணமும் ஸ்நானமும் என்றநியவும். எவன் நாயால் கடிக்கப்படாமல், மூக்கினால் முகர்க்கப்பட்டானே அவனும், எவன் நாக்கினால் நக்கப்பட்டானே அவனும், எவன் நகங்களால் கிறப்பட்டானே அவனும், இம்மூவரும், அந்த இடத்தை அலம்பி, அக்னியால் சுடச் செய்தால் சுத்தராகின்றனர், என்று மாதவீயத்தல் வ்யாக்ஷானம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஶாதாதபோடபி – ஗ார் ஶृங்கோடகஸ்தாநாந்மஹாநடுப்ஸஜ்மாத் | ஸமுद்ரதர்நாஷாடபி ஶுனா ஦ஷ: ஶுசி஭வீத் | அவ்ரத: ஸாவ்ரதோ வாட஥ ஶுனா ஦ஷ்ஸ்து யோ ஦ிவிஜ: | ஹிரண்யோடகமித்து ஘ுதம் ப்ராஶய விஶு஧்யதி இதி | வஸிஷ்ட: – ஬ாஹ்ணஸ்து ஶுனா ஦ஷ: நர்஦ி ஗த்வா ஸமுத்ராம | ப்ராணாயாமஶதம் கூத்வா ஘ுதம்

प्राश्य विशुध्यति इति ॥ अङ्गिराः - ब्रह्मचारी शुना दषः त्रिरात्रेणैव शुध्यति । गृहस्थस्तु द्विरात्रेण एकाहेनाग्निहोत्रवान् । नाभेष्ठर्ध्वं तु दषस्य तदेव द्विगुणं भवेत् । तदेव त्रिगुणं वक्त्रे मूर्धि चेत् स्याच्चतुर्गुणम् ॥ अत्र विच्छद्योनिस्तु स्नानेनैव शुचिभवित् । द्विगुणं तु बनस्थस्य तथा प्रब्रजितस्य च ॥ ब्राह्मणी तु शुनादषा सोमे दृष्टिं निपातयेत् । यदा न दृश्यते सोमः प्रायश्चित्तं तदा कथम् ॥ यां दिशं तु गतस्सोमः तां दिशं ह्यबलोकयेत् । सोममार्गेण सा पूता पञ्चव्येन शुध्यति इति ॥

सात्रात्परुमः :- केऽक्षरुं केऽतक ल्नानत्तालुम्, मल्लान्ति लन्कम स्नानत्तालुम्, समुत्तर तर्सनत्तालुम्, नायालं कृष्णकप्पट्टवै चत्तनुवाणं । वरत मनुष्णिप्पवनुयिनुम्, अनुष्णिकृष्णकातवनुयिनुम्, नायालं कृष्णकप्पट्ट प्राम्लृणाणं, ल्वर्वर्णनत्तुतनुम्, जलत्तुतनुम् कृष्ण नेयप्परुक्तिगुलं कृत्तनुकिरुन् । **वलिष्टारः** :- नायालं कृष्णकप्पट्ट प्राम्लृणाणं, समुत्तरम् नेककिप्पे परुक्तिरुन्ति नेयप्परुक्तिरुन्ति ल्वर्वर्णनम् चेय्तु, 100 मुरै प्राणेयामम् चेय्तु, नेयप्परुक्तिगुलं कृत्तनुकिरुन् । **अक्षिरासः** :- परम्परुक्तिरासी, नायालं कृष्णकप्पट्टालं मुन्नरु नाटकानुकुप्पि प्रिरु कृत्तनुकिरुन् । कृत्तलूप्तनुकिल इरण्णु नाटकालालं कृत्तनुकिरुन् । अक्षिरासी ल्वर्वर्णनालं ओरु नालालं कृत्तनुकिरुन् । नापिक्कुमेलं कृष्णकप्पट्टालं, अतुवे इरु मटन्काकुम् । मुक्तिलं कृष्णकप्पट्टालं अतुवे मुन्नरु मटन्काकुम् । तैलयिलं कृष्णकप्पट्टालं अतुवे नाण्कु मटन्काकुम् । कृष्णरासी, वैवस्यनं, कुत्तरासं इवर्कलं नायालं कृष्णकप्पट्टालं स्नानत्तालेये कृत्तराकिन्नरासी । वाणप्रस्तनुकु इरण्णु मटन्कु, लेण्यालिक्कुमप्पट्टये । नायालं कृष्णकप्पट्टालं, प्राम्लृणा ल्नत्तरी सन्तराणीत्तिलं कण्णैणैसं चेलुत्त वेण्णुम् । सन्तराणं काणप्पटामलं इरुक्कुमप्पे प्रोतु प्रायश्चित्तम एप्पटी? एनीलं, सन्तराणं एन्तत्त त्रिक्किलं

சென்றிருக்கின்றாலே அந்தத் துக்கைப் பார்க்க வேண்டும். அதனால் அவள் சுத்தையாகி, பஞ்சகவ்யத்தால் சுத்தையாகிறாள்.

அருணோदயாத् பூர்வமாவி ஸ்நானं நிஷே஧தி பராஶரः – ஭ாஸ்கரஸ்ய கரை: பூத் ஦ிவா ஸ்நானं பிரஶஸ்யதே | அப்ரஶஸ்த நிஶி ஸ்நானं ராஹோரந்யத் தீர்ணாத् | ஸ்நானं ஦ானं ஜபோஹம: கர்த்துயோ ராஹுதீர்ணி | அந்யதா த்வஶுநீ ராத்ரி ஸ்தஸ்மாத்தா பரிவாஜயேத் தீர்ணி ||

அருணேதயத்திற்கு முன் ஸ்நானத்தை நிஷே஧தி கிளிக்கின்றார். பராஶரார்:- ஸ்த்ரீய கிரணங்களால் சுத்தமாவதால் பகலில் ஸ்நானம் புகழுப்படுகிறது. ராத்ரியில் ஸ்நானம் ப்ரசஸ்தமல்ல. ராஹூத் தர்சனம் (க்ரஹணம்) தவிர்த்து. ராஹூதர்சனத்தில், ராத்ரியானாலும் ஸ்நானம், தானம், ஜபம், ஹோமம் இவைகளைச் செய்ய வேண்டும். மற்றக் காலத்தில் ராத்ரி அசுத்தம். ஆகையால் அதை (ஸ்நானத்திகளில்) வர்ஜிக்க வேண்டும்.

மனु: – ந ஸ்நானமாச்சரேஷ்வக்த்வா நாதுரோ ந மஹாநிஶி | ந வாஸோமி: சஹாஸ்த நாவிஜ்ஞாதே ஜலாஶயே தீர்ணி || ந ஸ்நானமாச்சரேஷ்வதேதி ஦ீஷார்஥ஸ்ய ஸ்நானஸ்ய நிஷே஧: | நாதுர இத்ய஦ீஷார்஥ஸ்ய ச | ந வாஸோமிரிதி, ‘ஸ்வாஸா ஜலமாவிஜே’ ஦ிதி உக்தவிஷயே, பிராதம்஧யந்஦ிநயோஶ ஸோத்ரீயஸ்நானம், அந்யத யாட்சிச்சிகாடை அந்தவாஸிஸ்ஸைவ ஸஹ ஸ்நானமித்யர்஥: || பராஶர: – மஹாநிஶா து விஜேயா ம஧்யஸ்஥ப்ரஹங்கம் | ப்ரடோஷபக்ஷிமௌ யாமை ஦ிவனவத்ஸ்நானமாச்சரேத் தீர்ணி || எத்த ஆபத்திஷயம் | அந்யதா ஭ாஸ்கரஸ்ய கரைரித்யநென விருத்யதே ||

மனு: - போஜனம் செய்த பிறகும், வ்யாதியுள்ளவனுடும், மஹாராத்ரியிலும், எப்பொழுதும் வஸ்தரங்களுடனும், அறியப்படாத ஜலாசயத்திலும் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. இங்கு, போஜனம் செய்த பிறகு கூடாதென்றது த்ருஷ்டார்த்தமான ஸ்நானத்தை

निषेधित्तत्त्वः व्यातिसंतान्य इरुप्पवन्स कूटातेन्ऱु,
अत्तरुष्टोर्त्तत्तत्तत्तयम् निषेधिप्पताम्.
वस्त्रंकर्णकर्णतन्स कूटातेन्ऱु, 'वस्त्रंत्तत्तुतन्स संनानम्
चेय्य वेण्टुम्' एन्ऱु चेऽल्लिय विषयत्तिलुम्,
कालैयिलुम्, मत्याहृनत्तिलुम् चेय्युम् संनानत्तिलुम्
उत्तरीयत्तत्तुतन्स संनानम्. मन्त्र यात्तरुच्चिकम् मुतलियतिल
इत्तुप्प वस्त्रंत्तत्तुतन्स मट्टुमे संनानम् एन्पत्रकाम्.
प्राशरारः:- 'रात्तरीयिन्स नटुविलुल्लिय इरण्टु यामम्
महान्निशे एन्प्पटुम्. प्रितेऽत्तु कालत्तिलुम् कटेचि
यामत्तिलुम् पकलिल्लिय एन्ऱुर. इतु आपत्त विषयम्.
इव वितम् इल्लियेण्टुल 'पाल्करस्य करेः पूतम्' एन्पत्रुतन्स विरोधिक्कुम्.

षट्क्रिंशन्मते – अपेयं हि सदा तोयं रात्रौ मध्यमयामयोः। स्नानं
तत्र न कुर्वति तथैवाचमनक्रियाम्। मूत्रोच्चारे महारात्रौ कुर्यान्नाचमनंतु
यः। प्रायश्चित्तीयते विषः प्राजापत्यार्धमहति इति ॥ वृद्धमनुः – आराध्यं
देवमाराध्य बन्धूनप्यनुसृत्य च। भुक्त्वा व्याधौ च न स्नायात् तैलेनापि
निशास्वपि इति ॥ मेधातिथिरपि – न स्नायादुत्सवेऽतीते मञ्जल्यं
गिनिवर्त्य च। अनुव्रज्य सुहृद्वन्धूनर्चयित्वेष्ट देवताः । न
स्नानमाचरेद्वुक्त्वा नातुरो न महानिशि इति ॥ कालादर्शेऽपि –
अनुव्रज्येष्ट बन्धूश्च व्याधौ भुक्तच्यन्तरं निशि । इष्टं देवं समन्यर्चय विधाय
च महोत्सवम्। विना निमित्तं न स्नायात् निमित्तेऽपि (रुग) च नातुरः
इति ॥

षट्क्रिंशन्मते – रात्तरीयिन्स, नटुवान
इरण्टु यामन्कर्णिल्लिय, जलम् परुकत्तकातत्तु. अप्पेपामुतु
संनानम् चेय्यकं कूटातु. आचमनमुम् चेय्यकं कूटातु.
मुत्र विसर्जनम् मलविसर्जनम् चेय्यताल,
महारात्तरीयिल्लिय एवन्स आचमनम् चेय्यविल्लियेया, अन्त
प्रराम्भेणान्स प्ररायश्च चित्तत्तार्त्तवान्नकिरुन्. वरुत्तमनुः-
पूजीक्कत्त तत्तुन्त तेवत्तयेप्प पूजीत्त पिरुक्कम्,

பந்துக்களைப் பின் சென்று அனுப்பிய பிறகும், புஜித்த பிறகும், வ்யாதியிலும், தைலத்துடனும் கூட ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. ராத்திரியிலும் ஸ்நானம் கூடாது. மேதாதிதியும் :- உத்ஸவம் முடிந்த பிறகும், மங்கள கார்யத்தை முடித்த பிறகும், மித்ரர், பந்துக்கள் இவர்களைப் பின் சென்று அனுப்பிய பிறகும், இஷ்ட தேவதைகளைப் புஜித்த பிறகும், போஜனம் செய்த பிறகும், வ்யாதியுள்ள காலத்திலும், மஹாராத்ரியிலும் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. காலாதர்ச்சத்திலும்:- இஷ்டரையும், பந்துக்களையும் பின் சென்று அனுப்பிய பிறகும், வ்யாதியிலும், புஜித்த பிறகும், ராத்ரி யிலும், இஷ்டதேவதையைப் புஜித்த பிறகும், மஹாத்ஸவத்தை முடித்த பிறகும், காரணம் இல்லாமலும் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. காரணம் இருந்தாலும் வ்யாதியுள்ளவன் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது.

காம்யநைமித்திகெதுஸ்நானேமஹாநிஶயப்பனிஷி஦ே । தथா ச ஸ்மृத்யர்஥ஸாரே – ந மஹாநிஶி நித்யார்஥ காம்ய நைமித்திக் ஭வேத । ஸ்நாயாத்து பூர்வஸ்நாதோ நிஶயுஷ்ணே ஜலேந ச ॥ அஸபூர்யஸபஸ்நே ஸாந நிஶயுஷ்ணே ஜலேந ச । நஞ் நாஸ்தமிதே ஸ்நாயாத் திவிஶேஷாந்மध்யயாமயோ: ॥ அதிர்ப் ப்ரஜாலய வா ஸ்நாயாத்ராயாதிஷு மஹாஜலே । திராப்பாய்வாமயே ஸாந விஜாப்ப துஷ்டிமாந் । நிஶிஸ்நாந ச ஦ாந ச குர்யாத்ரிங் ஸமி஧்ய ஹ இதி ॥

காம்யஸ்நானமும், நைமித்திக ஸ்நானமும், மஹாராத்ரியிலும் நிதேஷதிக்கப் படவில்லை. அவ்விதமே, ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- நித்யஸ்நானத்தை மஹாநிசியில் செய்யக் கூடாது. காம்யஸ்நானமும், நைமித்திக ஸ்நானமும் செய்யப்படலாம். முன் ஸ்நானம் செய்யாதவன், நிசியில் உஷ்ணேதகத்தால் ஸ்நானம் செய்யலாம். அஸ்ப்ருச்யரை ஸ்பர்சித்தால் நிசியில் உஷ்ணேதகத்தால் ஸ்நானம் செய்யலாம். அஸ்தமயத்திற்குப் பிறகு நதியில் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. ராத்ரியின் நடுயாமங்களில் ஸ்நானம் கூடவே கூடாது. வாபீ முதலிய பெரிய ஜலாசயத்தில் அக்னியை

ज्ञंवलीकंकसं चेष्यतु, प्रराम्भैर्जनारं, अकंनी, पक्षे इवारं
मुनंनीैलयीलं, संनानतंतते अरीवीत्तुसं चेष्यलाम्.
नीचीयीलं, संनानामं, तानामं इवेवकौला, अकंनीयै
ज्ञंवलीकंकसं चेष्यतु अतनं मुनंनीैलं चेष्य वेण्णुम्.

मनुः—राहुदर्शनसङ्कान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदानादिकं
कुर्यान्निशि काम्यव्रतेषु च इति । अत्ययः - मरणम् ॥ वृद्धिः - जननम् ॥
योगयाज्ञवल्क्योऽपि - ग्रहणोद्घासं क्रान्तियात्रार्तिप्रसवेषु च । स्नानं
नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तदिष्यते इति ॥ आर्तिः - मरणम् ॥ पराशरोऽपि
- पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा सङ्कमणे रवे । राहोश्च दशने स्नानं प्रशस्तं
नान्यथा निशि इति ॥ यज्ञः - अवभूथः ॥ स एव रात्रौ चण्डालादिस्पर्वे
शुद्धिमाह - अस्तं गते यदा सूर्ये चण्डालं पतितं विनियम् । सूतिकां
स्पृशतश्चैव कथं शुद्धिर्विधीयते ॥ जातवेदः सुवर्णं च सोममार्गं विलोक्य
च । ब्राह्मणानुमतश्चैव स्नानं कृत्वा विशुद्ध्यति ॥ शुद्धपक्षे सोमो
विलोकनीयः । तदभावे वहिः, तदभावे सुवर्णम् तस्याप्यभावे
सोममार्गः । एतेषामन्यतमं विलोक्य विप्रैरनुज्ञातः स्नायादित्यर्थः ॥

मनुः:- कंरहैर्जनामं, संकरमणामं, विवाहैमं,
मरणामं, ज्ञनानामं, काम्यं वरतंकसं इवेवकौलं
रात्रियिलुम् संनानामं, तानामं मुतवियतेतसं चेष्यलाम्.
योाकीयाकंक्वावलंक्यारः:- कंरहैर्जनामं, विवाहैमं,
संकरमणामं, यात्तरे, मरणामं, ज्ञनानामं इवेवकौलं
चेष्युम् संनानामं नैनमित्तिकमाम्. अतेत रात्रियिलुम्
चेष्यलाम्. पराशरारुमः- पुत्ररज्जुनंमत्तिलुम्, याकत्तिलुम्,
(अवप्रुतम्) लालार्यं संकरमणात्तिलुम्, राहू-तर्संक्षेत्तिलुम् रात्रियिलं संनानामं प्ररक्षसंतमाकुम्.
मन्त्रहकं कारणत्तहालं चेष्यकं कृतातु. रात्रियिलं
संन्टाळातु लपर्संक्षेत्तिलं सत्तियैसं चेष्यलुकिरुरं
पराशररोः:- लालार्यानं असंतमित्त पिऱकु, संन्टाळानं,
पत्तितनं, लालिकेयानं लंतर्हौ इवारकौला
संपर्सित्तवनुक्कु लंवितमं सत्ति वित्तिकप्पत्रुकिरतु

எனில் அக்னி, ஸாவர்ணம், சந்தர்னின் மார்க்கம் இவைகளைப் பார்த்து, ப்ராம் ஹணர்களால் அனுமதிக்கப்பட்டவனுய் ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தனாகிறான், சுக்லபக்ஷத்தில் சந்தர்ஜனைப் பார்க்க வேண்டும். அவன் இல்லாவிட்டால் அக்னியைப் பார்க்க வேண்டும். அக்னி இல்லாவிடில் ஸாவர்ணம், அதுவும் இல்லாவிடில் சந்தர்னின் மார்க்கம், இவைகளுள் ஒன்றைப் பார்த்து, ப்ராம் ஹணர்களால் அனுமதிக்கப்பட்டவனுய் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்பது பொருள்.

ராதிஸ்வானே து விஶேஷமாஹ யமः - விப்ரः ஸ்பृष்டோ நிஶாயா் தூத்க்யயா பதிதேன வா । ஦ிவா॥७ நீதேன தோயேன ஸ்வாபயே ஦ி஗்நிஸநி஧ௌ இதி ॥ தோயேன ஸ்வர்ணசு ஹிதே நேதெ ஜேஷः ॥ தथா ச பராஶரः - ஦ிவா॥७ ஹத் து யத்தோய் கூத்வா ஸ்வர்ணயுத் து தத் । ராத்ரௌ து ஸம்ப்ராஸே ஸ்வாயாடனலஸநி஧ௌ இதி ॥ ஦ேவலோ॥५ - ஦ிவாஹதைஜலை: ஸ்வாந் நிஶி குர்யாநிமித்ததः । நிகிப்ய ச ஸுவர்ண கை ஸநி஧ாப்ய ச பாவகம् இதி । காத்யாயனः - பிவேஶாங்கருணஸ்யாப்ஸு ந ரவை ஜலமுஞ்சரேத் । அந்யந் ஧ாஸ்த இத்யேஂ தறஸ்஥ே ஸ்வாநமிஷ்யதே இதி । ஧ாஸ்த ஧ாஸ்த இதி ஸமந்தாகோஞ்சரணாடந்யந் ராத்ரௌ ஜல் நோஞ்சரேத் । தறஸ்஥ே ஜலே ஸ்வாயாடித்யர்஥ः । அன்ராபி விஶேஷமாஹ பராஶரः - யदி ஗ேஹ ந தோய் ஸ்வாத்தாவச்சுஞ்சி: க஥ஂ ஭வேத் । ஧ாஸ்த ஧ாஸ்தே மந்த்ரே ஗ூத்தியடாங்கி ஸநி஧ௌ । ராத்ரௌ ஗்ரஹங்குமிஃ: பூத் ஦ிவா பூத் து ஭ானுநா । அநேர்வ விஶுஞ்சயதே தथா ராத்ரௌ யதா ஦ிவேதி ।

ராத்ரி ஸ்நானத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார். யமன்:- ப்ராம் ஹணன், ராத்ரி யில், ரஜஸ்வலையினாலாவது, பதிதனாலாவது ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால், பகவில் கொண்டு வந்த ஜலத்தினால், அக்னி ஸன்னிதியில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஸ்வர்ணத்துடன் கூடிய ஜலத்தினால் என்று சேர்க்க வேண்டும். அவ்விதமே, பராசரர்:- ராத்ரி யில் ஸ்நானம் நேர்ந்தால் பகவில் கொண்டு வந்த ஜலத்தை ஸ்வர்ணத்துடன் கூடியதாய்ச் செய்து, அதனால் அக்னி

संनिधीयिले संनानम् चेय्य वेण्णुम्.

तेवलरुमः:- रात्तिरीयिले नैवमित्तिक संनानम् नेर्नंताले पकलिले केाण्णु वन्त ज्ञलत्तिले संवर्णत्तेतच सेर्नंतु अताले अक्णी संनिधीयिले संनानम् चेय्य वेण्णुम्. **कात्यायनारः**:- रात्तिरीयिले ज्ञलत्तिले वरुणेन प्रिवेचित्तु इरुप्पताले ज्ञलत्तेत एक्कक्क कूटातु. 'ताम्नेनो ताम्नः' एन्ऱ मन्त्रिरत्तेतच सेवाल्लामले रात्तिरीयिले ज्ञलत्तेत एक्कक्क कूटातु. अंकिरुक्कुम ज्ञलत्तिले संनानम् चेय्य वेण्णुम् एन्पतु बेपारुं.

अथिलुम विचेष्ठत्तेतच शेवाल्किरुर पराकरारः:- वीट्टिले ज्ञलमिल्लाविटिले अप्पेऋतु एप्पटि कृत्ति एर्पाटुम्? 'ताम्नेनो ताम्नः' एन्ऱ मन्त्रिरत्ताले अक्णी संनिधीयिले किरवृन्दकणीं किरणन्दकणाले ज्ञलम् कृत्तमाकिन्ऱतु. पकलिले सारीयाणुले कृत्तमाकिरतु. इन्त मन्त्रिरत्ताले किरवृत्तताले पकलिले पोाले रात्तिरीयिलुम कृत्तमाकिन्ऱतु.

संगतः:- अपो निशि न गृह्णीयाद्वृलभापि कदाचन । उद्धृत्याग्निमुपयसां धामोधाम्न इतीरयेत् इति ॥ **मरीचिः**:- दिवाऽऽहतं तु यत्तोयं गृहे यस्य न विद्यते । प्रज्वाल्याग्निं ततः स्नायात् नदीपुष्करिणीषु च इति ॥ कालादर्शे - निमित्तातोऽपि न स्नायात् रात्रौ नद्यां दिवाऽऽहतैः । तज्जलैस्तदभावे तु स्वर्णं क्षिप्त्वा तदं भसि ॥ प्रज्वाल्य वहिमभ्यर्णे तदभावे समन्वकम् । निशाहतैर्जलैः स्नायादिति शास्त्रीयनिश्चयः इति ॥

लम्बवात्ततरः:- ज्ञलत्तेत रात्तिरीयिले करवृक्कक्क कूटातु. ओरुकाले करवृक्कम्पटि नेर्नंताले, अक्णीये एक्ततु ज्ञलत्तिने मेले प्रियत्तु 'ताम्नेनेताम्नः' एन्ऱ मन्त्रिरत्तेत उच्चरीक्क वेण्णुम्. **मर्दीचीः**:- एवनतु करुवृत्तिले पकलिले केाण्णु वन्त ज्ञलम् इल्लैयो, अवां अक्णीये ऊवलिक्कक्क चेय्तु अतां संनिधीयिले

நதி, புஷ்கரினீ இவைகளில் ஸ்நானம் செய்யலாம். காலாதுர்ச்தில்:- நிமித்தம் நேர்ந்தாலும் இரவில் நதியில் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. பகலில் கொண்டு வந்த நதி ஜலத்தால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அதில்லாவிடில், நதியின் ஜலத்தல் ஸ்வர்ணத்தைப் போட்டு, அதன் ஸமீபத்தில் அக்னியை ஜ்வலிக்கச் செய்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அதுவும் இல்லாவிடில் மந்த்ரத்துடன்ராத்ரியில் கொண்டுவரப்பட்ட ஜலத்தினால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்பது சாஸ்த்ரத்தின் நிச்சயமாம்.

—★—

஗ிருதானம் ।

ग्रहणस्नानमुक्तं महाभारते – गङ्गास्नानं प्रकुर्वीति ग्रहणे
चन्द्रसूर्ययोः । महानदीषु(व)चान्यासु स्नानं कुर्याद्विधिः इति ॥ शङ्खः
– गापीकूपतटाकेषु गिरिप्रसवणेऽपि वा । नद्यां नदे देवखाते
सरसीषूद्घृताम्बुनि । उष्णोदकेन वा स्नायात् ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः इति ।
उष्णोदकेन वा स्नायात् ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः इति उष्णोदकस्नान
मातुरविषयम् ॥ आदित्यकिरणैः पूतं पुनः पूतं च वहिना । अतो
व्याध्यातुरः स्नायाद् ग्रहणेऽप्युष्णवारिणा इति व्याघ्रस्मरणात् ॥
पराशरः—सर्वं गङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे । सोमग्रहे तथैवोक्तं
स्नानदानादिकर्मसु इति ॥

க்ரஹண ஸ்நானம்

க்ரஹண ஸ்நானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மஹாபாரதத்தில்:- சந்தர்க்ரஹணம், ஸுரர்யக்ரஹணம் இவைகளில், கங்கையில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அல்லது வேறு மஹாநதிகளில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். சங்கர்:- வாபீ, கூபம், தடாகம், மலையருவி, நதி, நதம், தேவகாதம், ஒடைகள், எடுத்து வைத்த ஜலம், 2 ஏஷ்னேதகம் என்ற இவைகளிலொன்றில் சந்தரஸுரர்ய

करहूणांकवीलं सन्नानमं चेय्य वेण्णुम्. उष्टु गेण्णेतक
सन्नानमं व्यातियुंलावज्जेपं पर्न्नियतु. “पकवीलं लमर्य
किरण्णांकवालं सत्तमाकियतुम्, मरुपटि अक्णीयालं
सत्तमाकियतुमाक उल्लातु उष्टु गेण्णेतकत्तालं
पिण्णीयालानं करहूणा कालत्तिलुम् उष्टु गेण्णेतकत्तालं
सन्नानमं चेय्यलाम्” एन्ऱु व्याकर वसनमिरुप्पतालं.
पराक्रारः:- लमर्य करहूणत्तिलुम्, सन्तर करहूणत्तिलुम्
सन्नानमं ताणामं मुतलीय कर्मन्कवीलं ऎल्ला ज्ञलमुम्,
कन्केकक्कु लममाय्च लेललप्पट्टिरुक्किरतु.

व्यासोऽपि – सर्वं गङ्गासमं तोयं सर्वं ब्रह्मसमा द्विजाः । सर्वं
भूमिसमं दानं ग्रहणे चन्द्रसूर्योः इति ॥ शौनकः – स्वर्धुन्यातु समानि
स्युः सवर्ण्यम्भांसि भूतले । कूपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र संशयः
इति ॥ मार्कण्डेयः–शीतमुष्णोदकात् पुण्यं पारक्यमवरोदकात् ।
भूमिष्ठमुद्धतात् पुण्यं ततः प्रस्त्रपोदकम् ॥ ततोऽपि सारसं पुण्यं ततः
पुण्यं नदीजलम् । तीर्थतोयं ततः पुण्यं महानद्याम्बु पावकम् ॥
ततस्ततोऽपि गङ्गाम्बु पुण्यं पुण्यस्ततोऽम्बुधिः इति ॥

व्यापासनुमः:- सन्तरलमर्य करहूणा कालत्तिलं,
एल्ला ज्ञलमुम् कन्केकक्कुच सममाकवुम्, एल्ला
वेत्तियरुम् प्ररम्भावक्कुच सममाकियवर्कवाकवुम्,
एल्ला ताणमुम् पूमि ताणत्तिर्हक्कुच सममाकवुम्
लेललप्पट्टिलातु. लेलानकरः:- सन्तरलमर्य करहूणा
कालत्तिलं पूमियिलं किणन्निलुलां ज्ञलमं मुतलं लकल
ज्ञलन्कग्नुम्, कन्केकक्कुच समन्कवाकिन्नेन.
अिव्विष्यत्तिलं लन्तेहूमिलैल. मार्ककन्नेटेयरः-
चित्तज्ञलमं उष्टु गेण्णेतकत्तेत वीटपं पुण्यम्. ताम्नंत
ज्ञातियनिन्नं ज्ञलत्तेत वीटपं प्रिननिन्नं ज्ञलमं पुण्यम्.
पूमियिलुलां ज्ञलमं एटुक्कप्पट्टतेत वीटपं पुण्यम्.
अतेवीट मलैलयरुवीयिन्नं ज्ञलमं पुण्यम्. अतेवीट
लरोज्ञलमं पुण्यम्. अतेवीट नति ज्ञलमं पुण्यम्.
अतेवीटत तीर्त्त ज्ञलमं पुण्यम्. अतेवीट महान्ति

ஜலம் புண்யம். அதை விடக் கங்கா ஜலம் புண்யம். அதைவிட ஸமுத்ரம் புண்யமாம்.

வृஷ்வसிஷ: – ஗வாン் கோடிப்ரி஦ானேன ஸம்யங்கத்தேன யது ஫லம் । ஗ஜாஸ்னானே தது ஫ல் ஸ்யாநாஹுயஸ்தே நிஶாகரே । ஦ிவாகரே புனஸ்தந் தஶஸஸ்ஞாமுடாஹுதம் ॥ சந்஦ஸ்ஸூர்யங்கே சீவ யோத்வாகாஹேத ஜாஹ்வீம் ॥ ஸ்தாத: ஸ்வர்தீஈஷு கிமர்஥மட்டே மஹீம் இதி ॥ யந் காபி ஜலே ஸ்நாநாகரணே பிரத்யவாயமாஹ வசிஷ்ட: – ஗ிரஹே ஸக்ளமே வாடபி ந ஸ்நாயாத்யாதி மானவ: । ஸ்தாஜந்மனி குஷ்டி ஸ்யாஹு: ஖்஭ாగி ச ஜாயதே' இதி । ஜாதாதப: – ஸ்நாந் ஦ாந் தथா ஶாஷ்வ் அனந்தம் ராஹுதஶ்ரீநே இதி ।

வ்ருத்தவளிஷ்டார்: - சந்தர் க்ரஹணத்தில் கங்கா ஸ்நானம் செய்தால், கோடி பக்களை விதிப்படி தானம் செய்தால் எந்தப் பலனே அந்தப் பலனுண்டாகும். ஸ்தார்ய க்ரஹணத்தில் கங்கா ஸ்நானம் செய்தால் முன் சொல்லிய பலனே பத்து மடங்கு அதிகமாகும். சந்தர் ஸ்தார்ய க்ரஹண காலத்தில் எவன் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்கின்றாலே அவன் ஸ்தால தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்தவானுகிறான். அவன் பூமி முழுவதும் ஏன் சுற்ற வேண்டும்? எந்த ஜலத்திலாவது ஸ்நானம் செய்யாவிடில் ப்ரத்ய வாயத்தைச் சொல்லுகிறார். **வளிஷ்டார்:** - க்ரஹணத்திலும், ஸங்க்ரமணத்திலும், மனிதன் ஸ்நானம் செய்யாவிடில் ஏழு ஜன்மங்களில் குஷ்டரோகம் உடையவானுகவும், துக்கத்தை அடைபவானுகவும் ஆவான். **சாதாதபர்:** - க்ரஹண காலத்தில் செய்யும் ஸ்நானம், தானம், ச்ராத்தம் இவை அனந்தமாய் ஆகும்.

அற ஹிரப்யேநாமேன வா ஶாஷ்வ் குர்யாத् ॥ ததாஹ ஬ோධாயன: – அநாமாவே டிஜாமாவே ப்ரவாஸே புத்ரஜந்மனி । ஹேமஶாஷ்வ் ஸக்ளே ச குர்யாஞ்சூத: ஸ்தை ஹி இதி । வ்யாஸ: – ஆபத்யநங்கௌ தீர்஥ே ச ஗ிரஹே சந்஦ஸ்ஸூர்யோ: । ஆமஶாஷ்வ் டிஜோ ஦த்யாஞ்சூதோ ஦த்யாத் ஸ்தை ஹி இதி ॥

देवलः - यथा स्नानं च दानं च सूर्यस्य ग्रहणे दिवा । सोमस्यापि तथा रात्रौ स्नानं दानं विधीयते इति ।

இக்காலத்தில் ஹிரண்யத்தாலாவது ஆமத்தாலாவது சராத்தம் செய்ய வேண்டும். அதைச் சொல்லுகிறார். போதாயனர்:- அன்னம் மில்லாவிட்டினும், ப்ராம்ஹணர் இல்லாவிட்டினும், ப்ரவாஸத்திலும், புத்ர ஜனனத்திலும், கரஹன காலத்திலும், ப்ராம்ஹணன் ஹிரண்ய சராத்தம் செய்ய வேண்டும். சூத்ரன் எப்பொழுதுமே ஹிரண்ய சராத்தம் செய்ய வேண்டும். வ்யாஸர்:- ஆபத்காலத்திலும், அக்னி இல்லாவிட்டினும், தீர்த்தத்திலும், சந்தர் ஸுரிய க்ரஹனங்களிலும் ப்ராம்ஹணன் ஆமச்ராத்தம் செய்ய வேண்டும். சூத்ரன் எப்பொழுதுமே ஆமச்ராத்தம் செய்ய வேண்டும். தேவலர்:- ஸுரிய க்ரஹனத்தில், பகவில் ஸ்நானமும், தானமும் எப்படி விதிக்கப்பட்டுள்ளவோ, அப்படி சந்தர் க்ரஹனத்தில் ராத்ரியிலும் ஸ்நானமும், தானமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

यत् ग्रहण निमित्तमाशौचम्, तत् स्नानेन निवर्त्यम् ॥ तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे - आशौचं जायते नृणां ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । राहुस्पर्शो तयोः स्नात्वा दानादौ कल्पते नरः ॥ सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने । स्नात्वा कर्मणि कुर्वीत पक्षमन्तं विवर्जयेत् इति ॥ ग्रहणकाले यत् पक्षमन्तम्, तत्पूर्ववा, तत् सूतकान्तम् । तत् पश्चादपि न भुजीतेत्यर्थः ॥ वृद्धवसिष्ठः - सर्वेषामपि वर्णानां निमित्तं राहुदर्शने । सचेलं तु भवेत् स्नानं सूतकान्तं च वर्जयेत् इति ॥

க்ரஹன நிமித்திமான ஆசெளச மெதுவோ, அது ஸ்நானத்தால் நிவர்த்திக்கத் தகுந்தது. அது சொல்லப்பட்டுள்ளது, ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில்:- சந்தர் ஸுரியர்களுக்கு ராஹு- ஸ்பர்சமான க்ரஹனத்தில், மனிதர்களுக்கு ஆசெளசம் உண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் ஸ்நானம் செய்தால் மனிதன் தானம் முதலியதில்

அர்ஹனுகிறுன். எல்லா வர்ணத்தினருக்கும் க்ரஹணத்தில் ஆசௌசம் உண்டாகிறது. ஆகையால் ஸ்நானம் செய்து கர்மங்களைச் செய்ய வேண்டும். பக்வமான அன்னத்தை வர்ஜிக்க வேண்டும். ‘க்ரஹண காலத்திலோ, அதற்கு முன்போ பக்வமாகிய அன்னமெதுவோ அது ஸ்தகான்னம். அதை க்ரஹணத்திற்குப் பிறகும் புஜிக்கக் கூடாது’ என்பது பொருள். வ்ருத்தவஸிஷ்டர்:- எல்லா வர்ணத்தினருக்கும் க்ரஹணத்தில் ஆசௌசம். ஸ்தேல ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஸ்தகான்னத்தையும் வர்ஜிக்க வேண்டும்.

வ्याघ्रपादः - ஸ்மார்த்தமपरित्यागो ரाहोरन्यत्र ஸूதके । ஶ्रौते
கर्मणि तत्कालं स्नानतः शुद्धिमवाप्नुयात् इति ॥ जन्ममरणनिमित्ता-
शौचवानपि स्नानं कुर्यादित्याह वसिष्ठः - चन्द्रसूर्यग्रहे स्नायान्मृतके
सूதकेऽपि वा । அஸ்தாயி மृत्यுமாப்நோதி ஸ்தாயி மृத்யுந விந்஦தி இதி ॥
அத் ஸ்நானம் ஶ்ராஷ்டரானாடேருபலக்ஷணம् ॥ அத் ஏவாஜிரா: - ஸर்வ வர்ண:
ஸूதकेऽपि மृதகे ராதூரை । ஸ்நாதா ஶ்ராஷ் பிரகுர்வீரன् ஦ான்
ஶாத்யவிவர்ஜிதம् ॥ ஸூர்யந்துग்ரஹणं யாவத்தாவத் குர்யாஜ்பாடிகம् । ந
ஸ்வபேந ச முஜித ஸ்நாதா முஜித முக்தயோ: இதி ॥

வ்யாக்ரபாதுர்:- க்ரஹண நிமித்த ஸ்தகம் தவிர
மற்ற ஸ்தகத்தில் ஸ்மார்த்த கர்மங்களை வர்ஜிக்க
வேண்டும். ச்ரெளத கர்மத்தில் அக்காலம் மட்டில்
ஸ்நானத்தால் சுத்தியை அடைவான். ஐனனமரண
நிமித்தமான ஆசௌசமுடையனும், ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும் என்கிறுர் வஸிஷ்டர்:- மரனு சௌச
மிருந்தாலும், ஐனனு சௌசம் இருந்தாலும், சந்த்ரஸ்தார்ய
க்ரஹணத்தில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஸ்நானம்
செய்யாதவன் ம்ருத்யுவை அடைமாட்டான். இங்கு ஸ்நானம்
என்றது ச்ராத்தம் தானம் முதலியதற்கும் உபலக்ஷணமாம்,
ஆகையால் தான். அங்கிரஸ்:- ‘எல்லா வர்ணத்தினரும்,

ज्ञानान्नेचेसाचम् मरणेचेसाचम् इग्रनंत्तालुम्, करवृण्ण
कालत्तिलं स्नानाम् चेयंतु स्रात्ततम् तानाम् इवेवक्तीकं
कपटमिन्निश्च चेय्य वेण्णुम्. लार्यसन्तर करवृण्णाम्
उल्ला वरयीलं ज्ञपम् मुत्तव्यवर्त्त्रैश्च चेय्य
वेण्णुम्. तान्कक्ष्टातु. पूजीक्कवुम् ख्टातु. सन्तर
लार्यर्काला मुक्तर्कालान पिरु लन्नानाम् चेयंतु पूजीक्क
वेण्णुम् एन्ऱूर.

कालनिर्णये – नैमित्तिकंतु कर्तव्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्योः । यच्छाङ्कं
बान्धवानां तु नारकी स्यात्तोऽन्यथा ॥ काम्यानि चैव श्राद्धानि
शस्यन्ते ग्रहणादिषु इति ॥ ब्रह्मसिद्धान्ते – यावान् कालः पर्णोऽन्ते
यावान् प्रतिपदादिमः । रवीन्दुग्रहणानेहा स पुण्यो मिश्रणाद्भवेत् इति।
ग्रहणानेहा – ग्रस्तकालः । आद्यन्तयोः स्नानं विहितम्, कालनिर्णये –
ग्रस्यमाने भवेत् स्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते । मुच्यमाने भवेद्वानं मुक्ते
स्नानं विधीयते इति ॥ स्मृत्यन्तरे – ग्रस्यमाने रवौ स्नायान्मुच्यमाने
निशाकरे इति ॥ ब्रह्मकैवर्ते – स्नानं स्यादुपरागादौ मध्ये होमः
सुराच्चन्म । दानं जपश्च मुक्तेतु पुनः स्नानं विधीयते इति ॥

कालनीर्णयत्तीलः :- सन्तरलार्य करवृण्णात्तिलं
पन्तुक्कंक्ती उत्तेचित्तु नेमित्तीक स्रात्ततत्तत्तेतकं चेय्य
वेण्णुम्. चेय्याविष्टिलं नरकत्तत्त अटेवाणं.
करवृण्णाम् मुत्तव्यवेवक्तीलं काम्यस्रात्तत्तन्क्तेनुम्
प्ररक्षस्तन्क्तेन. **प्रमङ्गलित्तान्तत्तत्तीलः** :-
परवत्ततीन्स मुष्टिविलं एवंवैवु कालमुम्, प्रतमेयान्स
आत्तियीलं एवंवैवु कालमुम् कर्षस्त कालमायूलातेऽ
अवंवैवु कालम् चेरन्तु पुण्य कालमाय् आकुम्.
करवृण्णात्तीन्स आत्तियीलुम् अन्तत्तत्तीलुम् लन्नानाम्
वित्तिक्कप्पट्टुलानतु. **कालनीर्णयत्तीलः** :- लार्यान,
अल्लतु सन्तरन् राहु-वीग्नेलं विमुंक्कप्पट्टुम् पोतु
लन्नानाम् चेय्य वेण्णुम्. विमुंक्कप्पट्ट पोतु
हेताम् वित्तिक्कप्पट्टुकिरतु. विटप्पट्टुम् पोतु तानाम्
चेय्य वेण्णुम्. विटप्पट्ट पिरु लन्नानाम्

விதிக்கப்படுகிறது. மற்றொருஸ்ம்ருதியில் : - ஸ்ரீயன் விமுங்கப்படும் போதும், சந்தர்ண் விடப்படும் போதும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ப்ரம்ஹைகைவர்த்தத்தில் : - க்ரஹணத்தின் ஆதியில் ஸ்நானமும், நடுவில் ஹோமமும், தேவபூஜையும், தானமும், ஜபமும், முடிவில் மறுபடி ஸ்நானமும் விதிக்கப்படுகின்றன.

आदिमध्यावसानेषु यद्यद्विहितम्, तस्य तस्य फलातिशय उक्तः
ब्रह्मपुराणे – उपमदेऽलक्षणुणं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । पुण्यं कोटिगुणं
मध्ये मुक्तिकाले त्वनन्तकम् इति ॥ स्मृत्यन्तरे – नाडचषोडश पूर्वेण
सङ्कान्तेस्तु परेण च । राहोस्तु दर्शनं यावत् पुण्यकाल उदाहृतः इति ॥
व्यासः – प्राक्यश्चात् सङ्कमेषूक्तः पुण्यकालो विभागशः ।
चन्द्रसूर्योपरागे तु यावद्दर्शनगोचरः इति ॥ यत्तु स्मर्यते – त्रिदशाः
स्पृशसमये तृप्यन्ति पितरस्तथा । मनुष्या मध्यकाले तु मोक्षकाले तु
राक्षसाः इति, तत् ग्रहणे स्नानादिना सर्वेषां तृसिरित्येवं परम्, न तु
मोक्षकाले निषेधपरं, मुक्तिकाले त्वनन्तकम् इति स्मरणात् ॥

ஆதியிலும், மத்யத்திலும், முடிவிலும், எதெது விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அததுக்கு அதிக பலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ப்ரம்ஹபுராணத்தில் : - சந்திரஸௌர்ய க்ரஹணத்தில், ஆரம்பத்தில் கஷ்ம் மடங்கு புண்யமும், நடுவில் கோடி மடங்கு புண்யமும், மோக்ஷ காலத்தில் அளவற்ற புண்யமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் : - ஸங்க்ரமணத்திற்கு முன்னும், பின்னும், பதினாறு நாழிகைகள் புண்யங்களென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. க்ரஹணத்தில் ராஹுதர்சனம் உள்ளவரையில் புண்ய காலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. வ்யாஸர் : - ஸங்க்ரமணங்களில், முன்னும் பின்னும், பிரித்துப் புண்யகாலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சந்தர்ஸௌர்ய க்ரஹணத்திலோவனில் உபராகம் கண்ணுக்குப் புலப்படும் வரையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் “க்ரஹணத்தின் ஆரம்பத்தில் தேவர்களும், பித்ருக்களும்,

मत्यकालत्तिल मनुष्यर्कणुम्, मेहोळु कालत्तिल राक्षसर्कणुम् तं ग्रुप्तराय आकिंवर्णनर्” एन्ऱ संमरुद्धि वसनाम उल्लातेऽनील, अतु, करूल्लेणत्तिल स्नानम् मुतवियतेच चेय्वताल एल्लेलारुक्कुम् तं ग्रुप्ति उन्टाकिन्तु एन्पत्रिल तात्पर्यमुल्लातेऽनन्ति, मेहोळु कालत्तेत निशेतुप्पत्रिल तात्पर्यमुल्लातल्ल ‘मुक्ति कालत्तिल अनन्तपुण्यम्’ एन्ऱु संमरुद्धि इरुप्पताल.

वारविशेषयोगे फलातिशयमाह व्यासः – रविग्रहे सूर्यवारे सोमे सोमग्रहे तथा । चूडामणिरिति ख्यातः तत्रानन्तफलं भवेत् ॥ वारेष्वन्येषु यत् पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । तत्पुण्यं कोटिगुणितं ग्रासे चूडामणौ स्मृतम् इति ॥ जाबालिरपि – सङ्कान्तौ पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः । चन्द्रसूर्योपरागे तु यावद्दर्शनमोचनम् इति ॥

वार वीचेष्वम् चेसर्न्ताल पलमतीक मुण्डेटन्किरुर्. व्यासरः:- पाण्वुवारत्तिल लूर्य करूल्लेणमुम्, लेलामवारत्तिल सन्तर करूल्लेणमुम् नेर्न्ताल अतु ‘कुटामणी’ एनप्पत्रुम्. अतिल अवर्न लालुण्डिल करूल्लेणकणील एववलावु पुण्यमें, अतु, कुटामणी करूल्लेणत्तिल कोटि मटन्कुल्लाताकुम् एनक्ष चेल्लप्पत्रुलातु. ज्ञापालियुम्:- लंकरमणत्तिल मुन्नुम् पिन्नुम्, पतिगुरु नामिकेककलं पुण्य कालन्ककलं. सन्तरलार्य करूल्लेणत्तिलेला एनील तर्सनम् मुतलं वीटुकिर वरयिलं पुण्यकालम्.

ग्रस्तास्तमये त्वस्तपर्यन्तं दर्शनगोचरत्वात् तावत् पुण्यकालो भवति ॥ तत्र मोचनस्नानकालमाह भूगुः – ग्रस्तावेवास्तमानं तु रवीन्दू प्रापुतो यदि । ततः परेद्युरुदये स्नात्वाऽभ्यवहरेन्नरः इति ॥ अहिं सूर्यग्रहणं रात्रौ चन्द्रग्रहणं चेत्येवं प्रसिद्धिः सार्वजनीना । तादृशे ग्रहणे स्नानदिकमुक्तम् । यत्तु कालविपर्ययेण प्राप्यमाणं ज्योतिः शास्त्रमात्रप्रसिद्धं ग्रहणम्, तत्र स्नानादिकं न कर्तव्यम् । तदुक्तं

காலனிணயே— ஸ்ரூயங்ரூபோ யதா ராதை ஦ிவா சந்஦ி஗்ரஹஸ்ததா । தत्र ஸ்நான் ந குர்வித ஦ி஘ாஷாந் ந ச க்வचித் இதி ॥

க்ரஸ்தாஸ்தமயத்திலோ எனில், அஸ்தமயம் வரையில் தர்சன விஷயமாய் இருப்பதால் அதுவரையில் புண்யகாலம் இருக்கிறது. அதில் மோசன ஸ்நானத்திற்குக் காலத்தைச் சொல்லுகிறார்ப்பருகு:- ஸ்ரூயனும், சந்தரனும், ராஹ்நவினுல் பிடிக்கப்பட்டவராகவே அஸ்தமயத்தை அடைந்தால், மறுநாள் உதயத்தில் ஸ்நானம் செய்து மனிதன் புஜிக்க வேண்டும். பகவில் ஸ்ரூய க்ரஹணமும், இரவில் சந்தர க்ரஹணமும் என்று இவ்விதம் ப்ரஸித்தி ஸர்வஜனங்களும் அறிந்ததே. அவ்விதமான க்ரஹணத்தில் ஸ்நானம் முதலியது சொல்லப்பட்டது. ஆனால் காலம் மாறி வருவதும், ஜ்யோதிச் சாஸ்த்ரத்தால் மட்டும் ப்ரஸித்தமுமான க்ரஹணம் எதுவோ, அதில் ஸ்நானம் முதலியதை அனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை. அது சொல்லப்பட்டுள்ளது. காலநிர்ணயத்தில்:- ராத்ரியில் ஸ்ரூய க்ரஹணமும், பகவில் சந்தர க்ரஹணமும் எப்பொழுதாவது உண்டானால், அப்பொழுது ஸ்நானம் ஒருகாலும் செய்ய வேண்டியதில்லை, தானமும் செய்ய வேண்டியதில்லை.

—*—

ஸ்நான்திஸ்நானம்

ஸ்நான்திஸ்நானாகரणே பிரதிவாயமாஹ ஶாதாதப: – ஸ்ரூயஸ்நாமணே புண்யே ந ஸ்நாயாத்ய மாநவ: । ஸஸ்ஜந்மஸு ரோಗி ஸ்யாத் து: ஖भாगி ச ஜாயதே இதி ॥ ஸ ஏவ – ஸ்நான்த்யா யானி ஦த்தானி ஹவ்யகவ்யானி மாநவै: । தானி தஸ்ய ஦த்யர்க: ஸஸ்ஜந்மஸு நிஶ்சிதம் இதி ॥ மேஷாடிஷு ஦்வாதராஶிஷு க்ரமேண ஸञ்சரத: ஸ்ரூயஸ்ய பூர்வஸ்மா஦்ராஶேருத்ரராஶை பிரவேஶ: ஸ்நாமணம் । தत्र ஸ்நாநாத்ய மூதஸ்நான்திகாலஸ்ய முற்யஸ்யாஸம்஭வாத்

तत्सम्बन्धिनौ पूर्वोत्तरकालौ ग्रहीतव्यौ ॥ तदाह देवलः - सङ्कान्तिसमयः सूक्ष्मो दुर्ज्ञेयः पिशितेक्षणैः । तद्योगादप्यधश्चोर्ध्वं त्रिंशब्राह्म्यः पवित्रिता: इति ॥ सङ्कान्ते: पूर्वोत्तरकालयोरैकस्मिन् त्रिंशद्विकाः पुण्या इति सामान्येनोक्तम् ।

संक्षिप्तकारान्त्ति लंगनानाम्

संक्षिप्तकारान्त्ति लंगनानाम् चेय्याविष्टिल तेऽवृत्ततेत्तच चेऽल्लुकिरुर्. चात्तात्तपारः - पुण्यमाण ल॒ उर्म॑य लंगकरमणत्तिल मनीतन॑ लंगनानाम् चेय्याविष्टिल, एमु ज्ञन्मन्यकलील रोकम्भ उटेयवानुकवुम्, तुक्कमुटेयवानुकवुम्, आकिरुन्. चात्तात्तपरोः - संक्षिप्तकारान्त्ति कालत्तिल, मनीतर्कला॒ल, एन्त ल॒ व्यन्यन्यकलुम्, कव्यन्यकलुम् केाउक्कप्पट्टनवेवा अवेकलौ अवर्कलुक्कुम्, ल॒ उर्म॑यन् एमु ज्ञन्मन्यकलील निच्चयमाय्क केाउक्किण्ऱुन्. मेष्ठम् मुतविय पन्निरेण्ऱु राक्षिकलील करममाय्ल लंगुसारिक्कुम् ल॒ उर्म॑यनीन्, मुन् राक्षियिलिरुन्तु पिण्ण राक्षियिल प्रवेचमाणतु लंगकरमणम् एनप्पटुम्. अतिल लंगनाणताणतिकलुक्कु अन्यकमाक्षिय मुक्यकालम् ल॒ उर्म॑यकलौ करवृक्कत्तक्कवै आकुम्. अतेत्तच चेऽल्लुकिरुर्. तेवलारः - लंगकरमण ल॒ मयम् ल॒ उर्म॑यमाक्षियताल माम॒ल॒ कज्जलु॒ ल॒ ऊवर्कला॒ल अन्यमुष्टियातत्ताकुम्, आकेय्याल, अन्त लंगकरमण ल॒ मयत्तुट्टन॑ चेऽक्केय्याल, मुन्नुम्, पिण्णनुम्, मुप्पतु नामुकेकलौ पुण्यन्यकलाणताम्.

तत्र विशेषं दर्शयति वृद्धवसिष्ठः - अयने द्वे विषुवे द्वे चतस्रष्टडशीतयः । चतस्रो विष्णुपद्यश्च सङ्कान्त्यो द्वादशा स्मृताः । मृगकर्कटसङ्कान्ती द्वे उदादक्षिणायने । विषुवे तु तुलामेषौ गोलमध्ये ततोऽपराः ॥ कन्यायां मिथुने मीने धनुष्यपि रवेर्गतिः । षडशीति

முखா: ப்ரோக்டா: ஷட்ஶிதிதி஗ுனை: ஫லை: || வ௃ஷ்வாசிககும்பேஷு ஸிஹே சைவ
ர்வேர்திஃ | எத்திஷ்ணுப஦் நாம விஷுவாட஧ிக் ஫லை: ||

ஸங்க்ரமணத்தின் முன்பின் காலங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் முப்பது நாழிகைகள் புண்யங்கள் என்று ஸாதாரணமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. அதில் விசேஷத்தைத் தெரிவிக்கின்றார். வருத்தவளிஞ்டர்:- அயனங்கள் இரண்டு, விஷாவங்கள் இரண்டு, ஷட்சிதிகள் நான்கு, விஷ்ணுபதிகள் நான்கு. இவ்விதம் பன்னிரண்டு ஸங்க்ரமணங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. மகர ஸங்க்ராந்தி உத்தராயணம், கடக ஸங்க்ராந்தி தக்ணிணையனம். துலா ஸங்க்ரமணமும், மேஷ ஸங்க்ரமணமும் விஷாவங்கள். அயன விஷாவ கோளமத்யத்தில் மற்றவைகள் உள்ளன. கண்யா, மிதுனம், மீனம், தனுஸ் இந்தராசிகளில் ஸமர்யன் செல்வது ஷட்சிதி எனப்படும், 86 மடங்கு பலனிருப்பதால். வருஷபம், வருச்சிகம், கும்பம், ஸிம்ஹம் இவைகளில் ஸமர்யன் செல்வது விஷ்ணுபதம் எனப்படும், விஷாவத்தைவிட அதிக பலமுள்ளது.

அதீதாநாகதே பூண்யே கே உடங்கிணாயனே | திஂஶது கர்க்டகே நாட்சோ
மகரே விஂஶதி: ஸமृதா: || வர்தமானே துலாமேஷே நாட்சஸ்தூமயதோ ஦ஶ |
ஷட்ஶித்யாமதீதாயா் ஷட்ருக்காஸ்து நாடிகா: | பூண்யாயா் விஷ்ணுபத்யா் ச
ப்ராக்ஷாதபி ஷாத்தோ இதி || மூரா: - மகர: || ஗ோலம஧யே -
அயனவிஷுவா஗ோலம஧யே || ஗ோல் - வலனம் || அதீதாநாகதே இதி -
உடங்கயனமதீத் ஸத பூண்ய ஭வதி | ஦க்ஷிணாயனமநாகத் பூண்யம் |
திஂஶதித்யாடிநா ததேவ ஸ்பஷ்டிக்ரியதே || கர்க்டஸ்ங்காந்தே: ப்ராந்தீனா:
திஂஶத்திகா: பூண்யா: | மகரஸ்ங்காந்தேருஷ்வகாலீனா விஂஶதி஘டிகா:
பூண்யா இத்யர்஥: || ..

உத்தராயணம் ஸங்க்ரமணத்திற்குப் பிறகும்,
தக்ணிணையனம் ஸங்க்ரமணத்திற்கு முன்பும் புண்யமாம்.

कटकत्तिल (तक्षीणेयनत्तिल) मुन्पु मुप्पतु नामीकेककलं पुण्यंकला॒म्. मकरत्तिल (उत्तरायणत्तिल) पिंपु इरुपतु नामीकेककलं पुण्यंकला॒म्. तुला॒, मेषमं इन्त शंकरमणंकली॒ल इरु पृथत्तिलुम 10-नामीकेककलं पुण्यंकला॒म्. वीष्णु॒पति॒यी॒ल मुन्नुमं पिंन्नुमं पति॒ग्रन्थ नामीकेककलं पुण्यंकला॒म्.

गालबोऽपि – स्थिरमे विष्णुपदं षडशीतिमुखं द्वितनुमे तुलामेषे विषुवं तु कर्कटे दक्षिणायनं मृगे सौम्यकं सूर्ये इति ॥ भजाबदवाच्योऽत्र राशिः । सूर्ये स्थिरराशौ स्थिते सति विष्णुपदं भवति। द्विस्वभावराशौ सूर्ये स्थिते सति षडशीतिमुखं भवति । तुलामेष द्रये स्थिते विषुवं भवति। सूर्ये कर्कटस्थे दक्षिणायनम्। मृगे - मकरे सौम्यकं - सोमदिह्नामकमुत्तरायणम् । तैरेतैः संज्ञामेदैः राशयोऽव्यवहित्यन्त इत्यर्थः ॥

कालवारः:- ऐरंयनं लंतिरराशीयिलिरुक्कुमं बेपामुतु वीष्णुपतमं एन्ऱुकिरतु. उपयराशीयिलिरुक्कुमं बेपामुतु षट्चेति एन्ऱुकिरतु. तुलात्तिलुम, मेषत्तिलुम इरुक्कुमं बेपामुतु वीष्णुवमं एन्ऱुकिरतु. कटकत्तिलिरुक्कुमं बेपामुतु तक्षीणेयनमुम, मकरत्तिल इरुक्कुमं बेपामुतु उत्तरायणमाम. इन्तपं बेयरकलालं राशीकलं व्यवहारीकंकप्पतुकिन्नून एन्पतु बेपारुलं.

बृहस्पतिः – अयने विंशातिः पूर्वा मकरे विंशातिः पराः । वर्तमाने तुलामेषे नाड्यस्तुभयतो दश इति ॥ नात्र त्रिंशद्विकावादिना वचनेन विरोधः शङ्खनीयः ॥ सामान्यवचनस्याभ्यनुज्ञापरत्वात् विशेषवचनोक्तो घटिकासङ्कोच एव प्रशस्तः ॥ ‘या याः सन्निहिता नाड्यस्तास्ता: पुण्यतमाः स्मृतः’ इति देवलस्मरणात् । केनापि निमित्तेन सन्निहितघटिकास्वनुष्ठानासम्भवे त्रिंशद्विकाः परमावधित्वेनाभ्यनुज्ञायन्ते । षडशीतिषु ततोऽपि दीर्घोऽवधि-

ரம்யநுஜாயதே ॥ ஭விஷ்யத்தேபி – ஦சாவர்ஜினாடிகா: புண்யா: பஶாடபி
விஷூவதி । ஷஷ்டாங்கோ வ்யதிதாஸு ஷஷ்டாதிஷு புண்யதா: । விஷ்ணுபத்யா:
பிராஸ்தாயாஂ ப்ராக்பஶாடபி ஷஷ்டா இதி ॥

ப்ருஹஸ்பதி:- தக்ஷிணையனத்தில் முந்திய இருபது
நாழிகைகள் புண்யங்களாம். உத்தராயனத்தில் பிந்திய
இருபது நாழிகைகள் புண்யங்களாம். துலா, மேஷம்
இவைகளில் இருபுறத்திலும் பத்து நாழிகைகள்
புண்யங்களாம். இங்கு முப்பது நாழிகை புண்யகாலம்
என்று சொல்லும் வசனத்துடன் விரோதம் வருகிறது என்று
சங்கிக்கக் கூடாது. ஸாமான்ய வசனம் அப்யனுக்ஞையைச்
சொல்வதால், விசேஷ வசனத்தால் சொல்லப்பட்ட
நாழிகையின் ஸங்கோசமே ப்ரசஸ்தமாகும். ‘எந்தெந்த
நாழிகைகள் ஸங்க்ரமணத்திற்குச் சமீபமாயிருக்
கின்றனவோ அவையவை அதிக புண்யங்களாம்’ என்று
தேவலர் சொல்லியிருப்பதால். எக்காரணத்தாலாவது
ஸங்க்ரமணத்திற்கு ஸமீபத்திலுள்ள நாழிகைகளின்
அனுஷ்டானம் ஸம்பவிக்காவிடில் முப்பது நாழிகள்
பரமாவதியாய் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகின்றன.
ஷட்சிதிகளில் அதைவிட தீர்க்கமான அளவு ஒப்புக்
கொள்ளப்படுகிறது. பவிஷ்ணோத்தரத்திலும்:-
விஷாவத்தில் முந்திப் பத்து நாழிகைகளும் பிந்திப் பத்து
நாழிகைகளும் புண்யகாலங்களாம். ஷட்சிதிகளுக்குப்
பிறகு அறுபது நாழிகைகள் புண்யங்களாம். சிறந்ததான
விஷ்ணுபதியில் முந்தியும், பிந்தியும், பதினாறு
நாழிகைகள் புண்யங்களாம்.

ஸக்காந்திநாஂ பூர்த்தௌ புண்யகாலை நிர்ணதை । தாஶ ஸக்காந்தய:
கடாசி஦ஹி ஭வந்தி, கடாசி஦ாத்ரை । தச்சேதாநாநுஷானமேதமாஹ- வृஷ
வர்ஷை: - அஹி ஸக்கமணே புண்ய மஹ: கृத्स्नं பிரகிரித்தம् । ராத்ரை ஸக்கமணே
भானोदிநாஞ்ச் ஸாநாநயோ: ॥ அர்஧ராத்ராத்தாத்தஸ்தஸ்மிந् மத்யாஹஸ்யோபரி
க்ரியா । அ஧்வர ஸக்கமணே சோ஧்வமுடயாத் பிரஹாத்யம் ॥ பூர்ண சேதாஞ்சராதே து
யதா ஸக்கமதே ரவி: । பிராஹுர்஦்வாய் புண்யம் முக்தவா மகரக்ர்தை இதி ।

संवक्रान्तिकाग्रकु मुन्तियुलातुम्, पिन्तियुलातुमान
पुण्यकालव्यक्तलं नीच्यक्षयिक्कप्पट्टन. अन्त संवक्रान्तिकाल
सिल लमयत्तिलं पकलिलं लम्पविक्किन्ऱन. सिल
लमयत्तिलं इरविलं लम्पविक्किन्ऱन. अन्तप्प पेतत्तालं
अनुष्टाने पेतत्तेत्तसे चेऽल्लुकिरुर् वरुत्त
वलिष्टारः:- पकलिलं लमर्य लन्वकरमण्माणलं पकलं
मुमुवतुम् पुण्यम्. रात्तरीयिलं लमर्य लन्वकरमण्मा
माणलं, पकलिलं पाति पुण्यम्, लन्वानतानन्कलीनं
विषयत्तिलं. अन्त संवक्रमण्मम् अर्तत्त रात्तरत्तिरुक्किम्
इरुन्तालं पकलिलं मत्याह्नन्तत्तिरुक्कु मेलं
लन्वानताणुत्तिकलीनं अनुष्टानम्. अर्तत्त रात्तरत्तिरुक्कु
मेलाणलं, उत्यत्तिरुक्कुप्प धिरु कु इरण्णु यामन्कलं
पुण्यन्कलाकुम्. पूर्णमान अर्तत्त रात्तरत्तिलाणलं
इरण्णु तिनन्कग्रुम् पुण्यम् एन्किरुर्कलं, मकर कर्ककल
संवक्र मण्मन्कलोत्त तविरत्तु.

अहि यदा सङ्कान्तिः भवति, तदा कृत्स्ममः पुण्यमिति
बदताऽर्थाद्रात्रौ स्नानादिकं प्रतिषिध्यते । एवं सत्युदयोत्तरकाल-
भाविनि दक्षिणायने पूर्वभागप्राशस्त्यं बाधित्वोत्तरभागे अनुष्टानं
भवति । अस्तमयप्राचीनक्षणभाविन्युत्तरायणे च उत्तरभागप्राशस्त्यं
परित्यज्य पूर्वभागेऽनुष्टात्व्यम् । पूर्वोत्तरभागप्राशस्त्यवचनं तु
मध्याह्नादि-सङ्कमणविषयम् । तत्राहन्येव हेयोपादेयभागद्वय-
सम्भवात् ।

पकलिलं एप्पेपामुतु लन्वकरान्तति वरुकिरुत्तो,
अप्पेपामुतु पकलं मुमुवतुम् पुण्यम् एन्ऱु चेऽल्लुम्
वसन्तत्तालं, अर्तत्तत्तत्तालं रात्तरीयिलं लन्वानम् मुतवियतु
प्रतिष्ठेत्तिक्कप्पट्टुकिन्ऱतु. इवंवितम् इरुप्पत्तालं,
उत्येयोत्तर कालत्तिलं लम्पविक्कुम् तक्षिण्येयन्तत्तिलं
पूर्ववपाकत्तिलं प्रसल्लियेप्पातिरुत्तु उत्तर पाकत्तिलं
अनुष्टानम् एर्पट्टुकिरुत्तु. अस्तमयत्तिरुक्कु मुन्नुला
क्षणन्तत्तिलं लम्पविक्कुम् उत्तररायणन्तत्तिलुम् उत्तर
पाकत्तिलं प्रसल्लियेव विट्टुप्प पूर्ववकालत्तिलं

அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும். பூர்வோத்தர பாகங்களுக்கு ப்ராசஸ்த்யம் சொல்லும் வசனமோவனில் மத்யாஹ்னதி காலங்களிலுள்ள ஸங்க்ரமண விஷயம். அந்தப் பகவிலையே தான் விடக்கூடியதும் க்ரஹிக்கக் கூடியதுமான இரண்டு பாகங்கள் ஸம்பவிக்கும்.

ஸ்மர்த்தே ச - அஹ்ஸக்லமணே ராத்ராவநுஷ்டானநிஷே஧தः । உத்காலை வ்யவஸ்஥ாப்பை தடியாத் பூர்வப்ரிஶ்மை இதி ॥ மகர ந்யாயேநை அஸ்தமயப்ராचிநமாவிஷு ஷட்ரிதிமுகேஷ்பி பூர்வமாகப்ராஶஸ்த்ய ஦ிர்ஷ்யம् । உமயமாகப்ராஶஸ்த்யோபேதேஷு விஷுவிஷ்ணுபதேஷு மத்யாஹ்மாவிஷு பூர்வாத்தரத் வா ஸ்வேஷ்யாதநுஷ்டாத்யம் । உத்யானந்தரமாவிஷு தேஷு பூர்வமாகப்ராஶஸ்த்யா஧: அஸ்தமயப்ராசிநேஷு தேஷு உத்தரமாக ப்ராஶஸ்த்ய ஬ா஧ இதி விவேக: ॥ யदா ராத்ரௌ ஸக்லமண் மவதி ததா ராத்ரே: பூர்வஸ்ய ஦ிநஸ்ய உத்தரஸ்ய வாத்திர்ப்ரஹரத்ய ஸ்நாநாடை புண்யம் ।

ஸ்மர்த்தியுள்ளது - 'பகவில் ஸங்க்ரமணமானால், ராத்ரியில் ஸ்நானதான அனுஷ்டானம் நிஷே஧திக்கப் படுகிறதால், அந்த ஸங்க்ரமணங்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட புண்யகாலங்களை, இரண்டு ஸங்கரமணங்களுக்கும் முந்தியதும் பிந்தியதுமாய் வ்யவஸ்தை செய்து கொள்ள வேண்டும்' என்று. மகர ஸங்க்ரமணத்தின் ந்யாயத்தினுலேயே, அஸ்தமயத்திற்கு முன் ஸம்பவிக்கும் ஷட்சிதிகளிலும் பூர்வபாகத்திற்கு ப்ராசஸ்த்யம் அறியத்தக்கது. இரு பாகங்களிலும் ப்ராசஸ்த்யத்துடன் கூடிய விஷாவ விஷங்கு பதங்கள் மத்யாஹ்னத்தில் ஸம்பவித்தால், முந்தியாவது பிந்தியாவது இஷ்டப்படி அனுஷ்டிக்கலாம். உதயத்திற்குப் பிறகு ஸம்பவிக்கும் விஷாவ விஷங்கு பதங்களில் பூர்வபாகத்திற்கு ப்ராசஸ்த்யம் பாதிக்கப்படுகிறது. அஸ்தமயத்திற்கு முன் ஸம்பவிக்கும் அவைகளில் உத்தர பாகத்திற்கு ப்ராசஸ்த்யம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்பது விளக்கம். எப்பொழுது ராத்ரியில் ஸங்க்ரமணம் ஸம்பவிக்கின்றதோ

अप्पेपामुतु रात्तंरीयिनं मुनं पकलीलं, अल्लतु मरुपकवीनं पात्रियाक्षिय इरण्णु याममं स्नानात्तिकवीलं पुण्यमाकुम्.

कुत्र पूर्वदिनं कुत्रोत्तरदिनमिति विवक्षायां तदुभयं अर्द्धरात्रादित्यनेन वचनेन व्यवस्थाप्यते । द्वितीयप्रहरस्य चरमघटिका, तृतीयप्रहरस्य प्रथमघटिकेत्येतद्घटिकाद्वयात्मकः कालोऽर्धरात्रः । तस्मादर्धरात्रादधः सङ्कमणे सति पूर्वदिने मध्याहस्योपरि प्रहरद्वये क्रिया कार्या । अर्धरात्रादूर्ध्वं सङ्कमणे सत्युत्तरकालीनादुदयादूर्ध्वं प्रहरद्वयं पुण्यम् । ‘पूर्णे चेदर्धरात्र’ इति, यथोत्तरघटिकाद्वये सङ्कान्तौ पूर्वोत्तरदिनद्वयं कृत्स्नं पुण्यम् ॥ तदुक्तं भविष्योत्तरे- ‘सङ्कमस्तु निशीथे स्यात् षड्चामाः पूर्वपश्चिमाः । सङ्कान्तिकालो विज्ञेयः तत्र स्नानादिकं चरेत्’ इति ॥

एतिलं पूर्ववत्तिनामं, एतिलं उत्तरतिनामं एन्ऱ विवाक्षयीलं, अव्विरण्णुमं ‘अर्त्तरात्तरात्’ एन्किऱ इन्त वसन्ततिन्नौलं व्यवस्तै चेय्यप्पटुकिऱतु. इरण्णटावतु यामत्तिनं कटैसि नाम्मिकै, ऐन्ऱूवतु यामत्तिनं मुतलं नाम्मिकै एन्ऱ इव्विरण्णु नाम्मिकैकैकैलं केाण्टकालमं अर्त्तरात्तरमं एनप्पटुमं. अन्त अर्त्तरात्तरत्तिन्तकूकं क्षिं लन्करमणमाकिलं मुनं पकलीलं मत्याह्वन्नत्तिन्तकूकं मेलं इरण्णु यामन्कवीलं कर्मत्तेतक्षं चेय्य वेण्णुमं. अर्त्तरात्तरत्तिन्तकूकं मेलं लन्करमणमाकिलं मरुन्नालं उत्यत्तिन्तकूकं मेलं इरण्णु यामन्कैलं पुण्यन्कैलं. ‘पूर्वेण चेतर्त्तरात्तरो’, एन्पतीनं बेारुलं - मुनं चेाल्लवीय इरण्णु नाम्मिकैकैलं लन्करमणमान्नौलं मुनं पिं उल्ला इरण्णु पकलुमं मुमुवतुमं पुण्यमाकुमं. अतु चेाल्लप्पटुल्लैतु. पविष्टयोत्तरत्तिन्तिलः - निश्चित्तिन्तिलं (इरवीनं 15, 16 - आवतु नाम्मिकैकैलं) लन्करमणमान्नौलं मुन्नौमं पिन्नौमं उल्ला आरु यामन्कैलं लन्करान्ति पुण्यकालमामं. अतिलं स्नानामं मुतलीयतक्षं चेय्य वेण्णुमं.

அன்றேய வ்யவस்஥ா— அர்஧ராத்ரே யदा ஷட்சிதி: ஸ்யாத्, தदெதங்கநானுசாரேண பூர்வீத்தரத்தினத்தியஸ்ய புண்யத்வாத् யத்ப்யௌத்ஸர்஗ிகோ விகலப: ப்ராப்நோதி, தथா�ப்யுத்தரத்தினே ஷஷ்டிடிகாப்ராஶஸ்த்யப்ரதிபாடக ப்ராதிஸ்விகவசநானுநிர்வாஷலாத् தத்வைநாநுஷ்டாத்வயம् । விஷுவோவிர்ணப்பேஷு ச ப்ராதிஸ்விகவசநஸ்ய பூர்வீத்தரமாகயோ: ஸாம்யேந ப்ராஶஸ்த்யப்ரதிபாட-கத்வாத் பூர்வஸ்மிந்தரஸ்மிந் வா ஸ்வேஷ்யாதநாநுஷாநமிதி விகலப்பே ।

இங்கு இது நிர்ணயம்:- அர்த்த ராத்ரத்தில் எப்பொழுது ஷட்சிதி ஏற்படுகிறதோ, அப்பொழுது இந்த வசனத்தின் படி முன்பின் உள்ள இரண்டு பகல்களும் புண்யமானதால் ஸாமான்யமான விகல்பம் வருகிறதுதான், ஆனாலும் பின் தினத்தில் அறுபது நாழிகைகளுக்கு ப்ராசஸ்த்யம் சொல்லும் வசனத்தின் அனுஷ்ரஹ பலத்தால் மறுநாளி லேயே அனுஷ்டிக்க வேண்டும். விஷாவங்களிலும், விஷங்கு பதங்களிலும் ஸாமான்ய வசனமானது பூர்வோத்தர பாகங்களுக்கு ஸமமாய் ப்ராசஸ்த்யம் சொல்லுவதால், முன் பகலிலோ, பின் பகலிலோ இஷ்டப்படி அனுஷ்டானம் செய்யலாம் என்று விகல்பிக்கப்படுகிறது.

அயனயோஸ்து பிரகாராந்தர் வக்ஷ்யதே ॥ அயனவ்யதிரிக்தாஸு ஦ஶாஸு ஸ்ங்காந்திஷு மத்யராத்ராதூர்஧்வ ப்ரவृத்தாஸு பரேஷுரநுஷாநமித்யத्र ந கோத்பி ஸ்வஶய: । அர்஧ராத்ராத் பூர்வ ப்ரவृத்தாஸு தாஸு ஦ஶாஸு மத்ய ஷட்சிதி-வ்யதிரிக்தானாந் ஷணாந் பூர்வத்தினேதநுஷாநமித்யத்தாபி நாஸ்தி ஸந்஦ேஹ: । ஷட்சித்யாந் து ஸாமாந்யவசநேந பூர்வேஷுரநுஷாந் ப்ராஸ் ஷஷ்டிடிகாப்ராஶஸ்த்ய-ப்ரதிபாடக ப்ராதிஸ்விகவசநேந பரேஷு: ப்ராப்நோதி । அத் பூர்வேஷுரநுஷாநமிதி நிர்ணய: ॥

அயனங்களைத் தவிர்த்த மற்ற பத்து ஸங்க்ராந்திகள் மத்யராத்ரத்திற்குப் பிறகு ப்ரவர்த்தித்தால் மறுநாள் அனுஷ்டானம் என்ற இந்த விஷயத்தில் எந்த

सम्चयमुमिल्लै. अर्तत् रात्ररत्तिरुक्तु मुनि प्रवर्ततीत्तुनां अन्तपत्तेत् लंकरान्तिकानां षट्शिति तवीरु आरु लंकरामणंकरुक्तुम् मुनपकलिलं अनुष्टानम् एन्ऱ इन्त विषयत्तिरुम् लंदेत्तेहु मिल्लै. षट्शियिलो एनीलं लामानंय वचनत्तालं प्रराप्तमान, मुतल्नालीलं अनुष्टानमानतु, अरुपतु नामीकेकरुक्तु प्ररासंत्यम् शोल्लुम् विशेष वचनत्तालं मरुनालीलं प्रराप्तमाकिरतु. इतिलं मुतल्नालीलं अनुष्टानम् एन्पतु लीत्तान्तम्.

विष्णुपद्मं धनुर्मीनयुग्मकन्यासु वै यदा । पूर्वोत्तरगतं रात्रौ भानोः सङ्क्रमणं भवेत् । पूर्वाहे पञ्च नाड्यस्तु पुण्याः प्रोक्ता मनीषिभिः । अपराहे तु पञ्चैव श्रौते स्मार्तेच कर्मणि' इति स्मृतेः ॥ धनुर्मीन युग्मकन्यासु - षडशीतिषु ॥ युग्मं - मिथुनम् ॥ यदा रात्रौ पूर्वभागगतं विष्णुपदीषषडशीति सङ्क्रमणम्, तदा पूर्वेद्युरपराहे पञ्चनाड्यः पुण्याः । उत्तरभागगते सङ्क्रमणे परेद्युः पूर्वाहे पञ्चनाड्यः पुण्याः । न चैव सति प्रह्रद्यपुण्यत्वविरोध इति वाच्यम् । पञ्चनाडिकावचने पुण्यातिशयस्य वाच्यत्वात् । प्रह्रद्यवाक्यं तु पुण्यमात्राभिप्रायमिति ॥

(एगेनानीलं) 'विष्णुपतियिलुम्, तनुसं, मैनमं, मित्रुनामं, कन्याइवेवकरीलुम् (षट्शितिकरीलुम्) लंगराय लंकरामणमानतु इरवीनं मुनपाकत्तिलो लिंपाकत्तिलो लंकरामणंकरुम्, मरुनालं पकलिलं ज्ञन्तु नामीकेकरुम् चंरेळातलंमार्त्त कर्मणंकरीलं पुण्यंकर्ण एनं शोल्लप्पाट्टुनानं' एन्ऱ लंमंग्रुति इरुपपत्तालं, एप्पेबामुतु इरवीलं मुनपाकत्तिलं विष्णुपतिष्ठिति लंकरामणंकर्ण वरुकिन्ऱनवेवा अप्पेबामुतु मुतलं पकलिलं अपराह्नंजत्तिलं ज्ञन्तु नामीकेकर्णं पुण्यंकर्ण. अन्त लंकरामणंकर्ण रात्ररीयिनं पिनं पाकत्तिलं लंमंपवित्तालं मरुनालं मुनं पकलिलं ज्ञन्तु नामीकेकर्णं

புண்யங்களாம். இவ்விதமாயின், இரண்டு யாமங்கள் புண்யங்கள் என்றதற்கு விரோதம் வரக்கூடுமே என்று சங்கிக்க வேண்டாம். ஐந்து நாழிகை புண்யமென்ற வசனத்திற்குப் புண்யாதிக்யம் சொல்வதில் தாத்பர்யம், இரண்டு யாமம் புண்யமென்ற வசனம் புண்யம் என்றதில் மட்டில் அபிப்ராயமுள்ளது.

**देवीपुराणे - अर्धरात्रे त्वसंपूर्णे दिवा पुण्यमनागतम् । संपूर्णं
उभयोऽर्जेयं अतिरिक्ते परेऽहनीति । देवलोऽपि—आसन्वसङ्कमं पुण्यं
दिनार्धं स्नानदानयोः । रात्रौ सङ्कमणे भानोः विषुवत्ययने दिने इति ॥
रात्रौ भानोः सङ्कमणे विषुवन्नामके जाते सति
सङ्कमणप्रत्यासन्वदिनार्धं पुण्यम् । अयननामकसङ्कमणे दिवा जाते
सति यथायोगं कर्कटके पूर्वदिनार्धं मகரे तूतरार्धं पुण्यम् । एतच्च
मध्यन्दिनायनविषयम् । उदयास्तमय-प्रत्यासने त्वयने
कृत्स्वदिवसपुण्यत्वनिर्णयः पूर्वमेवोक्तः ॥**

தேவீபுராணத்தில்:- அர்த்த ராத்ரத்திற்கு முன் ஸங்க்ரமணமானால் முதல் நாள் பகல் புண்யம். அர்த்த ராத்ரத்திலானால் இரண்டு நாளிலும் புண்யம். அர்த்த ராத்ரத்திற்குப் பிறகானால் மறுநாளில் புண்யம். **தேவைகளும்:-** ‘ஆஸன்ன + துநே’ என்பது மூலம். இதன் பொருள் - “ராத்ரியில் விஷாவும் என்கிற ஸதர்ய ஸங்க்ரமணமானால் ஸங்க்ரமணத்திற்குச் சமீபத்திலுள்ள பகலில் பாதி புண்யம். அயனம் என்கிற ஸங்க்ரமணம் பகலிலானால் கடகத்தில் பகலின் முன்பாதியும், மகரத்தில் பின்பாதியும் புண்யம்” என்பது. இந்த வசனம் நடுப்பகலில் ஸம்பவிக்கும் அயனத்தைப் பற்றியது. உதயத்திற்கும் அஸ்தமயத்திற்கும் ஸமீபத்தில் ஸம்பவிக்கும் அயனத்தில், தினம் முழுவதும் புண்யம் என்கிற நிர்ணயம் முன்பே சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அயனவ்யதிரிக்ஷே ஦शஸு ஸங்கமணேஷு ராத்ரிமா஗ேஷு யோ நிர்ணயः, , த்
ஸர்வ பர்யுத்தூதே வூத்துவாஸிஷः - ‘முக்த்வா மகரக்கடாவிதி ॥ யா யா:

सन्निहिता नाड्यः तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः इति सामान्यवचनेन सर्वेषु रात्रिसङ्क्रमणेषु रात्रावेवानुष्ठानं प्रसक्तम् । तदपोद्य दशसङ्क्रान्तिषु दिवाऽनुष्ठानं विधाय मकरकर्कटयोस्तत्पर्युदासे सति पूर्वप्रसक्तं रात्र्यनुष्ठानमेव पर्यवस्थति । एवं सति रात्रौ सङ्क्रान्तिस्थानमभ्युपगच्छतो मनुवचनस्यापि कश्चिद्विषयविशेषः सम्पद्यते ॥ तथा च मनुः—राहुदर्शनिसङ्क्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्थानदानादिकं कार्यं निशि काम्यव्रतेषु इति । सुमन्तुरपि रात्रौ स्थानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः । नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्थानं दानं च रात्रिषु । यज्ञे विवाहे यात्रायां तथा पुस्तकवाचने । श्रवणे चेतिहासस्य रात्रौ दानं प्रशस्यते इति ॥

अयनांकैतात् तवीर्त्तं पत्तु लंगकरमणांकौलं रात्री पाकांकौलं लंगत्तं नीर्णयम् शोल्लप्पट्टतेऽतु मुमुवतेयुम् तांगुकिरुर्वंगुत्तं वलीष्टटार् 'मुक्तवा मकर कर्ककटेला' लंगपत्तालं । 'एन्तेतन्त नाम्यिकैकैलं लम्पत्तिलुलावयेयो अवै लुप्त्यतमंकौलं' लंगरूलं लंगकरमणांकौलुम् रात्रीयिलेलये लंगनाश्च अनुष्टालं प्रलक्तमाकिरतु । अतेत अपवतीत्ततु, पत्तु लंगकरमणांकौलं पकलीलं अनुष्टालंत्तत वित्ततु, मकर कर्ककटंकौलं अतेतपं पर्युतालमं लेष्टिरुक्कुमं बेपामुतु मूलं प्रलक्तमाला रात्रीय अनुष्टालमें निचितमाकिरतु । इववित्तम् इरुक्कैयीलं, रात्रीयिलं लंगकरान्ति लंगनालंत्तत ओप्पुक्कैकौलंगुलं मानुवसन्त्तिरुक्कुमं ओरु विषयलिंगेष्टमं उपपन्नमाकिरतु । मानुः- राहु-उत्तरस्नामं, लंगकरमणामं, विवाहमं, मरणामं, ज्ञानामं, काम्यवरतन्कौलं इवैकौलं, रात्रीयिलुम् लंगनालानामं मुतलीयतेष्टक्षेष्टमाम् ।

ननु यथोक्तपर्युदासानुगृहीतैर्मन्वादि वचनैः मकरकर्कटयोः निश्यनुष्ठानप्रापणं शास्त्रान्तरविरुद्धम् ॥ तथा भविष्योत्तरे-मिथुनात्

ககிஸக்ளாந்திர்யா ஸ்யாட் ஶுமாலினः । பிரமாதே வா நிஶிஷே வா குர்யாதீஹனி
பூர்தः ॥ கார்முக் து பரித்யஜ்ய மகர் க்ரமதே ரவிஃ । பிரதோஷே வா ஽஧ராத்ரே வா
ஸ்நாந் ஦ாந் பரேஹனி இதி ॥

ஸ்மந்துவும்:- ராத்ரி யில் ஸ்நானம் தானம் இவைகளைச் செய்யக் கூடாது. நெமித்திகமானால், ஸ்நானம் தானம் இவைகளை ராத்ரி யில் செய்யலாம். யாகம், விவாஹம், யாத்ரை, புஸ்தகம் படித்தல், இதிஹாஸ ச்ரவணம் இவைகளில் ராத்ரி யிலும் தானம் புகழப்படுகிறது. ஒய்! சொல்லியபடி பர்யுதாஸத்தால் அனுக்ரஹிக்கப்பட்ட மன்வாதி வசனங்களால், மகர கர்க்கடங்களில் ராத்ரி யில் அனுஷ்டானத்தை விதிப்பது மற்ற சாஸ்த்ரங்களுக்கு விருத்தமாயுள்ளது. அவ்விதமே, பவிஷ்டோத்தரத்தில்:- மிதுனத்திலிருந்து கடகத்தில் ஸ்ரயனின் ஸங்க்ரமணம் விடியற் காலையிலானாலும் அர்த்த ராத்ரத்திலானாலும் ஸ்நான தானங்களை மறுநாளில் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

வृத்தார்யோऽபि—யदாऽஸ்தமயவேலாயா மகர யாதி ஭ாஸ்கரः ।
பிரதோஷே வா ஽஧ராத்ரே வா ஸ்நாந் ஦ாந் பரேஹனி ॥ அ஧்ராதே தடுஷ்வ வா
ஸக்ளாந்தை ஦க்ஷிணாயனே । பூர்மை ஦ிந யாஹ் யாவானோடியதே ரவிஃ ॥ பிரதூ
கக்டஂ ஭ானு: பிரதோஷே மகர யதி । ஸக்லமேத् ஷிநாட்யஸ்து புண்யா:
பூர்வீத்தரா: ஸ்முதா: இதி । மைவம् – எதேஷு வசனேஷு ராத்யநுஷ்டான
பிரதீஷே஧ஸ்யாப்ரதீதே: । ஦ிவஸாநுஷ்டானவி஧ானே நைவார்஥ாந்திரயநுஷ்டான-
பிரதீஷே஧கல்பநே பர்யுடாஸாநுநாதராதிஸ்தானவி஧ாயகவ்சனானமானர்த்தம்
பிராப்நோதி । தஸ்மாஞ்சாஞ்சாஞ்சயேந விகல்பப்ராஸௌ தத்தேஶப்ரஸிஷ்ஜஶிஷாசாரேண
வ்யவஸ்஥ேதி காலனிணயே நிர்ணதம் ॥

வ்ருத்தகார்க்யரும்:- ஸ்ரயன் அஸ்தமய வேளையிலோ, ப்ரதோஷத்திலோ, அர்த்த ராத்ரத்திலோ மகரத்தில் சென்றால், ஸ்நான தானங்களை மறுநாளில் செய்ய

வேண்டும். அர்த்த ராத்ரத்திலோ, அதற்குப் பிறகோ, உதயமாவதற்குள் தக்ஷியனையன ஸங்க்ரமணமானால் முதல் தினமே புண்யகாலமாக கரவுறிக்கத்தக்கது. ஸமர்யன், உஷ:காலத்தில் கடகத்திலும், ப்ரதோஷ காலத்தில் மகரத்திலும் ஸங்க்ரமித்தால், முறையே முந்தியதும், பிந்தியதுமான அறுபது நாழிகைகள் புண்யங்களாகும். என்ற வசனங்கள் இருக்கின்றனவே எனில், இவ்விதம் சொல்லக் கூடாது. சொல்லிய இந்த வசனங்களில் ராத்ரியில் அனுஷ்டிப்பதின் ப்ரதிஷேதம் தோன்றுத்தால். பகலில் அனுஷ்டானத்தை விதித்திருப்பதாலேயே, ராத்ரியில் அனுஷ்டான ப்ரதிஷேதத்தைக் கல்ப்பிக்கலாம் எனில், பர்யுதாஸத்தால் அனுக்ரஹுறிக்கப்பட்ட ராத்ரி ஸ்நான விதாயக வசனங்களுக்கு ப்ரயோஜனமின்மை ப்ராப்தமாகின்றது. ஆகையால் இரண்டு சாஸ்த்ரங்களால் விகல்பம் ப்ராப்தமாகும் பொழுது, அந்தந்த தேசத்தில் ப்ரஸித்தரான சிஷ்டரின் ஆசாரத்தினால் வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட வேண்டும் என்று கால நிர்ணயத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேचித்து-ராதௌ ஸக்லமணே புண்ய ஦ிநார்஧ ஸாந்஦ானயो: | பூர்ண சே
दर्घरात्रे तु यदा सङ्क्रमते रविः । प्राहुर्दिनद्वयं पुण्यमित्येवं
मकरकर्कटयोरपि प्रसक्तौ मुक्त्वा मகरकर्कटाविति पर्युदासात् रாதௌ
மகரகர्कटसङ्क्रान्तौ ‘ஸாந் ஦ாந் பரேஹனி’ ‘பூர்வமீவ ஦ிந் யாஹ்’ மிதி
தயோவிர்ஶிஷ்ய நிஶ்சிதत்வாத् ராதௌ ஸாநாடிக்ந கார்யம् । ‘ராதௌ ஸக்லமண்
புண்யம்’ ‘ராதூர்வநிஸக்ராந்தி’ இத்யாடிநி ராதிஸ்நானவி஧ாயினி
வசனானி மகரகர்கடாந்யஸக்லமவிஷயாণி । அதஸ்தயो: பூர்வபர்஦ின
எவ ஸாநம் । தடிதரஸக்லமேஷு து ‘ராதௌ ஸக்லமணே புண்ய ஦ிநார்஧
ஸாந்஦ானயோ’ ரிதி வி஧ானாட்சிகல்ப இதி காலாடஶானுஸாரிண ஆஹு: ॥

சிலரோவெனில்:- ‘ராத்ரெள ஸங்க்ரம ஞே +
தினத்வயம் புண்யம்’ என்றிவ்விதம் மகர
கர்க்கடங்களுக்கும் ப்ரஸக்தி வரும்பொழுது ‘முக்த்வா மகர

கர்க்கடெள்' என்ற பர்யதாஸத்தால், ராத்ரியில் மகரகர்க்கட ஸங்க்ரமணமானால், 'ஸ்நானமும், தானமும் மறுநாளில், முதல் நாள் ஏற்கலாம். என்று அவைகளுக்கு விசேஷமாக நிச்சயம் செய்திருப்பதால், ராத்ரியில் ஸ்நானம் முதலியது செய்யத்தகாதது, 'ராத்ரெள ஸங்க்ரமணம் புண்யம், ராஹுதர்சன ஸங்க்ராந்தி' என்பது முதலான, ராத்ரி ஸ்நானத்தை விதிக்கிற வசனங்கள், மகரகடகங்கள் தவிர மற்ற ஸங்க்ரமண விஷயங்கள். ஆகையால் அவைகளுக்கு முன் பின் துனங்களிலேயே ஸ்நானம், மற்ற ஸங்க்ரமணங்களிலானால் 'ராத்ரெள ஸங்க்ரமனே + ஸ்நானதானயோ:' என்ற விதியால் விகல்பம் என்று காலாதர்ச்சத்தை அனுஸரிப்பவர்கள் சொல்லுகின்றனர்.

உக்ஸ்ய ஸ்நானநாடே: உக்ஷபி காலேஷு விஶேஷமாஹ ஶாதாதப:— 'குர்யாத் ஸ்நாதயநே மधை விஷ்ணுபத்யாஂ விஷூதி । ஷத்ரித்யாமந்த்யமாகே ஸ்நாநாடிவி஧ிமாட்ட:’ இதி ॥ அயநாடிஷு யந் யாவாந் பூண்யகால உக்ஃ, தாவந்த் கால் த்ரே஧ா வி஭ஜ்ய மதை விஷ்ணுபத்யா’ மித்யாத்யவ஗ந்தந்யம் । அயநே ஸ்நா - யாவாந் பூண்யகால உக்ஃ: தஸ்மிந் ஸ்வந்தி குர்யாதித்யர்஥: ॥ தஸ்மிநபி மத்யாடிமாகே யா: ஸ்வாதிதா நாங்ச:,, தாஸா் பூர்வோதாஹதவசனே பூண்யதமத்து இடையம் ॥

சொல்லப்பட்ட ஸ்நான தானம் முதலியதற்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள காலங்களிலும் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார். சாதாதபர்:- அயனங்களில், புண்யகாலத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்நானதீகளைச் செய்யலாம். விஷ்ணுபதீ, விஷ்ணுவம், இவைகளில் நடுவில் செய்ய வேண்டும். ஷட்சிதியில் கடைசிப் பாகத்தில் செய்ய வேண்டும். அயனம் முதலியவைகளில் எவ்வளவு காலம் புண்யமாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு காலத்தை மூன்று பாகமாகப் பிரித்து, நடுப்பாகத்தில் விஷ்ணுபதீயில் என்பது முதலியதை அறியவும். அயனத்தில் எவ்வளவு புண்ய காலம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதில்

मुमुवतीलुम् चेष्यलाम्. अतीलुम् मत्याति पाकनंकणीलं
संकरमणत्तिन्हुकुं चमीपत्तिलुणां नामीकेकणुकुं मुनं
चेऽलंविय वसन्तत्तालं पुण्यमतिकमेना अर्थयत्तकंकतु.

गालवस्तु—मध्ये विषुवति दानं विष्णुपदे दक्षिणायने चादौ।
षडशीतिमुखेऽतीते तथोदगयने च भूरिफलम् इति। सङ्कान्तिषु
फलमाह वृद्धवसिष्ठः— अयने कोटिपुण्यं च सहस्रं विषुवे फलम्।
षडशीत्यां सहस्रं तु फलं विष्णुपदेऽपि च इति॥

कालवरोबेवणीलः— वीषावत्तिलं मत्य पाकत्तिलं
ताणम्. वीषंन्नु पत्तत्तिलुम्, तक्षिण्यणत्तिलुम् आत्तियिलं
ताणम्. षट्चित्तियिलुम् उत्तरायणत्तिलुम् कटैचियिलं
ताणम्. इति अतीक पलजैयणीप्पताकुम्.
संकरमणांकणीलं पलत्तत्तेच चेऽलंविलुकिरुर्.
वंग्रुत्तवणीष्टारः— अयणत्तिलं कोटि पुण्यम्,
वीषावत्तिलं आयीरम् मटंकु पलम्, षट्चित्तियिलुम्,
वीषंन्नु पत्तत्तिलुम् आयीरम् मटंकु पलाणम्.

रजस्वलास्तानम्

रजस्वलास्तानमाहाज्ञिराः—स्तानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहनि
निर्दिशेत्। कुर्याद्रजसि निर्वृते शौचार्थं तु ततः पुनः इति॥
योगयाज्ञवलक्यः—हस्तेऽश्नीयान्मृन्मये वा हविर्मुक्षितिशायिनी।
रजस्वला चतुर्थेऽहिं स्तात्वा शुद्धिमवाप्नुयात् इति॥ पञ्चतौ—त्रिरात्रं
च ब्रतं कृत्वा श्रुतिस्मृतिसमीरितम्। चतुर्थं सङ्गवे स्तात्वा स्त्रीधर्मं तु
समाचरेत् इति॥ सङ्गहे—मृते च सूतके चान्ते सङ्गवे स्तानमाचरेत्।
सङ्गवात् परतः स्तानमातौ तु विशिष्यते इति॥ कात्यायनः—
रजस्वला चतुर्थेऽहिं स्तात्वा शुद्धिमवाप्नुयात् इति॥ मनुरपि—
रजस्युपरते साध्वी स्तानेन स्त्री रजस्वला इति॥ रजोनिवृत्यनन्तरं पुनः
स्तानेन साध्वी—दैवादि कर्मार्हास्यादित्यर्थः॥

ரஜஸ்வலா ஸ்நானம்

ரஜஸ்வலா ஸ்நானத்தைச் சொல்லுகிறார்,
 அங்கிரஸ்:- ரஜஸ்வலைக்கு ஸ்நானம் நான்காவது நாளில்
 விதிக்கப்படுகிறது. ரஜஸ் நின்ற பிறகு சுத்திக்காக
 மறுபடியும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.
 யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- ரஜஸ்வலை, கையிலாவது
 மட்பாத்ரத்திலாவது புஜிக்க வேண்டும். அவள்
 ஹவிஸ்ஸை (உப்பு உறைப்பு இல்லாமல்)
 புஜிப்பவளாயும், பூழியில் படுப்பவளாயும் இருக்க
 வேண்டும். நான்காவது நாளில் ஸ்நானம் செய்தால்
 சுத்தியை அடைவாள். பத்துதியில்:- ரஜஸ்வலையானவள்,
 மூன்று நாள், ச்ருதியிலும், ஸ்மருதியிலும் சொல்லப்பட்ட
 வரதத்தை அனுஷ்டித்து, நான்காவது தினத்தில்
 ஸங்கவகாலத்தில் (ஆறு நாழிகைக்கு மேல்) ஸ்நானம்
 செய்து தன் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.
 ஸங்கரஹுத்தில்:- மருதாசௌசத்திலும்,
 ஜாதாசௌசத்திலும் முடிவில் ஸங்கவ காலத்தில் ஸ்நானம்
 செய்ய வேண்டும். ரஜஸ்ஸிலானால், ஸங்கவத்திற்குப்
 பிறகு (12- நாழிகைக்குப் பிறகு) ஸ்நானம்
 விதிக்கப்படுகிறது. காத்யாயனர்:- ரஜஸ்வலை, நான்காவது
 நாளில் ஸ்நானம் செய்து சுத்தியை அடைகிறார். மனுவும்:-
 பதிவ்ரதையான ரஜஸ்வலா ஸ்தரீ, ரஜஸ் நிவ்ருத்தியான
 பிறகு மறுபடி ஸ்நானத்தால் தைவாதி கர்மங்களில்
 அர்ணவை ஆகிறார்.

यत्पुनरज्जिरोवचनम्—शुद्धा भर्तुश्तुर्थेऽहि स्नात्व(त)। नारी
 रजस्वला । दैवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेऽहनि शुद्धयति इति,
 तद्रजोनिवृत्तिकालोपलक्षणार्थम् ॥ यतः स एवाह— साध्वाचारा न
 तावत् सा स्नाताऽपि स्त्री रजस्वला । यावत् प्रवर्तमानं हि रजोऽस्या न
 निवर्तते इति ॥ साध्वाचारा - दैवादिकर्मयोग्येत्यर्थः ॥ स्पर्शयोग्या तु
 स्नानादनन्तरं भवत्येव ॥ स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहनि शुद्धयति ।
 कुर्याद्रजोनिवृत्तौ तु दैवपित्र्यादि कर्म च इति पराशरस्मरणात् ॥

आगेल, अंकिरणः - “रज्जुस्वैलयाण स्तरी, नानंकावतु नागील संनानम् चेयतालं परत्तावक्कुचं सुत्तेयाकिरुं. तेवकर्मत्तिलुम्, पित्तर्य कर्मत्तिलुम्, जिन्तावतु नागील संनानम् चेयतालं सुत्तेयाकिरुं” एन्ऱु चेालवियुंलोरे ऎणील, अतु रजेज्ञा निवंरुत्ति कालत्तेतकं गुरुपपत्रकाम्. उविनील, अवरो चेाललुकिरुर - “रज्जुस्वैलयाण स्तरी, नानंकावतु नागील संनानम् चेयतवलायीनुम्, इवणीन रज्जुसं एतुवरयील निर्कविलैलयो अतुवरयील अवलं तेवपित्तर्य कर्मन्कुंकु येऽक्षेययाक आवत्तिस्लैले” एन्ऱु. संनानत्तिन्तकुप पिरु लपरस्तत्तिन्तकु मट्टुम् येऽक्षेय आकिरुं. “रज्जुस्वैलयाण स्तरी नानंकावतु नागील संनानम् चेयतु सुत्तेयाकिरुं. रज्जुसं निवंरुत्तियाण पिरुके तेवम् पित्तर्यम् मुतलिय कर्मत्तेतकं चेयलाम्” एन्ऱु पराशरर चेालवियिरुपपतालं.

रोगजन्यरजोनुवृत्तौ तु नास्त्यशुद्धिः । यदाहाङ्गिराः - रजश्चतुर्विधं इयं रोगजं रागजं तथा । धातुजं कालजं चेति योषितां तु बुधोत्तमैः ॥ एकादशाद्वादशाद्वा वर्षदूर्ध्वं भवेद्रजः । पञ्चाशद्वत्सरादूर्ध्वं स्त्रीणां ततु निवर्तते ॥ रोगेण यद्रजः स्त्रीणा मत्यर्थं तु प्रवर्तते । अशुद्धा नैव तास्तेन यस्माद्वैकारिकं हि तत् इति ॥ एवमकाले रागादिजनितरजोदशने द्रष्टव्यम् ॥ तथा चन्द्रिकायाम् - अकाले यद्भवेत् स्त्रीणां रक्तमाहुर्मनीषिणः । काले तु यद्रजः प्रोक्तं तस्मात्त्रैव साऽशुचिः इति ।

रोकत्तालं उंन्टाकुमं रज्जुस्वैलिणं
अनुवंरुत्तियाणुलं असुत्तु इलैल. अववितमं
चेाललुकिरुर, अंकिरणः - स्तरीकुंकु रज्जुसं नानंकु
वितमं. रोकज्ञमं, राकज्ञमं, तातुज्ञमं, कालज्ञमं एन्ऱु.
इववितमं चिरन्त अन्विवाळर चेालवियुंलानर. स्तरीकुंकु,
पथिनेणुन्ऱु, अल्लतु पन्निरंन्टावतु
वयतुक्कु मेलं रज्जुसं उंन्टाकुमं. ज्ञमंपतु

வர்ஷத்திற்குமேல் அது நிற்கும். ஸ்தரீகளுக்கு ரோகத்து னால் எந்த ரஜஸ் அதிகமாய்ப் ப்ரவர்த்திக்கின்ற தோ அதனால் அவர்கள் அசுத்தராவதில்லை. ஏனெனில், அது விகாரத்தாலேற்பட்டதல்லவா. இவ்விதம் ராகாதிகளால் உண்டாக்கப்படும் ரஜஸ்லின் தரசனத்திலும் அறிந்து கொள்ளவும். அவ்விதம், சந்த்ரிகையில்:- “அகாலத்தில் எது உண்டாகுமோ அதை, புத்திமங்கள் ரக்தம் என்கின்றனர். காலத்தில் உண்டாவதுதான் ரஜஸ் எனப்படுகிறது. ஆகையால் அதில் தான் அவள் அசுத்தையாவாள்” எனப்பட்டிருக்கிறது.

அஜ்ஞா:-அஷ்டாத்ராஹாநாரீணா மூத்ரச்஛ைசமிஷ்டே ।
 ஆத்ராத்ராஹாத்ஸாந் ஸ்யாத் திராत்ர பரதோதஶுचிஃ இதி । விஜானேஶ்வரः
 - யदா ரஜோదர்ணாதாரம்ய புனः ஸப்தத்ராதிநாம்யந்தரே ரஜோத்ராநம्,
 ததாதஶுಚித்வं நாஸ்தே । அஷ்டாத்ரே த்வேகாஹாஞ்சுஷ்டிஃ । ஏகோநவிஂஶே
 இத்வாத் । தத உத்ரேஷு த்ரயாஞ்சுஷ்டிஃ । யஸ்யா விஂஶதி஦ிநோத்ரர் ப்ராயஶோ
 ரஜோத்ராநம், தஸ்யா விஂஶதி஦ிநப்ரभுதி திராத்ரம் । யஸ்யா: புன: ப்ரா
 ஗ேகாஷ்டாத்ராதிநாத்ராஞ்சுஷ்டிஃ । தஸ்யா: திராத்ரம் இதி ॥
 ததாத்ரி: - ரஜஸ்வலாயா ஸ்நாதாயா புனரேவ ரஜஸ்வலா ।
 அஷ்டாத்ராதிநாத்ராஞ்சுஷ்டித்வா ந வி஘்டே ॥ ஜனவிஂஶதி஦ிநாத்ரா
 ஗ேகாஹமஶுஷ்டி஭வேத் இதி ॥

அங்கிரஸ்:- ஸ்தரீகளுக்குப் பன்னிரண்டு நாள் வரையில் மூத்ரத்திற் போல் சௌசம் சொல்லப் பட்டுள்ளது. 18-நாள் வரையில் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது. பிறகு மூன்று நாள் அசுத்தையாவாள். விக்ஞாநேஷ்வரர்:- எப்பொழுது, ரஜோதர்சனம் முதல், மறுபடி 17- நாட்களும் ரஜோதர்சனம் உண்டாகிற தோ அப்பொழுது அசுத்தி இல்லவேயில்லை. 18- ஆவது நாளிலானால் ஒரு நாள் அசுத்தி. 19- ஆவது நாளிலானால் இரண்டு நாள் அசுத்தி. அதற்கு மேலுள்ள தினங்களிலானால்

मुन्नरु नाळं असत्ति. एवणुक्कु इरुपतु तिनंकाणुक्कुप
प्रिर कें अनेकमायं रजेज्ञातर्सनमें अवणुक्कु
इरुपतावतु तिनमं मुतलं मुन्नरु नाळं असत्ति. एवणुक्कु,
18- नाळंकाणुक्कु मुन्तिये अनेकमायं रजेज्ञानीरकममें
अवणुक्कु मुन्नरु नाळं असत्ति. अव्वितमें, अतीः-
रज्जल्स्वलै, संनानमं चेयत प्रिरकु, 18- आवतु नाणुक्कुं
मरुपटि रज्जल्स्वलैयानुलं अवणुक्कु असत्तियिल्लै. 19-
आवतु नाणुक्कुं आनुलं ओरुनाळं असत्तेयावाळं.

स्मृत्यर्थसारे—रजस्वला चतुर्थेऽहि षष्ठिमृत्तिकाभिः शौचं
कृत्वा विधवा चेत् द्विगुणमृत्तिकाभिश्शौचं कृत्वा दन्तधावनपूर्वं सङ्गवे
सचेलं स्नायात् । स्नातायाः पुनरपि रजोदषावषादशदिनादर्वा
गशुचित्वं नास्ति । अष्टादशदिने रजोदषावेकरात्रमशुचिः ।
एकोनविंशो द्विरात्रम् । विंशो त्रिरात्रमेव । प्रायो विंशतिदिनादूर्ध्वं
रजःस्नाविणीनामेवम् इति ।

संमंगुत्यार्त्तं लारत्तिलः— रज्जल्स्वलैयानवाळं,
नाळंकावतु नाळीलं 60 - मन्नकाळालं चेळाचमं चेयतु
केळाण्णु, वितव्वेयानुलं इरुमटंक्कु मन्नकाळालं
चेळाचमं चेयतु केळाण्णु, तन्ततावनमं चेयतु केळाण्णु,
सेन्कव कालत्तिलं लेचेलं संनानमं चेयय वेण्णुम्.
संनानमं चेयतवणुक्कु 18 - आवतु नाणुक्कुं मरुपटि
रजेज्ञातर्सनमानुलं असत्तियिल्लै. 18- आवतु नाळीलं
रजेज्ञातर्सनमानुलं, ओरु नाळं असत्ति. 19 - आवतु
नाळीलानुलं इरण्णु नाळं असत्ति. 20 - आवतु
नाळंकालानुलं मुन्नरु नाणुमं असत्ति. अनेकमायं 20-
नाणुक्कु मेलं रज्जल्स्वलैयावमुन्नटाकुमं लेतर्गेकाणुक्कु
इव्वितम्.

प्रसूतिकाविषये प्रजापतिः— प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो
विंशतेः परम् । आर्तवी रजसा प्रोक्ता प्राकु नैमित्तिकं रजः ॥
रजस्युपरते तत्र स्नानेनैव शुचिभवेत् इति ॥ सङ्गहे — प्रथमेऽहनि

சுஷ்ணாலி இதியே ஸூதிகா ஭வेत् । தூதியேऽஹி ஸ்வधர்மஸ்஥ா சதுர்஥ே பதிதோ
யथா ॥ ஸஜ்ஜாநதே சதுர்஥ேऽஹி ஸ்நாநாஞ்சுஷ்ணம்வாபுயாத् ।
ஏகவிஂஶதி஧ா॥லிப்ப ஸவங்கின் ஶுஷ்ணா மृதா ॥ குத்வா ஸ்நாநஶதம்
பக்ஷாஞ்சுசிர்வதி நாந்யதா ॥ ஸ்நாநாநதே ஭ாஸ்கரங் உஷ்ணா புற்ப ப்ரார்஥
ஸுமங்கலி । திவாரங் ப்ராஶயே ஦னங் ந சேஷ்வதி ஭வेत் இதி ।

ப்ரஸவித்தவள் விஷயத்தில், ப்ரஜாபதி:- ப்ரஸவித்த
ஸ்தர், ஸ்நாநாநத்திற்குப் பிறகு 20- நாளுக்குப் பிறகு,
ரஜோதர்சனத்தை அடைந்தால் ரஜஸ்வலை எனப்படுவாள்.
அதற்கு முன் ஆனால் அது நைமித்திகமான ரஜஸ்
எனப்படும். அந்த ரஜஸ் நிவருத்தியானவுடன் ஸ்நாநம்
செய்வதாலேயே அவள் சுத்தையாய் ஆகிறான்.
ஸங்க்ரஹத்தில்:- ரஜஸ்வலை, முதல் நாளில் சண்டாளி
போலும். 2- நாளில் ஸுதிகை போலும். மூன்றாவது
நாளில் தன் தர்மத்தில் இருப்பவளாம். நான்காவது நாளில்
பதிதன் போலுமாம். நான்காவது நாளில்,
ஸங்கவகாலத்தின் முடிவில், ஸ்நாநாநத்தால் சுத்தையை
அடைவாள். சுத்தமான மண்ணினால் 21- தடவை தேவும்
முழுவதும் பூசிக் கொண்டு, 100- தடவை முழுகிப்பிறகு
சுத்தையாவாள். வேறுவிதமாய்ச் செய்தால்
சுத்தையாவதில்லை. ஸுமங்கலியானவள், ஸ்நாநம் செய்த
பிறகு, ஸுர்யனைப் பார்த்துப் புத்ரனை வேண்டி,
அன்னத்தை மூன்று தடவை ப்ராசிக்க வேண்டும்.
இல்லாவிடில் தோழம் உள்ளவளாவாள்.

போதாயன: - ரஜஸ்வலா து ஸ்ஸ்பூஷ்ண சுஷ்ணாலாந்த்யஶ்வாயஸை: ।
தாவத்திஷ்டேநிராஹாரா யாவத்காலேன ஶுஷ்ணதி இதி ॥ மோஜனகாலஸ்பர்ணே ஸ
ஏவ - - ரஜஸ்வலா து முஜாநாஶாந்த்யஜாடீந் ஸ்பூஷேஷ்வதி ।
஗ோமூத்ரயாவகாஹாரா ஷாத்ரேண விஶுஷ்ணதி । அஶக்தௌ காஶ்வன் ஦யாத்
விப்ரேம்யோ வாஃபி மோஜனம் இதி ॥ வூஹஸ்பதி: - பதிதாந்த்யஶ்வபாகைஶ
ஸ்ஸ்பூஷ்ண சேஷ்வஸ்வலா । தாந்யஹானி வ்யதிக்ரம்ய ப்ராயஶ்வித்தீ ஸமாசரேத் ॥

प्रथमेऽहित्रिरात्रं स्यात् द्वितीये द्वचहमेव च । अहो रात्रं तृतीयेऽहि
चतुर्थे नक्तमाचरेत् ॥ रजसा भुजते नार्यः मोहात् स्पृष्टाः शवादिभिः ।
त्यहे तु पर्यपिते तु कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् इति ॥

पोतायनरः:- रजूं संवैलयानवासं, संन्टाळासं,
अन्त्यज्जनं, नाय, काक्कके इवेवकालाल तेऽटप्पट्टाल,
अवासं कालत्तालं सुत्तेयाकुमं वरे आह्लारमिल्लामल
इरुक्क वेण्णुम्. **पोज्जन** कालत्तिल
संपर्चिक्कप्पट्टाल **पोतायनरो**:- रजूं संवैल, पूजीत्तुकं
केान्नाटिरुक्कुमं **पोतु** नाय, अन्त्यज्जनं मुत्तलियवरे
संपर्चित्ताल, केऽमुत्तरत्तिल पक्कवमान यवान्नन्त्तेत
मट्टिलं पूजीप्पवासाय आहुनासं वरतमिरुन्तालं
सुत्तेयावासं. कक्तियिल्ला वीटिलं संवर्णन्त्तेयावतु
तासंम चेय्य वेण्णुम्. प्ररामं उरण्णरक्कुक्कुप
पोज्जनत्तेयावतु केाटुक्क वेण्णुम्. **प्रुह्लादंपती**:-
रजूं संवैल, पतितनं, अन्त्यज्जनं, संवपाकनं इवर्कालाल
तेऽटप्पट्टाल, अन्त नाट्कसं तान्नाट्य प्रिरु,
प्ररायसंसित्तम चेय्तु केासाल वेण्णुम्. मुत्तलं नासील
संपर्चिक्कप्पट्टालं औन्नरु नासं वरतमिरुक्क वेण्णुम्.
इन्नावतु नासील तेऽटप्पट्टालं इरण्णु नासं
वरतम. औन्नरुवतु नासीलाग्नेल औरु नासं वरतम.
नान्कावतु नासीलाग्नेल औरु इरवु वरतम. रजूं संवैलकसं
सवमं मुत्तलियतालं संपर्चिक्कप्पट्टु प्रिरु
अरियामेयालं **पोज्जनम** चेय्ताल, औन्नरु नासं चेन्नरु
प्रिरु शान्तरायणत्तेत अनुष्टिक्क वेण्णुम्.

अखण्डादर्शी—उच्छिष्ठेन तु संयुक्ता चण्डालादीन् यदि
स्पृशेत् कृच्छ्रं सान्तपनं कुर्यात् चान्द्रायणमथापि वा इति ॥
विष्मूत्रोत्सर्गं भुक्त्वा वा अकृतशौचाया रजस्वलायाश्चण्डालादिस्पर्शं
अकामतश्चान्द्रायणं, कामतः सान्तपनं इति व्यवस्था ॥ सङ्खे—
आर्तवामिसृता नारी शबं स्पृष्टा विमोहिता । आस्थानकालानाशनीया
दासीनावाग्यता बहिः इति ॥

அகண்டாதர்சத்தில்:- உச்சிஷ்ணையான ரஜஸ்வலை சண்டாளன் முதலியவரை ஸ்பர்சித்தால், ஸாந்தபனம் அல்லது சாந்தராயணத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். மலமுத்ரோத்ஸர்ஜனம் செய்த பிறகோ, போஜனம் செய்த பிறகோ குத்தி செய்து கொள்வதற்கு முன் சண்டாளாதிகளை ஸ்பர்சித்தால், அறியாமல் செய்ததானால் சாந்தராயணம், அறிந்து செய்தால் ஸாந்தபனம் என்று வ்யவஸ்தை. ஸங்கரஹத்தில்:- ரஜஸ்வலையான ஸ்த்ரீ அக்ஞானத்தால் சவத்தை ஸ்பர்சித்தால் ஸ்நான காலம் வரையில் வெளியில் மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்து உபவாஸத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

भृगुः—सूतकं प्रेतकं स्पृष्ट्वा श्रुत्वा बन्धुषु मारणम् ।
आस्त्रानकालानाशनीयात् पञ्चगव्यं ततः पिबेत् ॥ आर्तवाभिष्ठृतायास्तु
शावाशौचं भवेद्यदि । सूतकं वा भवेन्मध्ये स्नात्वा भोजनमिष्यते इति ॥
स्नात्वा - वेत्रादिनिर्मितपात्रोद्घृतोयैरिति शेषः ।

ப்ரகுதி:- ரஜஸ்வலை, ஜாதாசௌசியையாவது, ம்ருதா சௌசியையாவது கொட்டாலும், பந்துக்களில் மரணத்தைக் கேட்டாலும், ஸ்நான காலம் வரையில் போஜனம் செய்யக் கூடாது. பிறகு பஞ்சகவ்யத்தைப் பருகவேண்டும். ரஜஸ்வலைக்கு, ஸ்நான காலத்திற்குள், சாவாசௌசமாவது ஜாதாசௌசமாவது ஏற்பட்டால், ஸ்நானம் செய்து பிறகு போஜனம் விதிக்கப்படுகிறத. இங்கு, ஸ்நானம் செய்த என்ற இடத்தில், ‘பிரம்பு முதலியவையால் செய்யப்பட்ட பாத்ரத்தினால் எடுக்கப்பட்ட ஜலங்களால்’ என்று சேர்த்துக் கொள்ளலும்.

பராஶரः—स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला ।
पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत् । सित्तगात्रा भवेदद्विः
साङ्गोपाङ्गं कथञ्चन । न वस्त्रपीडनं कुर्यात् नान्यद्वासश धारयेत् ॥ शावे
च सूतकं चैव ह्यन्तरा चेष्टुभवेत् । नास्त्रात्वा भोजनं कुर्यात् भुक्त्वा
चोपवसेदहः ॥

प्राचरारः:- रज्जुं स्वलैयान् संतर्हि, नेन मित्ति कमान् संनानम् प्राप्तमाणुलं अप्पेपामुतु, पात्रत्तत्तालं मरेककप्पट्ट जलत्तत्तालं संनानम् चेष्यतु तन्न नियमत्तेत अनुष्ठिक्क वेण्णुम्. एवं वित्तमाकवावतु जलत्तिणुलं तेहुम् मुमुवत्तेयुम् नैनत्तुक केकाळां वेण्णुम्. वस्त्रत्तत्तेयुम् तरीक्कक्क कुटातु. वेऱु वस्त्रत्तत्तेयुम् तरीक्कक्क कुटातु. साविलुम्, शत्रुकत्तिलुम् नुवील रज्जोत्तरसन्माणुलं, संनानम् चेय्यामलं पोज्जनम् चेय्यक्क कुटातु. पूजित्तत्तालं ओरु नाळं उपवासमिरुक्क वेण्णुम्.

अत्र स्नानप्रकारं स एवाह—मृतसूतकमध्ये तु रजो दृष्ट्वा कथं भवेत् ब्राह्मणानां कर्मुक्तं तोयं शिरसि धारयेत्। सर्वतीर्थं जलात् श्रेष्ठं तोयं विप्रकरच्युतम्। दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुद्ध्यति इति। रजस्वलयोरन्योन्यसंस्पर्शे वर्णक्रिमेण शुद्धिमाह पराशारः— स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा। तावत्तिष्ठेनिराहारा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यते। स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा। अर्धकृच्छ्रं चरेत्पूर्वा पादमेकं त्वनन्तरा। स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजा तथा। पादहीनं चरेत् पूर्वा पादमेकमनन्तरा॥

इतिलं संनानप्रकारत्तेतक्षं चेकालं किञ्चिरुर्. प्राचरारेः— मिरुत्ताचेळाचम, ज्ञातकाचेळाचम् इवेवकलीनं नुवील रज्जोत्तरसन्माणुलं एन्नन चेय्यवतु? पिरामणरक्कलीनं केककलालं विटप्पट्ट जलत्तेत चिरस्लीलं तरीक्कक वेण्णुम्. पिरामणरक्कलीलिरुन्तु विमुन्त तीर्तत्तमं लकल तीर्तत्त जलन्ककला विटस्चिरन्तत्ताकुम्. पिऱकु चक्तिक्केन्पत्तत्तानम् चेय्य वेण्णुम्. पिऱकु पुण्यालु वचनत्तत्तालं सुत्तियाकिञ्चिरुर्. रज्जुं स्वलैकलं ओरुवरुक्केकारुवर् स्वपर्सित्तत्तालं वर्णक्किरममायं सुत्तियेच चेकालं लुकिञ्चिरुर् प्राचरारः— रज्जुं स्वलैकलान पिराम्लुणीकलं ओरुवरुक्केकारुवर् तेताटुक्क केकाण्टालं संनानम् वरेयील उपवासम् इरुक्क

வேண்டும். பிறகு திரிராத்ர விரதத்தால் சுத்தையாவாள். ரஜஸ்வலைகளான பிராம்ஹணியும் கஷ்தரிய ஸ்த்ரீயும் பரஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால் பிராம்ஹணீ அர்த்த க்ருச்சிரமும் கஷ்தரியை பாதக்ருச்ரமும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்; ரஜஸ்வலைகளான பிராம்ஹணியும் வைச்ய ஸ்த்ரீயும் பரஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால் பிராம்ஹணீ முக்கால் கிருச்சிரமும் வைச்ய ஸ்த்ரீகால் கிருச்ரமும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । कृच्छ्रेण
शुद्धते पूर्वा शूद्रा दानेन शुद्धयति इति ॥ ब्राह्मण्योः स्पर्शो तत आरभ्य
स्नानपर्यन्तमुभयोराहारत्यागः, त्रिरात्रकृच्छ्रं च । एतच्च
सहशयनादिचिरस्पर्शविषयम् । सकृत् स्पर्शो तु एकरात्रोपवासेन
पञ्चगव्येन च शुद्धिः । स्नानपर्यन्त माहारत्यागश्च ॥ आर्तवाभिमृता
नारी त्वार्तवाभिमृतां स्पृशेत् । स्नात्वोपवासं कुर्यातां पञ्चगव्येन
शुद्धतः ॥ आस्तान कालानाश्रीतो भुक्त्वा चान्द्रायणं भवेत्' इति
स्मरणात् ॥

ரஜஸ்வலைகளான ப்ராம்ஹணியும், சூத்ரஸ்த்ரீயும், பரஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால், ப்ராம்ஹணீ ஒரு க்ருச்ரத்தாலும், சூத்ரஸ்த்ரீ தானத்தாலும் சுத்தைகளாகின்றனர். ப்ராம்ஹணிகள் பரஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால் ஸ்நானம் வரையில் இருவருக்கும் உபவாஸமும், த்ரிராத்ரக்ருச்ரமும். இது சேர்ந்து படுப்பது முதலான சிரகால ஸ்பர்ச விஷயம். ஒரு முறை மட்டில் ஸ்பர்சத்தில் ஒருநாள் உபவாஸத்தாலும், பஞ்சகவ்யத்தாலும் சுத்தி, ஸ்நானம் வரையில் உபவாஸமும். 'ரஜஸ்வலையானவள் ரஜஸ்வலையான மற்றொருவளை ஸ்பர்சித்தால், இருவரும் ஸ்நானம் செய்து உபவாஸம் செய்ய வேண்டும். பஞ்சகவ்யத்தால் சுத்தராகின்றனர். ஸ்நானகாலம் வரையில் புஜிக்கக் கூடாது. புஜித்தால் சாந்த்ராயணத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்' என்று ஸ்மருதியிருப்பதால்.

स्मृत्यर्थसारे— कृच्छ्रं तस्या यया स्पृष्टमन्यस्यास्तु तदर्धकम्। दण्डाद्यन्तहिते नोचेदन्यस्या अपि कृच्छ्रकम् इति ॥ कृच्छ्रमन्त्र त्रिरात्रादि ॥ तत्रैव — स्पृष्टे रजस्वलेऽन्योन्यं सगोत्रे चैकमतृके । कामतोऽकामतो वाऽपि त्रिरात्रेणैव शुध्यतः इति ॥ त्रिरात्रेण — त्रिरात्रोपवासेन ॥ शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्याऽन्यया तथा । शेषाण्यहान्युपवसेत् स्नात्वा शुध्येत् घृताशनात् इति संवर्तवचन मकामकृतस्पर्शविषयम्॥

संमंगुत्यर्थत्तु लोरत्त्विलः— एवलं तेऽट्टवलेनो अवरुक्कु कंगुच्चरम्. मर्न्रवरुक्कु अतिलं पाति. इतु तण्टातिकलालं स्पर्सत्तिलं. मर्न्र स्पर्सत्तिलागुलं मर्न्रवरुक्कुम् कंगुच्चरमे. इंकु कंगुच्चरमेमन्नतु त्तिरात्रत्त कंगुच्चरम् मुतलियताम्. संमंगुत्यर्थत्तलोरत्तिलेये— लकोत्तरेकलायुम्, ओरे पर्त्ततावेवयैवरकगुमान इंरु रजस्वलैलं स्तरीकलं परस्परम् स्पर्सित्तालं इंक्षेचयालाकिणुम्, अनिंक्षेचयालाकिणुम् त्तिरात्रत्त तालेये स्तराकिण्णनर. इंकु त्तिरात्रत्ततालं एन्पत्रंकु त्तिरात्रत्त रोप वासत्ततालं एन्ऱु बेपारुलं. “रजस्वलैल, नायालं, अलंलतु मर्न्गेगुरु रजस्वलैलयालं स्पर्सिक्कप्पत्तालं मेतियुलं नाट्कलं मुमुवतुम् उपवासम् इंरुक्क वेण्णुम्. लन्नाणम् चेय्त प्रित्तु नेय्येयप्प परुकुवत्तालं स्तरेत्तयावालं” एन्ऱ लमंवात्तत्तरीनं वसनम्, अनिंक्षेचयालं एर्पत्त स्पर्स विषयम्.

वृद्धविष्णुरपि—रजस्वला हीनवर्णा रजस्वलां स्पृष्टा न तावदशनीयाद्यावन शुद्धिः स्यात्। सवर्णमधिकवर्णा (वा)स्पृष्टा सद्यः स्नात्वा शुध्यति इति ॥ विष्णुः— रजस्वला हीनवर्णा सार्तवामुत्तमां यदि। स्पृशेत् स्पृष्टा न भुज्जीत् स्नानादूर्ध्वं तु भोजनम्॥ उपवासं ततः कुर्याद् ब्राह्मणान् भोजयेत्ततः इति ॥ स्पर्शै सत्युद्धृतैः स्नात्वा उपोष्य चतुर्थाहि स्नानादूर्ध्वं ब्राह्मणान् भोजयित्वा भुज्जीतेत्यर्थः।

வ்ருத்த விஷ்ணுவும்:- ரஜஸ்வலை, கீழ்வரணத்திய ரஜஸ்வலையை ஸ்பர்சித்தால், சுத்தையாகும் வரையில் புஜிக்கக் கூடாது. ஸமான வர்ண ஸ்த்ரீயையாவது, மேல்வர்ண ஸ்த்ரீயையாவது ஸ்பர்சித்தால், உடனே ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தையாகிறான். விஷ்ணு:- கீழ்வரணத்திய ரஜஸ்வலை, மேல்வரணத்திய ரஜஸ்வலையை ஸ்பர்சித்தால், ஸ்பர்சிக்கப்பட்ட மேல்வர்ண ஸ்த்ரீ ஸ்நானம் வரையில் புஜிக்கக் கூடாது. பிறகு ப்ராம் ஹணர்களைப் புஜிப்பிக்க வேண்டும். ‘ஸ்பர்சமானால், வெளி யில் எடுக்கப்பட்ட ஜலத்தால் ஸ்நானம் செய்து, உபவாஸமிருந்து, நான்காவது துனத்தில் ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு ப்ராம் ஹணர்களைப் புஜிப்பித்துப் பிறகு தான் புஜிக்க வேண்டும்’ என்பது பொருள்.

स एव – रजस्वलासंस्पृष्टोऽस्त्रात्वा भुञ्जनुपवास त्रयं चरेत् ।
तच्छायां भुक्तिपात्रं वा स्पृष्ट्वा अस्त्रात्वा भुञ्जनुपवासेन शुद्ध्येत् ।
मलिनं तद्वासस्तदनं स्पृष्ट्वाऽस्त्रात्वा भुञ्जन् उपवासत्रयं चरेत् ।
उदक्यापात्रे अज्ञानाद्भुञ्जन् प्राजापत्यमभ्यस्येत् । उदक्योच्छिष्टं भुञ्जन्
कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् । भोजनकाले रजस्वलान्तरदर्शने आस्त्रानकालं
नाशनीयात् । ब्रह्मकूर्चं ततः पिबेत् । चण्डालदर्शने उपवासत्रयम् ।
कामतस्तु प्राजापत्यम् । रजस्वला श्वादिभिर्दृष्टा यदि पञ्चरात्रं
निराहारा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति इति ॥

விஷ்ணுவே:- ரஜஸ்வலையால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டவன் ஸ்நானம் செய்யாமல் புஜித்தால் மூன்று நாள் உபவாஸம் செய்ய வேண்டும். ரஜஸ்வலையின் நிழலையாவது, போஜன பாத்ரத்தையாவது ஸ்பர்சித்தவன், ஸ்நானம் செய்யாமல் புஜித்தால் ஒரு நாள் உபவாஸம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அழுக்குள்ள அவள் வஸ்த்ரத்தையாவது, அவள் அன்னத்தையாவது ஸ்பர்சித்தவன், ஸ்நானம் செய்யாமல் புஜித்தால் மூன்று நாள் உபவாஸம் இருக்க வேண்டும். ரஜஸ்வலையின் பாத்ரத்தில் அறியாமையால் புஜித்தவன்

प्रराज्ञापत्यं कंगुचरत्तेत. अनुष्टुक्कं वेण्णुम्.
रज्जस्वलैयिन् उच्चिष्टत्तेतप्प धूलित्तवन् सान्त्तपन
कंगुचरत्तेत. अनुष्टुक्कं वेण्णुम्. रज्जस्वलैल,
पोज्जनकालत्तिलं मर्ग्गेरुरु रज्जस्वलैयेयप्प पार्त्तालं
स्नान कालम् वरेयिलं पुज्जिक्कक्क कृटातु. पीरुकु
प्रम्भूकूर्स्च पञ्चकव्यत्तेतप्प परुकवेण्णुम्.
सन्टाळैनेप्प पार्त्तालं सून्त्रु नाळू उपवासम् चेय्य
वेण्णुम्. इच्छेयुत्तालैल, प्रराज्ञापत्यं मनुष्टुक्कं
वेण्णुम्. रज्जस्वलैल, नाय मुत्तव्यवेयालं
कृष्टकप्पत्तालं, ज्ञन्तुनाळू आह्वारम् इल्लामविरुन्तु
पञ्चकव्यत्तालं कृत्तेत्याकिरुन्तु.

अखण्डादर्शे – रजस्वलाया भोजने पाने वा प्रतिलोमप्रसूताना
मन्यतमनिरीक्षणे स्नानान्तमनशनं तदशक्तौ प्रतिनिधि रेकस्य दिनस्य
पञ्च वा त्रीन् वा विप्रान् भोजयेत् इति ॥ अत्रिः – सार्तवा यदि
चण्डालमुच्छिष्ठा सम्प्रपश्यति । आस्नानकालान्नाश्रीया दासीना
बायता बहिः ॥ पादकृच्छ्रं ततः कुर्याद् ब्रह्मकूर्चं पिबेत् पुनः ।
ब्राह्मणान् भोजयेदद्याद्विप्राणामनुशासनात् इति ॥

अकन्टात्तर्सक्त्तिलः :- रज्जस्वलैल, पोज्जनम्
चेय्युम् पोतु, अल्लतु ज्ञलम् परुकुम्पेपोतु, प्रतिलेला
मज्जातीयरुन्तु ओरुवैनेप्प पार्त्तालं, स्नानम् वरेयिलं
उपवासम् चेय्य वेण्णुम्. सक्ति इल्लाविष्टिलं, ओरु
तिनेत्तिरुकु ज्ञन्तु, अल्लतु सून्त्रु प्रराम्भून्नर्कैनेप्प
धूलिप्पिक्क वेण्णुम्. अत्तरीः- रज्जस्वलैल उच्चिष्टत्तेयाय
इरुन्तु सन्टाळैनेप्प पार्त्तालं स्नान कालम् वरेयिलं
वेवलीयीविरुन्तु मेमानत्तुटनं उपवासम् इरुक्क
वेण्णुम्. पीरुकु पातकंगुचरम् अनुष्टुक्कं वेण्णुम्.
प्रम्भूकूर्स्च पञ्चकव्य प्रराचनमुम्म चेय्य वेण्णुम्. अवर्कैनेः
अनुक्त्तेन्यालं ताळं पुज्जिक्क वेण्णुम्.

आतुरस्नानविधिः

अथ आतुरस्नानविधिः । ज्वरादिभिरातुरस्य स्नाननिमित्ते प्राप्ते
कर्तव्यमाह परात्माः । आतुरस्नान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः ।
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुध्येत् स आतुरः इति ॥ अत्र
प्रतिस्नानमातुरस्य वासो विपरिवर्तनीयम् ॥ उशना - ज्वराभिमूता या
नारी रजसा च परिसृता । कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात् केन
कर्मणा ॥ चतुर्थेऽहनि सम्प्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां स्त्रियम् । सा
सचेलाऽवगाहापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत् ॥ दश द्वादशकृत्वो वा
ह्याचामेच्च पुनः पुनः । अन्यान्यानि च वासांसि ततः शुद्धा भवेतु सा ॥
दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुद्ध्यति इति ॥

पிண्णியாளர் ஸ்நானவிதி

இனி ஆதுரனின் (பிண்ணியாளனின்) ஸ்நானவிதி சொல்லப்படுகிறது. ஜ்வரம் முதலியவைகளால் வருந்தியவனுக்கு ஸ்நான நிமித்தம் நேர்ந்தால், செய்ய வேண்டியதைச் சொல்லுகிறார் பராசரர்:- ஆதுரனுக்கு ஸ்நான நிமித்தம் ப்ராப்தமானால், வ்யாதியில்லாத மற்றவன், பத்துத் தடவை, மூழ்கி மூழ்கி வ்யாதிஸ்தனைத் தொடவேண்டும். பிறகு அந்த வ்யாதிஸ்தன் சுத்தனாவான். இங்கு ஒவ்வொரு ஸ்நானத்திலும், ஆதுரனுடைய வஸ்தரம் மாற்றப்பட வேண்டும். உசநஸ்:- எந்த ஸ்தரீ ஜ்வரத்தால் பிடிக்கப்பட்டவளாய் ரஜஸ்வலையாயும் உள்ளாளோ, அவளுக்குச் சுத்தி எப்படி ஆகும்? எக்கர்மத்தால் சுத்தி ஏற்படும்? (எனில்) நான்காவது நாள் வந்ததும், மற்றென்றால் ஸ்தரீ, அந்த ஸ்தரீயைத் தொட்டுவிட்டு, ஸ்தேலஸ்நானம் செய்து, அவளைத் தொட்டு மறுபடி ஸ்தேலஸ்நானம் செய்து மறுபடி அவளைத் தொடவேண்டும். இவ்விதம் பத்து அல்லது பன்னிரண்டு தடவை செய்ய வேண்டும். ஆதுரரயானவள் அடிக்கடி ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.

जुंबेवारु तटवेवयिलुम् वेवंवेव्रु वस्तरम् तारीक्क
वेण्णुम्. इवंवितम् चेयंतालं पिऱ्ठु अवलं
सत्तंतयावाळं. पिऱ्ठु यताक्षंति ताळम् चेय्य वेण्णुम्.
पुण्याह्ववचनत्तालं सत्तंतयाकिरुं.

योगयाज्ञवल्क्यः – तूष्णीमेवावगाहेत यदा स्यादशुचिर्नरः ।
आचम्य प्रयतः पश्चात् स्नानं विधिवदाचरेत् इति ॥ विष्णुरपि –
स्नानार्हस्तु निमित्तेन कृत्वा तोयावगाहनम् । आचम्य प्रयतः पश्चात्
स्नानं विधिवदाचरेत् इति ॥ शातातपः – मार्गे तु यत्र संस्पृष्टिः
यात्रायां कलहादिषु । ग्रामसंदूषणे चैव स्पृष्टिदोषो न विद्यते इति ॥
षट्क्रिंशन्मतेऽपि – देवयात्राविवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । उत्सवेषु च
सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति इति ॥

योक्याक्नुवल्क्यरः:- मणीतनं एप्पेबामुतु
असत्ताग्निकिंरुणे अप्पेबामुतु वित्तियिल्लामले
मुमुक्षेवेण्णुम्. पिऱ्ठु आचमनम् चेय्तु सत्ताग्नय,
वित्तिप्पटि लंनाळम् चेय्य वेण्णुम्. विष्णुवुमः-
निमित्ततत्तालं लंनाळम् चेय्य वेण्णियवनं, ज्ञलत्तिलं
मुमुक्षी आचमनम् चेय्तु, सत्ताग्नयप्प पिऱ्ठु वित्तिप्पटि
लंनाळम् चेय्य वेण्णुम्. शातातपरः- वழियिलुम्,
यात्तरयिलुम्, कलह्वम् मुतलियतिलुम्, करामत्तिलं
कलकत्तिलुम् लंपर्सत्रोषमिल्लै. षट्क्रिंशन्मतं
मत्तत्तिलुमः- तेवतरसनत्तिलुम्, यात्तरयिलुम्,
विवाहत्तिलुम्, योक्यंकलं नटक्कुम् पोतुम्, लंलाला
उत्तसवंकलीलुम्, अलंपर्सर्क्यरीनं लंपर्समं
त्रोषमर्हतु.

बृहस्पतिरपि – तीर्थे विवाहे यात्रायां सद्ग्रामे देशविष्वे । नगरे
ग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति इति ॥ पाद्मे – देवालयसमीपस्थान्
देवसेवार्थमागतान् । चण्डालान् पतितान् वाऽपि स्पृष्टा न
स्नानमाचरेत् इति ॥ आपस्तम्बः – शक्तिविषये न मुहूर्तमप्ययतः
स्यात् इति ॥

ப்ருஹஸ்பதியும்:- தீர்த்தத்திலும், விவரவறத்திலும், யாத்ரையிலும், யுத்தத்திலும், தேசத்தின் தொந்தரையிலும், நகரத்திலும், க்ராமதாலூத்திலும், அஸ்ப்ருசயரின் ஸ்பர்சம் தோஷமற்றது. பாத்மத்தில்:- தேவாலயத்தின் ஸ்மீபத்தில் இருப்பவரும், தேவ ஜேவைக்கு வந்தவருமான, சண்டாளர், பதிதர் இவர்களை ஸ்பர்சித்தாலும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆபஸ்தமபர்:- சக்தியுள்ளவருகில், முஹ உர்த்த காலங்கூட அசுத்தனைய் இருக்கக் கூடாது.

காம்யஸ்நானானி

அथ காம்யஸ்நானானி । தत्र புலஸ்த्यः – புष்டே ச ஜந்மநக्षत்ரே
வ்யதிபாதே ச வै஧ृதை । அமாயாஂ ச நदீஸ்நான் புனாத்யாஸஸம் குலம् ॥
ரவ்யஜ்ஞாரங்கனேவரி ஸ்நானं குர்வந்தி யே நரா: । வ்யா஧ிமிஸ்தே ந பீட்சன்தே முரை:
கேஸரிணோ யதா ॥ சைந்தாண்தே சதுர்஦்ரயாஂ ய: ஸ்நாயாஞ்சிவசன்நி஧ை । ந
ப்ரேதத்வமாபநோதி ஗ஜாயாஂ ச விஶோஷத: இதி ॥ யஸோऽபி – கார்த்திக்யாஂ
புஷ்கரே ஸ்நாத: ஸ்வர்பாபை: ப்ரமுच்யதே । மாத்யாஂ ஸ்நாத: ப்ரயாగே து முச்யதே
ஸ்வர்க்கில்லிஷை: ॥ ஸ்ரூபாஞ்சுநால்யா து சூங்கா மாதஸ்ய ஸ்பஸ்மி ।
அருணோदயவேலாயாஂ தஸ்யாஂ ஸ்நானம் மஹாபலம् ॥ புனர்வசுஶு஧ோபேதா சைந்தமாசே
ஸிதாஸ்மி । ஸ்ரோதஸ்ஸு வி஧ிவத் ஸ்நாத்வா வாஜபேயफல் லभேத் இதி ॥

காம்ய ஸ்நானங்கள்

இனி தனித்து நன்மை விரும்பி செய்கிற ஸ்நானங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அதில், புலஸ்த்யர்:- புஷ்யம், ஜன்மநக்ஷத்ரம், வ்யதிபாதம், வைத்ருதி, அமாவாஸ்யை இக்காலங்களில் செய்யும் நதி ஸ்நானம் ஏழு குலங்களைச் சுத்தமாக்கும். பானுவாரம், அங்காரகவாரம், சனிவாரம் இவைகளில் ஸ்நானம் செய்பவர் வ்யாதிகளால் பிடிக்கப்படுவதில்லை, மான்களால் சிங்கங்கள் போல். சைத்ரக்ருஷ்ண சதுர்த்தியில், சிவஸன்னிதியில் அல்லது

कन्कयिल एवन्सं सन्नानमं चेय्किन्रुग्गे अवन्प्रोत्तं तन्मेय अटेवते इल्लै. यमनुमः- कार्त्तिक पूर्णिमेयिल बुध्कर शेषत्रत्तिलं सन्नानमं चेय्तवन्सं लल्लापं पापन्कलालुमं विटुपटुवान्सं. माकपूर्णिमेयिलं प्रयाकत्तिलं सन्नानमं चेय्तवन्सं लकल पापन्कलालुमं विटुपटुवान्सं. माक सक्लं लप्तमी, लार्यं कर्हणत्तिर्कुचं सम्माकुम्. अतिलं अरुग्गेत्य कालत्तिलं सन्नानमं चेय्वतु महापलज्जा अविप्पताकुम्. तेत्रं मालत्तिलं सक्लाष्टमी, बुनर्वलावृत्तनं पुतवारत्तुत्तनं कृष्णिरुन्तालं, अतिलं नत्तिकलीलं वित्तिप्पदि सन्नानमं चेय्तालं वाज्जपेय याकपलत्तते अटेवान्सं.

शातातपोऽपि – अमावास्या भवेद्वारे यदा भूमिसुतस्य वै । जाह्नवीस्नानमात्रेण गोसहस्रफलं भवेत् ॥ कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियः । जपन् हविष्यभुक्स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते । तुलायां मकरे मेषे प्रातः स्नायी सदा भवेत् । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम् इति ॥ चन्द्रिकायाम् – आषाढादिचतुर्मासं प्रातःस्नायी भवेत्तरः । विप्रेभ्यो भोजनं दत्त्वा कार्तिक्यां गोप्रदो भवेत् ॥ सवैष्णवं पदं याति विष्णुव्रतमिदं स्मृतम् इति ॥

शातातपग्रुमः- अव्यक्तारक वारत्तिलं अमावास्य चेन्नतालं, अप्पेपामुतु कन्कयिलं सन्नानमात्तरत्तालं, आयिरमं पक्ककलीत तानमं चेय्त पलन्सं उन्नटाकुम्. कार्त्तिक मालमं मुमुवतुमं नित्यमुमं सन्नानमं चेय्पवन्नय, इन्तरीयन्कली ज्ययित्तवन्नय, जपिप्पवन्नय, खवीस्सेलपं बुज्जिप्पवन्नय इरुप्पवन्सं लकल पापन्कलालुमं विटप्पपटुवान्सं. त्रुलामालमं, मकरमालमं, मेषमालमं इवेकलीलं नित्यमुमं प्ररातःसन्नानमं चेय्पवन्नय इरुक्कवेण्टुमं अत्तुत्तनं खवीस्सेलपं बुज्जिप्पतुमं, प्रमंखर्यत्तुत्तनं इरुप्पतुमं, महापापन्कलीयुमं अकर्त्रवताकुम्. सन्तरीकयिलः- आयोदामं मुतलं नान्कु मालन्कलीलं,

மனிதன் ப்ராத: ஸ்நானம் செய்பவனுய் இருக்க வேண்டும். ப்ராம் ஹணர்கஞக்குப் போஜனம் அளித்து, கார்த்திக பூர்ணிமையில் கோதானம் செய்ய வேண்டும். இது விஷ்ணுவரதம் எனப்படுகிறது. இதை அனுஷ்டிப்பவன் விஷ்ணு லோகத்தை அடைகிறுன்.

மார்க்ண்டேய: — ஸ்வகாலं திலை: ஸ்நானं புண்யாஸோऽங்கவீநமுனி: । துப்த்யாமலகैர்விஷ்ணுரேகாதஶயா விஶேஷத: ॥ ஶ்ரீகாம: ஸ்வர்஦ா ஸ்நான் குர்விதாமலகைநர: । ஸஸ்மீ நவமீ சைவ பர்கால் ச வர்ஜயேத् இதி ॥ யோगயாஜவல்க்யோऽபி – ஧ாத்ரிகலை ரமாவாஸ்யாஸஸமீ நவமீஷு ச । ந ஸ்வாத்தஸ்ய ஹீயந்தே தேஜ ஆயுர்ஜ்ஞந் ஸுதா: இதி ॥ ஧ாத்ரி - ஆமலகி ॥

மார்க்கண்டேயர்: - எப்பொழுதும் எள்ளுடன் ஸ்நானம் செய்வது புண்யம் என்று வ்யாஸமுனிவர் சொன்னார். ஏகாதசியில் நெல்லிக்கனியுடன் ஸ்நானம் செய்தால் விஷ்ணு ஸந்தோஷிக்கின்றார். விசேஷமாய். ஸம்பத்தை விரும்புவோன் எப்பொழுதும் நெல்லிக்கனியுடன் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஆனால், ஸப்தமீ, நவமீ, பர்வகாலம் இவைகளை வர்ஜிக்க வேண்டும். யோகயாக்ஞவல்க்யர்: - அமாவாஸ்யை, ஸப்தமீ, நவமீ இவைகளில், நெல்லிக்கனியுடன் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. செய்பவனின் தேஜஸ், ஆயுள், தனம், பிள்ளைகள் இவை குறைகின்றன.

சந்திரகாயாம் – ஷ்டீச ஸஸமீ சைவ நவமீ ச த்ரயोदஶி । ஸங்காந்தௌ ரவிவாரே ச ஸ்நானமாமலகैஸ்த்யஜேத् இதி । ஶாநகோऽபி – கல்கேநாமலகேநாஸு ந விப்ர: ஸ்நானமாச்சரேத் । ஸஂபத்காமஸ்து ஸஸம்யா நவம்யா நஷ்டஶிதங்஗ை ॥ அர்஥காமீ த்ரயோதஶயா ஦ஶம்யா புத்ரவத்ஸல: । புத்ரார்஥காமோ விப்ரஸ்து ஢ித்தியாயா கடாசன இதி ॥ மா஧வீயே – ஗ுருவாரேப்யமாயா ச ஹ்வஶ்த்தஞ்சாயவாரிணா । ஸ்நான் ப்ரயாகஸ்நானேன ஸம் பாதகநாஶனம் । ஶால்மலீ தினிணி நிம்஬கரஜௌ ஢ௌ ஹரிதகி ।

सन्ततिरिक्षयिलः - षष्ठ्यै, लप्तमै, नवमै, त्रयोदाशै,
संक्रमणम्, पानुवारम् इवेकलीलं नेल्लिकं
कनीकलालं स्नानम् चेय्यकं कूटातु. चेणाकरुमः -
लम्पत्तेत विरुम्पुकिन्नवन्, लप्तमै, नवमै, अमे
इवेकलीलुम्, पन्तत्तेत विरुम्पुकिन्नवन्
त्रयोदाशियिलुम्, पुत्रजैविरुम्पुकिन्नवन् तसमियिलुम्,
पुत्रजैन्युम् अर्त्ततत्तेतयुम् विरुम्पुकिन्नवन्
त्वित्तिययिलुम् ओरुकालुम् नेल्लिकंकनीयालं स्नानम्
चेय्यकं कूटातु. मातृवैयत्तिलः - गुरुवारत्तिलुम्,
अमयिलुम्, अचवत्त वंगुक्षत्तिलं निमूलिलुलौ
जलत्तिलेलं स्नानम् चेय्यवतु, प्ररयाक स्नानत्तिरुक्ष
समम्. पापत्तेत अकर्त्रम्. इलवु, पुली, वेम्पु, पुंकु,
कुक्काय, मैलयकत्ति विला, ऎरुक्कु, इलन्तेत, ताणी,
नरुविली, करुन्काली इवेकलीं निमूलिलं स्नानत्तेतत्त
तविरक्क वेण्णुम्.



माघस्नानम्

तत्र विष्णुः - बालाश्च तरुणा वृद्धा नरनारीनपुंसकाः । स्नात्वा
माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवन्तीप्सितं फलम् ॥ माघमास्युषसि स्नात्वा
विष्णुलोकं स गच्छति ॥ मकरस्थे रवौ यो हि न स्नात्यनुदिते रवौ ।
कथं पापैः प्रमुच्येत कथं स त्रिदिवं व्रजेत् इति ॥ अनेन
माघस्नानमुदयात् पूर्वमेव कर्तव्यमिति सिद्धम् ॥

माक स्नानम्

इनी माक स्नानम् चेऽलप्पत्तिरुक्षतु. अतिल-
विष्णुः - पालर, तरुणर, वंगुत्तर, पुरुषन्, बेण्ण,
नपुम्लकन्, यारायीनुम्, माकमालत्तिलं नल्लत्तिरुक्षत्तिल-

ஸ்நானம் செய்தால் விரும்பிய பலனை அடைகின்றனர். மாகமாஸத்தில் உஷ:காலத்தில் ஸ்நானம் செய்தால் விஷ்ணு வினுலகத்தை அடைகிறுன். ஸ்ரீரங்கமகரத்தில் இருக்கையில் ஸ்ரீரயோதயத்திற்கு முன் எவன் ஸ்நானம் செய்யவில்லையோ அவன் எப்படிப் பாபங்களால் விடப்படுவான்? எப்படி ஸ்வர்க்கத்தை அடைவான்? இதனால், மாக ஸ்நானம் உதயத்திற்கு முன்பே செய்யப்பட வேண்டும் என்பது ஸித்தமாயிற்று.

यत्तु महाभारते – माधे ह्यधर्मोदिते सूर्ये स्नानं विधिवदाचरेत् ।
नियतो नियताहारः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ किञ्चिदभ्युदिते सूर्ये
सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ किञ्चिदभ्युदिते सूर्ये स्नानं माधे समाचरेत् ॥
यत्तस्य सर्वपापानि विनश्यन्ति न संशयः ॥ माघमासे रटन्त्यापः
किञ्चिदभ्युदिते रवौ । ब्रह्मघङ्गं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे इति, तत्
सन्ध्योपासनाध्यनधिकृतस्त्रीशूद्रादिविषयम् । ‘उषस्युपोदये माधे
स्नानमाहुर्द्विजन्मनाम् । स्त्रीशूद्राणां तथाऽन्येषामधर्मोदय उपोदयः इति
स्मरणात् ।

ஆனால், மஹாபாரதத்தில்:- “மாக மாஸத்தில் ஸ்ரீரங்கன் பாதி உதித்திருக்கும் போது விதிப்படி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். நியமமுடையவனும், ஆஹாரங்கமம் உடையவனுமாயின் ஸகல பாபங்களாலும் விடப்படுவான். மாக மாஸத்தில் ஸ்ரீரங்கன் கொஞ்சம் உதித்திருக்கும் பொழுது எவன் ஸ்நானம் செய்கின்றானே, அவனது பாபங்களெல்லாம் நசிக்கின்றன. ஸம்சயமில்லை. மாக மாஸத்தில் ஜலங்களெல்லாம். ஸ்ரீரங்கன் கொஞ்சம் உதித்திருக்கும் போது ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்பவன். ப்ரம்ஹஹத்யை செய்தவனுயினும், ஸ்ரீராபானம் செய்தவனுயினும், அவனைச் சுத்தனாக்குகின்றோம் என்று கூவுகின்றன” என்ற வசனமுள்ளதே எனில், அது, ஸந்த்யோ பாஸனம் முதலியதில் அதிகாரமில்லாத ஸ்தரீ, குத்ரன் முதலியவரைப் பற்றியதாம்.

‘माक मालतीतिल विषयर्ह कालतीतिल उपोत्तयतीतिल प्रराम्भ इन्नर्क गुंकं कु संनानत्तेत वितीकं किंन र इन्नर्क, संतर्गं कुं गुंकं कुं, कुत्तरगुंकं कुं, मर्त्तवर्गुंकं कुं स-उर्यं पाति उत्तिरुंकं कुं कालम उपोत्तयमाकुं’ इन्नर्य संमरुद्धि उल्लासु.

ब्राह्मणादि विषयत्वे सन्ध्यातिक्रमदोषोऽपि दुर्वारः स्यात् । स्नानपूर्वकत्वात् सन्ध्यावन्दनादेः ॥ नह्युदयात् पूर्वं किञ्चिदुदये च कालद्वये स्नानमिति युक्तम् । मार्जनाद्युपस्थानान्तस्यैककर्मत्वेन कर्मान्तरानुष्टानायोगात् उदयसमये उपस्थानविधानाच्च । न च माघे किञ्चिदुदयस्नानानन्तरमनुष्टानम् । सन्धौ सन्ध्यामुपासीत नास्तगे नोद्दते रवौ इति योगयाज्ञवल्क्येन सन्ध्योत्कर्षस्य निषेधात्, सन्ध्यातिक्रमे शूद्रत्वादिप्रासिस्मरणाच्च । यद्वा – उपव्युषसि यत्स्नानं सन्ध्यामुदितेऽपि वा इतिवत् स्नानप्रशंसापरं, कैमुतिकन्यायप्रदर्शनपरं वेत्याहुः ॥

प्रराम्भ इन्नर्य मुत्तवियवरेपं पर्त्त्रियतेतिलं सन्त्तया वन्त्तनत्तेत अतिक्रमित्त तेऽवश्मं अकर्त्त ग्रुष्यात्तताकुं । सन्त्तया वन्त्तनमं मुत्तवियतु संनानत्तेतये मुन्निट्टताकेयाल, उत्तयत्तिरुं कु मुन्त्तियुं, केान्चमुत्तित्त कालत्तिरुमं संनानमेमन्पतु युक्तमाकातल्लवा? मार्जनमं मुत्तलं उपस्तानमं वरेयिलुं लावै ओरे कर्ममाकेयाल, वेवृ कर्मत्तेतचं चेय्यमुष्यातु । आकेयालुमं, उत्तय कालत्तिलं उपस्तानमं वितीकंकप्पट्टिरुप्पत्तालुमं, माक मालतीतिलं केान्चमं उत्तयमान पिऱकु संनानमं चेय्तु पिऱकु सन्त्तया वन्त्तनुत्तयनुष्टानमं चेय्यलामं इन्नरुमं चेऽल्लक्ष्मुटातु । ‘सन्त्तियिलं सन्त्तयेऽपासनमं चेय्य वेण्णुमं । स-उर्यं अस्तमयमान पिऱकुमं कूटातु । स-उर्यं उत्तित्त पिऱकुमं कूटातु’ इन्नरु येऽपासनमं उत्तित्त पिऱकुमं कूटातु । उत्तित्त येऽपासनमं निषेधत्तिकंकप्पट्टिरुप्पत्तालुमं, सन्त्तय अतिक्रमित्ताल, कुत्तरत

තන්මෙයයේ අභ්‍යවාන් එන්රු ස්ම්‍රගුති තිරුප්පතාලුම්. අල්ලතු, ස්නානපරකරණත්තිල් ‘විඩියත් කාලත්තිලො, සැන්ත්යා කාලත්තිලො, ඉත්යත්තිත්තිර්කුප පිහුකො ගෙයෝම් ස්නානම් ප්‍රරාජාපත්‍යත්තිත්තිර්කුස් සමමාගුම්’ එන්රු ගොල්ලියතු පොල්, මූංකුල්ල බෙනුමුම් ස්නානත්තෙප් ප්‍රකුජ්වතිල් තාත්පර්‍යමුල්ලතු, අල්ලතු ‘කෙමුතික නියායත්තෙක් කාණ්පිප්පතිල් තාත්පර්‍යමුල්ලතු එන්කින්රනර් සිලර්.

කේචිත් — විචේයතාරකේ කාලේ නිත්‍යස්‍නානं විධාය ත |
ප්‍රාග්‍රාම්‍යාදීතේ සුරූ මාධ්‍යාන් සමාචරේත् || අධ්‍යර්ධගිතිකාපුර් පර
සුරූදියාත්ථා | ස ඇඟ්‍රාම්‍යාදීතේ නාම දර්ම්‍යාස්‍තේ ප්‍රකිරිත්ත: ඇති වචන
මාච්‍යාත්මාණ: ඉදායාදනන්තර සාර්ධිගිතිකාමධ්‍යේ දිව්‍යාස්‍නානं
කර්ත්‍යමිති වදන්ති ||

සිලරෝබෙනිල්: — “තෙශ්‍යක්‍රිය න්‍යාත්‍රාන් කැනී
යුගාය කාලත්තිල් නිත්‍ය ස්නානත්තෙස් ගෙය්තු බිංදු,
ශාමර්යොත්‍යමාන පිහු මාක ස්නානත්තෙස් ගෙය්‍ය
වෙශ්‍යාම්, උමර්යොත්‍යත්තිර්කු මුන් 1 1/2 නායුහිකෙයුම්,
ශාමර්යොත්‍යත්තිර්කුප පින් 1 1/2 නායුහිකෙයුම් ඉල්ලකාලම්
එතු වො අතු ‘අප්‍යතිතම්’ එන්රු තර්මසාස්තරත්තිල්
භොල්පපත්දාල්ලතු’ එන්ර බෙන්ත්තෙස්
භොල්ලුකින්රවරාය, ඉත්යත්තිර්කුප පිහු නායුහිකෙයින් නදුවිල් ඉරුණ්නාවතු ස්නානම් ගෙය්‍යප්පත
වෙශ්‍යාම් එන්රු ගොල්ලුකින්රනර්.

විශ්‍යු: — පැශ්‍යාලුන්‍යාර්ධ්‍යේ ප්‍රාත: ස්‍යායී සදා බැවෙතු | දර්
බා පැශ්‍යාර්ස් බා ප්‍රාර්ථ්‍ය ස්‍යානමාචරේත् || ප්‍රාග්‍රාම්‍යහානි ත්‍රිඛාත්තු
මකරස්ථේ දිවාකරේ | තත් තොත්‍යා නියම ගුළුයාදිවිධිපුර්කම් ||
මාධ්‍යමාසම ප්‍රාග්‍රාම්‍ය ප්‍රාග්‍රාම්‍ය ප්‍රාග්‍රාම්‍ය ප්‍රාග්‍රාම්‍ය
සක්‍ක්‍ලුප්‍ය ත්‍රිඛාත්තු || තත: ස්‍යාත්‍යා ජුම් තීර්ධී දත්‍වා පිරිසි වැ මුදම් |
ස්‍යාත්‍යා පිතුස්තර්ථිතා ඉත්‍රිය තු තතො යළාත् || කාඩ්‍යානී නමස්කුත්‍ය

पूजयेत् पुरुषोत्तमम् । शङ्खचक्रधरं देवं माधवं पूजयेत्तदा । वहौ हुत्वा
विधानेन ततस्त्वेकाशानो भवेत् । भूशय्यो ब्रह्मचर्येण शक्तः स्नानं
समाचरेत् ॥

वीर्षिण्णुः:- ये गणेश मासम्, पालंकुन मासम्
इवावकलीनं न उविल, एप्पेपामुतुम् प्ररातःस्नानम्
चेय्यवग्नेय इरुक्क वेण्णुम्. अमावास्यावतु,
पूर्णिमायावतु मुत्रं केऽन्नु स्नानम् चेय्य
वेण्णुम्. ल-उर्यन् मकरत्तिल इरुक्कुम् पेपामुतु,
मुप्पतु तिणंकगुम् पुण्यंकगोयाम्. अतिल, कालैयील
एमुन्तु वित्तियुटन् नियमत्तेत करव्वीक्क वेण्णुम्.
‘ओतेव! मातव! पुण्यमान इन्त माक मासम्
मुमुवतिलुम् इन्तप्प पुण्य तीर्त्तत्तिल ज्ञलत्तिल
स्नानम् चेय्यप्प पोकिरेण’ एन्ऱु मनतिल शंकल्पम्
चेय्यतु केऽन्नु, पीरकु सपमान तीर्त्तत्तिल स्नानम्
चेय्यतु, तलैयील मरुत्तिकेयाच्च चेर्ततु स्नानम्
चेय्यतु, पीरुतरप्पणम् चेय्यतु, ज्ञलत्तिनिन्ऱुम्
वेलीयेति, काष्टमेलानम् उत्तेयवग्नेय,
पुरुषेषात्तमैन नमस्कारित्तुप्प पूजीक्क वेण्णुम्.
अप्पेपामुतु चंककरतरनुम्, तेवनुमान मातवैनप्प
पूजीक्क वेण्णुम्. अक्णीयील वित्तिप्पाति हेहामम् चेय्यतु
उरु मुरेह पोज्जनम् चेय्यवग्नेय इरुक्क वेण्णुम्.
पूमियीरु पाक्क वेण्णुम्. परम्हर्षर्यत्तुटन् इरुक्क
वेण्णुम्. शक्तियुलावन् इव्वीतम् स्नानम् चेय्य
वेण्णुम्.

अशक्तस्याधनाद्यस्य स्वेच्छा सर्वत्र कथ्यते । अवश्यमेव
कर्तव्यं माघस्नानमिति श्रुतिः ॥ तिलस्त्रायी तिलोदर्ती तिलहोमी
तिलोदकी । तिलदस्तिलभोक्ता च षट्तिलो नावसीदति ॥ तिला
आमलकाशैव तीर्थे देयास्तु नित्यशः । तथा प्रज्ञालयद्विलिं
इन्धनौघैद्विजन्मेनाम् ॥ एवं स्नानस्यावसाने भोजयेद्विजदंपती ।
विविधानि च देयानि प्रच्छादनपटांस्तथा ॥ अनेन विधिना

दद्यान्माधवः प्रीयतामिति । पित्रा पितामहैः सार्धं तथैव प्रपितामहैः ॥
मात्रा मातामहैः सार्धं वृद्धमातामहैस्तथा । एकविंशकुलैः सार्धं
भोगान् भुक्त्वा यथेपिसितान् । माघमास्युषसि स्वात्वा विष्णुलोकं स
गच्छति इति ॥

சக்தியில்லாதவனும், தனமில்லாதவனும் இஷ்டப்படி செய்யலாம் என்று எல்லாவற்றிலும் சொல்லப்படுகிறது. எப்படியாவது மாகஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்கிறது வேதம். என்னினால் ஸ்நானம் செய்பவன், திலங்களைத் தேய்த்துக் கொள்பவன், திலங்களை ஹோமம் செய்பவன், திலோதகத்தால் தர்ப்பணம் செய்பவன், திலங்களைத் தானம் செய்பவன், திலங்களைப் பக்ஷிப்பவன் என்று ஆறு பேர்களும் கஷ்டத்தை அடைய மாட்டார்கள். தீர்த்தத்தில், திலங்களையும், நெல்லிக்கனிகளையும் நித்யமும் கொடுக்க வேண்டும். ப்ராம்ஹணர்களின் அக்னியை, விறகுகளால் ஜ்வலிக்கச் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் ஸ்நானம் செய்த பிறகு ப்ராம்ஹண தம்பதிகளைப் புஜிப்பிக்க வேண்டும். பலவிதமான வஸ்துக்களைத் தானம் செய்ய வேண்டும். இந்த விதியுடனிருந்து 'மாதவःப்ரீயதாம்' என்று கொடுக்க வேண்டும். பிதா, பிதாமஹர், ப்ரபிதாமஹர், மாதா, மாதாமஹர், வருத்த மாதாமஹர், இவர்களுடனும் இருபத்தொரு குலங்களுடனும், இஷ்டமான போகங்களைப் புஜித்து, விஷ்ணு லோகத்தை அடைவான். மாகமாஸத்தில் உங்: காலத்தில் ஸ்நானம் செய்தால்.

नारदीये – सम्प्रासे माघमासे तु तपस्विजनवल्लभे । क्रोशन्ति
सर्वारीणि समुद्रच्छति भास्वति ॥ पुनीमः सर्वपापानि त्रिविधानिन्
संशयः इति ॥

நாரதீயத்தில்:- 'ருஷிகளுக்கு ப்ரியமான மாகமாஸம் வந்தவுடன், ஸ-மர்யன் உதிக்கும் பொழுது, மனம், வாக்கு, காயம் இவைகளால் செய்யப்படும் மூன்று விதமான ஸகல

पापांककौयुम् अकर्त्रुकिन्मेलुम्' एनंरु लकलज्जलंकरुम्
कौवकिन्मेल.

पाद्मे — आपो नारायणो देवः सर्वदेषु पठते । मकरस्थे
रवौ माधे गोविन्दाच्युत माधव । स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो
भव ॥ इति मन्त्रं समुच्चार्य स्नायान्मौनं समाश्रितः ॥ बहिः स्नात्वा तु
बाप्यादौ द्वादशाब्दफलं लभेत् । तटाके द्विगुणं राजन्भद्रादौ तु
चतुर्गुणम् ॥ दशधा देवखातेषु शतधा च महानदी । शतं चतुर्गुणं राजन्
महानद्योस्तु सङ्गमे ॥ सहस्रगुणितं सर्वं तत्फलं मकरे रवौ । गङ्गायां
स्नानमात्रेण लभते मानुषो नृप ॥

पात्तंमत्तीलः- ज्ञलमेन्द्रायणातेवन्स एनंरु एल्ला
वेतन्कलीलुम् चेऽल्लप्पटुकिरतु. ऐरंयन्स
मकरत्तीलीरुक्कुम् बेपामुतु, माकमालत्तील 'ओ^३
केओविन्त, अस्युत, मातव, तेव इन्त ल्लनान्तत्ताल,
चेऽल्लप्पटुलां पलत्ततेक केाउप्पवराय
आकक्कटवैर'. इव्वितम् मन्त्तरत्तत उस्सरीत्तु,
मेमानमाय ल्लनान्म चेय्य वेण्णुम्. वेलीयिलुलां
वापी मुतवियतील ल्लनान्म चेय्ताल पन्नीरण्णु
अप्तक्करुस्र पलत्तत अटेवान्स. ओअरचेन! तटाकत्तील
ल्लनान्म चेय्ताल इरु मटन्कु पलैन्युम, नत्ते
मुतवियतील नान्कु मटन्कु पलैन्युम, तेवकातन्कलील
पत्ततु मटन्कु पलैन्युम, मल्हान्तीयिलाण्णल नुरु मटन्कु
पलैन्युम, मल्हान्तीकलीन्स लन्कमत्तीलाण्णल नानुरु
मटन्कु पलैन्युम, कन्केयिलाण्णल आयीरम् मटन्कु
पलैन्युम मनीतन्स अटेवान्स.

प्रापानां भूरिभारस्य दाहदेशं प्रजापतिः । प्रयागं विदधे भूप
प्रजानां च हिते स्थितः ॥ दुर्जरा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा ।
प्रयागे दह्यते साऽपि माघमासे नराधिप ॥ मकरस्थे रवौ माधे यत्र कापि
बहिर्जले । निष्कामैर्वा सकामैर्वा स्नातव्यं हरितुष्ये इति ॥
प्रकरणपर्यालोचनया माघस्नानं नित्यं काम्यं चेत्याहुः ॥ चन्द्रिकायाम्

- நித்ய நைமித்திக் காம்ய திவி஧ ஸ்நானமுந்தே । தர்பண து ஭வேத்தஸ்ய
ஹஜ்ஜத்தேன் பிரகிர்த்திம் இதி ॥

அரசனே! ப்ரம்ஹ தேவன், மனிதரின் ஹி தத்தில்
கருத்துள்ளவராய், பாபங்களின் பெரும் சுமையை எரிக்கும்
ப்ரதேசமாக ப்ரயாக கேஷத்ரத்தைக் கற் பித்தார்.
விஷ்ணுவினுடையதாகிய மாயை, அழிக்க முடியாததும்,
தேவர்களாலும் தள்ளமுடியாததாயுமாகும். அந்த
மாயையும், மாகமாஸத்தில் ப்ரயோக கேஷத்ரத்தில்
தல்லிக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீர்யன் மகரத்திலிருக்கும்
பொழுது, மாகமாஸத்தில், வெளியிலுள்ள எந்த
ஜலத்திலாவது, ஸகாமர்களும், நிஷ்காமர்களும்,
விஷ்ணுவின் ப்ரீதிக்காக ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். இந்த
ப்ரகரணத்தை ஆலோசித்ததால், மாகஸ்நானம், நித்யமும்,
காம்யமும் என்று சொல்கின்றனர். சந்தர்ரிகையில்:- நித்யம்,
நைமித்திகம், காம்யம் என்று மூன்று விதமாய்ச்
சொல்லப்பட்ட ஸ்நானம் எதுவோ, அதற்கு அங்கமாகத்
தர்ப்பணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.



மலாபக்ரணஸ்நானம்

அथ மலாபக்ரணஸ்நானம் ॥ தत्र ஭ரதாஜः - அभ்யஜஸ்பனே யोग்யா
வாரா யே தி஥ி஭ிஸ்ஸஹ । கத்யந்தே தேऽधுனா ஸ்பष்ட புட்டியே ஬லவृத்தியே ।
இந்஦ோர்஬ுர்஧ஸ்ய ஸௌரேஶ வாரேऽभ்யஜः பிராஸ்யதே । காந்திஂ ஶ்ரிய ததா ஦द्युः
भோగாந् வாராதிபா: க்ரமாத् । ஦்விதீயாதாஶ்வதஸ்தஶ பிராஸ்தா: ஸஸ்மீ
ததா । நவமீ ஦ஶமீ சைவ தியோதஶயபி ச ஸ்மृதா: ॥
भாநுமைமராचார்யஶுக்ரவாரேஷு ஸக்லமே । வ்யதிபாதே ச ஜந்மக்ஷீ
நாப்யஜஸ்நானமாசரேத् ॥ ஏகாதஶயாஂ சதுர்஦ஶயாமஸ்தம்யாஂ பிரதிபஶிபி । ஷஷ்சாஂ
பர்ணி சாப்யஜஸ்நானாஂ நைவ ஸமாசரேத् ॥ உத்ராபல்லுநி ஜ்யேஷ்டா
ஶ்ரவணாந்ராஸு ராத்ரிஷு । அப்யஜஸ்பனாஂ ஧ீமாந் ஸுखார்஥ி வர்ஜயேத்ததா ॥

शिशुरोगार्त्तज्ञानं यथाकालं शरीरिणाम् । अभ्यज्ञोष्णोदकस्तानं नैव दोषावहं स्मृतम् इति ॥

मलापकर्षणे संनानम्

இனி மலாபகர்ஷண ஸ்நானம் (என்னென்ற தேய்த்து முழுகுதல்) சொல்லப்படுகிறது. அதில்,) பரத்வாஜூர்:- அப்யங்கஸ்நானத்தில் யோக்யமான திதிகளும் வாரங்களும் எவையோ, அவையை, இப்பொழுது வ்யக்தமாய், புஷ்டிக்கும், பலவருத்திக்கும் சொல்லுகிறேன். சந்தரண், புதன், சனி இவர்களின் வாரத்தில் அப்யங்கம் புகழப்படுகிறது. அந்த வாரங்களின் அதிபதிகள், முறையே காந்தி, லக்ஷ்மி, போகங்கள் இவைகளைக் கொடுப்பார்கள். த்வீதியை முதல் நான்கு திதிகளும், ஸப்தமியும், நவமியும், தசமியும், த்ரயோதசியும், ப்ரசஸ்தங்களாம், பானுவாரம், பெளமவாரம், குருவாரம், சுக்ரவாரம், ஸங்கரமணம், வ்யதிபாதம், ஜன்ம நக்ஷத்ரம் இவற்றிலும் ஏகாதசி, சதுர்தசி, அஷ்டமீ, ப்ரதமை, ஷஷ்மை, பர்வம் இவைகளிலும் அப்யங்க ஸ்நானத்தைச் செய்யக் கூடாது. உத்தர பல்குளீ, ஜ்யேஷ்டா, ச்ரவணம், ஆர்த்தர இவைகளிலும், ராத்ரி யிலும், ஸக்ததை விரும்பிகிறவன் அப்யங்க ஸ்நானத்தை தவிர்க்க வேண்டும். பாலர், பிணியாளர், வருத்தர் இவர்களுக்கும், ஸமயத்திற்குத் தக்கபடி, அப்யங்கமும் உஷ்ணேதக ஸ்நானமும் தோஷத்தைச் செய்யாதென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

व्यासः – पञ्चमी दशमी चैव तृतीयां च त्रयोदशीम् । अभ्यज्ञात् स्पर्शनात् पानाद्यश्च तैलं निषेवते ॥ चतुर्णा तस्य वृद्धिः स्यात् धनापत्यबलायुषाम् इति ॥ यत्तु गर्ग आह – न च स्पृश्यात् त्रयोदश्यां तृतीयायां तिथौ तथा । शाश्वतीं भूतिमन्विच्छन् दशम्यामपि पष्ठितः इति, यदपि गार्य आह – ‘त्रयोदश्यां तृतीयायां प्रतिपद्मामीद्युये । तैलाभ्यज्ञं न कुर्वति पिबेतु द्वादशीं विना’ इति, यदपि वृद्धगार्यवचनम्

- ‘दशमी पुत्रनाशाय धनहान्यै त्रयोदशी । तृतीयोभयनाशाय स्नाने ता
वजयेदतः’ इति, एतानि वचनानि क्षत्रियादिविषयाणि । ‘त्रयोदश्यां
तृतीयायां दशम्यां चैव सर्वदा । शूद्रविद्क्षत्रियाःस्नानं न
कुरुस्तैलसंस्कृतम्’ इति जाबालिस्मरणादिति केचित् ॥

வ்யாஸர்:- பஞ்சமீ, தசமீ, த்ருதியை, த்ரயோதசீ
இவைகளில் எவன், அப்யங்கத்தாலாவது,
ஸ்பர்சத்தாலாவது, பானத்தாலாவது தைலத்தை
உபயோகிக்கின்றுனே, அவனுக்கு தனம், குழந்தை, பலம்,
ஆயுஸ் என்ற நான்கும் வருத்தியை அடையும். ஆனால்,
கர்க்கர்:- “த்ரயோதசீயிலும், த்ருதியையிலும்,
தசமியிலும், சாக்வதமான ஸம்பத்தை விரும்பும் பண்டிதன்
தைலத்தைத் தொடக்கூடாது” என்று சொல்லிய வசனமும்,
கார்க்யர்:- “த்ரயோதசீ, த்ருதியை, ப்ரதமை, தசமீ
இவைகளில் தைலாப்யங்கம் செய்து கொள்ளக் கூடாது,
உட்கொள்ளலாம், தவாதசியைத் தவிர்த்து”, என்று
சொல்லிய வசனமும், வருத்தகார்க்யர்:- தசமீ புதரணைக்
கொல்லும், த்ரயோதசீ தனத்திற்கு ஹானியைச் செய்யும்,
த்ருதியை இவ்விரண்டையும் நாசமாக்கும், ஆகையால்
அப்யங்க ஸ்நானத்தில் அந்தத் திதிகளை வர்ஜிக்க
வேண்டும்” என்று சொல்லிய வசனமும், கஷ்தரியன்
முதலியவரைப் பற்றியது. (ஏனென்னில்) ‘த்ரயோதசீ,
த்ருதியை, தசமீ இவைகளில், சூத்ரன், வைச்யன், கஷ்தரியன்
இவர்கள் தைலத்துடன் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது’ என்று
ஐபாலி ஸ்மர்தி இருப்பதால் என்கின்றனர் சிலர்.

அபரே து – ஸ்ரோதாமபி ஦ிஜானாந் ஦शம்யாடாவம்யஜஸ்நானநிஷே஧-
பராணயே ஗ர்஦ிவசனானி । ஜாబாலிவசனந் து க்ஷत்ரியாடிநாந்
஦ோஷாධிக்யப்ரतிபாடநார்஥ம் । ஸமாந்யே நிஷே஧ேபி ஦ோஷாධிக்யா-
நிஷே஧நம் । தத்தோபமே ஹேதுல்வாடிதி ஜாஸ்திவி஦ோ வி஦ு: இதி
மரீசிஸ்மரணாடித்யாஹ: ॥ தथா ச ஆபஸ்தம்஭: – யாட்சிசிக் து யத்

मर्त्रवरोवेणीलं, 'कर्ककरं मुत्तवियवरीनं
वचनांकणेलंलामं मुन्नरु वर्णत्तारुकंकुमं तचमि
मुत्तविय कालांकणीलं अप्यनंकं स्नानत्तेत
निषेष्ठिप्पत्रिलं तात्पर्यमुलावेकणे, ज्ञापाली
वचनमेवावेणीलं, कृतरीयरं मुत्तवियवर्कंकु,
तेऽष्टमतिकमं एन्नरु शोलवत्तिलं तात्पर्यमुलातु,
(रेणेणीलं) 'लामाण्यमायं निषेष्ठत्तिलुमं,
तेऽष्टातिक्यत्तालं निषेष्ठिप्पत्रु, अन्तत तेऽष्टत्तिनं
पेत कारणत्तालं एन्नरु शोलत्तरमं अर्निन्तवरं
शोललुकिण्ऱनरं' एन्नरु मर्सि स्मंगुति इग्रुप्पतालं'
एन्किण्ऱनरं. अव्वितमें, आपस्तुम्परः- त्विज्ञरकं,
लाकत्तिन्त्रकाक, यात्तरुच्चिकमान एन्त स्नानत्तेतचं
शेय्किण्ऱनरो अतुतानं तचमि मुत्तवियवेकणीलं
निषेष्ठिक्कप्पटुकिरतु. नित्यमुम, नेमित्तिकमुमान
स्नानमं निषेष्ठिक्कप्पटवीलैल.

जाबालिरपि — नित्यं न हापयेत् स्नानं काम्यं नैमित्तिकं च
यत् । दशम्यामपि कर्तव्यं न तु यादच्छिकं कचित् इति ॥ यादच्छिकं -
मलापकर्षणार्थम्, 'मलव्यपोहनफलं स्नानं यादच्छिकं तु तत्' इति
गर्गस्मरणात् ॥ एवच्च नित्यनैमित्तिककाम्यस्नानानां दशम्यादाव-
प्रतिषेधः । यादच्छिकस्यैव निषेधः ॥ यदुक्तमापस्तम्बेन - 'विना तु
सततस्नानं न स्नायादशमीषु च' इति, यदपि गर्णोक्तम्, 'पुत्रजन्मनि
सङ्कान्तौ श्राद्धे जन्मदिने तथा । नित्यस्नाने च कर्तव्ये तिथिदोषो न
विद्यते' इति, तत्काम्य नैमित्तिकयोरपि प्रदर्शनार्थभिति
स्मृतिचन्द्रिकायाम् ॥

ज्ञापालीयुमः- नित्यमं, काम्यमं, नेमित्तिकमं एन्न-
स्नानांकणैला विटक्कूटातु. अवेकणैत तचमियिलुमं
शेय्य वेण्णुमं. यात्तरुच्चिक स्नानत्तेत मट्टिलं

செய்யவே கூடாது. யாத்ருச்சிகம் அழுக்கைப் போக்குவதற்கான ஸ்நானம். ‘அழுக்கைப் போக்குவதைப் பலனாக உள்ள ஸ்நானம் எதுவோ அது ‘யாத்ருச்சிகம்’ என்று கர்க்க ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். இவ்விதம் இருப்பதால், நித்யம் நைமித்திகம், காம்யம் என்ற ஸ்நானங்களுக்குத் தசமீ முதலியவைகளில் ப்ரதிஷேதமில்லை. யாத்ருச்சிக ஸ்நானத்திற்கு மட்டில் நிஷேதம். ஆனால், ஆபஸ்தம்பார்:- நித்ய ஸ்நானம் தவிர மற்ற ஸ்நானத்தைக் தசமியில் செய்யக் கூடாது’ என்று சொல்லியதும், கார்க்கர்:- ‘புத்ரஜன்மம், ஸங்கரமணம், ச்ரார்த்ததினம், பிறந்தநாள் இவைகளில் செய்யும் ஸ்நானத்திலும், நித்ய ஸ்நானத்திலும் திதிதோஷமில்லை’ என்று சொல்லியதும், காம்ய நைமித்திக ஸ்நானங்களையும் சொல்வதற்காம்’ என்று ஸ்ம்ருதி சந்தர்கையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வ்யாஸः :- ஷ்வரை பञ்சदशி பக்ஷத்யச்சதுர்஦ಶி । அன்றை ஸ்வாதி பாப் தை மாஸ க்ஷுரே ஭ரே’ இதி ॥ மனுரபி – பக்ஷாடை ச ரகௌ ஷ்வார் ரிக்தாயாஂ ச திதை தथா । தைனாம்யஜ்யமானஸ்து ஧னாயுர்மா பிரஹியதே இதி ॥
గர்஗: - பञ்சத்யாஂ சதுர்஦ஶயாமஸ்யாஂ ரவிஸக்லமே । ஢ாத்யாஂ ஸஸ்மீஷஷ்வாஸ்தைலஸ்பர்ஶ விவர்ஜயேத் இதி ॥ சந்திகாயாம् - குஹபூர்ணந்஦ுஸக்ளாந்தி சதுர்஦ஶயஷ்மிஷு ச । நரஶ்ணங்காலயோனி: ஸ்யாத் தைலஹ்வீமாஂஸைவநாத् ॥ உத்பத்தை ச விபத்தை ச ஦ன்தகாषை ச மைஷுநே । அம்யஜேऽம்யுதயஸ்நானே தி஥ிஸ்தாத்காலிகி ஸ்மृதா இதி ॥

வ்யாஸர்:- ஷஷ்டி, அஷ்டமீ, பர்வங்கள், சதுர்த்தி இவைகளில் தைதலத்திலும், மாம் ஸத்திலும், கைஞ்சிரத்திலும், ஸ்த்ரீ இடத்திலும் பாபம் நெருங்கியுள்ளது. அக்காலங்களில் அவைகளை ஸேவிக்கக் கூடாதென்பதாம். மனுவும்:- ப்ரதமையிலும், பானு வாரத்திலும், ஷஷ்டியிலும், ரிக்தத்தியிலும், (சதுர்த்தி, நவமீ, சதுர்த்திகளிலும்), தைலாப்யங்கம் செய்து கொள்பவன், தனத்தாலும், ஆயுளாலும் விடப்படுவான்.

कारंककारः:- पर्ववन्धकाली, सत्यार्थक, अष्टमी, शूलार्थ
संवक्त्रमण्यम्, त्वात्क, शप्तमी, षष्ठ्यम् इक्कालन्दकालील
तेतल श्पर्सत्तेत वर्ज्जीक्क वेण्णुम्. **सन्तुरीकायिलः:-**
अमा, पूर्णीमा, शंकरमण्यम्, सत्यार्थक, अष्टमी
इक्कालन्दकालील, मनीतन, तेतलम्, शत्री, माम्शम्
इवेकाली शेवीप्पाणुकिल चंटाळाणुय्प प्रिन्पपाण.
ज्ञनम्, मरणम्, तन्तकाष्टमी, शत्रीशंकरम
इवेकालील त्रिती अक्कालत्तिलुण्णातु (निश्चेत
विषयमाकियतु) एन्ऱु शेवलप्पट्टुण्णातु.

पुराणोऽपि – चतुर्दश्यष्टमी षष्ठी अभावास्या च पूर्णिमा ।
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसङ्कान्तिरेव च ॥ तैलस्त्रीमांससंभोगी
पर्वस्तेषु यः पुमान् । विष्मूत्रभाजनं नाम प्रयाति नरकं नरः इति ॥
बोधायनः – अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां विशेषतः । शिरोम्यङ्गं
वर्जयेत्तु पर्वसन्धौ तथैव इति ॥ **कृद्गगार्योऽपि** – एकादश्यां दशम्यां च
द्वादश्यां पञ्चपर्वसु । श्राद्धाहे च विवाहे च स्त्रियं तैलं च वर्जयेत् इति ।

प्राणाक्तीलुम्:- सत्यार्थक, अष्टमी, षष्ठ्यम्, अमा,
पूर्णीमा, शूलार्थ शंकरमण्यम् इवेव
पर्ववन्धकालीनप्पटुम्. इन्तप पर्ववन्धकालील एन्त मनीतन
तेतलम्; शत्री, माम्शम् इवेकाली शेवीक्किण्णुतेने
अवन्न, मलमुत्तर पाज्जनम् एन्णुम् नरकत्तेत
अटेकिण्णुन. **पोतायाणारः:-** अष्टमी, सत्यार्थक,
पर्ववन्धकाली, पर्वव शन्ती इवेकालील तैलयिल
अप्यन्तज्जनत्तेत वर्ज्जीक्क वेण्णुम्.

मरीचिरपि – पञ्चपर्वसु नन्दासु व्यतीपाते च सङ्कमे । स्त्रियं तैलं
च मांसं च दन्तकाष्ठं च वर्जयेत् इति ॥ **गार्यः** – तैलस्त्रानं सदा पुण्यं
कुर्यादामलकैः श्रिये । सप्तमी नवमी दर्श रविसङ्कमणादते इति ॥
शातातपोऽपि – अमायां च नवम्यां च सप्तम्यां च विशेषतः ।
धात्रीकल्पेन यत् स्त्रानं तत्स्त्रानं च विवर्जयेत् इति । **कालादर्शे** – नवमी

ஸஸ்மீ ஦ர்ஸிங்காந்தி஗்ரஹணேஷு ச । ஧ாத்ரீபலஸ்ய கல்கேந தைலஸ்ராந் ச
நாசரேத் இதி ॥ வृத்தவसிஷ்டः - ஦ன்தகாषேத்வமாவாஸ்யா மைதுநே ச சதுர்஦்ஶீ ।
ஹந்தி ஸஸ்குல் புஂசாஂ தைல஗்ரஹணதோட்டஷ்டமி ॥ ஦ிவா கபித்துஞ்சாயாயாஂ ராதீ
தெஷு ஸக்ருஷு । ஧ாத்ரீகல்கேது ஸஸ்ம்யாமலக்ஷ்மிவர்த்தே ஸदா இதி ॥

மார்சியும்:- பஞ்சபர்வங்களிலும், நந்ததகளிலும், வயதிபாதத்திலும், ஸங்க்ரமணத்திலும், ஸ்த்ரி, தைலம், மாம்ஸம், பற்குச்சி இவைகளை வர்ஜிக்க வேண்டும்.
கார்க்யர்:- எப்பொழுதும், புண்யமான தைல ஸ்நானத்தையும், ழூர் கரமான ஆமலக ஸ்நானத்தையும் செய்யலாம். ஸப்தமி; நவமி, தர்சம், ஸங்க்ரமணம் இக்காலங்களைத் தவிர்த்து. சாதாதுபரும்:- அமா, நவமி, ஸப்தமி இவைகளில் நெல்லிக் கனிகளால் ஸ்நானத்தையும் வர்ஜிக்க வேண்டும். காலாதுர்சத்தில்:- நவமி, ஸப்தமி, அமா, ஸங்க்ரமணம், க்ரஹணம் இக்காலங்களிலும் நெல்லிக் கனியாலும், தைலத்தாலும் ஸ்நானத்தைச் செய்யக் கூடாது. வருத்த வளிஷ்டர்:- அமாவாஸ்யையில் தந்தகாஷ்டமும், சதுர்தசியில் மைதுநனமும், அஷ்டமியில் தைலாப்யங்கமும், செய்யப்பட்டால் மனிதரின் ஏழுகுலங்களைக் கொல்லும். பகவில் விளாமரத்தின் நிழலிலும், இரவில் தயிரிலும், மாவிலும், ஸப்தமியில் நெல்லிக்கனியிலும், எப்பொழுதும் முதேவி வளிக்கின்றார்கள்.

எவ் வாரனிஷே஧ோட்பி ஜ்யோதி: ஶாஸ்தி பிரதிரீதி: - ‘ஸந்தாப: காந்திரல்பாயுர்஧ந: நிர்஧ந்தா தथா । அனாராயং ஸர்வகாமா அம்யஜ்ஞாந்தாக்ராதிஷு இதி ॥ வாமனபுராணे - நாம்யஜ்ஞமகே ந ச ஭ுமிபுத்ர க்ஷௌரஂ ச ஶுக்ரே ச குஜே ச மாஂஸம् । புதே ச யோஷித் பரிவர்ஜனீயா ஶே து ஸர்வாணி ஸதை குர்யாத் இதி ॥ சந்திகாயாம் - தைலாம்யஜ்ஞோ நார்க்வாரே ந ஭ௌமே நோ ஸங்காந்தை வை஧ுதை நாபி ஷஷ்சாம் । பர்ண்யஷ்டம்யாஂ ச நேஷ்டதுர்஧்யா ப்ரோகே முத்துவா வாஸர் ஸ்ரீ ஸூநோ: இதி ॥ ஸூர்யஸூநு: ஶனி: ॥

आिव्वीतम्, वारंकणीन् निवेष्टमुम् ऊयोति^१ सा॒स्तर॒त्ति॒ल च॒साल॒लप्प॒ट् उ॒ल॒लतु॒। पा॒नुवा॒रम् मृ॒त्तल॑ ए॒मु॒ वा॒रंकणी॒लु॑म् अ॒प्यंक॒कम् च॒स्यतु॒ क॒काल॒व॒त्ता॒ल, मृ॒त्त॒ये॒, ल॒न्त॒ता॒पम्, का॒न्ति॒, आ॒य॒णी॑न् कु॒त्त॒व॒, ता॒न्म्, ता॒रीत॒र्य॒म्, आ॒रोक्य॒य॒मिन्म॒, ल॒कल॒ का॒मंक॒ल॑ ए॒न्त॒ इ॒व॒ उ॒न्ट॒ता॒कु॒म्। वा॒मन॒ पु॒रा॒ण॒त॒त्ति॒लः - पा॒नुवा॒रत॒त्ति॒ल अ॒प्यंक॒क स॒न्ना॒नम् क॒टा॒तु॒। च॒स्व॒वा॒य॒क॒ कि॒म॒म॒य॒ल॑ क॒क॒ल॒रम् क॒टा॒तु॒। व॒ेण॒णी॒क॒ कि॒म॒म॒य॒ल॒॑म्, च॒स्व॒वा॒य॒क॒ कि॒म॒म॒य॒ल॒॑म् म॒ा॒म॒स॒म॒॑ क॒टा॒तु॒। प॒त्तवा॒रत॒त्ति॒ल॑ स॒त्त॒री॒॑ल॒न्त॒क॒त्त॒त्त॒ व॒र्ज॒क्क॒ व॒ेण॒न्ट॒॒म्। म॒र्त्त॒रक॒ क॒लांक॒णी॒ल॑ ए॒ल॒ला॒व॒र्त॒र॒ र॒य॒म् ए॒प्प॒बा॒म॒तु॒म् च॒स्य॒ला॒म्। च॒न्त॒त्त॒री॒क॒य॒पी॒लः - पा॒नुवा॒रम्, ब॒प॒ल॒म॒वा॒रम्, ल॒न्त॒क॒रम॒ण॑म्, ल॒व॒त्त॒रु॒ति॒, ष॒ष्ठ॒॒, अ॒ष्ट॒॒॒म॒॑, च॒तु॒र्त॒च॒ इ॒व॒क॒णी॒ल॑ च॒नी॒क॒ कि॒म॒म॒य॒ल॒॑ इ॒ल॒ला॒वी॒ट॒॒ल॑, त॒त्त॒ला॒प्य॒य॒क॒म् क॒टा॒तु॒।

स्मृत्यन्तरे - पाते पर्वणि सङ्कान्त्यां ग्रहणे चन्द्रसूर्योः । तैलाभ्यज्ञो न दोषाय यदि स्याद्विनन्दनः इति ॥ कालादर्शे - भौमार्कशुक्वारेषु नाभ्यज्ञस्नानमाचरेत् ॥ तापकान्तिमृतिद्रव्यारोग्यालक्ष्यखिलेप्सितम् ॥ क्रमाद्रव्यादिवारेषु तैलेन स्नास्यतः फलम् इति ॥ षट्त्रिंशन्मतेऽपि - हृत्तापकान्ती मरणं धनमारोग्यमेव च । दारिद्र्यं सर्वकामासि रभ्यज्ञे भास्करादिषु इति ॥ वृद्धवसिष्ठः - सूर्यादिसौर्यन्तदिने नराणां तैलोप भोगात् क्रमशः फलानि । हृत्तापकान्ती मरणं धनं च रोगप्रहाणं विधनत्वमिष्टम् इति ॥

मृत्तिरेतुरु लंमंगुर्तीयिलः - व्यतीपातम्, पर्वम्, ल॒न्त॒क॒रम॒ण॑म्, च॒न्त॒र ल॒म॒र्य॒ क॒र॒ल॒र॒ण॑म् इ॒व॒क॒णी॒ल॑ तैला॒प्य॒य॒क॒म् तेऽव॒शोव॒र॒ह॒मा॒का॒तु॒, च॒नी॒वा॒रम् चे॒र्न॒ति॒रु॒न्त॒ता॒ल, क॒ला॒त॒र्त॒र्च॒त॒त्ति॒लः - ब॒प॒ल॒म॒वा॒रम्, पा॒नुवा॒रम्, स॒क॒रवा॒रम् इ॒व॒क॒णी॒ल॑ अ॒प्यंक॒क स॒न्ना॒नम् च॒स्य॒क॒ क॒टा॒तु॒। पा॒नुवा॒रम् मृ॒त्तल॑ ए॒मु॒ वा॒रंक॒णी॒लु॑म् तैला॒प्य॒य॒क॒म् च॒स्यतु॒ क॒काल॒प॒व॒नुक्कु॒, मृ॒त्त॒ये॒,

ஸந்தாபம், காந்தி, மரணம், த்ரவ்யம், ஆரோக்யம், அலக்ஷ்மி, (தாரித்ரர்யம்) ஸகல காமப்ராப்தி என்ற பலன் உண்டாகும். ஷத்திரிம்சன்மதத்திலும்:- மனஸ்தாபம், காந்தி, மரணம், தனம், ஆரோக்யம், தாரித்ரர்யம், ஸகல காமப்ராப்தி இவைகள், முறையே, பானுவாரம் முதலிய வாரங்களில் அப்யங்கம் செய்து கொள்வதால் உண்டாகும் பலன்களாம். வருத்த வளிஷ்டர்:- பானுவாரம் முதல் சனிவாரம் வரையுள்ள தினங்களில் தைலாப்யங்கம் செய்து கொள்ளும் மனிதர்களுக்கு, முறையே, மனஸ்தாபம், காந்தி, மரணம், தனம், ஆரோக்கியம், தாரித்ரர்யம், இஷ்டப்ராபதி என்ற இவை பலன்களாம்.

சுந்஦ிகாயாம் – சித்ராஸு ஹஸ்தே ஶ்ரவணே ச தைலं க்ஷௌரं விஶாலாஸு மிஷக்ஷு வர்ஜ்யம்। மூலே மृஷே ஭ாடிப்பதே து மாஂஸ் யோஷிந்மதாஸூத்ரகृத்திகாஸு இதி ॥ காலாடஸீ – தி஥ிவாரஸமாயோగே பலியாந்வார இஷ்யதே இதி ॥ விருது ஸிஞ்சாந்தே – தி஥ிரேகார்ணா ப்ரோக்தா நக்ஷத்ரம் து சதுர்஗ுணம் । கரண் பட்டார்ணா சைவ வாரஶாஸ்திராநு: ஸமூத: இதி ॥

சந்திரிகையில்:- சித்ரர, ஹஸ்தம், சரவணம் இவைகளில் தைலத்தையும், விசாகம், சதயம் இவைகளில் கூஷாரத்தையும், மூலம், ம்ருகசீர்ஷம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி இவைகளில் மாம்ஸத்தையும், மகம், உத்திரங்கள், க்ருத்திகை இவைகளில் ஸ்த்ரீஸங்கத்தையும் வர்ஜிக்க வேண்டும். காலாதார்சத்தில்:- திதியும் வாரமும் சேர்ந்தால் வாரம் அதிக பலமுள்ளதென்று சொல்லப்படுகிறது. ப்ரம்ஹலைத்தாந்தத்தில்:- திதி ஒரு மடங்கும், நகஷ்தரம் நான்கு மடங்கும், கரணம் ஆறு மடங்கும், வாரம் எட்டு மடங்கும் பலமுள்ளது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ஸமூத்யர்த்தசாரே – தைலாம்யஜனிஷேஷே திலதைலங் நிஷி஧்யதே । அம்யஜஸ்ய நிஷேஷே து ஸார்ஷபாதேரபிஷ்யதே ॥ ஸ்ரேஹநாம்யஜோ ஭வதி ஸ ஸ்ரேஹஸ்ஸார்ஷபாதிக: । ந மோஜநாடை தைலஸ்ய நிஷேஷோம்யஜ் ஏவ ஸ: ॥

तैलशब्दस्तिलस्नेहे स रुढो न च यौगिकः । अतस्तिलविकारेषु
पिण्याकतिलमोदके ॥ शाष्कुलीकृसरादौ च निषेधो नैव जायते । सार्ष
पादौ तैलशब्दस्तकार्यसदशत्वतः इति ॥ सञ्चहे - श्राद्धाहे
जन्मदिवसे विवाहे सुखदुःखयोः । ब्रते चैवोपवासे च तैलाभ्यञ्जं
विवर्जयेत् ॥ उपोषितस्य व्रतिनः कृतकेशास्य नापितैः । तावत्तिष्ठति वै
लक्ष्मीः यावत्तैलं न संस्पृशेत् इति ॥

संमंगुत्यार्त्तत शारत्तुलिः - तेतल सप्तत्तुलिं
अप्यन्कत्तेत निषेत्तिक्कुम् इटन्कलीलं एलंलीनं
एन्नेण्यं निषेत्तिक्कप्पटुकिरतु. अप्यन्कत्तेत
निषेत्तिक्कुम् इटत्तिलं कटुकिं नेयं मुतलियवेक्कुम्
निषेत्तम् शोलंलप्पटुकिरतु. अप्यन्कमानतु
स्नेहूत्तालं (एन्नेण्यालं) एर्पटुकिरतु. अन्त
स्नेहूम् कटुकिं स्नेहूम् मुतलियतु आकुम्. एलंलीनं
एन्नेण्यंक्कुप् पोज्जुत्तिकलीलं निषेत्तमिलैल.
अप्यन्कत्तिलं मट्टिलेयेनिषेत्तम्. 'तेतलम्' एन्नुम
सप्तमानतु एलंलीनं एन्नेण्यालं रुटमानतु. अतु
येलकिमल्ल. आकेयालं एलंलीनं विकारन्कलान
पिण्णेक्कु, एलंलेकामुक्कट्टेत, शंकुली, करुलरम
मुतलियवेकलीलं निषेत्तम् उन्नटावत्तिलैल. कटुकिं
स्नेहूम् मुतलियत्तिलं तेतल सप्तम
प्रयोक्किक्कप्पटुवतु, तेतलत्तिन्कार्यत्तालं अतर्कु
सममायं इरुप्पत्तालं, लाङ्करूहत्तिलिः - करात्तत्तिनम्,
पिऱ्नंत्तनालं, विवाहूम्, लाकम्, तुक्कम्, वरतम्,
उपवासम् इवेकलीलं तेतलाप्यन्कत्तेत वर्जिक्क
वेण्णुम्. उपवासम् शेय्पवनुट्टेयवम्,
वरतानुष्टाता विनुट्टेयवम्, केष्टलरम् शेय्तु
केान्नटवनुट्टेयवम् लक्ष्मियानवलं, अवनं
तेतलत्तेत्त तेऽतात वरेयीलं अवनीटम् इरुप्पालं.

रत्नावल्याम् - सुरया लिसदेहस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ।
प्रातरभ्यक्तदेहस्य निष्कृतिर्न विधीयते इति ॥ अयं निषेधो

நரகச்சதுர்஦்ஶிவ்யதிரிக்கவிஷயः ॥ ப்ரत்யூ ஆश்யுக்ஷண்சதுர்஦்ஶயா-
மினோदயे । ஸ்நானம்஭்யஜ்ய கர்த்வ்ய நரைநரகமீருமிஃ இதி ஸ்மரணாத् ॥

ரத்னவளியில்:- ஸ-அரையினால் பூசப்பட்ட
தேஹமுடையவனுக்கு ப்ராயச்சித்தம் விதிக்கப்படுகிறது.
ப்ராத: காலத்தில் அப்யங்கம் செய்து கொண்டவனுக்கு
ப்ராய்ச்சித்தம் விதிக்கப்படுவதில்லை. இந்த நிலேஷ்வதம்,
நரகசதுர்த்தியைத் தவிர்த்து மற்றக் காலத்தைப் பற்றியது,
(ஏனெனில்) “ஆச்வயுஜ க்ருஷ்ண சதுர்த்தியில்
உஷ: காலத்தில் ஸ-உரயோதயத்தில், நரகத்தினின்றும்
பயந்த மனிதர்கள் அப்யங்கம் செய்து கொண்டு ஸ்நானம்
செய்ய வேண்டும்” என்று ஸ்மருதி இருப்பதால்.



நரகச்சதுர்஦்ஶீஸ்நானம்

ஸ்மृதிரत்ந- ஆಶ்யுக்ஷணபக्षே து சதுர்஦்ஶயமினோदயे । தைலம்யஜன
கர்த்வ்ய ஸ்நானமுணேன வாரிணா இதி ॥ ஸ்மृத்யர்஥ஸரே - யஸ்யां ஹதஶ்சதுர்஦்ஶயां
நரகो விஷ்ணுநா நிஶி । தஸ்யாம்஭்யஜனங் கார்ய நரைநரகமீருமிஃ இதி ॥
காலாదர்ஶீபி - ப்ரத்யூ ஆಶ்யுக்ஷணே குதாம்யஜாடிமஜல: । ஭க்த்யா
ஸ்பூஜயேல்க்ஷ்மீஸ்லக்ஷ்மீவினிவृத்யே இதி ॥

நரகசதுர்த்துசீ ஸ்நானம்

ஸ்மருதிரத்னத்தில்:- ஆச்வயுஜ க்ருஷ்ணபக்ஷத்தில்
சதுர்த்தியில் ஸ-உரயோதயத்தில், தைலாப்யங்கத்துடன்,
உஷ: ஞேதகத்தால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.
ஸ்மருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- எந்தச் சதுர்த்தியில் ராதரியில்,
நரகாஸ-அரன் விஷ்ணுவினால் கொல்லப்பட்டானே அந்த
ராதரியில், நரகத்தினின்றும் பயந்த மனிதர்கள் அப்யங்கம்
செய்து கொண்டு ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.
காலாதர்சத்திலும்:- ஆச்வயுஜமாஸத்தின் அமையில்
விடியற்காலத்தில் அப்யங்கம் முதலிய மங்களங்களைச்

चेयंतु केऽन्नं तु, पक्तियुटनं, लक्ष्मीययप्प औजीकंक
वेण्णं तुम्. ऐ तेविनं नीवं गुरुत्तिकंक्का क.

विष्णुपुराणे — स्वातीस्थिते खाविन्दुर्यदि स्वातीगतो भवेत्।
पञ्चत्वगुदकस्नायी कृताभ्यङ्गविधिर्नरः ॥ नीराजितो महालक्ष्मीमर्चयन्
श्रियमश्नुते । दीपैर्नीराजनादत्र दीपावलिरिति स्मृता इति । सारसङ्गहे
— चतुर्दशी याऽश्वयुजस्य कृष्णा स्वात्यर्कयुक्ता च भवेत् प्रभाते ।
स्नानं समभ्यज्य नरैस्तु कार्यं सुगन्धितैलेन विभूतिकामैः ॥ तैले
लक्ष्मीर्जले गङ्गा दीपावलिदिने वसेत् । अलक्ष्मीपरिहारार्थमभ्यङ्ग-
स्नानमाचरेत् ॥ तत आभरणं वस्त्रं धारयेत् सर्वसम्पदः इति ॥

वीष्णुपुराणत्तीलः :- शर्मयन्सं लंवाति पीलं
अिरुक्कुम् बेपामृतु, सन्तिरन्नुम् लंवाति कंकु
वरुम् बेपामृतु, मनीतनं अप्यनंकम् चेयंतु केऽन्नं तु,
ज्ञन्तु पट्टेटकौ चेरन्त ज्ञलत्तालं लंनानम् चेयंतु,
नीराज्ञनम् चेय्यप्पट्टवण्णं, मल्लालक्ष्मीययप्प
पूजीत्तालं, लम्पत्तेत अटेकिरुन्. इक्कालत्तीलं
त्तिपंक्कलालं नीराज्ञनम् चेय्वत्तालं त्तिरु 'त्तिपावली' एन्सं
चेशाल्लप्पट्टतु. लारलैंकरलैत्तीलः- लंवाति पीलं
उल्ला शर्मयन्नुटनं कृष्ण आच्वयुज तंगुष्णं
सत्तुर्तसीयीलं उषःकालत्तील, लम्पत्तेत विरुम्पुम्
मनीतर्कौ वालैनयौला तेतलत्तिग्नेल अप्यनंकम्
चेयंतु केऽन्नं तु, लंनानम् चेय्य वेण्णं तुम्. त्तिपावली
तिनत्तील, तेतलत्तिल लक्ष्मीयुम्, ज्ञलत्तील कंकेकयुम्
वलीप्पाल. आकेयाल अलक्ष्मीयय विलक्कुवत्तरंका क
अप्यनंक लंनानम् चेय्य वेण्णं तुम्. प्रिऱकु, लकल
लम्पत्तेत गुण्टावत्तरंका क, आपरानम्, वलंत्तरम्
इवेकलौत्त तरीक्क वेण्णं तुम्.

स्मृत्यर्थसारे — तैलाभ्यङ्गे निषिद्धाः स्युः सर्वश
तिथयस्सदा । द्वितीयं वर्जयित्वैव दृष्टादृष्टिदोषतः इति ॥ प्रायशः
सर्वसुतिथिषु अभ्यङ्गस्य निषेधे प्राप्ते विशेषमभ्यनुजानाति प्रचेता:-

‘சார்பங் ஗ந்஧தைல் ச யதைல் புஷ்பவாசிதம் । அந்யங்குதையுதன் தைல் ந ஦ுஷ்யதி கடாசன இதி ॥

ஸ்மிருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- தைலாப்யங்க விஷயத்தில், த்விதீயையைத் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத் திதிகளும், தருஷ்டமும் அத்ருஷ்டமான இரண்டுவித தோஷத்தாலும் நிஷித்தங்களாகவே ஆகும். அநேகமாய் எல்லாத் திதிகளிலும் அப்யங்கத்திற்கு நிஷேதம் ப்ராப்தமாயிருக்கும் பொழுது விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார், ப்ரசேதஸ்:- கடுகின் எண்ணென்றும், வாஸனைத் தைலமும், புஷ்பத்தினைல் வாஸனென்றுள்ள தைலமும். வேறு த்ரவ்யத்துடன் கூடிய தைலமும் ஒருகாலும் துஷ்டமாகாது.

யமோऽபி—஘ृதं ச சார்பங் தைல் யதைல் புஷ்பவாசிதம் । ந ஦ோषः பக்தைலேஷு ஸ்வானாभ்யஜேஷு நித்யशः இதி ॥ ஸங்கீதம்— பக்தைல் ஗ந்஧தைல் சார்பங் புஷ்பவாசிதம் । வஜ்யஹிஷ்ப்யதூஷ் ஸ்யாத् ஦்ரவ்யாந்தரயுத் தथா இதி ॥ ஸ்மृத்யர்஥ஸாரே— நிஷிஜ்ஜிவசே வாரே ராத்ரை ச வ்யாධிதஸ்ய ச । ஦்ரவ்யாந்தரயுத் தைல் ந ஦ுஷ்யதி கடாசன ॥ ஶவானுगமன் க்ஷௌர் குத்வா நாப்யஜ்ஞமாசரேது । ஸ்வானியங் ததா விப்ரோ ந ஶுஷ்யதி கடாசன இதி ॥

யமனும்:- நெய், கடுகெண்ணெய், புஷ்பத்தால் வாஸனையேற்றப்பட்ட தைலமும், காய்ச்சப்பட்ட தைலங்களும் அப்யங்க ஸ்நானத்தில் தோஷமற்றவை. ஸங்க்ரஹத்தில்:- காய்ச்சப்பட்ட தைலம், வாஸனைத் தைலம், கடுகெண்ணெய், புஷ்பவாஸனென்றுள்ள தைலம், வேறு த்ரவ்யத்துடன் கூடிய தைலம் இவை நிஷித்த தினங்களிலும் தோஷமற்றவை. ஸ்மிருத்யர்த்த ஸாரத்தில்:- நிஷித்த தினத்திலும், நிஷித்த வாரத்திலும், ராத்ரியிலும், வ்யாதியுள்ளவனுக்கும், வேறு த்ரவ்யத்துடன் கூடிய தைலம் ஒரு பொழுதும் துஷ்டமாகாது. சவானுகமனம் செய்த பிறகும், கேஷளரம் செய்து கொண்ட பிறகும் அப்யங்க ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. உபயோகிப்பவன் ஒருகாலும் சுத்தனாகான்.

सत्यव्रतः - पिष्टपक्वारनालेन घृतेनाथं जलेन वा । आमं वाऽपि युतं तैलं न कदाचन दुष्यति ॥ रोगातुरस्यापि तथा तैलं जातु न दुष्यति इति ॥ पुराणे - तिथि नक्षत्रवारेषु निषिद्धज्ञपि रात्रिषु । तैलमाज्येन संयुक्तमद्विर्वा शुद्धिमाप्नुयात् इति ॥ स्मृत्यन्तरे - रवौ पुष्पं गुरौ दूर्वा भूगौ गोमयमेव च । भौमे भूमिं विनिक्षिप्य तैलाभ्यज्ञं समाचरेत् ॥ द्रव्यान्तरयुतं तैलं न दुष्येद्वृहणं विना । तुलसीदलसंयुक्तं ग्रहणेऽपि न दुष्यति ॥ शिरोभ्यक्तेन तैलेन नाङ्गं किंचिदुपस्पृशेत् । तिलपिण्ठं च नाशनीयात् तस्य चायुर्न रिष्यति इति ॥

सूक्ष्यवर्तताः :- मावु, पक्वमाण कर्णकी, नेय, जलम् इवेकली छन्नरुटनं चेरान्तत्ताणेल, पक्षसेयाण इन्नेण्युम् छुरुकालुम् तुष्टमाकातु. रोकत्तालं पैष्टककप्पट्टवनुक्तुं तेतलम् केट्टतल्ल. पुराणात्तीलः - निष्ठित्तमाण तिति, नक्षत्रम्, वररम् इवेकलीलुम्, रात्रीकलीलुम्, नेय अल्लतु जलत्तुटनं कृष्टय तेतलम् सूक्ष्यत्तमाकुम्. मर्हेत्रुरु संमरुक्तीयिलः - पाणुवारत्तीलं पुष्टपत्तेतयुम्, गुरुवारत्तीलं अरुकेयुम्, वेळालीक्किम्मेमयिलं कोमयत्तेतयुम्, बेळामवारत्तीलं मण्णेण्युम् पोट्टु तेतलाप्यन्कम् चेय्तु केळालालाम्. वेऱुत्तरव्यत्तुटनं कृष्टय तेतलम्, कर्हलणम् तवीर मर्हक कालत्तीलं तुष्टमाकातु. तुलाली तलत्तुटनं कृष्टय तेतलम् कर्हलणत्तीलुम् तुष्टमाकातु. तलैयील तेय्तत्तुक केळाण्ट तेतलत्तालं वेऱु छुरु अंकत्तेतयुम् तटवक्कूटातु. ऎलालुटनं मावेवप्प खुलीक्कक्क कूटातु. इन्त नियमत्तुटनं इरुप्पवनुक्तु आयुलं कुरेयातु.

गार्यः - कुयन्नैमित्तिकं स्नानं शीताद्विः काम्यमेव च । नित्यं याद्विकं चैव यथारुचि समाचरेत् इति ॥ सत्यव्रतः - मन्त्रवन्मन्त्रहीनं च स्नानं द्विविधमीरितम् । मन्त्रैर्यत् क्रियते स्नानं मन्त्रवत्तत्प्रकीर्तिम् ॥ मलापनुत्तयै तैलाद्यैः मन्त्रहीनं मलापहम् इति ॥

ஸ்மூதிப்ரदீபிகாயாம் - அனுஷ்டைஷ்டைவீஜலை: ஸ்நான் ஸமாச்சரெதூஇதி ॥

கார்க்யர்: - நெமித்திக் ஸ்நானம், காம்ய ஸ்நானம் இவைகளை, சீத ஜலத்தால் செய்ய வேண்டும். நித்ய ஸ்நானம், யாத்ருக்சிக ஸ்நானம் இவைகளை இஷ்டப்படி செய்யலாம். **ஸத்யவ்ரதர்:** - மந்த்ரமுள்ளது என்றும், மந்த்ரமில்லாதது என்றும் இரண்டுவிதமாய் ஸ்நானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மந்த்ரங்களுடன் செய்யப்படும் ஸ்நானம் மந்த்ர ஸ்நானம் எனப்படும். அழுக்கை யகற்றுவதற்காக எண்ணெய் முதலியதுடன் செய்யப்படும் மலாபகர்ஷன ஸ்நானம் அமந்த்ரக ஸ்நானம் எனப்படும். **ஸ்மிருதி ப்ரதீபிகையில்:** - வெளியிலெடுக்கப்படாத ஜலத்தாலோ, வெளியிலெடுக்கப்பட்ட ஜலத்தாலோ ஸ்நானம் செய்யலாம்.

தேவல: — உஷ்டாஶாபி ஶுத்யந்தி ஶுஷ்டை: பாந்தை: ஸமுஷ்டா: । ஏகராத்ரோषிதா ஆபஸ்த்யாஜ்யா: ஶுஷ்டா அபி ஸ்வயம் இதி ॥ மஹாமாரதே - பாடாம்யஜ்ஞ ஶிரோம்யஜ்ஞ ஦ிஜாஞ்சிஷாவமார்ஜனம் । ஏகைக் பாண்டவஶ்ரேஷ ராஜஸூயாஞ்சிஷிஷ்யதே இதி ॥ நார்஦ீயே - தைலாம்யஜ்ஞ மஹாராஜ பிரக்ஷணாநா கரோதிய: । ஸ ஸ்நாதோऽங்காஶத் ஸா஗்ரங்஗ஜாயா நாத ஸஂஶய: இதி ॥

தேவலர்: - சுத்தமான பாத்ரங்களால் எடுக்கப் பட்டால், உத்தருத்தலமும் சுத்தமேயாகும். சுத்தமான ஜலமாயினும், ஒரு ராத்ரி அதிக்ரமித்தால் அது தவிர்க்கத் தகுந்தத்தாகும். மஹாபாரதத்தில்:- ப்ரராம்ஹணரின் பாதத்தில் எண்ணெய் தடவுவதும், அவரின் சிரஸ்லில் எண்ணெய் தடவுவதும், பிரராம்ஹணனின் உச்சிஷ்டத்தைச் சுத்தம் செய்வதும், ஒ பாண்டவ ச்ரேஷ்டனே ! ஒவ்வொன்றும் ராஜஸ்யத்தை விடச் சிறந்ததாகும். **நூரதீயத்தில்:** - ஒ மஹாராஜனே! எவன் ப்ரராம்ஹணருக்குத் தைலாப்யங்கம் செய்கின்றானே அவன், நூறு வருஷம் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்தவனுகிறான். இதில் ஸம்சயமில்லை.

क्रियास्नानम्

अथ क्रियास्नानम् । तत्र शङ्खः - क्रियास्नानं प्रवक्ष्यामि यथाबद्धिपूर्वकम् । सरस्सु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ॥ क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र क्रिया मता । मृद्भिरन्दिश्च कर्तव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥ जले निमग्न उन्मज्ज्य उपस्पृश्य यथाविधि । तीर्थस्यावाहनं कुर्यात् तत् प्रवक्ष्याम्यतः परम् ॥

कंरीया संनानाम्

இனி க்ரீயா ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது. அதில் சங்கரா:- க்ரீயா ஸ்நானத்தை விதி உள்ளபடி சொல்லப் போகிறேன். ஸரஸ்ஸூகள், தேவகாதங்கள், தீர்த்தங்கள், நதிகள் இவைகளில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்வது க்ரீயா ஸ்நானம் எனப்படும். அதில், ஸ்நானமே க்ரீயை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆதியில் மண், ஜலம் இவைகளால் தேஹத்தைச் சுத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு ஜலத்தில் மூழ்கி எழுந்து விதிப்படி ஆசமனம் செய்து, தீர்த்தத்தை ஆவாஹனம் செய்ய வேண்டும். இனி அதைச் சொல்லுகிறேன்.

प्रपदे वरुणं देवमम्भसां पतिमूर्जितम् । याचितं देहि मे तीर्थं सर्वपापापनुत्तये ॥ तीर्थमावाहयिष्यामि सर्वघिविनिषूदनम् । सान्निध्यमस्मिन् स्वे तोये स्थीयतां मदनुग्रहात् ॥ रुद्रान् प्रपदे वरदान् सर्वानप्सुषदस्त्वहम् । देवमप्सुषदं वहिं प्रपदेऽधनिषूदनम् ॥ अपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपदे शारणं तथा । रुद्रश्चाग्निश्च शर्वश्च वरुणश्चाप एव च ॥ शमयन्त्वाशु मे पापं रक्षन्तु च सदैव मासु ॥

ஆவாஹன மந்த்ரங்கள் - “ப்ரபத்யே வருணம் + ஸதைவமாம்” என்று. அவைகளின் பொருள் - “ஜலங்களுக்குப் பதியும், பலமுள்ளவனுமான வருண தேவனைச் சரணமடைகின்றேன். ஒ வருண! என்னுல்

வேண்டப்பட்ட தீர்த்தத்தை, ஸகல பாபங்களையும் போக்குவதற்கு எனக்குக் கொடுப்பாயாக. ஸகல பாபங்களையும் போக்குவதான தீர்த்தத்தை ஆவாஹனம் செய்யப் போகிறேன். உமதாகிய இந்தத் தீர்த்தத்தில் என்னை அனுக்ரஹிப்பதற்காக நீர் இருக்க வேண்டும். வரனைக் கொடுப்பவர்களான ருத்ரர்களையும், ஜலத்தில் வளிப்பவர் எல்லோரையும் சரணமடைகிறேன். பாபத்தைப் போக்குகின்றவரும், ஜலத்தில் இருப்பவருமான அக்னியைச் சரணமடைகிறேன். புண்யப்ரதமாயும், பரிசுத்தமாயுமுள்ள ஜலத்தைச் சரணமடைகின்றேன். ருத்ரன், அக்னி, சர்வன், வருணன், ஜலம் என்ற இவர்கள் என் பாபத்தைச் சீக்கிரம் போக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் என்னைக் காக்க வேண்டும்'' என்பது.

இत्येवमुक्त्वा कर्तव्यं ततः संमार्जनं कुशैः । आपोहिष्टेति
तिसृभिः यथावदनुपूर्वशः । हिरण्यवर्णा इति च क्रमिक्षतसृभिस्तथा ॥
शब्दोदेवीरिति तथा शब्द आपस्तथैव च । सदमापः प्रवहतेत्येवं च
समुदीरयेत् ॥ एवं सम्मार्जनं कृत्वा छन्द आर्षं च दैवतम् ।
अथमर्षणसूक्तस्य संस्मरेत् प्रयतः सदा ॥ ततोऽभ्यसि निमग्नस्तु त्रिः
पठेदघमर्षणम् । प्रदद्यान्मूर्छनि तथा महाव्याहृतिभिर्जलम् इति ॥

இவ்விதம் சொல்லிப் பிறகு, குசங்களால் மார்ஜனம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 'ஆபோஹிஷ்ட' முதல் மூன்று ருக்குகளாலும், 'ஹிரண்யவர்ணை:' முதல் நான்கு ருக்குகளாலும் 'சம்நோதேவீ:, சம்நஜுப:, இதமாபः ப்ரவஹத' என்ற ருக்குகளாலும் மார்ஜனம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு, அகமர்ஷன ஸுக்தத்தின், சந்தஸ், ருஷி, தேவதை இவைகளை ஸ்மரிக்க வேண்டும். பிறகு, ஜலத்தில் மூழ்கியவனைய், அகமர்ஷன ஸுக்தத்தை மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும். மஹாவ்யாஹ்ருதிகளால் தலையில் ஜலத்தை விட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

तीर्थयात्रां वर्जनीयमाह व्यासः । छत्रं च हरते पादमर्धं हरति पादुका । यानं हरेत्विपादं तु सर्वं हरति डोलिका ॥ ऐश्वर्या लोभमोहाद्वा गच्छेद्यानादिभिस्तु यः । निष्फलं तस्य तत्तीर्थं तस्माद्यानादि वर्जयेत् इति ॥ विष्णुः । गोभिर्युक्तेन यानेन तीर्थयात्रां करोति यः । स याति नरकं घोरं यावद्वौरोमसङ्ख्यया इति ॥

त्रीर्त्त यात्तरयीलं विटतं तकुन्तवैवकौनाच्च चेषालं किरुर्, व्यासालः । त्रीर्त्त यात्तरयीलं कुटै उपयोगिकप्पट्टालं अथु धुन्यत्तिनं कालं पाकत्तते अपहरीकंकुमं । पात्ररक्षे पात्रिपाकत्तते अपहरीकंकुमं । टोली मुमुप्पुन्यत्तते युमं अपहरीकंकुमं । ज्ञस्वर्यत्तालं अल्लतु लेपात्ततालेला, मेमाहृत्ततालेला वाहृनमं मुत्तलीयवैवकौनालं एवनं त्रीर्त्तयात्तरकंकुच्च चेष्टकिन्नरुणेऽ, अवनुकंकु अन्तत्त त्रीर्त्तमं निष्पलमाकुमं । औकेयालं वाहृनमं मुत्तलीयवैवकौना वर्जीकंक वेण्णुमं । विष्णुः । एरुतुकण्ठानं कृष्ण वाहृनत्ततालं एवनं त्रीर्त्त यात्तर चेष्टकिन्नरुणेऽ अवनं, एरुतुकणीनं रोमांकौनं एवंवैवावेवा अवंवैव वर्षन्कौनं वर्षरयीलं केवरमाणं नरकत्तते अटेकिन्नरुनं ।

पैठीनसिः । षोडशांशं स लभते यः परार्थेन गच्छति । अर्धतीर्थफलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति । तीर्थं प्राप्यानुषङ्गेण यस्तत्र स्नानमाचरेत् । स्नानार्धफलमाप्नोति तीर्थयात्राश्रितं न तु ॥ नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेत् । यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् इति ॥ व्यासोऽपि । यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते इति ॥

पैपानलिः । एवनं प्रिऱ्गुकंकाकच्च चेष्टकिन्नरुणेऽ अवनं त्रीर्त्त पलत्तिनं 16-लं ओरु पाकमूलाना पलैने अटेकिरुनं । वेऱु कार्यत्ततालं चेसंरवनं त्रीर्त्त पलत्तिनं पात्रिये अटेवाणं । प्रिऱ्गुकंकु उत्तवीयायच्च

சென்றவன் அங்கு ஸ்நானம் செய்தால் ஸ்நானத்தின் பாதி பலனை அடைகிறுன். தீர்த்த யாத்ரா பலனை முழுவதும் அடைய மாட்டான். பாபம் செய்த மனிதர் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்தால், பாபம் மட்டில் சாந்தமாகும். சுத்தரான மனிதருக்கே, தீர்த்தம் பூர்ண பலனைக் கொடுப்பதாகும். வ்யாஸரும்:- எவனது கைகளும், கால்களும், மனதும், அடக்கப்பட்டிருக் கின்றனவோ, எவனுக்கு வித்யையும், தபஸ், ஸ்ரகம், கீர்த்தியும் உள்ளனவோ, அவன் தீர்த்தத்தின் பலத்தை அடைகிறுன்.

குஷவसிஷ: – பிதர் மாதர் வாடபி ஭ாதர் சுஹ஦் ரூஸ் । நிமஜ்ஞ யமுதீஶ்ய ஦்ராதாஂஶ் லமேத ஸ: ॥ தத்பார்஥ிதே த்வஷமாஂஶ் லமேத் ஸ்நானகல் நர: இதி ॥ பைठீனஸி: – பிதிகுதி குஶமர்யீ தீர்஥வாரிணி மஜ்யேத் । மஜ்யேத் யமுதீஶ்ய அஷ்஭ாగ் லமேத ஸ: ॥ அதிர் மந்தி: – ‘குஶாடஸி த்வ் பவித்ராடஸி விஷ்ணு நிர்மித: புரா । த்வயி ஸ்நாதே ஸ ச ஸ்நாதோ யஸ்யैதநாந்தி஬ந்஧னம् இதி ॥

வங்குத்த வளிஷ்டார்: - பிதா, மாதா, ப்ராதா, மித்ரன், குரு இவருள் எவரையாவது உத்தேசித்து ஸ்நானம் செய்தால், அந்த உத்தேச்யன், தீர்த்த பலத்தில் பன்னிரண்டிலொரு பாகத்தை அடைவான். உத்தேச்யன் ப்ரரா஗த்தித்துச் செய்த விஷயத்திலானால், அவன் எட்டிலொரு பாகத்தை அடைவான். **பைஷநாஸி:** - குசுத்தால் ப்ரதிநிதி செய்து, அதைத் தீர்த்த ஜலத்தில் முழுக்க வேண்டும். எவனை உத்தேசித்து முழுக்குகின்றாலே அவன் தீர்த்த பலனின் எட்டிலொரு பாகத்தை அடைவான். அதில் மந்த்ரமிது - ‘குசோஸி + பந்தனம்’ என்பது. இதன் பொருள் - ‘நீகுசமாய் இருக்கின்றாய், சுத்தனாய் இருக்கிறாய், நீ முற்காலத்தில், ப்ரஹ்மாவினால் ஸ்ரங்ஷிக்கப்பட்டாய். நீ ஸ்நானம் செய்த பொழுது, இந்தக் குசமுடிச்சு எவனுடையதோ அவனும் ஸ்நானம் செய்தவனுய் ஆகிறுன்’ என்று.

तीर्थफलं न विक्रीणीयात् ॥ तथाचापस्तम्बः - मांसमायुधं सुकृताशां च तिलतण्डुलास्त्वेव धान्यस्य विशेषेण न विक्रीणीयात् इति ॥ धर्मदानं तु विषयविशेषे स्मर्यते - देवतानां गुरुणां च मातापित्रोस्तथैव च । पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं क्वचित् इति ॥ शाण्डिल्यः - जीवनार्थं हतं तीर्थं जीवनार्थं हतं व्रतम् । सन्दिग्धोऽपि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो द्विजः ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि सागरे । सागरे यानि तानि स्युः पादे विप्रस्य दक्षिणे इति ॥

तीर्त्त पलत्तेत विन्दककं कूटातु. अव्वितमेऽ
आपस्तुम्पारः - माम्सम्, आयुतम्, तीर्त्त संनानम्
मुतलियतिन् पुण्यकालम्, ताण्यन्कग्रुन् एन्ग्रु, अरीचि
छिवेकलैयुम् विन्दकवे कूटातु. तर्मतानम् चिलरुक्कुस
चेय्यलाम् एन्ऱु चेाल्लप्पटुकिरतु -
तेवतेतकग्रुक्कुम्, पीत्तरुक्कग्रुक्कुम्, माता
पिताक्कग्रुक्कुम् पुण्यत्तेत अवश्यम् केकाटुक्क
वेण्णटुम्. पापत्तेत छ्रुकालुम् केकाटुक्ककं कूटातु.
साण्णटिल्यरः - पिष्मेप्पुक्काकस् चेय्यप्पटुम् तीर्त्त
संनानम् वैण्णकुम्. ज्ञेवन्तत्तिन्काकस् चेय्यप्पटुम्
वरतमुम् वैण्णकुम्. सन्तेकिप्पटुम् मन्तरम् वैण्णकुम्.
नीलयिल्लात चित्तमुटेय प्रराम्भृणान् वैण्णवान्.
पुमियिल्लावृत्तिरुक्किन्नेतो अवेयिल्लाम्
समुत्तरत्तिल्लावृत्तिरुक्किन्नेतो अवेयिल्लाम्
तीर्त्तन्कग्रुक्केला अवेयिल्लाम् प्रराम्भृणानीन् वलतु
कालील्लावृत्तिरुक्किन्नेतो.

आश्वमेधिके — आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा यत्रैव मधुसूदनः ।
तत्तीर्थं तत्परं ब्रह्मं तत्पुण्यं तत्पोवनम् ॥ आचारवस्त्रान्तविशेषोधितेन
सत्यप्रसन्नक्षमशीतलेन । ज्ञानाम्बुद्धा स्नाति हि यश्च नित्यं किं तस्य
भूयः सलिलेन कृत्यम् इति ॥ शाण्डिल्यः - कुटुम्बिनो विनाऽन्येषां
दृष्टं तीर्थादि सेवनम् । कुटुम्बिनां गृहे सर्वं विकलो निर्गतो गृहात् इति ।
विकलः - शून्यनित्यकर्मा ॥

ஆச்வமேதிகத்தில்:- மனத்திற் கெட்டாதவரும், மதுவை வென்றவருமான ஹரியானவர் எங்கு இருக்கின்றாரோ, அது தீர்த்தம், அது பரமான ப்ரம்ஹம், அது புண்யஸ்தலம், அதுவே தபோவனமாகும். ஆசாரமாகிய வஸ்த்ரத்தால் சோதிக்கப்பட்டதும், ஸத்யத்தால் தெளிந்ததும், கூமையால் சீதாமுமான, ஜ்ஞானமெனும் ஜலத்தினால் எவன் ஸநானம் செய்கின்றானே அவனுக்கு மறுபடி ஜலத்தால் என்ன கார்யம் இருக்கிறது. சாண்டில்யர்:- குடும்பிகளைத் தவிர மற்றவர்க்குத் தீர்த்தம் முதலியதின் ஸேவை சொல்லப்பட்டுள்ளது. குடும்பிகளுக்கு வீட்டிலேயே ஸ்கலமும், உள்ளது. விகலன் வீட்டிலிருந்து வெளியிற் செல்ல வேண்டும். விகலன் = நித்ய கர்மங்களில்லாதவன்.

—★—

நदீரஜோடோஷநிர்ணய:

அथ நदீரஜோடோஷநிர்ணயः ॥ தत्र காத்யாயனः - ஸம்பாஸே ஶ்ராவணே மாசி ஸ்வா ந஧ோ ரஜஸ்வலாः । தாஸு ஸ்நானं ந குர்வீதி வர்ஜியித்வா து ஜாஹ்வீம् இதி ॥ யோగயாஜாவல்க்யः - யாவநோடேதி ஭஗வான் ஦க்ஷிணாಶாவிமூஷணம् । தாவந்தேவஹா ந஧ோ வர்ஜியித்வா து ஜாஹ்வீ இதி ॥ யாவநோடேத்ய஗ஸ்த்யः, தாவந்தேவஹா: ரஜஸ்வலா இத்யர்஥ः ॥ உதயோऽபி தஸ்ய ஶரஷேவ ஜ்யோதிஃ ஶாஸ்தி ஦ர்ஶிதः ॥ ஏவं ச வர்ஷகாலே ரஜஸ்வலா இத்யுக்தமாகும் ॥ மரீசிஃ - கர்க்டே ஸரிதஸ்ஸ்வா ஭வந்தீஹ ரஜஸ்வலாः । அப்ரஶஸ்தம் தடா ஸ்நானं வர்ஷாடௌ நவநாரிணி இதி ॥

நதிகளின் ரஜோதோஷ நிர்ணயம்

இனி நதிகளின் ரஜோதோஷத்தின் நிர்ணயம் சொல்லப்படுகிறது. அதில், காத்யாயனர்:- ச்ராவண மாஸம் வந்தவுடன் எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலையாய் ஆகின்றன. கங்கையைத் தவிர்த்த மற்ற நதிகளில் ஸநானம்

चेय्यकं कृटातु. योक्याकं गुवलं क्यरः - तेरं गुतं त्रिक्किनं आपरन्माक्षिय अकस्त्यर एतुवरयीलं उत्यमाक विल्लैयो अतु वरे, कन्कायेत् तवीर्त्त मर्त्र नतिकौं रज्जुस्वलैकौं आम्. अन्त अकस्त्यरिनं उत्यमुम् चरत् कालत्तिलेये ज्ञयोति सा॒स्त्रत्तिलं चेऽल्लप्प पट्टु॑नौतु. इव्वितम् इरुप्पत्तालं वर्षा कालत्तिलं रज्जुस्वलैकौं एन्ऱू चेऽल्लियताय आक्षिन्नतु. मर्चीः - कृटक मासत्तिलं एल्ला नतिकौम् रज्जुस्वलैकौय आक्षिन्नन. अप्पेपामुतु वर्षा कालत्तिलं आरम्पम्. पुनुज्जलत्तिलं ल्लनानम् निषित्तम् आकुम्.

बृद्धगार्योऽपि - वषदौ सरितः सर्वा भवन्तीह रजस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वति वर्जयित्वा तु जाह्वीम् इति ॥ मार्कण्डेयः - द्विमासं सरितस्सर्वा भवन्तीह रजस्वलाः । अप्रशस्तं तदा स्नानं वषदौ नववारिणि इति ॥ कात्यायनोऽपि - नभोनभस्ययोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वति देवर्षिपितृतर्पणम् इति ॥

वंगुत्तु कार्क्कं यरुम् : - वर्षा॒गुतुवी॑नं आति॒यी॑लं एल्ला॒ नतिकौम् रज्जुस्वलैकौय आक्षिन्नन. अवैवकौलं ल्लनानम् चेय्यकं कृटातु, कन्कायेत् तवीर्त्त. मार्क्कंकन्नोटेयरः : - इन्कु, एल्ला नतिकौम् इराण्णु॑ मातम् मुमुवतुम् रज्जुस्वलैकौय आक्षिन्नन. अप्पेपामुतु वर्षागुतुवी॑नं आरम्पत्तिलं पुतु ज्ञलत्तिलं ल्लनानम् निषित्तमाकुम्. कात्यायनारुम् : - कर्वावै पात्तरपत मासन्कौलिनं नु॑वी॑ल, एल्ला नतिकौम् रज्जुस्वलैकौं आक्षिन्नन. अवैवकौलं ल्लनानत्तेत्युम्, तेवर्षी पित्तरु तर्प्पणत्तेत्युम् चेय्यकं कृटातु.

एतत्सर्वं कर्कटादिमासद्व्याभिप्रायम् ॥ यदाह अत्रिः - सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः । न स्नानादीनि कर्मणि तासु कुर्वति मानवः इति ॥ सिंहकर्कटमासद्व्यमध्ये सर्वा रजस्वला इत्यर्थः । योग्याज्ञवल्क्यः - रजोदुष्टेऽम्भसि स्नानं वर्ज्य नद्यादिषु द्विजैः ।

கடர்஥ித் ரஜஸ்தேஷாஂ ஸந்஧ியோபாஸ்திஶ தர்பணம் இதி ॥ கடர்஥ித் - குத்ஸிதம் ॥ வ்யாଘ்ரபாத: - ஸிங்ஹக்ர்டயோர்ம்ப்யே ஸர்வாநந்஦ோ ரஜஸ்வலா: । தாஸு ஸ்வாந் ந குர்வித வர்ஜியித்வா ஸமுद்ரா: இதி । ஸமுద்ரா: - மஹந்஦ீ: ॥

இவையெல்லாம் கடகம் முதலான இரண்டு மாதங்களைச் சொல்வதில் அபிப்ராயம் உடையவை. ஏனெனில், அத்ரி:- ஸிம்ஹை கடக மாஸங்களின் நடுவில் எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகின்றன. அவைகளில், ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்களை மனிதன் செய்யக் கூடாது. ஸிம்ஹை கடகமாஸங்கள் இரண்டிலும், எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலைகள் என்பது பொருள். யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- நதி முதலியவையில் ரஜஸ்ஸால் துஷ்டமான ஜலத்தில் ப்ராம்ஹணர்கள் ஸ்நானத்தை தவிர்க்க வேண்டும். ரஜஸ் வெறுக்கத்தக்கது ப்ராம்ஹணர் செய்யும் ஸந்த்யோ பாஸனம் தர்ப்பனம் இவையும் குறையுள்ளதாகும். வ்யாக்ரபாதர்:- ஸிம்ஹை கர்க்கட மாஸங்களில் எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலைகள் ஆகின்றன. அவைகளில் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது. ஸமுத்ரத்தைச் சேரும் நதிகளை (மஹா நதிகளை)த்தவிர்த்து.

தत्र விஶோ ஦ரිஷ்டோ ஭விஷ்யத் புராணे - ஆடை கர்ட்டகே ஸர்வா மஹநந்஦ோ ரஜஸ்வலா: । திரி஦ிந் து சதுர்த்திலி ஶுநா: ஸ்யுஜாஹ்வி யथா இதி ॥ மஹாமாரதேபி - மஹநந்஦ோ ஦ேவிகா ச காக்ரீ நர்ம்஦ா ததா । ரஜஸா து பிரத௃ஷ: ஸ்யு: கர்ட்டாது த்யஹ் நृப இதி ॥ மஹநந்஦ோ ஦ரිஷ்டா: விலைபுராண - ஗ோடாகரி மீமர்஥ி துஞ்சம்பா ச வேணிகா । தாபி பயாணிகா விந்஧்யாக்ஷிணே து பிரகிர்த்திதா: ॥ மாகாரிரதி நர்ம்஦ா ச யமுனா ச சரஸ்வதி । விஶோகா ச விதஸ்தா ச விந்஧்யரஸ்யோத்தரஸ்ஸ்திதா: ॥ ஛ாதஸைதா மஹநந்஦ோ ஦ேவர்ஷிக்ஷேதிரஸ்ஸ்திதா: இதி ॥

அதில் விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது, பவிஷ்யத்புராணத்தில்:- கடக மாஸத்தில் முதலில்,

एवं लोकान् राजस्वलीकरणान्, नान्कावतु नालील सत्तेयाय आकिन्नरन्, कन्काके पोलं. महापारतत्त्विलुमः:- ओ अरचेन! महान्तिकानुम्, तेविका, कावेरी, नर्मता इवेकानुम्, कटकमासम् मुतविल मूल्यन् नालं राजस्वलीले तेऽशमुलालवेकाय आकिन्नरन्. महान्तिकां चेशल्लप्पट्टुलाल, प्रमथु पुराणत्तिलः:- कोतावरी, पीमरति, तुंकपत्तरा, वेणीका, तापी, पद्योष्ठनीका इव विन्तयत्तिल तेन पाकत्तिलुलाल महान्तिकां. पाकिरति, नर्मता, यमुना, लरस्वति, विशेषका, वितस्ता इव विन्तयत्तिल वटक्कुप पात्तिलुलाल महान्तिकां, इन्तप पन्निरण्णु महान्तिकानुम् तेवरं श्वे केष्ठरंकलीलिरुन्तु उन्नाकियवेकाम्.

बामनपुराणे तु - गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी सरस्वती । तुञ्जभद्रा सुप्रयोगा वेणी कावेरिकेति च ॥ दुग्धोदा नकिनी रेवा वारिगीता कलस्वना । एता अपि महानद्यः सद्यमूलाद्विनिः सृताः इति । नृसिंहपुराणेऽपि - गङ्गा च यमुना गोदावरी स्यात्तुञ्जभद्रका । कावेरी च महापुण्या महानद्यः प्रकीर्तिः इति ॥

वामन पुराणत्तिलः:- कोतावरी, पीमरति, करुञ्जनवेणी, लरस्वति, तुंकपत्तरा, लाप्परयोका, वेणी, कावेरी, तुक्तेऽता, नलीनी, रेवा, वारिकिता, कलस्वना इन्नर इवेयुम् लव्हन्यमलयिन् अष्टयिनीन्नरुम् वेवलीवन्तुलाल महान्तिकाम्. नंगुलीमथु पुराणत्तिलुमः:- कन्का, यमुना, कोतावरी, तुंकपत्तरा, कावेरी इन्नर नतिकानुम् महापुण्यमान महान्तिकां इन्स शेशल्लप्पट्टुलालतुन्.

भरद्वाजः - उद्गृत्वा भूधरेऽभोधिं प्रविशत्यम्बुसन्ततिः । या सा महानदी इया सर्वपापप्रणाशिनी इति ॥ एवं महानदीत्वेन परिगणितानामेव दिनत्रयं रजोदोषः । अन्यासां तु समुद्रगानामपि

மாசத்திய ரஜோஷ இத்யமிப்ரேत்யாह | காத்யாயன: - பிரவூட்காலே மஹாநாய: ஸந்தி நித்ய ரஜஸ்வலா: | தாஸு ஸ்நான் ந குர்வீத வர்ஜயித்வா து ஜாஹ்வீம் இதி ||

பரத்வாஜர்:- மலையில் உண்டாகி, ஸமுத்ரத்தை அடையும் ஜூலப்ரவாஹ மெதுவோ, அது, ஸகல பாபங்களையும் அகற்றும் மஹாநதி என்று அறியத் தகுந்தது. இவ்விதம் மஹாநதி என்று எண்ணப்பட்ட நதிகளுக்கே மூன்று நாள் ரஜோதோஷம். மற்ற நதிகள் ஸமுத்திர காமினிகளாகினும் அவைகளுக்கு இரண்டு மாதம் ரஜோதோஷமுண்டு, என்ற அபிப்ராயத்தைக் கொண்டு சொல்லுகிறார், காத்யாயனர்:- வர்ஷா காலத்தில் மஹாநதிகள் நித்யமும் ரஜஸ்வலைகளாய் இருக்கின்றன. அவைகளில் ஸ்நானம் செய்யக் கூடாது, கங்கையைத் தவிர்த்து.

स एव – कर्कटादौ रजोदुषा गोमती वासरत्रयम् । चन्द्रभागा सती सिन्धुः सरयूर्मदा तथा ॥ इति ॥ अत्रापवादमाह मरीचिः – आदित्यदुहिता गङ्गा प्लक्षजाता सरस्वती । रजसा नाभिभून्ते ये चान्ये नदसंज्ञिताः इति ॥ मार्कण्डेयः – कालिन्दी गौतमी गङ्गा वेणिका च सरस्वती । सामर्थ्यादाभिजात्याच्च रजो नाभिभवत्यमूः इति ॥ आभिजात्यम् - देवसस्मृतत्वम् ॥ जाह्व्यादित्यसम्भूता प्लक्षजाता सरस्वती । रजसा नैव दुष्यन्ति नदाः कृष्णाच वेणिका इति ॥

காத்யாயனரே:- கடக மாஸத்தின் முதலில் மூன்று நாள், கோமதி, சந்த்ரபாகா, கோதாவரி, ஸிந்து, ஸரயு, நர்மதா என்ற நதிகள் ரஜோதோஷம் உடையவைகளாய் இருக்கின்றன. இங்கு அபவாதத்தைச் சொல்லுகிறார்மர்சி:- யமுனை, கங்கா, ப்லக்ஷ்மீ, ஸரஸ்வதீ இவைகளும், நதமென்று பெயருள்ளவைகளும் ரஜஸ்ஸினால் தோஷம் அடைவதுல்லை. மார்க்கண்டேயர்:- யமுனை, கெளதமீ, கங்கா, வேணி கா, ஸரஸ்வதீ என்ற இந்த நதிகளின்

सा मार्त्त्यं यत्ता लुम्, तेवरीटम् इरुन्तु उन्टाकीय ता लुम्, अवैवकौ रज्जो तेऽथम् केकुप्पति लैल. कात्यायण्नुम्:- कंका, यमुना, प्लक्षुजा, सरस्वती; कंगुष्ठाणु, वेणीका एन्ऱ इवैवकौ न तन्क गुम् रज्जुस्सिणु लैल तेऽथत्ते अटेवति लैल.

बामनपुराणे – सरस्वती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी। आपगा च महापुण्या गङ्गा मन्दाकिनी तथा ॥ मधुप्रवाहांशुमती कौशिकी पापनाशिनी। दषद्वती महापुण्या तथा वैतरणी नदी ॥ एतासामुदकं पुण्यं वर्षकाले प्रवर्जितम्। रजस्वलात्वमेतासां विघ्ने न कदाचन इति ॥ यमः – गङ्गा धर्मोद्भवा पुण्या यमुना च सरस्वती। अन्तर्गतरजोयोगाः सर्वाहःस्वपि चामलाः इति ॥ कालादर्शो – सिंहकर्कटयोर्नद्यः सर्वा एव रजस्वलाः। त्रिदिनं स्युर्महानद्यो गोदां पेणां सरस्वतीम् ॥ भागीरथीच कालिन्दीनदान् शोणादिकान् विना इति ॥

वामन पुराणात्त्वीलः:- पुण्यययाण लरस्वती, वैतरणी, मल्ला पुण्यययाण कंकके, मन्त्राकीनी, मतुप्रवाहा लुमा, अम्सुमती, पापत्तेत अकर्त्रुम केळकी, मल्ला पुण्यययाण तंगुष्ठत्वती, वैतरणी एन्ऱ इन्त न तुकीनी, वर्षा कालत्तील बेपरुकुम जलमुम पुण्यमाकुम. इवैवकौकु, रज्जुस्सवैलयिन तन्मेम ऒरुकालुमिलैल. **यमानः**:- कंका, तर्मेमोत्पवा, यमुना, लरस्वती एन्ऱ इन्त न तुकीन, एक्कालत्तीलुम निर्मलनकल, इवैवकौकु रज्जो तेऽथमिलैल. **कालात्तार्चत्तीलः**:- लिम्हू कटक मासन्कील एल्ला न तुकीनुम रज्जुस्सवैलकौला आकीन्ऱन. कोतावरी, बेण्णाणु, लरस्वती, पाक्षीरती, काळीन्ती, चोणाम मुतविय न तन्कल इवैवकौत तवीर्त्तु मर्त्र मल्ला न तुकीन झुन्ऱु नाल रज्जुस्सवैलकौला आकुम.

காத்யாயனஸ்து ஗ஜாயா அபி ரஜோஷமாஹ – பிவுதே ஶ்ராவண மாசி
ந்யங் ஗ஜா ரஜஸ்வலா । சதுர்த்தேஹனி ஸம்ப்ராஸே ஶுஞ்சா ஭வதி ஜாஹ்வி இதி ॥
யோगயாஜவல்க்யோஹி – பிரதம் கர்க்டாடை துந்யங் ஗ஜா ரஜஸ்வலா இதி ॥
அன்ற ஜாஹ்வயா ரஜோயோగா மாவங்சனானா் மூஸ்த்வா ரஜோஷோ நாஸ்தித்யே
யுக்தம् ॥

காத்யாயனரோவெனில்:- கங்கைக்கும் ரஜோ
தோஷத்தைச் சொல்லுகிறூர் - ‘ச்ராவண மாஸம்
ஆரம்பித்தவுடன், கங்கை மூன்று நாள் ரஜஸ்வலையாய்
இருக்கிறுன். நான்காவது நாள் வந்தவுடன் சுத்தையாய்
ஆகிறுன்’ என்று. **யோக்யாக்ஞவல்க்யரும்:-** கடக
மாஸத்தின் ஆரம்பத்தில் மூன்று நாள் கங்கை
ரஜஸ்வலையாய் இருக்கிறுன். இங்கு, கங்கைக்கு ரஜஸ்
ஸம்பந்தமில்லை என்று சொல்லும் வசனங்களே அதிகமாய்
இருப்பதால், கங்கைக்கு ரஜோ தோஷமில்லை என்பதே
யுக்தமாகும்.

கேவித்து – யா நிஸ்ஸுதா ந஦ா : ப்ரோக்தா யாஶ ஗ஜேதி கிர்த்தா : ।
எதாஸாஂ கர்க்டே மானை ரஜோஷோ ந வி஘டதே । காவேரி துஞ்சம்பா ச குழ்வேணி
ச ஗ௌதமி । மாகிரஸ்தி ச வி஖்யாதா பஞ்ச ஗ஜா : ப்ரகிர்த்தா : இதி
வசனமுடா ஹரந்த : காவேர்ய ரஜோஷோ நாஸ்தித்யாஹ : ॥ அபரே புன : –
காலிந்஦ி ஗ௌதமி ஗ஜா வேணிகா ச சரஸ்வதி । ஸாம்ர்யா ஦ாமிஜாத்யாச்
ரஜோ நாமி஭வத்யமூ : இத்யவி஘மானரஜோஷாஸு ஗ௌதமி மாகிரஸ்திகுழண-
வேணிஷு ஗ஜா மி஧ானாஸு ‘யாஶ ஗ஜேதி கிர்த்தா :’ இதி வசனஸ்ய
ஸாவகா ஶத்வாத, ‘மஹநாயோ ஦ேவிகா ச காவேரி நம்ர்஦ா ததா । ரஜஸா து
ப்ரதுஷா : ஸு : கர்க்டாடை ந்யங் நூபு’ இதி பிரதிஸ்விக மஹா ஭ாரதவசனாச்
திந்திய ரஜோஷோஸ்தித்யாஹ : ॥

சிலரோவெனில்:- “ஏவை நதம் எனப்படுகின்றனவோ.
ஏவை கங்கை எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளனவோ

‘इवेकगुक्कुकं कटक मासृत्तिल रज्जोत्तोषमिल्लै, कावेरी, तुंकपत्तरा, कंगुष्ठज्ञवेणी, केळतमी, पाकिर्ति, एन्ऱ ज्ञन्तु नत्तिकगुमं कंकके एन्सं शोल्लप्पट्टुलौन’ एन्नुमं वचनत्तेतचं शोल्लपवराय, कावेरीक्कु रज्जोत्तोषमिल्लै एन्किन्ऱनर. मन्त्रवरोदिवेणीः- ‘यमुणे, केळतमी, कंकका, वेणीका, शरस्वती एन्ऱ इन्त नत्तिकलै रज्जोत्तोषमं अटेवतिल्लै’ एन्ऱ वचनप्पटि रज्जोत्तोषमिल्लात केळतमी, पाकिर्ति, कंगुष्ठज्ञवेणी एन्ऱ अवेकलं कंककेयेनपं बेयरुलौनथालं अवेकलीः ‘याच्चकंककाः प्रकीर्त्तिताः’ एन्ऱ वचनमं शोवकाचमाय इरुप्पतालुमं, ‘महान्तिकलान तेविका, कावेरी, नर्मता इवेकलं, कटक मासृत्तिन्मुत्तिल शुन्नु नालं रज्जोत्तोषमं उलौवेकलाय आकिन्ऱन’ एन्ऱु, महा पारतत्तिलुलौ विशेष वचनत्तालुमं, शुन्नु नालं रज्जोत्तोषमं उन्नेटन्किन्ऱनर.

एवमुक्तरजोदोषस्य कचित् कचिदपवादमाह, कात्यायनः - उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथैव च । चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विघते । महदम्बु समं वाऽपि यदि तिष्ठेत् पुरातनम् । नवाम्बु मिश्रितं तेन न दुष्टमिति सूर्यः इति ॥ व्याघ्रपादः - अभावे कूपवापी नामनपायिपयोभृताम् । रजोदुष्टेऽपि पयसि ग्रामभोगो न दुष्यति इति ॥

इवंवितमं शोल्लप्पट्टुलौरज्जोत्तोषत्तिन्तकुक्कुकं शिर्शिल इटंकलीः अपवातत्तेतचं शोल्लुकिरुर. कात्त्यायनरः:- उपाकर्ममं. उत्सर्जनमं, प्रेरेत शंनानमं, सन्तरं शुल्कयं करुणेनमं इवेकलीः रज्जोत्तोषमिल्लै. पुतिताय वरुमं ज्ञलत्तेतविट अतिकमाकवेवा, शममाकवेवा उलौ नत्तियिणं मुन्त्रिय ज्ञलत्तुटनं पुतु ज्ञलमं शेर्नत्तालं अन्त ज्ञलमं तुष्टमाकातेन्ऱु अर्निन्तवरं शोल्लुकिन्ऱनर. व्याकरपातरः:- कुरैवर्त्त ज्ञलमुटेय किन्ऱुकलं,

வாபிகள் இவை இல்லாவிடில், ரஜோதோஷமுள்ள
ஜலத்தையும் க்ராமத்தார் உபயோகிப்பது
தோஷாவறுமாகாது.

—★—

గௌணஸ்தானானி

அथ ஗ௌணஸ்தானானி தत्र, ஦க्षः - அशிரஸ்கं ஭வेत् ஸ்தாநं
கடीமாत்ரமஶக்திஃ । ஆட்ரேண வாஸ்ஸா வாடபி ஸ்வர்ஜ்ஜபரிமார்ஜனம् இதி ।
ஜாஷாலி: - அशிரஸ்கं ஭வेत् ஸ்தாநं ஸ்தாநாஶக்தை து கர்மிணः । நாமிமாத்ர
நிமஜ்யாப்ஸு கடிஂ வா க்ஷாலயேஜலை: ॥ ஆட்ரேண வாஸ்ஸா வாடஜ்ஜமார்ஜன
காபிலம் விடு: இதி ॥

கெளனை ஸ்நானங்கள்

இனி கெளனை ஸ்நானங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.
அதில், துக்ஷர்: - தலையை முழுக்காமல் கழுத்துவரை
நனைப்பதும், அதிலும் சக்தி இல்லாவிடில் இடுப்பு வரையில்
நனைப்பதும், அல்லது ஸரமான வஸ்த்ரத்தால் எல்லா
அங்கங்களையும் துடைத்துக் கொள்வதும் ஸ்நானமாகும்.
ஜாபாலி: - கர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவனுக்குச் சக்தி
இல்லாவிடில், தலையை முழுக்காமல் ஸ்நானம்
விதிக்கப்படுகிறது. அல்லது நாபிவரையில் ஜலத்தில்
முழுகி இடுப்பை ஜலத்தால் அலம்பலாம். அல்லது,
ஸரமான வஸ்த்ரத்தால் அங்கங்களைத் துடைத்துக்
கொள்ளலாம், இதைக் காபில ஸ்நானம் என்கின்றனர்.

பராஜார: - ஸ்தானானி பञ்ச புண்யானி கிர்த்தானி மஹர்ஷி஭ி: ।
அாய்ரேய் வாருண் ஬்ராஹ்ம வாய்வு ஦ிவ்யமேவ ச । அாய்ரேய் ஭ஸ்மனா ஸ்தாநமவாஹ
து வாருணம் । ஆபோஹிஷ்டேதி ச ஬்ராஹ்ம வாய்வு ஗ோரஜः:ஸ்மृதம् ॥ யது
ஸாதபவர்ண தத்ஸ்தான ஦ிவ்யமுच்யதே । தத்ஸ்தாலா து ஗ஜாயா் ஸ்தாதே ஭வதி
மாநவ: இதி ॥ ஦க்ஷோऽபி - அாய்ரேய் வாருண் ஬்ராஹ்ம வாய்வு ஦ிவ்யமேவ ச ।
பञ்ச ஸ்தானானி புண்யானி மனு: ஸ்வாயம்முவோऽங்கீத் இதி ॥

प्राचरार्द्दनः:- पुण्यमान संनानंकाले ज्ञन्तु एन महारवीकाले चेतालविघ्नानार्दन. अवैव, आक्षेयम्, वारुणम्, प्रामूर्हम्, वायव्यम्, त्रिव्यम् एन्पनवाम. विष्णुतीयाले चेयवतु आक्षेय संनानमाम. ज्ञलत्तिल मुमुक्षुवतु वारुण संनानमाम. 'आपोत्रिष्ठ' एन्ऱ मन्त्रत्रन्तकाले चेयवतु प्रारूपम् संनानमाम. पक्षविन्स पुष्टियाले चेयवतु वायव्य संनानमाम. वेयिलुटन्स कृष्ण ममैयीले चेयघुम् संनानम् त्रिव्य संनानमाम. मणितान्स अतिले संनानम् चेयताल, कन्ककायीले संनानम् चेयतवाण्य आकिरुन्स. त्रक्षिरुमः- आक्षेयम्, वारुणम्, प्रामूर्हम्, वायव्यम्, त्रिव्यम् एन्ऱु ज्ञन्तु संनानंकाले पुण्यमानवै एन्ऱु संवायम्पुव मनु चेन्नार.

व्यासः— अशक्तावशिरस्कं वा स्नानमस्य विधीयते । आद्रेण वाससा वाऽङ्गमार्जनं कापिलं स्मृतम् ॥ ब्राह्मादीन्यथावाऽशक्तौ स्नानान्याहुर्मनीषिणः । ब्राह्ममाग्रेय मुद्दिष्टवायव्यं दिव्यमेव च । वारुणं यौगिकं चैव गौणं स्नानं प्रकीर्तितम् । ब्राह्मं तु मार्जनं मन्त्रैः कुशैः सोदकबिन्दुभिः ॥ आग्रेयं भस्मनाऽपादमस्तकाद्वेहधूलनम् । गवां हि रजसा प्रोक्तं वायव्यं स्नानमुत्तमम् ॥ यत्तु सातपवर्णेण दिव्यं तत्स्नानमुच्यते । वारुणं चावगाहस्तु मानसं चात्मवेदनम् ॥ यौगिकं स्नानमाख्यातं यदोगे विष्णुचिन्तनम् । आत्मतीर्थमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः ॥ मनः शुद्धिकरं पुंसां नित्यं तत् स्नानमाचरेत् । शक्तश्चेद्वारुणं विद्वानप्रायत्ये तथैव च इति ॥

वंयालार्द्दनः:- सकंक्ति इलवावीटिले, चिरस्लेल नैनक्कामले संनानम् वित्तिकप्पटुकिरतु. अल्लतु, सरमूलांले वस्तरत्तिले अङ्ककंकलैत तुलेतत्त्वकं केकालंकृतले एन्ऱ कापिल संनानमुम् चेतालप्पट्टुलातु. अतिलुम् असकंक्ति इरुन्ताल, प्रामूर्हम् मुतलीय संनानंकलैप पुत्तिमाळांकाले चेताललुकिन्ऱनार. प्रामूर्हम्, आक्षेयम्, वायव्यम्,

திவ்யம், வாருணம், யெளகிகம் என்ற இவை கெளன் ஸ்நானங்களெனப்படும். மந்த்ரங்களுடன் குசோதகங்களால் துடைத்துக் கொள்வது ப்ராம்ஹ ஸ்நானம். விபூதியால் கால் முதல் தலை வரையில் தேஹுத்தைப் பூசிக்கொள்வது ஆக்னேய ஸ்நானம். பசுக்களின் புழுதியால் செய்யும் ஸ்நானம் வாயவ்ய ஸ்நானம் எனப்படும். இது சிறந்தது. வெயிலுடன் கூடிய மழையினால் செய்யும் ஸ்நானம் திவ்ய ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. ஆத்ம த்யானம் செய்வது மானஸ ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. யோகத்தில் விஷ்ணுவை த்யானித்தல் யெளகிக ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. இது ஆத்ம தீர்த்தம் என ப்ரஸித்தமாகியது. பிரம் ஹவாதிகளால் ஸேவிக்கப் பட்டது. மனிதருக்கு மனச்சுத்தியைச் செய்வதாகும். நித்யமும் அந்த ஸ்நானத்தைச் செய்ய வேண்டும். சக்தியுள்ளவனாகில், அறிந்தவன் வாருண ஸ்நானத்தைச் செய்ய வேண்டும். அசுத்தி ஏற்பட்டாலும் அதைச் செய்ய வேண்டும்.

गर्गः — दिव्यं वायव्यं माघ्रेयं ब्राह्मं सारस्वतं तथा । मानसं चेति विज्ञेयं गौणस्नानं तु षड्विधम् इति ॥ योगयाज्ञवल्क्यः — असामध्यच्छरीरस्य कालशक्त्यादपेक्षया । मन्त्रस्नानादिकान् सप्त केचिदिच्छन्ति सूर्यः ॥ मान्त्रं भौमं तथाऽऽघ्रेयं वायव्यं दिव्यमेव च । वारुणं मानसं चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात् ॥ आपोहीत्यादिभिर्मान्त्रं मृदालंभस्तु पार्थिवम् । वारुणं चावगाहस्तु मानसं विष्णुचिन्तनम् ॥ मानसं प्रवरं स्नानं सर्वे शंसन्ति सूर्यः ॥ आत्मतीर्थप्रशंसायां व्यासेन पठितं यतः इति ॥

கார்க்கர்:- திவ்யம், வாயவ்யம், ஆக்னேயம், ப்ராம்ஹம் ஸாரஸ்வதம், மானஸம் என்று கெளன் ஸ்நானம் ஆறுவிதம் என்று அறியத் தகுந்தது. **யோகயாக்ஞவல்க்யர்:-** சரீரத்தில் சக்தி இன்மையாலும், காலம், சக்தி முதலியவைகளை அபேக்ஷித்தும் மந்த்ர

संनानम् मुतविय एमु संनान पेतंकौला वीत्वांकौला विरुम्पुकिन्ऱनर्. अवैव मान्तरम्, बेपौमम्, आुक्ऩेयम् वायव्यम्, तिव्यम्, वारुणम्, मानूसम् एन्ऱू एमु संनानंकौला. 'आुपोवृ' एन्पतु मुतविय मन्त्रंकूला चेय्युम् संनानम् मन्त्रं एन्नानमाम्. मंगुत्तिकैयिणुल तेलृत्तेतप्प षुकिक कौलंवतु पार्त्तिव संनानमाम्. ज्ञलृत्तिल मुमुक्षुवतु वारुण संनानमाम्. वीष्णुवैव त्याणीत्तल मानूससंनानमाम्. अन्तिवर्ण एल्लोरुम् मानूस संनानंत्तेतस्स चिरन्ततेतनप्प एकम्हिण्ऱनर्. एनेणील, आुक्मतीर्त्तत्तेतस्स लत्तुक्कुक्कु मिट्तिल व्यासर पटित्तिरुप्पत्ताल.

स्मृतिरत्ने — चतुर्भुजं महादेवं शङ्खचक्रगदाधरम् । मनसा ध्यायते विष्णुं मानसं स्नान मुच्यते ॥ गायत्र्या जलमादाय दशकृत्वोऽभिमन्त्य च । शिरस्यज्ञानि सर्वाणि प्रोक्षयेत्तेन वारिणा । स्नानं गायत्रकं नाम सर्वपापप्रणाशनम् इति ॥ विष्णुः - त्र्यूचाभिमन्त्रितं तोयं प्रोक्षयेन्मूर्धि सर्वतः । अनुकल्पमिदं स्नानं सर्वपापहरं नृणाम् इति ॥ दक्षः - आग्रेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च । मानसं पार्थिवं चैव त्वष्टमं कापिलं स्मृतम् ॥ सारस्वतं तथा प्रोक्तं नवमं स्नानमुत्तमम् इति ॥

संमंगुतीरत्तनंत्तिलः- सत्तुर्पुज्ञनुम्, बेपरीयतेवनुम्, चंकं कंकर कतेकौलात् तरीत्तवनुमाकिय वीष्णुवैव मनत्तिणुल त्याणीप्पतु मानूस संनानम् एन्ऱू चेऽल्लप्पतुकिरतु. कायत्रीयाल ज्ञलृत्तेत ऎतुत्तु, पत्ततु मुररे अपिमन्त्रीत्तु, अन्त ज्ञलृत्ताल चिरस्सिलिलुम् एल्ला अंकंकौलिलुम् प्परोक्षित्ततुक कौलंवा वेण्णुम्. इतु लकल पापंकौलायुम् मर्त्रुम् कायत्र संनानम् एन्प्पतुम्. वीष्णुः - (आुपोवृवीष्ट मुतविय) मुन्ऱू रुक्कुकूला अपिमन्त्रीकिक्कप्पत्त ज्ञलृत्तेतत् तैलयिलुम् अंकंकौलिलुम् प्परोक्षित्ततुक कौलंवा वेण्णुम्. इतु मनीतारीनं लकल पापंकौलायुम् परीक्कुम् अनुकल्प

ஸ்நானமாம். தக்ஷர்:- ஆக்னேயம், வாருணம், ப்ராம்ஹம். வாயவ்யம், திவ்யம், மாநஸம், பார்த்திவம், என்று ஏழு ஸ்நானங்கள். எட்டாவது காபிலம், ஒன்பதாவது ஸாரஸ்வத ஸ்நானம். இது சிறந்தது.

தत्र ஆग்நேயஸ்நானப்ரகாரமாஹ, ஭ரதாஜः - பிராஞ்சுக்ஷரणௌ ஹஸ்தௌ
பிரகால்யாசம்ய பூர்வத् । பிராணானாயம்ய சங்கல்ய ஭ஸ்மஸ்நான் ஸமாசரேத् ॥
ஆடாய ஭ஸித் ஶ்வேத மதிரிஹோத்ரஸமுஞ்சவம् । ஈஶானேன து மந்திரே ஸ்வமூர்஧னி
வினிக்ஷிபேத् ॥ தத ஆடாய தஞ்சஸம முகே தத்புருஷேன து । அ஘ோரால்யேந
ஹ௃தே ஗ுஹே வாமாஹயேந ச ॥ ஸாஂஜாதாமி஧ானேன ஭ஸ்ம பாத்ரை கிபேத् ।
ஸர்வங்க் ப்ரணவேநை மந்திரோஞ்சூலயேத்த: ॥ எத்தாக்ஷேயக் ஸாநமுடித்
பரமர்ஷி஭ி: । ஸர்வக்ர்மஸமுஞ்சார்஥ குர்யாடாவி஦்஬ுத: இதி ॥

அவைகளுள் ஆக்னேயஸ்நானத்தைச் சொல்லுகிறார்,
பரத்வாஜர்:- கால் கைகளை அலம்பி, கிழக்கு முகமாய்
முன்போல் ஆசமனம் செய்து, ப்ராணையாமம் செய்து,
ஸங்கல்ப்பித்து, பஸ்ம ஸ்நானத்தைச் செய்ய வேண்டும்.
அக்னிஹோத்ரத்தில் உண்டாகியதும், வெண்ணிற
முள்ளதுமான பஸ்மத்தை எடுத்து, ஈசான மந்த்ரத்தால்
கிரஸ்லிலும். தத்புருஷ மந்த்ரத்தால், முகத்திலும், அகோர
மந்த்ரத்தால் மார்பிலும், வாமதேவ மந்த்ரத்தால்
குற்யத்திலும், ஸத்யோஜாத மந்த்ரத்தால் பாதங்களிலும்
தரிக்க வேண்டும். ப்ரணவ மந்த்ரத்தால் ஸர்வாங்கத்திலும்
உத்தானம் செய்து கொள்ள வேண்டும், இது ஆக்னேய
ஸ்நானம், பெரிய முனிவர்களால் சொல்லப்பட்டது.
எல்லாக் கர்மங்களும் குறைவில்லாமல் இருப்பதற்காக
ஆதியில் இதைச் செய்ய வேண்டும். அறிந்தவன்.

आपस्तम्बोऽपि – भस्म स्यादग्निहोत्राग्नेरावसथ्यादधापि वा ।
अभावे चानयोर्विप्रः स्वगृह्याग्नेरथापि वा । भस्म त्वादाय विधिवत्
स्नानमाग्नेयमाचरेत् । भस्म स्थाप्य करेवामे विध्युक्तं प्राग्यथोदितम् ॥
सौबीर्णे राजते वाऽपि ताम्रे पात्रान्तरेऽपि वा । अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैः

प्रणवेन तथैव च ॥ पृष्ठभिर्मन्त्रैः प्रजसेन कास्य हृद्गुह्यपद्मये । ईशाद्यैः पञ्चभिर्मन्त्रैः क्रमादुद्धूलयेत्ततः इति ॥ अग्निरित्यादयो मन्त्रा अथर्वविशरस्यभिहिताः - ‘अग्निरिति भस्म, बायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वं हवा इदं भस्म’ इति । कं - शिरः ॥

आपस्तुमप्परुम्:- पस्ममाणतु अक्णी खेत्तर अक्णीयी विरुन्तु उन्टाक्षियताकुम, अल्लतु, आवस्त्याक्णी उटेयताय इरुक्कलाम. इवंविरण्टु मिल्लाविट्टल, तन्तु ओपासलुक्णी उटेयताय इरुक्कलाम. प्रराम्भेण उपस्थिति तत्त्वं कर्मलित्तु वित्तिप्पति आक्णेयेस्नानत्तत्त्वं अनुष्टुक्कक्ष वेण्टुम. मुनि चेऽल्लिय वित्तिप्पत्तियूलं पस्मत्तत्त्वं कर्मलित्तु, इट्टु लेकयिलावतु, स्वर्णम्, वेण्णली, ताम्भरमाण पात्तरत्तिलावतु, वेऱु पात्तरत्तिलावतु वैवत्तु, ‘अक्णीरीति’ मुत्तलाण आरु मन्त्ररन्कैलायम, प्ररणवत्तत्त्वयुम् ज्ञपित्तु, सचाणुत्तिकौला ज्ञन्तु मन्त्ररन्कौल, मुरैरेये चिरल्ल, मुकम्, मार्पु, तुल्यम्, पात्तरन्कौल इवेकौलिल उत्तुलाणम् चेय्य वेण्टुम. अक्णीरीत्याति मन्त्ररन्कौल अतर्व चिरत्तिल चेऽल्लप्पत्तुलाण.

लिङ्गपुराणेऽपि - ईशानेन शिरोदेशं मुखं तत्पुरुषेण तु । उरोदेशमधोरेण गुह्यं वासेन सुब्रत ॥ सदेन पादौ सवज्ज्ञं प्रणवेन विशोधयेत् ॥ कृत्वाऽपि चातुर्लं पापं मृत्युकालेऽपि यो द्विजः ॥ भस्मसाधी भवेत् कश्चित् क्षिप्रं पापैः प्रमुच्यते इति ॥ स्मृतिसारसमुच्चये - त्यायुषैश्चैव मन्त्रैस्तु लिप्समापादमस्तकम् । गोशकृद्भस्म यत् पुण्यं भस्मस्नानं तदुच्यते इति ॥

लिङ्कं क पुराणत्तिलुम्:- सचाण मन्त्ररन्कौल चिरस्लेषयुम्, तत्पुरुष मन्त्ररत्तत्ता ल मुकत्तत्त्वयुम्, अकोर मन्त्ररत्तत्ता ल मार्पपेयुम्, वामतेव मन्त्ररत्तत्ता ल

குற்யத்தையும், ஸத்யோஜாத மந்த்ரத்தால் கால்களையும், ப்ரணவத்தால் ஸர்வாங்கத்தையும், சுத்தம் செய்ய வேண்டும். அதிகபாபம் செய்தவனுயினும் எந்த ப்ராம்ஹணன் மரண காலத்திலாவது இவ்விதம் பஸ்ம ஸ்நானம் செய்கின்றானே அவன் உடனே பாபங்களால் விடப்படுகின்றன. ஸ்மிருதி ஸ்வரஸ்மூச்சயத்தில்:- தர்யாயுஷ மந்த்ரங்களால் கோமயத்தால் உண்டாகிய பஸ்மத்தால் தலை முதல் கால்வரையில் பூசிக் கொள்வது எதுவோ, அது புண்யமான பஸ்ம ஸ்நானம் எனப்படுகிறது.

வாருணஸ்நானமாஹ வ்யாஸः - ஸ்நானமஷ்டவैர்மந்த्रை: ஜலे மஜநாங்காஹநை: | தர்பணं பிது஦ேவானாஂ ஸ்நானं வாருணமுச்யதே இதி || ஓதாயனः - ஜலாவாங்காஹநாஂ ஸ்நானாஂ வாருணாஂ ஸார்வார்ணிகம् | மந்த்ரவத् ப்ரோக்ஷணம் சாபி டிஜாதிநாஂ விஶிஷ்யதே இதி ||

வாருண ஸ்நானத்தைச் சொல்லுகிறார். வ்யாஸர்:- ஜலதேவதாகமான மந்த்ரங்களுடன் ஜலத்தில் முழுகி, பித்ரக்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்வது வாருண ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. போதாயனர்:- ஜலத்தில் முழுகுவது வாருண ஸ்நானம். இது எவ்வாவர்ணத்தாருக்கும் உரியது. மந்த்ரங்களுடன் ப்ரோக்ஷணமும் செய்து கொள்வது என்பது, முதல் மூன்று வர்ணத்தாருக்கு மட்டில்.

ब्राह्मस्नानप्रकारमाह कात्यायनः - आपो हिष्ठादिभिर्ब्रह्मं मन्त्रस्नानं हि तत्स्मृतम् । कुशाग्रैमर्जिनं कुर्याद् देवतार्थेन वा द्विजः ॥ क्रगन्ते मार्जनं कुर्यात् पादान्ते वा समाहितः । त्वृचस्यान्तेऽथवा कुर्यात् शिष्ठानां मतमीदशम् ॥ इति ॥ पादान्तमार्जनप्रकारमाह ब्रह्मा - भुवि मूर्धिन् तथाऽकाशो मूर्धन्याकाशो तथा भुवि । आकाशो भुवि मूर्धिन् स्यान्मन्त्रस्नानं विधीयते इति ॥ भुवि - पादयोः । आकाशो - हृदि ॥

प्रराम्भ लू संनाने प्ररकारत्तेतच चेशाल्लु किऱुर, कात्यायणारः - 'आपोल्लिष्ट' मुतलीय मन्त्ररन्कलाल चेय्यप्पटुम लंनानम् प्रराम्भ लंनानम्. अतु वेमन्त्रर लंनानम् एनप्पटुम्. प्रराम्भ लेणन, कुसंकलीन नुनिकलालावतु, तेवतीर्त्तिलावतु मारंज्जनम् चेय्तु केळाळा वेण्टुम्. कवणम् उटेयवाण्य रुक्किन मुष्टिलावतु, पातत्तिन मुष्टिलावतु, मुन्नु रुक्कुकलीन मुष्टिलावतु मारंज्जनम् चेय्तु केळाळा वेण्टुम्. इवंवितम् चिष्टार्कलीन केळाळक. पातत्तिन मुष्टिल मारंज्जनम् चेय्वतिन प्ररकारत्तेतच चेशाल्लु किऱुर प्ररह्माः - मुन्नु रुक्कुकलीन छन्पतु पातन्कलालुम्, मुरेह येय, पातन्कलीलुम् चिरस्लिलुम् मारंपिलुम्, चिरस्लिलुम् मारंपिलुम् पातन्कलीलुम् मारंपिलुम् पातन्कलीलुम् चिरस्लिलुम् प्रेरोक्षित्तुक केळाळवतु मन्त्रर लंनानम् एन्नु वित्तिकप्पटुकिऱतु.

प्रकारान्तरमुक्तं स्मृत्यन्तरे - पच्छोऽप्यर्धर्चशोऽप्यूक्ताः आपोहिष्टेत्यृचेन च । कुशाग्रैर्मार्जनं कुर्याद्देवतीर्थेन वा द्विजः ॥ पादादि प्रणवं कुर्यात् अर्धचार्दि तथैव च । क्रगादि प्रणवं कुर्यात् मन्त्रस्नाने विशेषतः इति ॥ गृह्यपरिशिष्टेऽपि - अथाशक्तस्य मन्त्रस्नानं - शुचौ देशो शुचिराचान्तः प्राणानायम्य दर्भपाणिस्तिसृभिरापोहिष्टीयाभिः पच्छः प्रणवपूर्वदर्भोदकैर्मार्जयेत् । पादयोर्मूर्धिन् हृदये, मूर्धिन् हृदये पादयोः, पादयोः हृदये मूर्धिन् च । अथार्धर्चशो मूर्धिन् हृदये, पादयोः हृदये, पादयोः मूर्धिन् च । अथ क्रक्षो हृदये पादयोमूर्धिन् च । अथ त्यृचेन मूर्धिन् मार्जयित्वा गायत्र्या दशधाऽभि मन्त्रिता अपः प्रणवेन पीत्वा द्विराचामेदित्येतन्मन्त्रस्नानम् इति ॥ योगयाज्ञवल्क्यस्तु - शब्द आपस्तु द्रुपदा आपोहिष्टाऽघर्षणम् । एतैश्च पञ्चभिर्मन्त्रैः मन्त्रस्नानमुदाहृतम् इति ॥

वेऱ्हु प्ररकारमुम्भ, मर्त्तेणुरु लंमंगुठीयिलः - आपोल्लिष्ट मुतलीय मुन्नु रुक्कुकली, पातम्

பாதமாகவும், பாதி ருக்காகவும், முழு ருக்காவும் உச்சரித்துக் குசங்களின் நுனிகளால் மார்ஜனம் செய்ய வேண்டும். தேவ தீர்த்தத்தில் ஆவது செய்யலாம். இந்த மந்த்ர ஸ்நானத்தில் விசேஷமாய் ஒவ்வொரு பாதத்திலும் முதலில் ப்ரணவத்தைச் சேர்க்கவும். பாதி ருக்குகளின் முதலிலும் சேர்க்கவும். ருக்கின் ஆதியிலும் சேர்க்கவும்.

க்ருஹ்ய பரிசிஷ்டத்திலும்:- இனி, அசக்தனுக்கு மந்த்ர ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது. சுத்தமான ஸ்தலத்தில், சுத்தனுய், ஆசமனம் செய்து ப்ராணையாமம் செய்து, தர்ப்பத்தைக் கையில் உடையவனுய் ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மூன்று ருக்குகளால் பாதம் பாதமாய், ப்ரணவ பூர்வமாய் தர்ப்ப ஜலங்களால் முறையே 9- ஸ்தானங்களில் மார்ஜனம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பாதங்களிலும் சிரஸ்லிலும் மார்பிலும், சிரஸ்லிலும் மார்பிலும், பாதங்களிலும், பாதங்களிலும் மார்பிலும் சிரஸ்லிலும், பிறகு, பாதி ருக்காகப் பிரித்து, சிரஸ்லிலும் மார்பிலும், பாதங்களிலும் மார்பிலும் பாதங்களிலும் சிரஸ்லிலும், பிறகு, ருக்காகவே உச்சரித்து ஒரு ருக்குக்கு ஒரு முறையாய், மார்பிலும், பாதங்களிலும், சிரஸ்லிலும் மார்ஜனம் செய்யவும். பிறகு மூன்று ருக்குகளையும் ஜபித்து ஒரு முறை சிரஸ்லில் மார்ஜனம் செய்து கொள்ளவும். பிறகு, பத்துக் தடவை காயத்ரியால் அபிமந்தரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை ப்ரணவத்தால் பருகி, இரண்டு முறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் உள்ளது மந்த்ர ஸ்நானமாம். யோகயாக்ஞவல்க்யரோவெனில்:- “சந்ந ஆப:; த்ருபதா, ஆபோஹிஷ்டா, அகமர்ஷனம் என்ற இவ்வைவந்து மந்த்ரங்களாலும் செய்யப்படுவது மந்த்ர ஸ்நானம்” என்கிறுர்.

வாய்யசாரஸ்வதே ஦ர்ஶிதி ஬ுहஸ்பதி: – வாய்ய ஗ோரஜ: பிரேக் மஸ்த ஗च்஛தி ஗ோபதௌ | வி஦்வத்ஸரஸ்வதி பிராஸ் ஸான் ஸாரஸ்வத் ஸ்மृதம் இதி | ஗ோபதௌ - ஸூரே | வி஦ுஷா் ஸரஸ்வதி = வாணி | தயா பிராஸ் ஸாரஸ்வதமித்யर्थ: || தத்ஸ்வரூபமாஹ வ்யாஸ: – ஸ்வயமேபஸநாய

विनयेन द्विजातये ॥ तज्जः सम्पादयेत् स्नानं शिष्याय च सुताय च ।
दाक्षायणमयैः कुम्भैः मन्त्रबज्जाह्वीजलैः । कृतमङ्गलं पुण्याहैः
स्नानमस्तु तदर्थिनाम् ॥ आदौ तावत् प्रभासे बहुगुणसलिते मध्यमे
पुष्करे च गङ्गाद्वारे प्रयागे कनकलसहिते गव्यकर्णे गयायाम् । राहुग्रस्ते
तु सोमे दिनकरसहिते सत्यपत्याविशेषादेतैर्विख्यातरूपैखिमुवन
विदितैः स्नानमच्छिद्रमस्तु ॥ प्राप्य सारस्वतं तीर्थं भवेन्मुदित-
मानसः । सर्वतीर्थाभिषेकाङ्गि पवित्रं विदुषां हिवाकृश्चित् ॥

वा यव्यं लोरस्वत लं ना नं कै लै च शो लं लु कि रुर्,
प्रु रु लं पत्ति :- ले अर्यन् अ लं त मय त त अ ल ट यु मं
पे ओ मु तु, पक वी लं पु मु ति या लं चे यं वतु वा यव्यं लं ना नम्.
वी त वा नं कै लै वा क कि लै अ ल ट य अ पट त तु लो रस्वत
लं ना नम् ए न रु चे शो लं लु कि रुर्. व्या लौ :- ता नु क वे
ले मे पत्ति लं वन्त व नु मं, व ण क कम उ ल ट य व नु मं,
चि ष्य लै अ ल ल तु पु त्र नु मा न परा मं ल ण नु क कु, अ न त
लं ना न वी त य त ते री न त व न ण परा मं ल ण न
लं ना न त त ते चे यं वी त वे ण णु मं. अ त न मन्त र नं कै -
'ता क षा य ण मय य : + अ च चि त्र मं स्तु' ए न र वे व. इ व न र न
पे ओ रु लै - 'ले वर्ण ण मय मा न कु ट नं कै ला लु मं मन्त र त तु ट ण
कु ट य ज ल अ नं कै ला लु मं म नं कै लै मु ण या लु मं
इ वे कै ला लु मं, लं ना न त त वी गु मं पि य वर्क कु
लं ना न मि रु क कक कै ट वतु ! मु त लि लं मि कु न त कु ण अ नं कै लै
य ट य ज ल अ न त त य ट य परा ल अ त त लु मं, म त य मा न
पु ष्क र त त लु मं, क न का त वा र त त लु मं, क न क ल अ त त लु मं
कु ट य परा क त त लु मं, को का र ण अ त त लु मं, क य य य लु मं,
स न त र ण रा कु वी लै लं पि ट क प प ट ट ि रु क कु मं पे ओ तु मं,
ले अ र्य क र रु ण अ त त लु मं, कु म न अ न त य य वी ट प
पे त मि ल ला त ता ल, इ व नु क कु परा ल अ त त अ न त लु मं
मु ण रु ल क नं कै ला लु मं अ न र य प प ट ट वे य य मा न
इ वे कै ला लै कु र न वी ला त लं ना न मु ण टा क क कै ट वतु'
ए न पतु. इ न त लो रस्वत ती र त अ न त अ न तु ल न तु अ न त

சித்தனைய் ஆக வேண்டும். ஸர்வதீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்வதை விட விதவாண்களின் வசனம் சுத்தமானதல்லவா?

स एव - शुचिदेशान्मृदं गृह्य कुर्याद्रोपलेपनम् । मन्त्रैः
पार्थिवसंयुक्तैः भौमं स्नानं तदुच्यते ॥ मृत्तिके हन मे पाप मित्यादयः
पार्थिवसंयुक्तमन्त्राः ॥ 'गोखुराद्रज आदाय गोसाविर्ती जपेद्धुधः ।
गात्रेष्वथ तंदालिप्य स्नानं वायव्यमुच्यते ।

வ்யாஸரே:- சுத்தமரன் ஸ்தலத்திலிருந்து ம்ருத்தை க்ரஹித்து, பூதேவதாகமான மந்தங்களால் தேஹத்தில் பூசிக் கொள்ள வேண்டும். 'ம்ருத்திகே ஹநமே பரபம்' என்பது முதலியவை பார்த்திவஸம்பந்த மந்த்ரங்களாம். பக்வின் ஞாம்பிலிருந்து தூளியை எடுத்து கோஸாவித்ரியை ஜபிக்க வேண்டும். அறிந்தவன் பிறகு அந்தத் தூளியை அங்கங்களில் பூசிக் கொண்டால், அது வாயவ்ய ஸ்நானம் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

उत्तरायणमध्ये तु यदा वर्षीति वासवः । आतपेन सह स्नानं दिव्यं
स्नानं तदुच्यते ॥ हस्तिथतं सर्वभूतानां रविमण्डलसंस्थितम् ।
नीलजीमूतसङ्काशां वासुदेवं चतुर्मुजम् ॥ शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं
वनमालिनम् । तत्पादोदकजां धारां निपतन्तीं स्वमूर्जनि ॥ चिन्तयेद्
ब्रह्मरन्ध्रेण प्रविशन्तीं स्वकां तनूम् । तया प्रक्षालितं सर्वं स्वदेहं
परिचिन्तयेत् ॥ इदं स्नानवरं मन्त्रात् सहस्रादधिकं मतम् । एवं स्नात्वा
विशेषण सर्वपापैः प्रमुच्यते इति ॥

உத்தராயணத்தில் வெயிலுடன் மழை பொழியும் போது, அதனால் ஸ்நானம் செய்வது திவ்யஸ்நானம் எனப்படுகிறது. ஸகல் ப்ரராணிகளின் ஹ்ருதயத்தில் இருப்பவனும், ஸுர்ய மண்டலத்தில் இருப்பவனும், கருமேகம் போன்றவனும், நான்கு கைகளுடையவனும், வனமாலை அணிந்தவனுமான் வாஸ-தேவனே த்யானித்து,

अवनंतु पातहत्तिणीन्ऱु बेगुकुम् जलहत्तिणं तारे, तन्तु
चिरसंसीलं विमुन्तु, प्रमहरन्तरहत्तिणं वग्नियायं तन्त
सर्वत्तिर्हुकुं नुमेवतायं त्याणीक्क वेण्टुम्. अन्तत
तारयालं तन्त तेहुम् मुमुवतुम् अलम्पप्पट्टतायं
त्याणीक्क वेण्टुम्. चिन्तताणि इन्त संनानम्, आयिरम्
मन्तरसंनानत्तेतवीट अतिकमेण मतिक्कप्पट्टतु.
इववितम् संनानम् चेय्तालं एल्लाप् पापन्कणालुम्
अवश्यम् वीटुपटुवान्.

कूर्मपुराणे – अप्रायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत् ।
ब्राह्मादीन्यथाऽशक्तौ स्नानान्याहुर्मनीषिणः इति ॥ जाबालिः –
अशिरस्कं भवेत् स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणः । तस्याप्यसामर्थ्यविधौ
मन्त्रस्नानादिकं चरेत् इति ॥ जाबालिः – अशिरस्कं भवेत् स्नानं
स्नानाशक्तौ तु कर्मिणः । तस्याप्यसामर्थ्यविधौ मन्त्रस्नानादिकं चरेत्
इति ॥ स्मृत्यन्तरे – असामर्थ्यच्छरीरस्य वैष्म्याद् देशकालयोः ।
स्नानान्येतानि तुल्यानि वारुणेन भवन्ति हि इति ॥ मनुः – प्रभुः
प्रथमकल्पेऽपि योऽनुकल्पे प्रवर्तते । न सांपरायिकं तस्य दुर्मतीवर्तते
फलम् इति ॥ साम्परायिकं - आमुष्मिकम् ॥

कूर्मम् पुराणान्तत्तीलः- असुत्ति एत्पट्टालं वारुण
संनानत्तेतये चेय्य वेण्टुम्. अतिलं चक्ति
इल्लावीटिलं प्रराम्भाति संनानंकणी वित्वाणकणी
केशाल्लुकीन्ऱनर. **ज्ञापालिः-** कर्मत्तेत
अनुष्टिप्पवनुक्कु वारुण संनानत्तिलं चक्ति
इल्लावीटिलं तालये मुमुक्कामलं कमुत्तु वररयीलं
नैनत्ततु संनानम् चेय्य वेण्टुम्. अतिलुम् चक्ति
इल्लावीटिलं मन्तरसंनानम् मुतवियतेत्सं चेय्यवुम्.
मर्हिरुरु संमंगुत्तीयीलः- सर्वत्तिणं लामर्त्तयम्
इन्मेयालुम्, तेचकालंकणी उत्त्रमेय
इल्लातहालुम्, इन्त संनानंकणुम् वारुण
संनानत्तिर्हुक्कुसं सममायं आकिन्ऱन. मनुः- मुक्य
कल्पत्तेत अनुष्टिप्पतरंकुसं चक्तण्येय इरुन्तुम् एवणं

அனுகல்பத்தில் ப்ரவர்த்திக்கின்று ஞே அந்தத் தூர்ப்புத்திக்குப் பாரவெளகிகமான பலன் இல்லை.

—★—

உர்வரபுண்டு஧ாரணவிதி:

அதோர்வபுண்டு஧ாரணவிதி: || தत्र வாஸுடேவோபனிஷத् – ‘அथ ஗ோபீचந்஦னं நமஸ்கृत்யோஜृத்ய, ஗ோபீசந்஦ன பாபந்ந விஷ்ணுடேஹஸமுஞ்சவ | சக்ராங்கித நமஸ்தும்ய ஧ாரணாந்முக்தி஦ோ ஭வ | இமம்மேගங் இதி ஜலமாடாய விஷ்ணோர்ந்துகமிதி மர்யைதோ ஦ேவா அவந்து ந இத்யேதாமிர்விஷ்ணு஗ாயத்யா ச திவாரமமிமந்த்ய, ஶங்காங்காங்காபானே ஢ாரகாநிலயாஞ்சுத | ஗ோவிந்஦புண்டரிகாக்ஷ ரக்ஷ மா ஶரணாக்தம் இதி மா ஧்யாத்வா ஗ृहஸ்஥ோ லலாடாதிஷு ஢ாதஶஸ்தாநேஷநாமிகாங்குல்யா விஷ்ணு- ஗ாயத்யா கேஶவாதி஢ாதஶநாமமிர்வா ஧ாரயேது |

ஊர்த்தவ புண்டர தாரண விதி

இனி ஊர்த்தவபுண்டரத்தைத் தரிப்பதின் விதி சொல்லப்படுகிறது. அதில், வாஸுதேவோபநிஷத்:- பிறகு கோபீ சந்தனத்தை நமஸ்கரித்து, எடுத்து ‘கோபீ சந்தன + முக்திதோபவ’ என்று ப்ரரார்த்திக்கவும். இதன் பொருள் - ‘பாபத்தை அகற்றுவதும், விஷ்ணு தேஹத்தில் உண்டாகியதும், சக்ரத்தால் அடையாளம் இடப்பட்டதுமான ஒ கோபீ சந்தனமே! உனக்கு நமஸ்காரம். உன்னைத் தரிப்பதால் முக்தியை அளிப்பாயாக’ என்பது. ‘இமம்கே கங்கே’ என்பதால் ஜலத்தை எடுத்து, ‘விஷ்ணேர்ந்துகம்’ என்பதால் தேய்க்க வேண்டும். ‘அதோதேவா:’ என்பது முதலிய ருக்குகளாலும், மூன்று தடவை விஷ்ணு காயத்ரீயாலும் அபிமந்தரித்து, ‘சங்க சக்ர + சரணைகதம்’ என்று என்னை (விஷ்ணுவை) த்யானித்து நெற்றி முதலிய 12-இடங்களில் அநாமிகா விரலால்,

वीञ्छन्ना का यत्तीया लाला वतु, 'केचव' मुतविय 12-
नामांकनाला लाला वतु कंगुलूलं तारीककवुम्.

ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा ललाटकण्ठहृदयबाहुमूलेषु वैष्णव्या
गायत्र्या कृष्णादिनामपश्चभिर्वा धारयेत् । यतिस्तर्जन्या
शिरोललाटहृदयेषु प्रणवेन धारयेत् । परमहंसो ललाटे प्रणवे
नैकमूर्ध्वपुण्ड्रं धारयेत् । तत्र दीप्रकाशं स्वात्मानं पश्यन्
'ब्रह्माहमस्मी' ति भावयन् योगी मत्सायुज्यमवाप्नोति ॥ स ऊर्ध्वं
पदमाप्नोति यतिरूद्धर्वचतुष्कवान् ॥ ब्राह्मणानां तु सर्वेषां
वैदिकानामनुक्तमम् । गोपीचन्दनवारिभ्यामूर्ध्वपुण्ड्रं विधीयते ॥ यो
गोपीचन्दनाभावे तुलसीमूलमृत्तिकाम् । मुमुक्षुद्वारियेनित्य
मपरोक्षात्मसिद्धये इति ॥

प्ररम्भलूचारी यायिनुम्, वाणप्रस्थान्यिनुम्,
नेन्नृ, कमुत्तु, मार्पु, लक्कणीन्सु लुलपाकम् इवेवकणील
वीञ्छन्ना का यत्तीया लाला अवतु, 'कंगुलू' मुतविय ज्ञन्तु
नामांकनाला लाला वतु तारीकक वेण्णुम्. यति, तार्जनी
वीरलाल, तैल, नेन्नृ, मार्पु इवेवकणील प्ररणवत्ततालं
तारीककवुम्. परमलूमंसेन, नेन्नृयिल, प्ररणवत्ततालं औरु
उन्नर्तव पुण्ठरततेत तारीकक वेण्णुम्. अतिल तीपम
पोालं प्रिरकाशिक्कुम् तन्सु आत्मावेव त्याणीत्तु
'प्ररम्भलूचारीमस्मी' एन्ऱु पावीप्पवणेकिय योक्ति एन्तु
सायुज्यतते अटेकिरुन्. तण्ठाम, रोतस्स, पुण्ठरम्,
योकम् एन्ऱ इन्त नाण्णेकयुम् उन्नर्तवमाय उटेय यति
उन्नर्तवमाण (उयर्न्ततताण) पततते अटेकिरुन्.
वेवतिकराण प्रराम्भलेणर एल्लेलोरुक्कुम कोपी सन्तनमं
ज्ञलम् इवेवकणाल उन्नर्तव पुण्ठरम् वितिकप्पटुकिरतु.
एवेन्सु मुमुक्षुवेवा अवेन्सु कोपी सन्तनमं इल्लावीटिल,
तुलाणीयिन्सु अष्टियिलुलाल मंगुत्तिकेय, अपरोक्षात्म
कंगुलाण लित्तिक्काकत तारीकक वेण्णुम्.

மஹேபனிஷதி - ஧ृதोर्ध்வपुण्ड्रः பரमेशிதாரं நாராயணं
சாங்க்யோगாधி஗ம்யம् । ஜாத்வா விமுच்யேத நரஸஸமஸ்தை: ஸ்ஸாரமாரை ரிஹ
சைதி விஷ்ணும் இதி ॥ கதஶாக்வாயாமபி - ஧ृதோர்஧்வபுண்஡்ரோ ஧ृதஞ்சக்ரமीशं
விஷ்ணுபர் ஧்யாயதி யோ மஹாத்மா । ஸ்வரேண மந்திரே ஸ்தா ஹதிஸ்஥ஂ பராதுபர்
யோ மஹதோ மஹாந்தம் இதி ॥ ஆத்வர்ணீ ச - 'ஹரே: பாடாகுதி மாத்மனோ
ஹிதாய ம஧்யேஷி஦்ரமூர்஧்வபுண்஡்ர் யோ ஧ாரயதி ஸ பரஸ்ய பிரியோ ஭வதி ஸ
புண்யமாகமாகவதி ஸ முக்திமாகமாகவதி இதி ॥

மஹோபநிஷத்தில்:- மனிதன், ஊர்த்வ புண்ட்ரம்
தரித்தவனுய், பரமேச்வரனும், ஸாங்க்ய யோக
சாஸ்த்ரங்களால் அறியக் கூடியவனுமான நாராயணைன
த்யானித்தால், ஸகல ஸம்ஸார பாரங்களில் இருந்தும்
விடுபடுவான். இங்கேயே விஷ்ணுவையும் அடைவான்.
கடசாகையிலும்:- எவன் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் தரித்தவனுய்,
சக்ரஹஸ்தனும், ஈசனும், பரனும், எப்பொழுதும்
ஹ்ருதயத்தில் இருப்பவனும், பரத்திற்கும் பரனும்,
மஹத்திற்கும் மஹானுமான விஷ்ணுவை ப்ரணவ
மந்த்ரத்தால் த்யானிக்கின்றானே அவன் மஹாத்மா
எனப்படுகிறான். ஆதார்வணத்திலும்:- எவன் தனக்கு
நன்மைக்காக, ஹரியின் பாதம் போன்றதும், நடுவில்
சித்ரமுள்ளதுமான ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரிக்கின்றானே
அவன் பரமாத்மாவுக்கு ப்ரியனுய் ஆகிறான், அவன்
புண்யம் உடையவனுகிறான், அவன் முக்தி
அடைபவனுகிறான்.

அதோப஬ृहணானி ஸ்மृதிபுராணவசனானி லிருயந்தே । உப஬ृहணத்வं
ச தேஷாஂ மஹாமாரதே^१ மிஹிதம் - இதிஹாஸபுராணம்யா
வேदார்஥முப஬ृहயே^२ ஦ிதி । ஸ்காந்஦ே^३ பி - புராணை^४ வே^५ ஸ்பष்டே^६ வே^७ ஦ார்஥ோ^८ ஜாயதே^९
க்வலு । ஬ிமேतி மானவாக்ஷே^{१०} ஦: புராணம்யாஸவர்ஜிதாத் இதி ॥
ஸு^{११} ஦ர்ஶனா^{१२} சார்யோ^{१३} பி - வே^{१४} ஦ார்஥நிர்ணயவி஧ௌ^{१५} ஹி புராணமஜ்^{१६} நிர்ண^{१७} தவே^{१८}
விஷயா: ஸ்மृதயோ^{१९} ஭வந்தி இதி ॥ ஸू^{२०} தஸ^{२१} ஸ்வ^{२२} ஹிதாயாமபி -

अनन्तशाखासापेक्षे वैदिकार्थविनिष्ठये । स्वबुद्धिकल्पिताब्यायात् गरीयो ह्यपबृंहणम् इति ॥

இங்கு உபப்ரம் ஹனங்களான (அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்கின்ற) ஸ்ம்ருதி புராண வசனங்கள் எழுதப் படுகின்றன. அந்த ஸ்ம்ருதி புராண வசனங்கள் வேதத்திற் கு உபப்ரம் ஹனங்கள் என்பதும் மஹா பாரதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, இதிலூாஸ்தாலும், புராணத்தாலும், வேதார்த்தத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும், என்று. ஸ்காந்தத்திலும்:- வேதத்தின் அர்த்தம், புராணங்களாலேயே ஸ்பஷ்டமாய் அறியப் படுகிறதல்லவா. புராணத்தைப் படிக்காத மனிதரிட மிருந்து வேதம் பயப்படுகின்றது. ஸத்ராஞ்சார்யரும்:- வேதார்த்தத்தை நிச்சயிக்கும் விஷயத்தில் புராணம் அங்கமாகும். ஸ்ம்ருதிகள், வேதத்திலுள்ள விஷயங்களை நிர்ணயம் செய்பவையாய் இருக்கின்றன. ஸதாஸம்ஹிதையிலும்:- அநேக சாகைகளை அபேக்ஷித்து நிற்கும் வேதார்த்தத்தின் நிர்ணயத்தில், தன் புத்தியால் கல்ப்பிக்கப்பட்ட ந்யாயத்தைக் காட்டிலும், உபப்ரம் ஹனம் மிகப் பெரியதல்லவா.

विष्णुस्मृतौ – उपवीतं शिखाबन्धमूर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम् ।
अपवित्रकृतं कर्म विप्रस्य विफलं भवेत् ॥ योगो दानं जपो होमः
स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । भस्मीभवति तत्सर्वं मूर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम् ॥
अशुचिश्चाप्यनाचारः मनसा पापमाचरन् । शुचिरेव भवेनित्य
मूर्ध्वपुण्ड्रस्य धारणात् इति ॥ भूगुः – उपवीतविहीनेन पवित्ररहितेन
च । तथोर्ध्वपुण्ड्रहीनेन यत्कृतं तन्निरर्थकम् इति ॥ मार्कण्डेयः –
अमन्त्रेण कृतं कर्म ह्यपवित्रेण वा कृतम् । ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना वाऽपि कर्म
यद्विद्विजैः कृतम् ॥ तत्सर्वमासुरं विद्यात् कर्त्तापि नरकं व्रजेत् इति ॥

விஷ்ணு ஸ்ம்ருதியில்:- உபவீதம், சிகையைக் கட்டுதல், ஊர்த்வ புண்டரம் இவை இல்லாமலும்,

பவித்ரம் இல்லாமலும் செய்த, ப்ராம் ஹன்னின் கர்மம் பலமற்றதாகும். யாகம், தானம், ஜபம், ஹோமம், அத்யயனம், பித்ரு தர்ப்பணம் இவை ஊர்த்வ புண்ட்ரம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டால், அவை முழுதும் சாம்பலாய் ஆகின்றன. அசுத்தன் ஆனாலும், ஆசாரமற்றவன் ஆனாலும், மனதால் பாபத்தைச் செய்பவனாலும், ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரித்தால் எப்பொழுதும் சுத்தஞகவே ஆகிறுன். ப்ரகு:- உபவீதம் இல்லாதவனாலும், பவித்ரம் இல்லாதவனாலும், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் இல்லாதவனாலும் எக்கார்யம் செய்யப்பட்டதோ அது வீணாகும். மார்க்கண்டேயர்:- மந்த்ரம் இல்லாமலும், பவித்ரம் இல்லாமலும், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் இல்லாமலும் ப்ராம் ஹன்னரால் செய்யப்பட்ட கர்மம் எதுவோ அது முழுவதும் ஆஸாரம் என்று அறியவும். செய்தவனும் நரகத்தை அடைவான்.

दक्षः - कुशापाणि: सदा कुर्यात् सोत्तरीयोर्ध्वपुण्ड्रधृक् ।
वेदोक्तमखिलं विद्वानन्यथा स्यान्निरर्थकम् इति ॥ **मरीचिः -**
सपवित्रकरः स्वस्थः सोत्तरीयोर्ध्वपुण्ड्रकः । **कुर्यादहरहः** कर्म वेदोक्तं
विप्रसत्तमः । मरीचिः - सपवित्रकरः स्वस्थः सोत्तरीयोर्ध्वपुण्ड्रधृक् ।
कुर्यादहरहः कर्म वेदोक्तं विप्रसत्तमः । **सर्प** दृष्टा यथा लोके ददुरा
भयविह्लाः । ऊर्ध्वपुण्ड्राङ्गितं तद्वत् कम्पन्ते यमकिङ्कराः इति ॥
व्यासः - जाह्वीतीरसंभूतां मृदमध्वां बिभर्ति यः । बिभर्ति रूपं
सोऽर्कस्य तमोनाशाय वै स्मृतः ॥ **ऊर्ध्वपुण्ड्रो** मृदा शुद्धो ललाटे यस्य
दृश्यते । स चण्डालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः इति ॥

தக்ஷர்:- அறிந்தவன், எப்பொழுதும், வேதத்திற் சொல்லிய எல்லாக் கர்மத்தையும், தர்ப்பபாணியாயும், உத்தரீயம் உடையவனாயும், ஊர்த்வ புண்ட்ரம் தரித்தவனாயும் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிடில் அக்கர்மம் வீணாகும். மார்சி:- ப்ராம் ஹன்னன், ப்ரதிதினம், பவித்ரம் தரித்தவனாயும், ஸ்வஸ்த சித்தஞாயும், உத்தரீயம்

உடையவனுடும், ஊர்த்வ புண்ட்ரம் தரித்தவனுடும், வேதத்திற் சொல்லிய கர்மத்தைச் செய்ய வேண்டும். உலகில் தவளைகள் பாம்பைக் கண்டால் எவ்விதம் பயத்தால் கலங்கியவையாய் நடுங்குகின்ற னவோ, அவ்விதம், யமகிங்கரர்கள், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரித்தவளைக் கண்டால் பயந்து நடுங்குகின்றார்கள்.

வ்யாஸர்:- கங்கைக் கரையிலுள்ள ம்ருத்திகையைச் சிரஸ்லினால் எவன் தரிக்கின்றானே அவன், இருளை அழிப்பதற்காக ஸமர்யனின் ரூபத்தைத் தரிக்கின்றான் என்று நினைக்கப்படுகிறான். எவனின் நெற்றியில், ம்ருத்திகையால் சுத்தமான ஊர்த்வ புண்ட்ரம் காணப்படுகிறதோ, அவன் சண்டாளையினும், சுத்தனுடும், பூஜ்யனுடும் ஆகிறான். ஸம்சயமில்லை.

ஸ்மூதிஸாரே - ஸ்வாத்யாயே மோஜநே சைவ ஹோஸே மஜ்ஜலகர்ம்ணி । ஊர்புண்ட்ராரே மூயாடிக்ஷஸாஂ சாபநுதயே இதி ॥ ஆத்ரேயே - ஊர்புண்ட்ரவிஹீன் யது ஶரீர ஶவசனிமஸ् । ஊர்புண்ட்ரவிஹீன் து ஶபாகமிவ ஸந்த்யஜேத் ॥ ஊர்வநயதி யத்புண்ட்ரப்ராणிநः பாபகாரிணः । தஸ்யாख्यா ஹூர்வபுண்டேतி தஸ்மாத்தாரயேதூதிஜः இதி ॥

ஸ்ம்ருதிஸாரத்தில்:- அத்யயனம், போஜனம், ஹோமம், மங்களாகார்யம் இவைகளில் ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரித்தவனுடும் இருக்க வேண்டும். இது ராக்ஷஸர்களை அகற்றுவதற்காகவுமாம்.

அழுத்ரேயத்தில்:- ஊர்த்வ புண்ட்ரமில்லாத சரீரம் எதுவோ அது சவத்திற்குச் சமமாகும். ஊர்த்வ புண்ட்ரம் இல்லாதவளை நாயாடியைப் போல் பரிஹரிக்க வேண்டும். பாபம் செய்யும் ப்ராணிகளையும் எந்தப் புண்ட்ரம் உயர்ந்த பதத்தை அடைவிக்கின்றதோ அதனால் அதற்கு ஊர்த்வபுண்ட்ரம் எனப்பெயர். ஆகையால் ப்ராம்ஹணன் அதைத் தரிக்க வேண்டும்.

ஸ்மृत்யந்தரே – விஷ்வர்ணவிஹீனं யத् பவித்ரரஹிதं தथா ।
उत्तरीयोऽर्धपुण्ड्राभ्यां रहितं तन्निरर्थकम् ॥ होमपूजादिसमये सायं
प्रातः समाहितः । ऊर्ध्वं पुण्ड्रधरो विप्रो भवेच्छुद्धो नचान्यथा ।
निरूर्ध्वपुण्ड्रस्तु भवेन कदाचिदपि द्विजः । वैष्णवशेष्विरोषेण
सर्वकर्मणि सोऽर्हति ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रललाटे तु कुर्वति चतुरज्ञुलम् । उदरे
हृदि कण्ठे च दशाष्टचतुरज्ञुलान् इति ॥

மற்றெனும் ஸ்மிருதியில்:- விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணம்
செய்யப்படாததும், பவித்ரம் இல்லாததும், உத்தரீயம்
இல்லாததும், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் இல்லாததுமான கர்மம்
வீணைகும். ஹோமம் பூஜை முதலிய ஸமயத்திலும்,
மாலையிலும், காலையிலும், கவனம் உடையவனுய்
ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்கும் ப்ராம் ஹணன்
சுத்தனவான். இல்லாவிடில் சுத்தனுகான். ப்ராம் ஹணன்
இருகாலும் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் இல்லாதவனுய் இருக்கக்
கூடாது. வைஷ்ணவனுனுல் அவச்யம் தரிக்க வேண்டும்.
அவன் ஸகல கர்மங்களிலும் அர்ஹனுவான்.
ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை நெற்றியில் நாலங்குலமளவும்,
வயிற்றில் பத்து அங்குலமளவும், மார்பில்
எட்டங்குலமளவும், கழுத்தில் நாலங்குலமளவுமாய்த்
தரிக்க வேண்டும்.

आग्निवेश्यायनिः – त्रिपुण्ड्रं ब्राह्मणो विद्वान् लीलयाऽपि न
धारयेत् । धारयेत् ब्राह्मणस्सभ्य गूर्ध्वपुण्ड्रं प्रयत्नतः इति ॥

ஆக்னிவேச்யாயனி:- அறிந்த ப்ராம் ஹணன்,
விளையாட்டாகவும் தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்கக் கூடாது.
ப்ராம் ஹணன், முயற்சியுடன் ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை நன்றாய்
தரிக்க வேண்டும்.

ஸङ்கஹे – श्रौतस्मार्तक्रियास्सर्वा ऊर्ध्वपुण्ड्र मकुर्वतः । जायन्ते
विफलाशैव बाधिताश्च भवन्ति ताः इति ॥ पुரाणेषु ब्रह्माण्डपुराणे
ब्रह्माण் भगवानाह – ऊर्ध्वपुण्ड्रप्रமाणानि द्रव्याण्यज्ञुलिभेदतः ।

वर्णानि मन्देशांश्च प्रवक्ष्यामि फलानि च ॥ पर्वताग्रे नदीतीरे मम क्षेत्रे
विशेषतः । सिन्धुतीरे च वल्मीके तुलसीमूलमाश्रिते ॥ मृद एतास्तु
सञ्चाहा वर्जयेदन्यमृतिकाः । इयामं शान्तिकरं प्रोक्तं रक्तं वक्ष्यकरं
भवेत् ॥ श्रीकरं पीतमित्याहृष्णवं श्वेतमुच्यते । अङ्गुष्ठः पुष्टिः प्रोक्तो
मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत् ॥ अनामिकाऽबदा नित्यं मुक्तिदा च
प्रदेशिनी । एतरङ्गुलिभेदस्तु कारयेत् नखैः स्पृशेत् ॥

लंगंकरूपात्तीलः- ऊर्त्तवपुण्टरम् तरीक्कातवणीं
चंबरात् लंमार्त्तं तरीक्कणीलं लाम् पलन्नर्न्तुम्
पात्रिक्कप्पट्ट वेवकणुम् आकिन्नरा. पुराणान्कणां,
प्ररम्भाण्ट पुराणत्तील, प्ररम्भावेवक् गुरुत्तुक्त
चेतालंलुकिग्रुर, पकवाणः- ऊर्त्तवपुण्टरत्तीनं
अनावुकणायुम्, तर्वयंकणायुम्, विरलंकणीं
पेतान्कणायुम्, वर्णान्कणायुम्, मन्त्रत्रान्कणायुम्,
तेचंकणायुम्, पलन्कणायुम् चेताललप् पोकिरेण.
मलैलयिनं उच्चियिलुम्, नतिक्करयिलुम्, एनतु
केष्ठत्रत्तिलुम्, लमुत्रक्क करयिलुम्, पुर्नर्निलुम्,
तुलसीयिनं अट्टिलुम् उल्ला मंगुत्तिकेककां करव्वीक्कत्त
तकुन्ततवे. मर्त्र मंगुत्तिकेकां तविरक्क वेण्णाम्.
करुप्पाणतु चान्तियेकं केकाटुप्पताकुम्. चिवप्पु
वस्यकरमाम्. मन्त्रकां निरम् लक्ष्मीयेकं चेय्युम्.
वेण्णुप्पु वेष्णवम् एनप्पटुकिरतु. बेगुविरलं
पुष्टियेकं केकाटुप्पतायेकं चेताललप्पट्टुलातु.
नटुविरलं आयुलाकं केकाटुप्पताकुम्. अनेमिकाविरलं
नित्यमुम् अन्नत्तेतकं केकाटुप्पताम्. आलंकाट्टि विरलं
मुक्तिये अलीप्पताम्. इन्त विरलंकणीलं छन्नरिणुलं
तरीक्क वेण्णाम्. नकंकणालं तेताकं कूटातु.

वर्तिदीपाकृतिं चापि वेणुपत्राकृतिं तथा । पद्मस्य मुक्ताकारं
तथैव कुमुदस्य च । मत्स्यकूर्माकृतिं वापि शङ्खाकारमथापि वा ।
दशाङ्गुलं प्रमाणं तदुत्तमोक्तम् मुच्यते । नवाङ्गुलं मध्यमं

ஸ்யாடஷாஜலமதः பரம् । ஸஸ ஷ்டபஞ்சமி: புண்ட் திவி஧ங் மध்யம் ஸ்மृதம் । சதுஷி஦்யங்குலை: புண்ட் கனிஷ்ட் திவி஧ங் ஭வेत् ॥

வர்த்தி தீபம் போலாவது, மூங்கில் இலை போலாவது, தாமரையின் மொக்குப் போலாவது, ஆம்பல் புஷ்பம் போலாவது, மீன், ஆமை, சங்கு இவைகளின் ஆகாரம் போலாவது, புண்ட்ரத்தைத் தரிக்கவும். பத்தங்குல ப்ரமாணமுள்ளது மிக உத்தமமாய்ச் சொல்லப்படுகிறது. ஒன்பது அங்குலமுள்ளதும், எட்டு அங்குலமுள்ளதும், ஏழு, ஆறு, ஐந்து அங்குலம் உள்ளதும் என்று மூன்று விதம் மத்யமம். நான்கு, மூன்று, இரண்டு அங்குலமுள்ள மூன்று விதமும் கணிஷ்டமாகும்.

லலாடே கைஶं வி஦்யாநாராயணமதோदரे ॥ மா஧வं ஹ்ரி விந்யஸ்ய ஗ோவிந்஦ं கண்஠கூபகே । உரை ஦க்ஷிணே பாஶ்வே விஷ்ணு வி஦்யாத்திரைஸ்தா । தத்பாஶ்வே ஬ாहுமத்யே து ஸ்மரேது மधுஸ்ரூபம் । திவிக்ரமம் கண்஠தேஶே வாமே குக்ஷை து வாமனம் ॥ ஶ்ரீ஧ரங் ஬ாहுகே வாமே ஹ்ரிகேஶம் து கண்஠கே । பூஷே து பத்ரநாமம் து குக்ஷாமோదர் ஸ்மரேத் ॥ ஛ாதஶைதானி நாமானி வாஸுடேவேதி மூர்஧னி । பூஜாகாலே ச ஹோமே ச ஸாயஂப்ராத: ஸமாஹித: ॥ நாமாந்யுச்சார்ய வி஧ிநா ஧ாரயேதூர்஧்வபுண்டகம் ॥ ஊர்஧்வபுண்டகரே மத்யோ ஸியதே யந் குற்சித் । ஶ்ரபாகோட்பி விமானஸ்஥ோ மம லோகே மஹியதே இதி ॥

நெற்றியில் கேசவ என்றும், வயிற்றில் நாராயண என்றும், மார்பில் மாதவ என்றும், கழுத்துப் பள்ளத்தில் கோவிந்த என்றும், வயிற்றில் வலது பாகத்தில் விஷ்ணு என்றும், வலது கையில் மதுஸ்தான என்றும், வலது கண்ட தேசத்தில் தரிவிக்ரம என்றும், வயிற்றின் இடது பாகத்தில் வாமன என்றும், இடது கையில் பூஞ்சர என்றும், இடது கண்டத்தில் ஹ்ருஷ்கேச என்றும், முதுகில் பத்மநாப என்றும், கழுத்தின் பின் புறத்தில் தாமோதர என்றும் பன்னிரண்டு நாமங்களை உச்சரித்துத் தரிக்கவும். வாஸ-தேவ என்ற நாமத்தை உச்சரித்துத் தலையில்

तरीक्कवुम्. कवनमुन्नावग्नेयं मालैयिलुम् का॒लैयिलुम्
पूजा का॒लत्ति॒लुम्, लौरा॒मका॒लत्ति॒लुम् ना॒मन्कै॒ला॒
उ॒क्षी॒त्तु॒ वी॒ति॒प्प॒टि॒ ऊ॒र्त्त॒व॒ पु॒ण्ट॒र॒त॒त॒त॒त॒ त॒रीक्कवुम्,
ऊ॒र्त्त॒व॒ पु॒ण्ट॒र॒म् त॒रीत्त॒व॒न्न॒ न॒न्त॒त॒न्त॒ इ॒ट॒त्त॒त॒ला॒वतु॒
म॒रीत्त॒ता॒लु॒म्, अ॒व॒न्न॒ ना॒या॒त्त॒या॒यी॒नु॒म् वी॒मा॒न॒त्त॒त्त॒ि॒ल॒
इ॒रु॒प्प॒व॒ग्नेयं॒ न॒न्त॒त्त॒ उ॒ल॒क॒त्त॒त्त॒ि॒ल॒ च॒र॒प्प॒प॒रु॒क्तिरु॒न्न॒.

बामनपुराणेऽपि नारदं प्रति भगवानाह - ते ।

श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गेण मृदो धारण मुच्यते । शृणु वत्स विधानेन
मृत्स्नाधारणमुक्तमम् ॥ मम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पुण्यक्षेत्रे तथैव च । पर्वताग्रे
नदीतीरे तुलसीमूलकाश्रिते ॥ अश्वत्थबिल्बबल्मीकिकुलाः
पनसास्तथा । एतेषु मृत्तिकाः प्रोक्ता यथाविधिवदाहरेत् इत्यादि ।
पाद्मेऽपि - ऊर्ध्वपुण्ड्रस्य माहात्म्यं वक्ष्यामि तव पार्वति । धारणादेव
मुच्येत भवबन्धादद्विजोत्तमः ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रस्य मध्येतु विशाले
सुमनोहरे । लक्ष्म्या सार्धसमासीनो देवदेवो जनार्दनः ॥ तस्माद्यस्य
शरीरे तु ऊर्ध्वपुण्ड्रं धृतं भवेत् । तस्य देहं भगवतो विशालं मन्दिरं
शुभम् ॥ धारयेदूर्ध्वपुण्ड्रं तु त्रिसन्ध्यासु द्विजोत्तमः ॥
सर्वपापविशुद्ध्यर्थं मिष्ठापूर्तफलासये ॥ यज्ञदानतपश्चर्याजपहोमादिकं
च यत् ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रधरः कुर्यात् तस्य पुण्यमनन्तकम् ॥
ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनस्तु किञ्चित् कर्म करोति यः । इष्ठापूर्तादिकं सर्वं
निष्कलं स्याच्च संशयः ॥ यच्छरीरं मनुष्याणामूर्ध्वपुण्ड्रविवर्जितम् ।
द्रष्टव्यं नैव तद्यस्मात् इमशानसदृशं भवेत् ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनो यः सः
सन्ध्याकर्मादिकं चरेत् । तत्सर्वं राक्षसैर्नीतं नरकं चाधिगच्छति ॥
ऊर्ध्वपुण्ड्रं द्विजैः कार्यं श्यामया पीतया मृदा । श्वेतमृत्तिकया धार्यं
वैष्णवैश्वं विशेषतः इति ॥

वा॒मन पु॒रा॒णत्ति॒लु॒म्, ना॒रा॒त्तरे ने॒ोक्कि॒स
क्षेवल्लु॒क्तिरु॒र्. पक्षवा॒नः:- क्षरुत्ति॒यिलु॒म् लं॒म् रुत्ति॒यिलु॒म्
क्षेवल्लप्पट्ट वी॒ति॒प्प॒टि॒ मं॒रुत्ति॒त्त॒क्षयी॒नं ता॒रा॒णम्

சொல்லப்படுகிறது. ஓவத்ஸ? விதிப்படி சிறந்ததான் ம்ருத்திகா தாரணத்தைக் கேட்பாய். எனது கேஷ்ட்ரம், குருகேஷ்ட்ரம், புண்யகேஷ்ட்ரம், மலையின் உச்சி, நதியின் கரை, துளவியின் மூலம், அரசு, பில்வம், புற்று, முகிழ், பலா இவைகளின் மூலம் என்ற இடங்களில் ம்ருத்திகைகள் க்ரால்யங்களெனச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. விதிப்படி அவைகளைக் கொண்டு வரவும் என்பது முதலியவை சொல்லப்பட்டுள்ளன.

பாத்மத்திலும்:- ஒ பார்வதி ! ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தின் மஹிமையை உனக்குச் சொல்வேன். ப்ராம்ஹணன் ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரிப்பதாலேயே ஸம்ஸார பந்தத்தினின்றும் விடுபடுவான். விசாலமும் அழியதுமான ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தின் நடுவில், தேவதேவனுன் விஷ்ணு வக்ஷமியுடன் வீற்றிருக்கிறார். ஆகையால் எவனது சரீரத்தில் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிற தோ அவன் தேஹம் விசாலமும் சுபமுமாகிய விஷ்ணுவின் ஆலயமாகிறது. ப்ராம்ஹணன், மூன்று ஸந்த்தையகளிலும், ஸகல பாபங்களையும் அகற்றுவதற்கும், இஷ்டாபூர்த்த பலன்களைப் பெறுவதற்கும் ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். எவன், யக்ஞம், தானம், தபஸ், ஜபம், ஹோமம் முதலிய இவைகளை ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரித்தவனுய்ச் செய்கின்றானே அவனது புண்யம் அழிவற்றதாகும். எவன் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் இல்லாதவனையே எந்தக் கார்யத்தையாவது செய்கின்றானே, அவனது இஷ்டா பூர்த்தம் முதலிய எல்லாம் பலனற்றனவாகும். ஸம்சயமில்லை. மனுஷ்யரின் எந்தக் சரீரம் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதைப் பார்க்கவே கூடாது. அது ச்மசானத்திற்குச் சமமானதால். எவன் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் இல்லாமல் ஸந்த்யா வந்தனம் முதலியதைச் செய்கின்றானே, அவனது கர்ம மெலாம் ராக்ஷஸரால் அபஹரிக்கப்படுகிறது. அவனும் நரகத்தை அடைகிறான். ப்ராம்ஹணர்கள், கருப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறமுள்ள ம்ருத்தி கையால் ஊர்த்வ

पुण्ठरम् तरीक्क वेण्णुम्. वेष्णवर्कला अवचयम् वेणुप्पान मंगुत्तिकेयाल तरीक्क वेण्णुम्.

नारदीये – ऊर्ध्वपुण्ड्रयः करोति तुलसीमूलमृत्स्या । तत्रैव नेत्रं तस्य स्यान्मूर्धनीन्दोर्बिभृयात् कलाम् ॥ ब्राह्मणस्योर्ध्वपुण्ड्रं स्यात् क्षत्रियस्यार्धचन्द्रकम् । वैश्यस्य वर्तुलाकारं शूद्रस्यैव त्रिपुण्ड्रकम् ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रं द्विजः कुर्याद्वारिमृद्दस्मचन्दनैः । जपकाले मृदा कुर्यात् सन्ध्याकाले तु वारिणा ॥ भस्मना होमकाले तु चन्दनं सार्वकालिकम् इति ॥

नारात्तीयत्तीलः - एवां, तुलसी मूलत्तिलुलां मंगुत्तिकेयाल ऊर्ध्वत्वं वेण्ठरत्तेतत्त तरीक्किन्ऱुग्नेऽनु, अवानुक्कु नेन्नरीयिलेये छुरु कण्णउण्टाकुम्. अवां, तलैयिलं सन्तरनीनं कलैयेयत्त तरीप्पान. प्रराम्भैणनुक्कु ऊर्ध्वत्वं वेण्ठरमुम्, कृष्णत्रीयनुक्कुप्पं प्रातिक्षं सन्तरनं पोरांनं वेण्ठरमुम्, वेष्णयनुक्कु वर्त्ततुलामानं वेण्ठरमुम्, कुत्तरनुक्कु तरीपुण्ठरमुम् वीतिकप्पट्टालातु. प्रराम्भैणनं, ज्ञलम्, मंगुत्तिकेप, पस्मम्, सन्तरनम् इवेवकलालं ऊर्ध्वत्वं वेण्ठरम् तरीक्क वेण्णुम्. ज्ञपकालत्तिलं मंगुत्तिकेयालुम्, लन्तर्याकालत्तिलं ज्ञलत्तालुम्, लेहामकालत्तिलं पस्मत्तालुम्, सन्तरनत्तालं एल्लाक्क कालन्ककलीलुम् तरीक्क वेण्णुम्.

बिष्णुधर्मोत्तरे – बिभर्ति निटिले मूर्धि जाहवीतीरमृत्तिकाम् । बिभृयाच्चक्षुरेकत्र मूर्धनीदो विभृयात् कलाम् ॥ गङ्गामृदोर्ध्वपुण्ड्रं तु यो बिभर्ति नरो यदा । तदैव तस्य पितरः ब्रह्मलोकमवाप्नुयः ॥ गङ्गाकूलमृदा यस्तु बिभृयादूर्ध्वपुण्ड्रकम् । तदङ्गं ये निरीक्षन्ते ते यान्ति त्रिदिवं नराः इति ॥

वीष्णवान् तुर्मोत्तरात्तीलः - कन्दकेयिनं कररायिलुलां मंगुत्तिकेय, नेन्नरीयिलुम्, विरस्लिलुम् एवां तरीक्किन्ऱुग्नेऽनु अवां, नेन्नरीयिलं कण्णैणयम्,

தலையில் சந்தரணின் கலையையும் தரிப்பான். எவன் கங்கையிலுள்ள ம்ருத்திகையால் ஊர்த்வ புண்டரத்தைத் தரிக்கின்றானே, அப்பொழுதுதே அவனது பித்ருக்கள் ப்ரம்லூலோகத்தை அடைவார்கள். கங்கைத் கரையிலுள்ள மண்ணினால் ஊர்த்வ புண்டரத்தை எவன் தரிக்கின்றானே, அவனது அங்கத்தை எவர் தர்சிக்கின்றனரோ, அவரும் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகின்றனர்.

வாசிஷ்டே – ஊர்புண்ட து விப்ராண் ஸதத் ஶ्रுதிசோதிதம் । முமுக்ஷுभிர்தீரா஗ைப்ரமதைஸ்மாஹிதை: ॥ ஬்ரஹ்மாரி ஗ृहஸ்஥ே வா வானப்ரஸ்஥ோத வா யதிஃ । அவशய் ஧ாரயேத் புண்ய மூர்புண்ட ஸுஶோभனம் ॥ ஊர்புண்ட சிஜ: குர்யாப்ணகார ஸுஶோ�னம் । மத்யே திட்ர வைணவஸ்து நமோந்தை: கேஶவாதிமி: இதி ॥

வாளிஷ்டத்தில்:- ப்ராம் ஹ ஊர்க்கு ஊர்த்வ புண்டரம் நித்யமாய் வேதத்தால் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்தியில் விருப்பமுள்ளவர்கள், நிஷ்காமர்களாய், கவனமுள்ளவராய், நியமமுள்ளவராய்த் தரிக்க வேண்டும். ப்ரம்லூசாரி, க்ருஹஸ்தன், வானப்ரஸ்தன், யதி, யாராயினும், புண்யமான ஊர்த்வ புண்டரத்தை அழகியதாய்த் தரிக்க வேண்டும். விஷ்ணு பக்தனு ப்ராம் ஹ ஊன், ஊர்த்வ புண்டரத்தை, தண்டம் போன்றதாயும், நடுவில் இடைவெளி உள்ளதாயும், நம: என்பதைக் கடைசியிலுள்ள கேசவாதி நாமங்களால் தரிக்க வேண்டும்.

பாஷே ஬்ரஹ்மருடஸ்வாடே – ஗ூஹே யஸ்ய ஸदா திஷ்டேத் ஗ோபிசந்஦ன- மூத்திகா । ஦্঵ாரகா விஹிதா தற குஷேந ஸஹிதா கலை । யோ மூத்திகா ஦்வாரவதீஸமுஜ்வன் கரே ஸமாடாய லலாடபட்டகே । கரோதி நித்ய தனுஶுஞ்சிஹேதோ: கியாபல் கோடிடிருண் ஸदா ஭வேத் ॥ கியாவிஹீன் யதி மன்வதீன் ஶிராவிஹீன் யதி ஭க்திவர்ஜிதம் । குத் லலாடே யதி ஗ோபிசந்஦ன் ப்ராப்நோதி தத் புண்யபல் ஸदாதக்ஷயம் ॥ யஸ்யாந்தகாலே ஖ங

गोपिचन्दनं बाहोर्ललाटे हृदि मस्तके वा । प्रयाति लोकं कमलासनस्य
गोबालधाती यदि ब्रह्महा भवेत् ॥ अस्तातो यः क्रियां कुर्यादशुचिः
पापशाङ्कितः । पूतः सद्यो भवेन्नित्यं गोपीचन्दनधारणात् ॥
द्वारवत्युद्धर्वं गोपीचन्दनं चोष्णपुण्ड्रकम् । धारयेन्नित्यमेवं हि पापं
हन्ति दिनेदिने । गोपीचन्दनलिप्ताज्ञो यं यं पश्यति चक्षुषा । तं तं पूतं
विजानीयात् नात्र कार्या विचारणा इति ।

पातुमत्तुल, प्रमङ्गुकरुट सम्बोधतुत्तुलः - एव एन्तु
कं गुलुत्तुल कोपी सन्तनं मं गुत्तुल कै एप्पेपामुतुम
इरुक्किन्ऱ तेऽ, अवं विटत्तुल कं गुञ्जनुटनं कौटिय
तं वारके क वल्लिल चेय्यप्पट्टताकिरतु. एव एन्तु
तं वारवत्तुलियु उन्टाकिय मं गुत्तुल कै य
कै यिल उत्तु, नेन्ऱ नीयिल नित्यमुम तेहु शत्तुकं काकत्त
तरीक्किन्ऱ तेऽ, अव एन्तुकु करीययिन्प एलन् कोपी
मटन्काक एप्पेपामुतुम उन्टाकुम. नेन्ऱ नीयिल कोपी
सन्तनमं तरीत्तागुकिल, अव एन्तु चेय्यमं कर्ममं वित्तुप्पटि
अनुञ्जिक्कप्प पटाविष्टनुम, मन्त्रिराङ्कलील चिरत्तते पक्ति
इल्लाविष्टनुम अतनं पुण्य पलैन एप्पेपामुतुम
अधीवर्त्तताय अव एन्तु अटेकिरुन्. ओ करुट! एन्त
मनीतनीन्मरण कालत्तुल, कोपी सन्तनम, कै कलीलुम,
नेन्ऱ नीयिलुम, मार्पिलुम, तालयिलुम तरीक्कप्प
पट्टुलं तेऽ, अव एन्तु प्रमङ्गुविन्प उलकत्तते
अटेकिरुन्, अव एन्तु पक, पालर, प्रामङ्गुवणर इवर्कलैक
केऊन्ऱ वग्नयिलुम. सन्नानमं चेय्यामलं अक्तुत्तग्नयप्प
पापत्तुनीन्ऱुम संकैयालं नर्कर्मत्तते
अनुञ्जिक्किन्ऱ तेऽ, अव एन्तु कोपी सन्तनत्तते
तरीत्ताल, उटेने शत्तगुकवे आकिरुन्. तं वारवत्तुलिल
उन्टाकिय कोपी सन्तनत्तते ऊर्त्तव पुण्टरमाय
नित्यमुम तरीक्क वेण्टुम. इव एन्तु इरुप्पवन्प
अन्ऱन्ऱु चेय्यप्पट्ट पापत्तते पोक्कुकिरुन्.
कोपी सन्तनत्तते तरीत्तवन, कज्जलाल एव एन्वलैनप
पार्क्किन्ऱ तेऽ, अव एन्वन्प सत्तनेन अर्थयवेण्टुम.
इतु विषयत्तुल विशारदैन वेण्टाम.

பாராஶரே^२பி – மூடு மன்றோமிமந்தை சோ஧்வபுண்டானி ஧ாரயேத् । லலாடாடிஷு சாஜ்ஜேஷு ஧ரேத் புண்டு ஶுभாவஹஸ् ॥ ஆரம்ய நாசிகாமூல் லலாடாந்த் லி஖ேந்மூடும் இதி ॥ ஬்ரஹ்மபுராண – மூத்திகா சந்஦ன ஭ஸ்ம தோய் சைவ சதுர்த்திகம் ॥ ஏமிர்த்தீர்யாகால மூஷ்வபுண்டு மவேத் ஸ்வா ॥ ஸ்வாத்வா புண்டு மூடா குர்யாத்வா சைவ து ஭ஸ்மனா ॥ ஦ேவானம்யார்ய ஗ந்தேன ஸ்வப்பாபாபநுதயே இதி ॥

பாராஶரத்திலும் :- ம் ருத்திகையை மந்த்ரத்தினுல் அபிமந்த்ரித்து ஊர்த்வ புண்டரங்களைத் தரிக்க வேண்டும். நெற்றி முதலிய அங்கங்களில் சுபமான புண்டரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். மூக்கின் அடியில் ஆரம்பித்து நெற்றி வரையில் மண்ணைத் தரிக்க வேண்டும். ப்ரஹ்மாண்ட புராணத்தில் :- ம் ருத்திகை, சந்தனம், விபூதி, ஜலம் நான்காவது, இந்த த்ரவ்யங்களால் காலப்படி எப்பொழுதும் ஊர்த்வ புண்டரம் விதிக்கப்படும். ஸ்நானம் செய்த பிறகு மண்ணினாலும், ஹோமம் செய்த பிறகு விபூதியினாலும், தேவர்களைப் பூஜித்த பிறகு சந்தனத்தாலும் ஸகல பாபங்களையும் போக்குவதற்குப் புண்டரம் தரிக்க வேண்டும்.

வைகானஸஸூதி – ஸமித்திர்஗ௌமயை: ஸ்வே ஹவனே விஹிதே ஸதி । தத்ஸம ஸஜ்ஜை கரே மன்றோமிமந்தை ச । யदூ஧்வபுண்டகரணமாயேய் ஸாநமேவ தத் । மூதிஸ்மேதி ஭ஸ்ம ஗ூஹித்வா லலாடஹ்யவாஹுக்ணதா- ஦ிநாடித்ய: ஸோமோ நம இத்யாஶிரியமாலிப்ய ஆபோ ஹிஷேதி ப்ரோக்ஷய யதே அயே தேஜஸ்தேநேत்யஶிரிமுடியமித்யாதிமிராதித்ய முபதிஷ்டேத மூதிஸ்மாலம்தே நித்ய ஸ்வர்யங்காகுத் மவேத் இதி ॥

ஐவகானஸஸூதி – தத்ரத்தில் :- ஸமித்துகளாலும், கோமயங்களாலும் தான் ஹோமம் செய்த பிறகு அந்தப் பஸ்மத்தைக் கையிலெல்லுத்துக் கொண்டு மந்த்ரத்தால் அபிமந்த்ரித்து ஊர்த்வ புண்டரம் செய்து கொள்வது

आुक्नेय सन्नानमेयाम्. 'पूतिस्म' एन्ऱू पस्ममत्तेत
एउत्तु नेन्हरि, मार्पु, कैकैल, कमुत्तु मुत्तवियवेकौल
'आुतित्यस्लोमोनमः' एन्ऱू उयरो नुनी इरुक्कुम
प्रतियाकप्पुचि, आपोवृष्टै एन्ऱू प्परोक्षित्तु, 'यत्तेते
अक्नेन तेज्जस्तेन' एन्ऱू अक्नियेयुम 'उत्तवयम'
एन्पतु मुत्तवियवेकौल लार्यजैयुम उपस्तानम
सेय वेण्णुम. पस्ममत्तेतत तरीप्पताौल नित्यमुम
एल्ला याकंक्कौलिन पलमुम उण्टाकुम.

पाद्मेऽपि— समिदादिहृतानां च होमीयस्य हुतस्य च । सितेन
भस्मनाऽङ्गेषु ललाटादिषु च क्रमात् ॥ यदूर्ध्वपुण्डकरणं
मन्त्रोच्चारणपूर्वकम् । तदाग्रेयं भवेत् स्नानं शोधनं परमं स्मृतम् इति ॥
पाद्मोत्तरे — श्रौतं वैखानसं प्रोक्तं स्मार्तं वासिष्ठमुच्यते ।
पाञ्चरात्राद्यागमोक्तं मागमोक्तं तदिष्यते इति ॥ स्मृतिसङ्घे तु —
त्रिपुण्ड्रं भस्मना तिर्यग्धूर्धपुण्ड्रं मृदा न्यसेत् । उभयं चन्दनेनैव वर्तुलं न
कदाचन ॥ न कदाचिन्मृदा तिर्यङ्ग्न्यसेदूर्ध्वं न भस्मना ।
तुषादिभस्मपाषाणरजो धार्यं च न कचित् इति ॥

पात्तमत्तैत्तिलुमः:- लेहामम चेयप्पट्ट लमित्तु
मुत्तवियतु, लेहामम चेयप्पट्टतर्वयम इवेकौलिन
वेण्णमेयान पस्ममत्तिगौल नेन्हरि मुत्तविय
अङ्गकंक्कौलिल करममाय ऊर्त्तव पुण्टरत्तेत
मन्तरत्तुटन तरीप्पतु आुक्नेय सन्नानम एन्प्पटुम.
अतु मिकवुम सत्तुकरम एन्स चेाल्लप्पट्टुौलतु.

पात्तमेऽत्तरत्तिलः:- 'वैवकानलम' एन्पतु
क्षिरौतम एन्स चेाल्लप्पट्टुौलतु. 'वालीष्टम'
एन्पतु स्मार्त्तम एन्स चेाल्लप्पटुौलितु.
पाञ्चरात्रम मुत्तविय आुकमंक्कौल चेाल्लप
प्पट्टुौलतु आुकमेऽक्तम एन्प्पटुौलितु. संमंगुति
संक्करूहत्तिलः- तरीपुण्टरत्तेतप पस्ममत्तिगौल
कुरुक्काकवुम, ऊर्त्तव पुण्टरत्तेत मन्निगौलुम,
इराण्णेटयुम सन्तनत्तिगौलुम तरीक्कलाम. ओरुकालुम

வர்த்துளமாய்த் தரிக்கக் கூடாது. மண்ணினால் குறுக்காகவும், பஸ்மத்தினால் ஊர்த்வமாகவும் தரிக்கக் கூடாது. உமி முதலியதின் பஸ்மத்தையும், கல்லின் பொடியையும் ஒருகாலும் தரிக்கக் கூடாது.

గாருடபுராணே�பி- ஭ஸ்மநா தூர்வபுண்டு ச திர்யக்புண்டு மூடா தथா । விஶ்வத்யாசம் ப்ரோக்மு நிமிர்வேஷபாரா஗ை: இதி ॥ ஏவங்க ஭ஸ்மோர்வபுண்டுஸ்ய வி஧ிப்ரதிஷே஧ாம்யா யதாகுலாசார வ்யவஸ்஥ிதோ விகலப இத்யாஹு: ।

காருட புராணத்திலும்:- பஸ்மத்தினால் ஊர்த்வ புண்டரமும், மண்ணினால் த்ரிபுண்டரமும் ப்ரம்லூ ஹுத்யைக்குச் சமமென்று வேதமறிந்த முனிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்விதம் இருப்பதால், பஸ்மத்தினால் செய்யப்படும் ஊர்த்வ புண்டரத்திற்கு விதிநிஷேஷதங்களால், அவரவர் குலாசாரப்படி வ்யவஸ்தித விகல்பம் என்கின்றனர்.

நனு கசித् கசி஦ூர்வபுண்டு நிஷி஧்யते । தथா ஹி பாராசாரோபபுராணே-ஆரைத் தினங்களில் சிற்பாக விஜேயங் திருப்பூஷைக்கூலநாதமகம் । அஶ்ரைதமூர்வபுண்டாடி நைவ திர்யக் திருப்பூஷகம் ॥ நராணாமுதிதா ஜாதிரீஷா தந்தோக்தவர்த்தனா । லலாடே தை: ஸदா ஧ார்ய மூடா புண்டாந்தர் திரிஜः ॥ ஜந்மநா ல஬்஧ஜாதிஸ்து வேதபந்தானமாஶித: । புண்டாந்தர் மூர்வாட்பில்லாடே நைவ ஧ாரயேத் இதி ॥ மாநவோபபுராணே ச - ஊர்வபுண்டு ச ஶூல் ச வர்துல் சார்வந்தகம் । தந்தனிஷேந ஧ார்ய ஸ்யாந ஧ார்ய வைதிகைஜை: ॥ ஸோர்வபுண்டமுखம் வஸ்தா விதம் சோந்தாயண் சரெத் ॥

சிற்சில இடங்களில் ஊர்த்வ புண்டரம் நிஷேஷதிக்கப்படுகிறது. அவ்விதமே, பாராசரோப புராணத்தில்:- த்ரிபுண்டரமும், உத்துளங்குமும் ச்ருதியில் சொல்லப்பட்ட புண்டரம் என அறியத் தகுந்தது. ஊர்த்வ புண்டரம் முதலியது அச்சிரளத புண்டரம் எனப்படும். குறுக்காய் இடப்படும் த்ரிபுண்டரம் அச்சிரளதமாகாது.

एन्त मणीतर्कणुक्कु ज्ञातियाणतु तन्त्रतत्त्विल
सेवलप्पपट्टवयीयिणेल एमुन्तुण्णोत्तो, अवर्कणाल
नेन्हीयिल मण्णणेल पुण्टरम् एप्पेपामुतुम् तरीक्कत्त
तकुन्ततु. पिरप्पिणेल ज्ञातिये अटेन्त प्रामल्लेण्ण
वेतमार्ककत्ततेत आस्रयित्तु वेऱु पुण्टरत्ततेत
प्रमत्तिणेलुम्, नेन्हीयिल तरीक्कवे कूटातु.
माणवोप पुराणात्तिलुम्:- ऊर्तव पुण्टरमुम्,
कुलमुम्, वर्ततुण्णमुम्, अर्तत सन्त्रनुमाण
पुण्टरत्ततेत तन्त्र मार्ककत्तिल इग्रुप्पवण तरीक्क
वेण्णुम्. वेत्तिक ज्ञानंकण तरीक्कक कूटातु. ऊर्तव
पुण्टरत्तुटें कूटि मुकमुटेयवैनप पार्त्ताल
सान्तरायण वर्ततेत अनुष्टिक्क वेण्णुम्.

कूर्मपुराणेऽपि – गोपीचन्दनधारीतु शिवं स्पृशति यो द्विजः ।
सस्वैकविंशति कुलः सोऽक्षयं नरकं ब्रजेत् इति ॥ सूतसंहितायामपि –
स्वमातुः सोदरायाश गमनं तद्वदेव तु । मातृस्वसुर्मत्सख्याः
दुहितुर्गमनं तथा ॥ मातुलानीस्नुषाश्वश्रूगमनं च तथैव च ।
त्रिपुण्ड्रधारणाभावो भूत्याऽनुद्धूलनं तथा ॥ पुण्ड्रान्तरस्य विप्रेन्द्र
धारणं तद्वदेव तु इति ॥ पुराणान्तरेऽपि – उर्ध्वपुण्ड्रत्रिशूलं च श्रज्या
श्रुत्यचोदितम् । धारयन्ति ललाटे तु मनुष्याः पापकर्मिणः इति ॥
लैज्जेऽपि – त्रिपुण्ड्रं सुरविप्राणां वर्तुलं नृपवैश्ययोः । अर्छचन्द्रं तु
शूद्राणा मन्येषा मूर्ध्वपुण्ड्रकम् ॥ अश्रौत मूर्ध्वपुण्ड्रादि ललाटे श्रज्या
सह । धारयिष्यन्ति मोहेन युगान्ते समुपस्थिते इति ॥

कूर्म पुराणात्तिलुम्:- कोपीचन्दनम् तरीत्तु एन्त
प्रामल्लेण्ण चिवैनेत तेताटुकिरुणेत, अवन तन्तु
इग्रुपत्त तेतारु कुलंकणुटें अमीविलात नरकत्ततेत
अटेवाण. लैतु लैम्हीतेयायिलुम्:- तन ताय, उटें
पिरन्तवेण, तायिण कूटप्पिरन्तवेण, तायिण तेतायी,
पेण्ण, मामणीण मैनेवी, नाट्टुप्पेपेण्ण, मामियार
इवर्कणात चेरुवतुम्, तरीपुण्टरम् तरीक्कामल

இருப்பதும், விபூதியை உத்துளனம் செய்யாமல் இருப்பதும், வேறு புண்ட்ரத்தைத் தரிப்பதும் ஸமமேயாம். மற்றொரு புராணத்திலும்:- பாபம் செய்த மனிதர்கள் ஊர்தவ புண்ட்ரத்தையும், வேதத்தில் சொல்லப்படாத தரிகுலத்தையும் சரத்தையுடன் நெற்றியில் தரிக்கிறார்கள். லைங்கத்திலும்:- தேவருக்கும், பிராம்ஹணருக்கும் தரிபுண்ட்ரம்; கூத்ரியனுக்கும் வைச்யனுக்கும் வர்த்துளபுண்ட்ரம்; சூதர்களுக்கு அர்த்த சந்தரபுண்ட்ரம்; மற்றவருக்கு ஊர்தவ புண்ட்ரம். ச்ருதியில் சொல்லப்படாத ஊர்தவ புண்ட்ரம் முதலியதை சரத்தையுடன் நெற்றியில், யுகாந்தம் ஸமீபிக்கும் பொழுது தரிக்கப் போகிறார்கள் என்று.

सत्यमेतादशानि बहूनि वचनानि श्रूयन्ते । तेषु कानिचिद्वचनानि पाशुपतादिशैवतन्त्रपतितस्य ऋष्वपुण्ड्रनिषेध-पराणि । कानिचित्तु वैदिकस्य अश्रौतपाञ्चरात्राद्यागमोक्तं शूलादिरूपोर्ध्वपुण्ड्रशङ्ख-चक्रादिघारणसहितोर्ध्वपुण्ड्रधारणनिषेध-पराणि ॥ तथा च पाराशरे - तन्त्रनिष्ठः शिवे भक्तः तन्त्रसिद्धेन वर्त्मना । त्रिपुण्ड्रं धारयेनित्यं ललाटे भस्मनैव तु । तन्त्रनिष्ठस्तथा विष्णौ भक्तस्तन्त्रैवर्त्मना । त्रिशूलं चतुरश्रं वा धारयेदूर्ध्वपुण्ड्रकम् ॥ तन्त्रनिष्ठो महादेवे भक्तस्तिर्यक्तिपुण्ड्रकम् । विना पुण्ड्रान्तरं मोहाज्ञारयन्वरकी भवेत् इति ॥

உண்மையே, இவ்விதமான அநேகம் வசனங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அவைகளுள் சில வசனங்கள் பாசுபதம் முதலிய சைவ தந்த்ரத்தில் விழுந்தவனுக்கு ஊர்தவ புண்ட்ரத்தை நிஷேஷிப்பதில் தாத்பர்யம் உள்ளதை. சில வசனங்கள் வைத்திகனுக்கு அச்செரளதமான பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஆகமங்களில் சொல்லப்பட்ட சூலம் முதலியது போலுள்ள ஊர்தவ புண்ட்ரத்தையும், சங்கசக்கரம் முதலியதைத் தரிப்பதுடன் கூடிய ஊர்தவ புண்ட்ரத்தையும் நிஷேஷிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளவைக

ளாம். அவ்விதமே, பாராசரத்தில்:- தந்தரத்தில் இருப்பவனுய் சிவனிடத்தில் பக்தியுள்ளவன், தந்தரத்தில் சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்தால் நெற்றியில் விபூதியினுலேயே த்ரிபுண்ட்ரத்தை எப்பொழுதும் தரிக்க வேண்டும். தந்தரத்தில் இருப்பவனுய் விஷ்ணுவி னிடத்தில் பக்தி உடையவன், தந்தரத்தால் ஸித்தமான மார்க்கத்தால் த்ரிசூலமாகவாவது, சதுரமாகவாவது ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். தந்தரத்தில் இருப்பவன், சிவனிடத்தில் பக்தியுடையவன் குறுக்காய் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தவிர வேறுபுண்ட்ரத்தை அஜ்ஞானத்தால் தரித்தால் நரகத்திற்காளாவான்.

**ஸूतसंहितायामपि – शैवागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवः त्रिपुण्ड्रलिङ्गं
तु सदैव धारयेत् । तदुक्तमन्त्रेण ललाटमध्यके तत्त्वमन्त्रसिद्धेन सितेन
भस्मना ॥ विष्णवागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवः तथैव पुण्ड्रान्तर
मूर्धरूपतः । त्रिशूलरूपं चतुरश्रमेव वा मृदा ललाटेषु सदैव धारयेत् ॥ ।
ब्रह्मागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवो ललाटमध्येऽपि च वर्तुलाकृतिम् ।
तदुक्तमन्त्रेण सितेन भस्मना मृदाऽथ वा चन्दनतस्तु धारयेत् इति ॥**

ஸ்மூத ஸம்ஹீடையிலும்:- சொவாகமத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆச்ரமத்தில் நிலையுள்ள மனிதன், அதில் சொல்லப்பட்ட மந்தரத்தினால், அந்தத் தந்தரத்தால் ஸித்தமான வெளுப்பான விபூதியினால், நெற்றியின் நடுவில் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். விஷ்ணுவின் ஆகமத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆச்ரமத்தில் நிலைபெற்ற மனிதன், ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை த்ரிசூலமாகவாவது, சதுரமாகவாவது, ம்ருத்திகையினால் நெற்றியில் எப்பொழுதும் தரிக்க வேண்டும். ப்ரம்ஹாவினால் சொல்லப்பட்ட ஆச்ரமத்தில் நிலைபெற்ற மனிதன், அந்த ஆகமத்திற் சொல்லப்பட்ட மந்தரத்தால், வெளுத்த பஸ்மத்தினாலாவது, ம்ருத்தினாலாவது, சந்தனத்தினாலாவது வர்த்துளமான புண்ட்ரத்தை நெற்றியில் தரிக்க வேண்டும்.

කැමේඳපි – එවිටිගිමෙශු නිෂ්ඨානාන් එම්බොලිජ්මනුත්මම්। සිතෙන මස්මනා කාර්ය ලලාටේ ඡ ත්‍රිපුණුදුකම්। යස්තු නාරායණ දේව ප්‍රපන්: පරම පදම්। දාරයෙත් සර්වදා ඩූල් ලලාටේ ගන්ධවාරිණා ॥ ප්‍රපන් යේ ප්‍රගඛ්ඩීජ් බ්‍රහ්මාණ පරමේශිනම් । තෙෂා ලලාටේ තිලක දාරණීය තු සර්වදා ॥ ඉදුරුපුණදු ත්‍රිෂූල් ඡ වර්තුල් තාර්ථිචන්දුකම් । තන්වනිභේන දාර්ය් ස්‍යාන් දාර්ය් තැදිකැජීන්: ඇති ॥ ත්‍රිෂූලරුපමුදුරුපදුමිත්‍රිය්: ॥

කෙසළර්මත්තිලුම්:- සිවාකර්මන්ක්‍රිල්, නිශ්චීලපෙර්හර්වරක්කු, සිවනීන් සින්හුමාන සිර්න්ත තරිපුණ්ටරම්, බෙවගුත්තපස්මත්තාල් නෙර්හ්‍රියිල් තරික්කප්පත චෙවන්ගුම්. ගවන්, නාරායණ තේවනීනප පරමසරණමාය අභ්‍යන්තර තෙශෙනු අවන් නප්පෙපාමුතුම් සන්තනත්තාල්, නෙර්හ්‍රියිල් කුළත්තෙත් තරික්ක චෙවන්ගුම්. ඇකත්කාරණමාන පර්බහ්මාවෙ ගවර් අභ්‍යන්ත්‍රුලාවරෝ, අවර්කණ් නෙර්හ්‍රියිල් තිළකත්තෙ නප්පෙපාමුතුම් තරික්ක චෙවන්ගුම්. තරිකුළුපමාන ජ්‍යෙර්ත්ව පුණ්ටරමුම්, වර්ත්තුලා පුණ්ටරමුම්, අර්තත සන්තර පුණ්ටරමුම්, තන්තර නිශ්චිතුල් තරික්කත් තකුන්තවෙයන්ත්, චෙවත් ක්‍රිජ්ඩාන් ඇන්ංක්‍රාල් තරික්කත් තකුන්තවෙ අව්ල්.

පාඨරාत්‍රේ බහාවතොක්ම – එකාන්තිනො මහාභාගා මත්ස්වරුප- විධොඩ්මලා: । සාන්තරාලානු ප්‍රකුර්විනු ප්‍රුණුදානු මමපදාකුතීනු । පරමැකාන්තිනොඩපෘවේ මතපාදිකපරායණා: । හරිදාචුරුස්‍යුක්තානු ඩූලාකාරාස්තු නිර්මලානු ॥ අන෍යේ තු වැදිකා: ප්‍රුණුදාන්චිඛානපි බහිත: । ප්‍රකුර්විනු දීපලිජ්වෙණුපත්‍රොපමා-කුතීනු ॥ අචිඛානු බාධා සචිඛානුකුරු: කෙවලවැශ්‍යවා: । අචිඛාකරණ තෙෂා ප්‍රත්‍යවායෝ න විධාතේ ॥ එකාන්තිනා ප්‍රපන්නා පරමැකාන්තිනාමපි । අචිඛාකරණ තෙෂා ප්‍රත්‍යවායෝ මහානු බවෙත් ॥ පවිත්‍රාණි ගදාජාදිශභ්‍රාකාදික් තත්‍ය । දාරයන් පෙහැන් තෙශා ප්‍රත්‍යවායෝ මහානු බවෙත් ॥ පවිත්‍රාණි ගදාජාදිශභ්‍රාකාදිම්: ॥

पाञ्चरात्नीरत्तीलं पकवाणुलं शेषाल्लप्पट्टत्तुः-
एकान्तिकग्रुम्, महापाकर्कग्रुम्, एनं संवर्णपत्तते
अन्तिन्तवरुम्, निर्मलग्रुमानवर्कण्ठ, एनतु पातमं
पोन्नरत्तुम्, नदुविलं चित्तरमुलावेकग्रुमान
पुण्टरंकणात् तरीक्क वेण्णुम्. एनं पाततत्तत्तये
चरणमत्तेन्तुलापरमेकान्तिकग्रुम्, इवंवितमेकुलमं
पोन्नरत्तुम्, मन्त्रकणं कुर्णत्तुटनं कुटियतुमान
पुण्टरंकणात् तरीक्क वेण्णुम्. मर्त्र वेवतिकर्कण
पक्तियुटनं, त्रिपम्, लिङ्कम्, मुञ्किलिं इलै इव
पोन्नर आकारमुत्तेयतुम्, चित्तरमं इल्लाततुमान
पुण्टरंकणात् तरीक्क वेण्णुम्. केवल वेवंज्ञवर्कण,
अस्त्रित्तरंकणात् तरीक्कलाम्. अस्त्रित्तरमायं तरीत्ततालुम्
अवर्कणकुत्त तेऽश्विलैल. एकान्तिकणान
प्ररपन्नरुक्कुम्, परमेकान्तिकणकुम् अस्त्रित्तर
पुण्टरतारणत्तिलं महारोतेऽश्वम् उन्नटाकुम्.
पवित्तरमान वल्लुक्कणायुम्, कत्त, पत्तमम्, संकम्, कर्मम्
मुत्तवियत्तयुम् तरीप्पवन्यमकिंकरर्म मुत्तवियवर्कणाल
छुरुकालुम् वरुत्तप्पत माट्टाण.

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो नारी तथेतरः । चक्रादैरङ्गेद्वात्र-
मात्मनः परया मुदा ॥ अनिष्टानां निवृत्यर्थं मैकान्त्याय जगत्पत्तौ ।
सिद्ध्यर्थं कर्मणां चैव धार्यचक्रादिलाज्ञनम् । विष्णोरायतनाश्रौ वा
गुरोरात्मन एव वा । हुते होमे ततस्तसैः स्वरूपारचितैः क्रमात् ।
चक्राम्बुजगदाशार्ज्ज खड्गैर्मन्त्रेण दाहयेत् ॥ अङ्गितः शङ्खचक्राम्ब्यां
सर्वैरङ्गित एव वा ॥ शङ्खचक्रं प्रधानं हि सर्वमन्यद्वादिकम् । अश्रीषोमौ
हि चक्राङ्गे सर्व एव तदात्मकाः ॥ दक्षिणे तु भुजे विप्रो बिभूयाद्वै
सुदर्शनम् । सव्ये तु शङ्खं बिभूया दिति ब्रह्मविदो विदुः इति ॥

प्रराम्भैरण्ण, कृत्तरीयण्ण, वेवच्यण्ण, कुत्तरण्ण, संत्तरी
मर्त्रवन्न एवाण्णयिनुम्, कर्मम् मुत्तवियत्तालं तनतु
अन्कत्तत्त मिक मकिप्पंसियुटनं कुटिकेकाण्ण वेण्णुम्.

அநிஷ்டங்கள் நிவ்ருத்திப்பதற்கும், ஐகத்பதியான விஷ்ணுவினிடம் ஜகாந்தயம் ஸித்திப்பதற்கும், கர்மங்கள் ஸித்திப்பதற்கும் சக்ராதிகளால் அங்கனத்தை அவச்யம் தரிக்க வேண்டும். விஷ்ணுவின் ஆலயாக்னியிலாவது, குருவின் அக்னியிலாவது, தனது அக்னியிலாவது, ஹோமம் செய்த பிறகு, அதில் காய்ச்சப்பட்டதும், அததின் ஸ்வரூபங்களுடன் செய்யப்பட்டதுமான சக்ரம், பத்மம், கதை, சார்ங்கம், கட்கம் இவைகளால், மந்த்ரத்தால், க்ரமமாய் சூடிக்கொள்ள வேண்டும். சங்கம் சக்ரம் இவைகளால் மட்டும் சூடப்படலாம். அல்லது எல்லாவற்றையும் சூடப்படலாம். சங்கமும் சக்ரமும் ப்ரதானமாகும். மற்ற கதை முதலியது கொண்மாகும். சக்ரமும் சங்கமும் அக்னீஷாமர்களாம், மற்றவைகள் அவர்களின் ஸ்வரூபங்களே. ப்ராம்ஹணன் வலது கையில் சக்ரத்தை தரிக்க வேண்டும். இடதுகையில் சங்கத்தை தரிக்க வேண்டும் என்று வேதம் அறிந்தவர்கள் சொல்கின்றனர்' என்று.

எவं ச पाञ्चरात्राद्यागमविहितं शङ्खचक्राद्यक्षनसहितमूर्धपुण्डं
वेदानधिकृतस्त्रीशूदूद्विजबन्धुविषयं वेदितव्यम् । तेषामेव
ह्यैदिककर्मस्वधिकारः । तथा च, भारते – स्त्रीशूदूद्विजबन्धूनां त्रयी
न श्रुतिगोचरा इति ॥ । मनुरपि – वेदश्च वेदमूलानि स्मृत्यादीन्य-
खिलानि च । स्वतः प्राप्तानि मत्यनां भ्रमादन्यानि सर्वशः ॥ मार्गो
वेदविरुद्धो यः स तु सत्यं तपोधनाः ॥ वेदप्रस्खलितस्यैव न प्रोक्तो
ैदिकस्य तु इति ॥

இவ்விதம் இருப்பதால், பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஆகமங்களால் விதிக்கப்பட்டள்ளது, சங்க சக்ராதி அங்கனத்துடன் கூடிய ஊர்த்து புண்ட்ரமானது, வேதத்தில் அதிகாரம் இல்லாத ஸ்த்ரீ, சூத்ரன், ப்ரம்ஹபந்து (இழிவான ப்ராம்ஹணன்) இவர்களைப் பற்றியது என்று அறியத்தகுந்தது. அவர்கட்டுத்தான் அவைதிக கர்மங்களில்

अतिकारम्. अव्यवित्तमेऽपारात्मनीलः- संतर्गेकर्ण, कुत्तरार्कर्ण, प्रर्मलूपन्तुक्कर्ण इवर्कर्ण शुन्नरु वेतन्नक्लैयम् केट्पतर्नकु अर्मलूरल्लर्स. मनुवृमः- वेतमुम्, वेतत्तत्त शुलमायुष्टय शकलमाण स्मरुति मुतवियवैयुम्, स्वयमाकवे प्रराप्तन्कर्ण. मर्न्नवैयलाम् मनीतारीन् प्रमत्ताल् प्रराप्तन्कर्ण. इ मुनिवर्कर्णो! वेतविरुत्तमाण मार्कक मेतुवेवा अतु, वेतत्तिनीन्नरुम् नमुवियवन्नुक्केके (अति ल् अतिकारमिल्लातवन्नुक्केके) शोल्लप्पट्टुंलातु. वैवत्तिकनुक्कुच शोल्लप्पट्टवील्लै.

न च 'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो नारी तथेतरः । चक्राद्यैरङ्ग्येदात्रमात्मनः परयामुदा' इति ब्राह्मणादीनधिकृत्य भगवतोक्तं शङ्खचक्रादिधारणं कथं स्त्रीशूद्रादिविषयमिति वाच्यम्, मोहनायैव तन्त्रस्य प्रवर्तितत्वात् । तथा च, पाद्मे हरिः - एष मोहं सृजाम्यात् यो जनान् मोहयिष्यति । त्वं च रुद्र महाबाहो मोहशास्राणि कारय ॥ अतथानि च तथानि दर्शयित्वा फलानि तु इति ॥ कूर्मपुराणे च - तस्मात् वेदबाह्यानां रक्षणार्थयि पापिनाम् । विमोहनानि शास्राणि करिष्यावो वृषध्वज ॥ एवं संचोदितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा । चकार मोहशास्राणि केज्ञावोऽपि शिवेरितः ॥ कापालं काकुलं वार्म भैरवं पूर्वपञ्चिमम् । पाञ्चरात्रं च कौलं च तथाऽन्यानि सहस्रशः इति ॥

"प्रराम्लूपन्नन्न, कृत्तरीयन्न, वैवस्यन्न, कुत्तरन्न, संतर्गी, मर्न्न मनीतन्न इवर्कर्ण, सक्तरम् मुतवियताल् तेऽलूत्तत्त अन्नकन्नम् शेय्तु शोल्लै वेण्टुम्. मिक लन्न तेऽवृत्ततुटन्न एन्नरु प्रराम्लूपन्नन्न मुतवियवरे अतिकरीत्तु, पकवान्नुल् शोल्लप्पट्टुंला संकक्कराति तारणमाणतु संतर्गी कुत्तराति वीष्यम् एन्नरु एप्पटियाकुम्" एन्नरुम् शोल्लकं कूटातु. तन्तर शोल्लत्तरम् मेंोलूपन्नत्तिर्का कवे प्ररवंरुत्ति शेय्यप्पट्ट

தானதால். அவ்விதமே, பாத்மத்தில் ஹரி:- இதோ நான், ஜனங்களை மயக்கச் செய்யும் மோஹசாஸ்த்ரத்தை ஸ்ருஞ்சிக்கின்றேன். ஒ ருத்ரரே! நீரும் மோஹ சாஸ்த்ரங்களைச் செய்யும். பொய்யானதும், உண்மையானதுமான பலன்களைச் காண்பிவித்துச் செய்யும். கூர்ம புராணத்திலும்:- வேதத்தில் அதிகாரம் இல்லாத பாபிகளை ரக்ஷிப்பதற்காக மோஹகரங்களான சாஸ்த்ரங்களைச் செய்வோம். ஒ வ்ருஷ்பத்வஜரே! என்றிவ்விதம் முராரியான மாதவனால் ஏவப்பட்ட ருத்ரன் மோஹசாஸ்த்ரங்களைச் செய்தார். சிவனால் ஏவப்பட்ட கேசவனும், காபாலம், காகுளம், வாமம், பூர்வபைரவம், பச்சிமபைரவம், பாஞ்சராத்ரம், கெளாலம் இவைகளையும், மற்ற அனேகக் கணக்காகச் சாஸ்த்ரங்களையும் செய்தார்.

भागवतेऽपि – त्रिवक्राया उपश्लोकः पुनः कृष्णमनुव्रतः ।
शिष्यः साक्षान्नारदस्य दधौ व्रतमखण्डितम् ॥ तेनोक्तं सात्वतं तन्त्रं
यतज्ञात्वा भक्तिमान् भवेत् । यत्र स्त्रीशूद्रदासानां संस्कारो वैष्णवः
स्मृतः इति ॥ वासिष्ठलैङ्घेऽपि – ततो विष्णोः प्रसादेन वेदमार्गाति
वर्तिनाम् । शाण्डिल्यः संहितां चक्रे वैष्णवीं महर्तीं मुने ॥ तस्यां
चक्रमुने दीक्षां पाषण्डाः पापयोनयः इति ॥ कौर्मे शिवः – अन्यानि
चैव शाखाणि लोकेऽस्मिन् मोहनाय वै । वेदवादविरुद्धानि मयैव
कथितानि तु ॥ वामं पाशुपतं कालं लागుङ் चैव भैரवम् । न सेव्यमेतत्
कथितं वेदबाह्यं तथेतरत् इति ॥

பாகவதத்திலும்:- த்ரிவக்ரையின் இடத்தில் பிறந்த க்ருஷ்ணனின் புத்ரன், க்ருஷ்ண பக்தியுள்ளவன், உபச்லோகன், நாரதருக்கு நேரே சிஷ்யனாகியவன். அவன் பூர்ணமாய் வரதத்தைத் தரித்தான். அவனால் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸாத்வத தந்த்ரம், அதை அறிந்தால் சிறந்த பக்தியுடைவனும் ஆவான். அதில், ஸ்தரீ, சூத்ரன், தாஸன் இவர்கட்கும், வைஷ்ணவமான ஸம்ஸ்காரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. வாஸிஷ்டைலங்கத்திலும்:- ஒ

मुणे! प्रिहु कु वीष्णुवीनं अनुकूलूत्तत्त्वालं, वेत्तमार्ककृत्तते अतिकृमित्तवर्कंकु, बेपरीतानि वैवश्चन्नवस्मृत्युत्तयेष्यस्तो चौष्टिल्यर्च चेयत्तार्च. प्राप्येयान्तिकानि प्राष्टन्नंटर्कालं अतिलं त्तिकृष्टयेष्यस्तो चेयत्तु केकाण्टन्नर्च. केकार्मत्तत्तिलं, चीवंः- वेत्त वीरुत्तत्तन्कानि मर्त्तर्च सास्त्रर्नक्तगुम्, इवंवृलकृत्तत्तिलं मेंोहून्त्तिर्काक एन्नगुलेये चेल्लप्पट्टुंकानि. वामम्, प्रासुपत्तम्, कालम्, लाकुन्नाम्, बेपरवम् इवेययुम् वेत्तत्तिर्कु वेवनीयिलुंका मर्त्तवैयुम् लेवीकृत्तत्तुंकुन्तत्तलंल.

तत्रैव – अथैवं सात्त्वतो नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्। महात्मा दाननिरतो धनुर्वेदविदां वरः ॥ स नारदस्य वचनाद्वासुदेवार्चने रतः । शास्त्रं प्रवर्त्यामास कुण्डगोलादिभिः श्रितम् ॥ तस्य नामा तु विष्ण्यातं सात्त्वतं नाम शोभनम् । प्रवर्त्तते महाशास्त्रं कुण्डादीनां हितावहम् ॥ इति ॥ सूतसंहितायाम् – श्रेयान् वेदोदितो धर्मः परधर्मो भयावहः । वेदं वेदेतरं मार्गं समं पश्यन् भवोदधौ ॥ निमग्नः सर्वदा मर्त्यो भवेनात्र विचारणा' इति ॥

केकार्मत्तत्तिलेये:- प्रिहु इववीतम्, लात्तवैतन्नं एन्नुम् वीष्णुपक्त्तन्न, प्ररत्तापम् उत्तेयवन्नुम्, महूरात्तमावा॒युम्, तानि छिल्लयुम्, तन्नुर् वेत्तम् अर्निन्तत्तवरुंकु चिरन्तत्तवन्नयुम् इरुन्तत्तानि. अवन्नं नारतरीनि वाक्यत्तत्तालं वीष्णुपूज्जयीलं आ॒सक्त्तन्नयै इरुन्तत्तानि. अवन्नं, कुण्टन्नं केकाण्टन्नं मुत्तवियवरालं लेवीकृकप्पट्ट सास्त्रर्नकृत्तते प्रवर्त्तत्तिकृक्षं चेयत्तानि. कुण्टन्नं मुत्तवियवर्कंकु नन्ममये अ॒सीक्कुम् चूपमानि महूरासास्त्रर्नम् अवन्नुत्तेय बेपयरीलेये लात्तवैतम् एन्नर्नु प्ररसीत्तमाय्य प्ररवर्त्तत्तित्तत्तुकं केकाण्टिरुक्किरतु. ल॒उत्तस्मृत्युत्तयिलः- वेत्तत्तत्तिलं चेल्लवीय तर्मम् चिरन्तत्तत्ताकुम्. मर्त्तत्तिलं चेल्लवीयतु प्रयत्ततेतत्त तरुवत्ताकुम्. वेत्तमार्ककृत्तत्तयुम्, मर्त्तमार्ककृत्तत्तयुम्

සෙම්මාය්ප පාර්ප්පවන්, සෙම්සාර සෙමුත්රත්ත්තිල් ගප්පොමුතුම මුමුණියවගුකොට තිරුප්පොන්. තිත්තිල් සෙම්සයප්පත බෙන්නාම්.

මානවේ තු - අත්‍ය බෙදා බෙදාන්තාස්තන්මූලාන්‍යකිලානි තු । දාරණීයානි සංශ්‍යාධියැත්‍යාන්‍යෙව පරාණි තු ॥ ඇතොත්‍යානි තු ජාක්‍රාණි ලොකේත්ස්මින්‍යානි කානි තු । න තෙශු රමතේ දිරි: පාශණ්දො රමතේ යදි ඇති । තත්‍රෑව - බ්‍රාහ්මණීෂ්‍ය ප්‍රාර්ථනා සර්ව්‍යානි ගැනීම් තු । විචාර්‍ය කාර්‍ය සම්බුද්‍ය ස්වදෙශාගමනොයිතැ: ॥ ගැර්හා ගැතමෙනෙති නිර්ඝ්‍රානී: ප්‍රාර්ථනා ප්‍රාර්ථනා: ॥ කුතො මිත්‍යාමිශාපස්තු මහාමොහවුෂෙන තු ॥ තච්චුත්වා ස මුනි: ත්‍රීමාන්‍ය ගැතම් බ්‍රාහ්මණීෂ්‍ය: । මහාක්‍රොධෙන සංයුත්‍ය: ජාතාප බ්‍රාහ්මණාධමාන්‍ය ॥ යද්‍යත්තු රුද්‍රසම්බන්ධ තත්‍ර තත්‍රාපි දුර්ජනා: । බවතානුන්මූකා යුත් සර්වධාරා බ්‍රාහ්මණාධමා: ॥ ස්වාධ්‍යායේ තු පැහැ තැව තත්‍ර ප්‍රත්‍රිච්නේත්පි තු । බවතානුන්මූකා යුත් සර්වධාරා බ්‍රාහ්මණාධමා: ॥ ජාත්‍යාචක්‍රගාදාපඛද්‍ය-දැඩපාජාක්‍රාභාදිමි: । අක්ෂිතා: ත්‍රේද්‍යා යුත් බවත බ්‍රාහ්මණාධමා: । බැඳු තැව තත්‍රාපි ප්‍රාර්ථනා: । ජාත්‍යාචක්‍රාක්ෂිත යුත් බවත බ්‍රාහ්මණාධමා: ॥ පාශණ්දෙශු තත්‍රත්‍යාන්‍යෙශු මාර්ග්‍යාෂ්‍රැත්කෙශු තු । ත්‍රේද්‍යා දීක්ෂිත යුත් බවත බ්‍රාහ්මණාධමා: ॥ වර්ත්‍ලාජ්‍යත්ථපත්‍රාද්‍ර්‍ය-චන්ද්‍රුලාදිලිජින්: । බවත ත්‍රේද්‍යා සාර්ථක ලෙස බ්‍රාහ්මණාධමා: ॥ අජ්‍යත්ථපත්‍රාදිලිජි - බැඳු: । පාංචරාත්‍රේ තැව කාපාල තත්‍ර කාලමුක්‍රාද්‍ර්‍ය තු । ජාත්‍යාචක්‍රාක්ෂිත යුත් බවත බ්‍රාහ්මණාධමා: ඇති ॥

මානවත්ත්ත්වුම්:- ආභ්‍යාල, වෙතන්කள්, වෙතාන්තන්කාල, වෙත මුළුන්කාලන මර්‍රවෙව තිශ්වකැඳීයෙ සත්ත්තිකකාක ග්‍ර්‍ය වෙන්ගුම්. මර්‍රවෙව බිලක්කත් තත්ත්වවකොළ. තිශ්වකැඳීත් තබාර්තතු, ඉලක්කාල පාල්ත්‍රන්කාලීල් ප්‍රත්තිමාන් පර්ක්කප්පත මාට්ටාන්. පර්ක්කප්පතාල් අවන් පාඩන්නාන්.

माणवत्तीलेयोः- मुर्न्कालत्तील, केळतमरालं नन्कु रक्षिक्कप्पट्ट प्राम्हणर्कं ऎल्लेगुरुम् ओन्ऱु चेर्न्तु ओरु कार्यत्तेत निच्चयित्तु, तंकं तेचत्तिन्त्कुप् पोवत्तर्कु मुयर्चियुं लवराय, महा मेमाहृत्तिन्त्कु वसमायिनर. करुज्जेयर्ह इम्हिवाण मनीतराण अवर्कं 'केळतमरालं पक्स केल्लप्पट्टतु' एन्ऱु बेपाय्याण अपवात्ततेच समत्तिनर. प्ररम्हृज्जुनीक्कुं शिरन्त्वराण अन्तक्क केळतममुनी अतेक्केकेट्टु, महा कोपत्तुटं अन्त प्राम्हृज्जुतमर्क्कौप पिंवरुमारु चपित्तार. ““ओ तुर्ज्जुनंक्कौ ! प्राम्हृज्जुतमर्कौ ! चिवलम्पन्त्तमाण एन्तेतन्तक्क कर्मन्कौलुम् वेतात्ययन्त्तिलुम्, ज्ञपत्तिलुम्, अत्यापन्त्तिलुम्, चरुति लम्रुति पुराणन्क्कौलं चेल्लप्पट्ट एल्ला अर्तत्तन्कौलुम्, नेऽक्कमर्हवरावर. चंकम, चक्रम, कतेत, पत्तमम्, तंटम, पाचम, अन्कुचम् मुतवियवयालं, चर्ततेत्युटं अन्कनाम् चेय्तु केळांपरावीर. बेलत्तम, और्हृतम, पाचपतम, चाम्पवम् इववकौल त्तिक्कौ बेन्हवीर. पाषण्ट मार्क्कन्कौलुम्, चर्ततेत्युटं त्तिक्कौ बेन्हवीर. वर्ततुणम, अरचिन् इलै, अर्तत चन्तरम, कुलम्पेओन्ऱ तुर्निकौ नेन्हरीयिल चर्ततेत्युटं तरीत्तवरावीर. (अरचिन् इलैपोाण तुर्नियुं लवनं बेलत्ततन.) पाञ्चरात्तरम, कापालम, कालमुकम, चाक्तम, इन्तत तन्तरंकौल त्तिक्कौ बेन्हवीर” एन्ऱु

तन्त्रेऽधिकारी निरूपितः पाराशर्ये - श्रुतिमष्टः स्मृतिप्रोक्तप्रायश्चित्ते भयं गतः । क्रमेण श्रुतिसिद्ध्यर्थं मनुष्यस्तन्त्रमाश्रयेत् ॥ तन्त्राणि तन्त्रनिष्ठानं रक्षकाण्यपि च क्रमात् । बाधकानि विशेषेण वेदमार्गैक्वर्तिनाम् इति ॥ मानवे च - वेदप्रस्खलितो मत्योवेदोक्तेनैव वर्त्मना । प्रायश्चित्तेऽबुधो भीतः विरुद्धं मार्गमाश्रयेत् ॥ मार्गो वेदविरुद्धो यः सोऽपि कालेन देहिनाम् ।

தத்நமார்மிமானிந்ய ஦ேவதாயா: ப்ரஸாத: ॥ ஹது: ஸ்யாஷ்வேதமார்஗ஸ்ய
ப்ராஸயே ந நிர்ர்஥க: இதி ॥

தந்த்ரத்தில் அதிகாரி சொல்லப்பட்டுள்ளான், பாராசர்யத்தில்:- வேதத்தினினின்றும் நழுவியவனும், ஸ்ம்ருதியிற் சொல்லப்பட்ட ப்ராயச்சித்தத்தில் பயமுடைந்தவனுமான மனிதன், க்ரமமாய் வேதத்தில் அதிகாரம் வித்திப்பதற்காகத் தந்த்ரத்தை ஆச்சரியிக்க வேண்டும். தந்த்ரங்கள், தந்த்ர மார்க்கத்தை அனுஸரித்தவர்களை க்ரமமாய் ரக்ஷிக்கின்றன. வேதமார்க்கத்திலேயே இருப்பவருக்கு விசேஷமாய்ப் பாதையைச் செய்யும். மானவத்திலும்:- வேதமார்க்கத்தினின்றும் நழுவிய அறியாத மனிதன், வேதோக்தமான வழியால் ப்ராயச்சித்தத்தில் பயத்தால் வேதவிருத்தமான மார்க்கத்தை ஆச்சரியிப்பான். வேதவிருத்தமான மார்க்கமும், காலக்ரமத்தால் அந்தந்த மார்க்கங்களில் அபிமானமுள்ள தேவதையின் அனுக்ரஹத்தால், மனிதர்கள் வேதமார்க்கத்தை அடைவதற்குக் காரணமாகும். வீணைய் ஆவதில்லை.

கௌரோபி - ஸுஷ்வா தாநூசதுரைவை குர்ணிஅஸ்தந்த்ராதிதம் । பதந்தோ நிரயே ஘ோரே வகூந்தான்யுன: புன: ॥ ஜாயந்தோ மாநுஷே லோகே க்ஷிணபாப்சயாஸ்தத: । ஈஶ்வராராதநவலாத் தமிழ்யத ஸதாங்கதிமூர்தி ॥ ஸ்காந்஦ே - அத்யந்தஸ்஖லிதாநாந்து பிராணிநாங்கேதமார்஗த: । பாஞ்சராத்ராத்ரோ மார்஗: காலேநைவோபகாரகா: ॥ ஶங்கங்காநாந்து நாந்யதேஹிநாம் । ஦ிக்ஷிதாநாந்து தந்தேஷு நராணமக்ஞந் ப்ரஜா: ॥ உபகாரகமேநோக்க க்ரமேண முனிபுஜ்வா: । ஬ா஧கந்து விஶேஷண வேதமார்஗ைக்கர்த்திநாம் ॥

கெளார்மத்திலும்:- அந்தத் தேவரிருவரும் தந்த்ர மார்க்கங்களை ஸ்ருஷ்டித்து, தந்த்ரத்தில் சொல்லியதை அனுஷ்டிக்குமவர்களை நோக்கிக் கூறினர் நீந்தகள் வெகுகாலம் நரகங்களை அடிக்கடி அடைந்து,

पा पांक बेलारामं कुरैरन्त धीरंगु, मणीत लेलोकत्तिलं प्रिरंन्तु, संचवरैना आराति॒त्तु, अथं पलत्त॒ता॒लं पुण्यं लेलोकन्कैला अटैवैर्कौं एन्ऱू. षंकान्तत्त॒ती॒लः - वेतमार्कक॒त्ति॒नी॒न्ऱूम् अ॒ति॒कमा॒य नमुवि॒य मणीतर्क॒रुक्कु, पा॒र्ङ्ग॒सरा॒त्तराम् मृत॒वि॒य मा॒र्कक॒न्कौं कौल॒कर्मत्त॒ता॒लं उपकौरक॒न्कौं आ॒कुम्. संकमं सक॒रमं कैतै मृत॒वि॒यवैवकौलं अ॒न्कौंमं चै॒य्तु कौ॒लंवतु, मृत्तै मणीतर्क॒रुक्कु वि॒लृत॒मूलै. तन्तैरन्कौंलै तैकौं बे॒प्रैरवैर्क॒टकै वि॒लृत॒म्. अ॒तु कौल॒कर्मत्त॒ता॒लं उपकौरक॒मे आ॒कुम्. ओ मूलिवैर्कौं! वेतमार्कक॒त्तैत्तैयै आ॒क्षरयि॒त्तवैर्क॒कु मिक॒वुमं पा॒तक॒मेया॒कुम्.

विष्णुस्मृतौ - शङ्खचक्राद्यङ्कनं च नृत्तगीतादिकं तथा । एकजातेरयं धर्मो न द्विजाते: कथञ्चन ॥ यस्तु सन्तस शङ्खादिलिङ्गचिह्नतनुद्विजः । स सर्वयातनाभोगी चण्डालः कोटिजन्मसु ॥ चक्राङ्किततनुर्वाऽपि तथा लिङ्गाङ्कितोऽपि वा । नाधिकारी स विज्ञेयः श्रौतस्मार्तेषु कर्मसु इति ॥ गोभिलोऽपि - श्रौतस्मार्तक्रियो विप्रो नाङ्कयेदङ्गमङ्कैः । अपि विष्वादिसम्बन्धैस्तसैर्वा पतितो भवेत् ॥ अज्ञानादथवा लोभाद्वागतो वा सुदर्शनम् । धत्ते कुलघ्नं तं दृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥ भुजाग्रे सलिलैैव विलिखेद्यः सुदर्शनम् । वेदाग्निज्ञानवान् सोऽपि दहत्याससमं कुलम् ॥ शङ्खं चक्रं च पद्मं च यो मूढो धारयेत्तनौ । पाषण्डः स हि विज्ञेयः सर्वकर्मविष्कृतः इति ॥

विष्णुस्मृतौ - संकमं सक॒रमं मृत॒वि॒यवैवकौलं अ॒न्कौंमं चै॒य्तु कौ॒लंवतु, पा॒र्ङ्ग॒सरा॒त्तराम् मृत॒वि॒यतुम् एकजौति॒क्कु (कुत्तैरनुक्कु) तैर्तर्ममेयलैवातु तैविज्ञुनुक्कु (मृत्तै मू॒न्ऱू वैर्णन्तत्ता॒रुक्कु) ओरुकौलुम् तर्ममूलै. एवं काय्चिच्चप॒पट्ट संकमं मृत॒वि॒यता॒लं अटैया॒लामूलौं सर्वै

முடையவனே அவன் ஸகல நரக பாதைகளையும் அடைவான், கோடி ஜன்மங்களில் சண்டாளனும் பிறப்பான். சக்ரத்தால் அடையாளம் இடப்பட்ட சரீரம் முடையவனையினும், விங்கத்தால் அங்கித சரீரம் உடையவனையினும், ச்ரெளத ஸ்மார்த்த கர்மங்களில் அதிகாரியல்லவென்று அறியத்தகுந்தவன். கோபிலரும்:- ச்ரெளத ஸ்மார்த்த க்ரியைகளை அனுஷ்டிக்கும் ப்ராம்ஹணன், விஷ்ணு முதலிய தேவதாயுதங்களான சின்னங்களால் சரீரத்தில் அடையாளம் இடக்கூடாது. காய்ச்சிய ஆயுதங்களாலும் சூடிக் கொள்ளக் கூடாது. அவ்விதம் செய்தால் பதிதனைய் ஆவான். எவன், அக்ஞானத் தாலாவது, லோபத்தாலாவது, ராகத்தாலாவது, சக்ரத்தைத் தரிக்கின்றன மேலே, குலத்தைக் கொல்லும் அவனைப் பார்த்தால் ஸ்ரேவ ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். எவன், தோளில் ஜலத்தினுலாவது சக்ரத்தை எழுதுகின்றன மேலே, அவன் வேதம், அக்னிகள், ப்ரம்ஹக்ஞானம் இவைகளை உடையவனையினும் ஏழு குலங்களைத் தலுப்பான். எவன் சங்கம், சக்ரம், பத்மம் இவைகளைச் சரீரத்தில் தரிக்கின்றன மேலே, அவன் பாஷண்டன், ஸர்வகர்மங்களுக்கும் அனர்ஹன் என்று அறியப்பட வேண்டும்.

ஶதாதப: - அஜேஷு நாக்யேதிப்ர: ஦ேவதாயு஧லாஞ்சனை: । அக்கியேதெடி வா மோஹாத் பதத்வே ந ஸ்தாய: । யமோதிபி - நாக்யேந ஦ஹோந் ஦ேவதாயு஧லாஞ்சனை; । ஦ஹால்லேக்நா திப்ர: பாதித்ய யாதி தத்திக்ஷணாத् இதி ॥ ॥ ஬ோधாயனோதிபி - நாக்யேந ஦ஹேஹ் ஦ஹேதே காமகாரத: । நாதிக்ரியேத தா஧ாஜ: ஶ्रௌதஸ்மார்த்தே கர்மஸு இதி ॥ ॥ சக்ரோபனிஷதி - தஸ்மாஞ்சூதாணாமேவ ஶங்கங்க் திமுஜே ஧ாரயேத் இதி ॥ ॥

சாதாதுபர: - ப்ராம்ஹணன், தேவதாயுதங்களான குறிகளால் அங்கங்களில் அடையாளம் இடக்கூடாது. மோஹத்தால் அங்கனம் செய்தால் பதிதனைகவே ஆவான். ஸம்சயமில்லை. யமனும்:- ப்ராம்ஹணன் தேவாயுதங்களான குறிகளால், எழுதக்கூடாது.

कुटक्कूटातु. इव्विरण्णेटयुम् चेय्ताल, उत्तेन प्रतिताणीकिरुन्. पोतायनारुमः:- तेहृत्तिल एमुतक्कूटातु, कुटक्कूटातु. कुट्य तेहृम उत्तेयवन्संचरेण त समार्त्त कर्मन्कलील अतिकारी आकाण. संकरोपनीषत्तिलः:- इरण्णु पूज्ञकलीलुम् संकक्षकरंगकलीत्तरीप्पतु एन्पतु कुत्र वीष्यम्.

स्मृतिरत्ने - भूदेवस्तसमुद्राभिश्चिह्नं कृत्वा विमूढधीः । इह जन्मनि शूद्रः स्यात् प्रेत्य च श्वा भविष्यति इति ॥ स्मृत्यन्तरे - यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन् विविधानि तु । श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ शङ्खं चक्रं मृदा यस्तु कुर्यात्तसायसेन वा । स शूद्रवद्विष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ यथा इमशानगं काष्ठमनर्ह सर्वकर्मसु । तथा चक्राङ्कितो विप्रो ह्यनर्हः सर्वकर्मसु इति ॥ ब्राह्मपुराणे - तस्मुद्रा त्वन्त्यजाय हरिणा निर्मिता पुरा । गोपीचन्दन-संलिपफलकाऽप्यन्त्यजातयै इति ॥

संमंगुरुतीरत्तनात्तिलः:- श्रुतेन प्रराम्भौ ज्ञानं तप्तमुत्तरेकलाल अंकनम् चेय्तु केण्णेटाल इन्त ज्ञानमत्तिलेये कुत्रणेवान्. मरुज्ञानमत्तिल नायाय्प यित्रप्पान्. मन्त्रिरुरु संमंगुरुतीयिलः:- इव्वलकत्तिल पलवितमाण सांत्तरंगकल, संगुरुतीकंकुमं संमंगुरुतीकंकुमं विरुत्तंतंगकलाय इरुक्किन्ऱन, अवैकलीनं मुष्टिवृत्तमेवाकुणत्तेत्तर्च सेवन्तत्तु. मण्णेणिलोवतु, कायंक्षिय इरुम्पिणेलोवतु संगकम, संकरम इवैकली एवन्संतरीक्किन्ऱ्गुणेऽवैन प्रराम्भौ ज्ञानरुक्कुरीयताण एल्लाकं कर्मन्कलीनीन्ऱुम् पलविष्करीकंकत्त तकुन्तत्वान्. शंम्चाणत्तिलुवैल कट्टेट एप्पटि लकल कर्मन्कलीलुम् योक्यतेयर्ह तेऽ अप्पटि संकरत्ताल कुटप्पट्ट प्रराम्भौ ज्ञानं लकल कर्मन्कलीलुम् अनर्हौ ज्ञानेवान्. प्रराम्भौ पुराणत्तिलः:- तप्त मुत्तरे एन्पतु अन्ति यज्ञानुक्काक वीष्णुवीनुल मुन्त्रकालत्तिल संगुष्टिकंकप पट्टतु. कोपीचन्तनत्तराल पूचप्पट्ट पलकेयुम् (नेत्रीयुम्) अवैनुक्केसंगुष्टिकंकपपट्टतु.

மானவே ச - ஆயுதை: ஶக்திச்சந்தை ஦ேஹ் கடாசன | மனுष்யாணாங் து
நாமைவ ந லி஖ேஞ்சோரஸி ஭்ரமாத் || ஦ங்஧ாஜ்ஞாயுதைர்வை: லி஖்யதே
நரநாமத: | ஶ्रௌதஸ்மார்த்தஸ்மாசாரே நாதிகாரி கடாசன || ஦ங்஧ாஜ்ஞா
லி஖ிதாஜ்ஞாஶ ந ஸ்மாஷா டிஜாதிமி: | ந ஦ிஷ்டாஷா தாந் ராஜா
தேஶாஞ்ஞாஷ் ப்ரவாஸயேத் இதி ||

மானவத்திலும்:- சங்கம், சக்ரம் முதலிய
ஆயுதங்களால் ஒருக்காலும் சூடக்கூடாது. மனிதர்களில்
பேரால் மார்பில் அக்ஞானத்தால் எழுதவும் கூடாது. சூடிய
தேஹமுடையவனும் எழுதப்பட்ட தேஹமுடையவனும்
ச்செரளத ஸ்மார்த்த கர்மங்களில் ஒருக்காலும்
அதிகாரிகள்ளல்ல. அவர்களுடன் ப்ராம்ஹணர்கள்
ஸம்பாஷிக்கக் கூடாது. அவர்களைப் பார்க்கவும் கூடாது.
அவர்களை அரசன் தேசத்தினின்றும் சீக்ரம் வெளியேற்ற
வேண்டும்.

நார்஦ியே - ஸ்வகர்மத்யாగினோ ராஜந் வேदமார்஗்஬ஹிஷ்குதா: |
அாகமான் பாஶ்வராதாடிந் விஶாந்தே நார்கா நரா: || ஶைவான் பாஶுபதாஞ்சைவ
பாஶ்வராதான் ஜனேஶ்வர | ஸ்பृஷ்டா ஸ்நாயாஜபேத் ஸுக்த உஷ்ண ஸூர்ய து பஶ்யதி ||
ஸுக்தம் - பௌருஷம் || ‘நார்஦ியே தனுஜேயா ஸவ்வைஸமாஶ்ரயா | ஸா சேத்
ஸந்தாபிதா ராஜந் கிஂ வக்ஷ்யாமி மஹைஸ: || அனிமித்த ஦ஹேஹே ய: புமாந்
வ்யாதிவர்ஜித: | ஹவ்யகவ்யாடி஦ாநேஷு த த்யஜேந்யஜ் யுதா’ இதி ||

நாரதீயத்தில்:- ஒ அரசனே! தனக்கு உசிதமான
கர்மத்தை விட்டவரும், வேத மார்க்கத்தினின்றும்
வெளியான வரும், நரகத்திற்கு அர்ஹருமான மனிதர்கள்,
பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஆகமங்களைச் சேர்கிறார்கள். ஒ
அரசனே! சைவர், பாசுபதர், பாஞ்சராத்ரர் இவர்களைத்
தொட்டால் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்,
புருஷஸுக்தத்தை ஜபிக்க வேண்டும். பார்த்தால்
ஸ்வர்யனைப் பார்க்க வேண்டும். ப்ராம்ஹணனின் சரீரம்
ஸ்வகல தேவர்களுக்கும் இருப்பிடம் என்று அறியத்தக்கது.

अतु बेपोक्कप्पट्टा॒लं, मूर्हा॒पा॒पीयि॒न् वी॒ष्यत्ति॒लं
एन्नं चौलै॒वेन्. वं॒या॒ति॒ इ॒ल्ला॒त ए॒न्त मौ॒नी॒तं
का॒रण्या॒मि॒न्नि॒, ते॒है॒त्तै॒तप्पि॒ कु॒ष्टि॒कै॒का॒लं॒गु॒कि॒रु॒ग्ने॒
अ॒वै॒न, उ॒व्य॒म्क॒व्य॒म् मू॒त्तै॒य॒ति॒न् ता॒नं॒कै॒लि॒लं
संज्ञा॒लै॒जै॒प्पे॒ पो॒लै॒वी॒लक्कै॒वेण्णु॒म.

कौर्मेऽपि - बुद्धश्रावकनिर्णन्थाः पाश्वरात्रविदो जनाः ।
कापालिकाः पाशुपताः पाषण्डा ये च तद्विधाः ॥ यस्याश्रन्ति
हर्वीष्येते दुरात्मानस्तु तापसाः । न तस्य तद्वेच्छाद्वं प्रेत्य चेह
फलप्रदम् ॥ सर्वे पुनरभोज्यान्ना अदानार्हश्च कर्मसु ।
ब्रह्मभावान्निरस्ताश्च वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ पाषण्डिनो
विकर्मस्थानिर्मर्यादांस्तथैव च । पाश्वरात्रान् पाशुपतान् बाङ्गानेणापि
नाचर्येत् इति ॥ बुद्धाः - जैनाः । निर्णन्थाः - दिग्म्बराः । श्रावकाः -
गुरुवः ॥ तत्रैव - अङ्गितो यः स्वदेशात्तं राजा श्रीध्रं प्रवासयेत् । अतीव
पतितानां हि श्वपदाद्यङ्गनं नृणाम् । विधीयते न शुद्धानां ततः शुद्धो न
चाङ्गयेत् । अध्यापने चाध्ययने श्रौतस्मार्तेषु कर्मसु ॥ संभाषणे च
सम्बन्धे नाधिकारी च लाभितः इति ॥

केळार्मत्तिलुमः:- बेलत्तर्कलै (जेज्जनार्कलै),
संरावकर्कलै, (कुरुक्कलै), तिकम्परर्कलै, पाञ्चरात्तरीकलै,
कापालिकर्कलै, पासुपतर्कलै, अवर्कलैप्पे पोलं॒र
पा॒ष्णं॒टर्कलै एन्नं॒ इ॒न्तत्तै॒ तु॒ष्टै॒र्कलै एव॒नतु॒
संरात्तत्तिलै पूजीक्किं॒रन्नरो॒ अव॒नतु॒ संरात्तमै॒, इ॒न्कु॒म
प्रलैोकै॒त्तिलै॒म् पलै॒न अ॒लीप्पता॒य आ॒वै॒ति॒लै॒ल.
इ॒वर्कलै॒ लै॒लैोरु॒म् अ॒पेऋ्या॒न्नर्कलै॒, ता॒नत्तिरु॒कु॒
अ॒र्है॒रलै॒ला॒तवरै॒, प्ररा॒म्भै॒न्यत्ति॒नि॒न्नरु॒म्
वै॒वर्कलै॒येन्नप्पट्टवरै॒. इ॒वर्कलै॒त प्ररयत्तनत्तु॒तै॒न
वी॒लक्कै॒ वै॒ण्णु॒म्. पा॒ष्णं॒टिकलै॒, तु॒ष्टै॒ कर्मत्तिलै॒
इ॒रुप्पवरै॒, कृ॒टिलै॒ला॒तवरै॒, पा॒ञ्चरात्तररै॒, पा॒सुपतरै॒
इ॒वर्कलै॒ वा॒र्तत्तै॒या॒लु॒म् पूजीक्ककै॒ कू॒टा॒तु॒.
केळार्मत्तिलैये:- एव॒न अ॒न्कि॒त ग्ने॒ अ॒वै॒न अ॒रचनै॒

தன்தேசத்தினின்றும் சீக்ரம் வெளியேற்ற வேண்டும். மிகவும் பதிதூரான மனிதர்க்கே ச்வபதம் (நாய்க்கால்) முதலியதால் அங்கனம் விதிக்கப்படுகிறது. சுத்தர்களுக்கல்ல. ஆகையால் சுத்தனுய் இருப்பவன் அங்கனம் செய்து கொள்ளக் கூடாது. வேதத்தைக் கற்பிப்பதிலும், அதை ஒதுவதிலும், ச்ரெளத ஸ்மார்த்த கர்மங்களிலும், பேசுவதிலும், ஸம்பந்தத்திலும், அங்கிதன் அதிகாரம் உள்ளவனுய் ஆகான்.

புராணாந்தரே – வேदமூலத்யா நித்யं பிரவृத்தா அபி ஸத்தமா: | காஷ்ட
காஷ்டாந்தாநுஸாரேண ஧ர்ம
பௌராணிகா அபி | வாந்தி தாஷ்டாந்தாநுஸாரேண ஧ர்ம
புராணே ஧ர்மஶாஸ்வே வா யாந்தா: ஶ्रுத்யா விரு஧்யதே | ஸ தந்தார்஥ இதி ஜேய:
ஸமாஸேன மஹர்ஷி஭ி: || யஞ் வேவிருஷ்டாந்தரே: புராணேஷ்விலேஷு ச | தாந்
ஶஸ்து பரித்யாஜ்ய: ஸர்வா ஸகலைபி இதி ||

மற்றுமொரு புராணத்தில்:- மஹாஸாதுக்களான ஸ்மிருதிகாரர்கள், வேதத்தையே மூலமாய்க் கொண்டு ப்ரவர்த்திப்பவராயினும், ஒரு ஸமயத்தில் ஒரு க்ரந்தத்தில் தந்தரத்தின் அர்த்தத்தையும் சொல்லுகின்றனர். பெளராணிகர்களும், சில இடத்தில் தந்தரத்தை அனுஸரித்து, தர்மத்தைச் சொல்லுகின்றனர். அந்தப் பாகத்தைத் தந்தரத்தை ஆச்சரியித்தவன்க்ரஹிக்க வேண்டும். புராணத்திலோ தர்ம சாஸ்தரத்திலோ எந்தப் பாகம் வேதத்துடன் விரோதிக்கின்றதோ, அது தந்தரத்தின் பொருள் என்று அறிய வேண்டும். வேதவிருத்தமான எந்த அர்த்தம் எல்லாப் புராணங்களிலும் உள்ளதோ அந்தப் பாகத்தை எல்லோரும் அவச்யம் தள்ள வேண்டும் என்றுள்ளது.

தஸ்மாத்தாஸிஷ்வதஸமுநாதிஸஹிதோ஧்வபூண்டு வைதிகைந் ஧ார்யம् ।
கேவலோ஧்வபூண்டு து உக்காநேகஶ்வுதிஸமூதிபுராணஸிஷ்வத்தாத் ஧ார்யமேவ | ந ச
தாஸா் ஶ்ருதீநாமபுராணஸிஷ்வத்தாத் ஧ார்யமேவ | ந ச தாஸா்

श्रुतीनामप्रामाण्यशङ्का - 'ऊर्ध्वपुण्ट्रंतु विप्राणां सततं श्रुतिचोदितम्। श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गेण मृदो धारणमुच्यते ॥ श्रौतं वैखानसे प्रोक्त मिति च वासिष्ठवामनपाद्मपुराणादिषु तदुपबृंहणात् । ऊर्ध्वपुण्ट्रमात्रस्य च तान्त्रिकत्वाभिधाने उक्तानां बहुस्मृतिपुराण-वचनानां वैदिकाधिकारप्रवृत्तानां अनन्यगतिकानां व्याकोपप्रसङ्गः ॥ 'अश्रौतमूर्धपुण्ड्रादी' त्युदाहृतानि तु वचनानि तसमुद्रासहितोर्ध्वपुण्ट्रविषयतया सावकाशानि ॥

आकेयालं तन्त्ररूपित्तमाण तप्तमुत्तरायुटनं कृष्टय ऊर्त्तव पुण्ट्रत्तंते वैतिकर्कलं तरीक्कक्कं कृटातु. तप्त मुत्तरायील्लात ऊर्त्तव पुण्ट्रमोवेवनीलं, चेऽल्लिय अनेक संरुति लम्गरुति पुराणंकलालं लित्तमाणतालं, तरीक्कक्त तत्तुन्तत्ते. अन्त संरुतिकर्णक्कुमं अप्परामाण्यमं संक्षिक्कक्त तत्तुन्तत्तलं. 'प्रराम्हराणार्कर्णक्कु ऊर्त्तव पुण्ट्रमं नित्यमायं संरुतियालं वित्तिकप्पत्ततु' 'संरुतियिलुमं लम्गरुतियिलुमं चेऽल्लप्पत्त प्रकारत्तालं म्गरुत्तिकेयिनं ताराणमं चेऽल्लप्पत्तुकिरतु,' 'संरुतियिल उल्लातु वैवकाणसत्तिलं चेऽल्लप्पत्ततु' एन्पत्तालं वालीष्ट वामाण पात्तमपुराणुतिकलीलं ऊर्त्तव पुण्ट्रमं चेऽल्लप्पत्तिरुप्पत्तालं. ऊर्त्तव पुण्ट्रमं लंलावन्त्तरायुमं तान्तरीकमेमन्ऱु चेऽल्लुमं पक्षुत्तिलं, मुनं चेऽल्लियतुमं, वेव्रु इटमिल्लाततुमं, वैविकातिकारत्तिलं प्ररव्वरुत्तत्तंकर्णमाण अनेक संग्रुति पुराण वैसानंकर्णक्कु विरोत्तमं नेरीटक्कुमं. 'अक्षिरेणत झुर्त्तत्व पुण्ट्राति' एन्ऱु चेऽल्लप्पत्त वैसानंकर्णलावेवनीलं तप्त मुत्तरायुटनं कृष्टय ऊर्त्तव पुण्ट्र विष्यमायं इरुप्पत्तालं इटमुल्लावै आकिन्ऱन.

ननु तान्त्रिकैस्तसमुद्राविषयाऽपि श्रुतिरुद्राहियते - पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते । प्रभुगत्रिणि पर्येषि विश्वतः । अतस्तनुर्तदामो

அश्रுதே । ஶृதாஸ இங்ஹந்தஸ்தத् ஸமாஶத இதி ॥ நாஸ்யாஸ்தஸ்முட்ரா-
விஷயத்வம् । ‘தஸ்மிந்துடிசீனநாஸ் பவித்ரம் விதத்யமானம்஭ிமந்தியதே
யஜமானः இதி கல்பஸ்தாகரைநாஸ்தரணாம்஭ிமந்திணே விநியோग-
பிரத்ரநாதாத् । ததா ச வி஦்யார்ண்யமாஷ்யம् – ‘பவித்ரந்த’ இதி ।
நாஸ்தாபவித்ராஸ்தரணாம்஭ிமந்திணே சேய் வினியூஜ்யதே । பவித்ரம் - ஸ்ர்வபாவனம् ।
தே - தவ ஆத்மமூர்த்தே தேஜः பரமாத்மாருஷ், விதத்தம் - விஸ்தூர்த் தேவதே । ஹே
஬்ரஹ்மஸ்பதே ஬்ராஹ்மானாஂ ஸ்வாமிந् ! ‘எஷ வோ ஭ரதா ராஜா ஸோமோஸ்மாக்
஬்ராஹ்மா நாகராஜா । தஸ்மாத் ஸோமராஜாநோ ஬்ராஹ்மாः’ இதி ஦ர்ஶநாதாத् ।
ப்ரமுஸ்த்வம் ஗ாத்ராणி - அஜ்ஞானி பாத்ராணாா, பர்யேஷி-஗ஞ்சஸி விஶ்வதः ।
த்வயா வ்யாஸேந அதஸ்தநூः - அஜோ஧ிதஶரீரः, அத எவ ஆமः, ந தத்
- விதத்தம் பவித்ரமந்துதே । அஸோமபஸ்ய ஶுஷ்யமாவாத் ஜானங்கார
பரமாத்மப்ராஸினரஸ்திதி । ஶृதாஸ இத் - பக்த ஏவ த்வயா, கங்காநாத:
ஜநா: ஸமாஶத - ஸமஶ்நுவதே, தத் - பவித்ரமிதி ॥

தாந்த்ரிகர்களால் தப்தமுத்ரா விஷயமான ச்ருதியும்
சொல்லப்படுகிறதே, ‘பவித்ரந்தே - ஸமாசத’ என்று,
எனில். இந்த ச்ருதி, தப்தமுத்ரை பற்றியதல்ல. ‘தஸ்மிந்தந்தீ
சீனதசம் + யஜமானः’ என்று, கல்பஸ மத்ரகாரர்களால்
தசாபவித்ரத்தின் ஆஸ்தரணைத்தை அபிமந்த்ரிப்பதில்
விநியோகம் காண்பிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்விதமே
வித்யா ரண்யபாஷ்யம் - “பவித்ரந்தே என்கிற ருக்கானது
தசாபவித்ரத்தின் ஆஸ்தரணை பி மந்த்ரணைத்தில்
விநியோகிக்கப்படுகிறது. பவித்ரம் - எல்லாவற்றையும்
சுத்தம் செய்வதும், தே - உன்னுடை ஸ்வரூபமாயுமுள்ள,
பரமாத்மா என்னும் தேஜஸ்ஸானது, விததம் -
விஸ்தரித்திருக்கின்றது, எங்கும். ஹே ப்ரம்ஹணஸ்பதே! -
ப்ராம்ஹணர்களின் ஸ்வாமியே! ‘ஏஷ வோபரதா +
ப்ராம்ஹணாः’ என்ற ச்ருதி காணப்படுவதால். ப்ரபுவாகிய
நீ, காத்ராணி - பாத்ரங்களின் அங்கங்களை, பர்யேஷி -
எங்கும் அடைகின்றூய். வ்யாபித்திருக்கும் உன்னுல்,

अतप्ततनुः: - चेऽतिकंकप्पटात् सर्वरमुषेयवनुम्, आुकेयाल्, आुमः- अपक्ववनुमायूर्णावन्, तत् - अतेव (वित्तमान तेजूल्सलै), न अच्छुते - अटेवति॒लैल. लोमपाणम् चेय्यातवनुक्कुचं सृत्ति॒ इ॒लैला॒त्ता॒ल, ज्ञानत्तिं॒ व॒प॒या॒लैल॒ परमात्मं प्रराप्ति॒ इ॒लैल॒ ए॒न्पतु॒. चंगुता॒लैल॒ उ॒न्नैल॒ पक्वर्क॒ला॒नवरो॒, व॒ह॒न्तः॒ - या॒कत्तेत नीर्व॒लैल॒ प्पवरा॒य, तत्समा॒सत - अन्तप्तप्पवित्रमान तेजूल्सलै अटेकिं॒र्णन्नर॒, ए॒न्नर॒.

याऽपि - चमूषः श्येनश्शकुनोऽपि भृत्वा गोविन्दद्रप्स आयुधानि बिघ्रदिति, साऽपि श्रुतिः सोमविषयेति भाष्ये भाषितम् ॥ ननु सोमविषयत्वेऽपि तयोः तस्शक्त्वाक्षक्त्वाक्षक्त्वामपि अस्त्विति चेत्, तथात्वे तन्निषेधपराणां श्रुतिस्मृतिपुराणानां निर्विषयत्व-प्रसङ्गः ॥ किञ्च - पवित्रभिति मन्त्रेण यदि चक्राङ्कनं भवेत् । शूलाङ्कनं वा किं न स्यात् यत्ते गात्रादिति श्रुतेरिति प्रसञ्जितं शूलाङ्कनमपि श्रौतं स्यात् । अन्यपरस्य श्रुतिभागस्य अन्यविषयत्वकल्पनामात्रेण अर्थान्तर-परत्वनिष्ठे - यं ईवहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु । अत्र श्रवांसि दधिरे इति पीतसोममरुतप्रशंसापरस्यास्य शाक्तैः स्वीयतत्त्वविषयत्वेन कल्पितार्थस्यापि तदर्थपरत्वेन शाक्ततत्त्वस्यापि वैदिकत्वापत्तिः ।

‘कमुषः॒स्येन॒स्यकुनोऽपि॒ + पीपरत्त’ एन्नरूप उल्ला॒ मर्त्तेरुरु॒ चंगुति॒युम् लोमपाण॒ वीष्यमाक्षियतु॒ एन्नरूप पा॒ष्यत्ति॒लै॒ चेऽलै॒प्पट्टु॒ला॒तु॒. इ॒रण्णु॒ चंगुति॒करुक्कुम्, लोमवीष्यत्तवम् इ॒रुन्ता॒लुम्, तप्तचंगुकचंगुराङ्क॒कना॒ वीष्यत्तवम् इ॒रुक्कट्टुम्, ए॒न्नरूल॒, अन्त अन्कनत्तेत नी॒षेति॒क्कुम् चंगुति॒ ल॑म्गुति॒ पुरा॒णं॒करुक्कु अवका॒सम् इ॒लैला॒मल॒ पो॒क ने॒री॒उम्. इ॒न्नरूम्, ‘पवित्रम् एन्नुम् मन्त्ररंक॒कला॒लै॒ सक्करा॒न्क॒कनम् वी॒लै॒त्तमा॒किं॒र्णतु॒ ए॒न्नरूल॒, ‘यत्तेते॒ का॒त्रा॒त्’ ए॒न्नरूप मन्त्ररत्त्ता॒लै॒ कुला॒न्क॒कनम् ए॒न्न वी॒लै॒त्तमा॒कक्क॒क॒टा॒तु॒’

என்று ப்ரஸங்கம் செய்யப்பட்டுள்ள குலாங்கனமும் ச்செரளதமாகக் கூடும். அன்ய விஷயமான வேதபாகத்தை, அன்ய விஷயமெனக் கல்ப்பிப்பதினால் மட்டில் வேறு அர்த்தத்தைச் சொல்வதாய் நிர்ணயிக்கும் பகுத்தில், 'யசம் வஹந்த ஆசுபி: + ததிரே' என்று, ஸேஙமபானம் செய்துள்ள மருத்துக்களை ப்ரஸம்லிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ள இந்த மந்த்ரத்திற்கும், சாக்தர்கள் தங்கள் தந்த்ரத்தைச் சொல்வதில் தாத்பர்யமுள்ளதாய் அர்த்தம் கல்ப்பித்திருப்பதால், அந்த மந்த்ரத்திற்கும் சாக்த தந்த்ரத் தொடர்புடன் விஷய த்வம் வருவதால், சாக்த தந்த்ரமும் வைதிகம் என்பது நேரிடக்கூடும்.

நு - விஷ்ணோரராடமந்திர விந்யஸேத கேಶவாய ச இத்யாदிநா வேதோக்தமந்தை: லலாடாதிஸ்஥ானேஷு திஶூலாதிஸ்ரபோ஧்வபுஷ்டிய அமிஹி- தத்வேந அஸ்ய வைதிக்தவமிதி ஶாக்தவைஷம்யமிதி சேந | ஶக்திதந்திரே - ஆர்ஜ்ஜலதி ஜ்யோதிரஹமஸ்மीத்யநேந மந்திர மத்யபாநஸ்யாமிஹிதத்வேந தத்தந்த்ரஸ்யாபி வைதிக்தவாபத்தே: | தथா ச - பாஞ்சராத்ரே ச காபாலே ததா காலமுக்கேடபி ச | ஶாக்தே ச ஦ீக்ஷிதா யூங் ஭வத பிராஹ்ணா஧மா: இதி ஗ௌதமாடிக்குத்தாபோடப்பியநுநிராய ஸ்யாத | அதஸ்தஸ்முநாஸஹித மூஷ்வரபுஷ்டி தாந்திகமேவ | தந்தஸஹிதமூஷ்வரபுஷ்டி ஶ්ருதிஸ்மृதிபுராணாஷாசாரஸிச்சத்வேந வைதிகைர்ய்யமேவேதி நிர்ணய: ||

'விஷ்ணேரராடம்' என்ற மந்த்ரத்தாலும் கேசவாய என்பதாலும் தரிக்க வேண்டும், என்பது முதலியதால், வேதோக்த மந்த்ரங்களால் நெற்றி முதலிய ஸ்தானங்களில், தரிக்குலாதி ரூபமான ஊர்த்தவ புண்டரம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இதற்கு வைதிகத்வம் இருக்கின்றது என்பதால் சாக்தத்தை விட, பேதம் இருக்கின்றது, என்றால் அதில்லை. (ஏனெனில்) சக்தி தந்த்ரத்திலும், 'ஆர்த்ரம் ஜ்வலதி ஜ்யோதி ரஹம்ஸ்மி' என்ற இந்த மந்த்ரத்தினால் மத்யபானம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அந்த தந்த்ரத்திற்கும்

वैवतीकत्वम् वर नेरीदुम्. अव्वितमाक्रियपोतु, “पाञ्चशरात्तिरथत्तिलुम्, कापालत्तिलुम्, काळमुक्तत्तिलुम्, साक्तत्तिलुम् निंकंकं तीकेषु बेपूरवराय आकक्कटवैर्, ओप्राम्हण्णेतमर्केलो!” एन्ऱु केळतमर्म मुतवियवरालं चेय्यप्पट्ट शापमुम् अनुकरवृत्तिनं बेपारुट्टु एन्ऱुम् नेरीदुम्. आकेयालं तप्त मुत्तरेयुटनं कौटय ऊर्तव बुन्टरम् तान्तरिकमें. तप्त मुत्तरे इल्लात ऊर्तव बुन्टरम् चरुति संमरुति बुराणा चिष्टा चारंकलालं लीत्तमानतालं वैवतीकर्कलालं तरीक्कत्त तकुन्ततेऽनपतु लीत्ततान्तम्.

—★—

त्रिपुण्ड्रविधिः ।

अथ त्रिपुण्ड्रविधिः ॥ कालाग्निरुद्रोपनिषदि – आग्नेयं भस्म सद्योजातमिति पञ्चब्रह्ममन्त्रैः प्रतिगृह्य अग्निरित्यनेनाभिमन्त्र्य मानस्तोक इति समुद्भृत्य जलेन संसृज्य शिरोललाटवक्षः स्कन्धेषु त्र्यायुषैस्त्वयं बैक्स्तिर्किसो रेखाः प्रकुर्वीत व्रतमेतच्छाम्भवं सर्ववैदेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति तस्मात् समाचरेन्मुक्षुरपुनर्भवाय त्रिविधा रेखा त्रिपुण्ड्रप्रमाणं त्रिधा चाललाटादाचक्षुषोराम्भुवोरिति ॥

तरीपुण्टरवीति

इनी, तरीपुण्टरवीति चेऽल्लप्पटुकिरतु. कालाक्कनी ग्रुत्तरोपनीषत्तीलः:- आक्केन्यमान पस्मत्तते ‘लत्तयोज्जातम्’ मुतविय ज्ञन्तु प्ररूप्म मन्त्रराङ्कलालं एटुत्तु, ‘अक्कनीरीति’ मुतवियवैवकलालं अपिमन्त्रीत्तु, ‘मानस्लेतोके’ एन्पत्तालं एटुत्तु ज्ञलत्तुटनं चेर्तत्तु, चिरस्ल, नेन्नरी, मार्पु, तेलांकलं इन्त लृताणंकलीलं, ‘तर्यायुष’ मन्त्रराङ्कलालुम्, ‘तर्यम्पक’ मन्त्रराङ्कलालुम्, कुरुक्काय लुन्ऱु रेकेक्कलैसं चेय्य वेण्णुम्. इतु चाम्पव वरतम, लकल वेतनंकलीलुम् वेतवात्तिकलालं चेऽल्लप्पट्टुलातु. आकेयालं

முக்தியில் இச்சையுடையவன் அதை அனுஷ்டிக்க வேண்டும், மோக்ஷத்திற்காக, ரேகை மூன்று விதம், த்ரிபுண்ட்ரத்தின் ப்ரமாணமும் மூன்று விதம், நெற்றி வரையில் கண்கள் வரையில் புருவங்கள் வரையில் என்று.

தत्रैवं प्रशंसा च श्रूयते – त्रिपुण्ड्रं भस्मना करोति यो विद्वान् ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो यतिर्वा स समस्तमहापात-कोपपातकेभ्यः पूतो भवति स सर्वान् देवान् ध्यातो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति सर्वसंपत्समृद्धो भवति सततं सर्वरुद्रमन्त्रजापी भवति सकलभोगभुग्देहं त्यक्त्वा शिवसायुज्यमाप्नोति न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इत्याह भगवान् कालाग्रिरुद्रः इति ।

காலாக்னி ருத்ரோபநிஷத்தில்:- ப்ரசம்லையும் கேட்கப்படுகிறது. ‘விதவானுகியவன், ப்ரம்ஹசாரீ, க்ருஹஸ்தன், வானப்ரஸ்தன் அல்லது யதியாயினும், பஸ்மத்தினால் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிப்பவன் ஸகல மஹாபாதகங்களினின்றும் உபபாதகங்களினின்றும் சுத்தனுகிறுன், ஸகல தேவர்களையும் த்யானித்தவ ஞகிறுன், ஸகல தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்தவ ஞகிறுன், ஸகல ஸம்பத்துகளாலும் நிறைந்தவஞகிறுன். எப்பொழுதும் ஸகல ருத்ர மந்த்ரங்களையும் ஜபித்தவ ஞகிறுன். ஸகல போகங்களையும் பஜித்தவஞய், தேஹத்தை விட்டு, சிவஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறுன். மறுபடி திரும்புவதில்லை. மறுபடி திரும்புவதில்லை என்றார் பகவான் காலாக்னி ருத்ரர்’ என்று.

அथर்வாசிரஸி ஜாவாலோபனிஷதி ச – அग्नிரितி ஭ஸ்ம வாயுரிதி ஭ஸ்ம ஜலமிதி ஭ஸ்ம ஸ்தலமிதி ஭ஸ்ம வ்யோமேதி ஭ஸ்ம ஸ்வீ ஹவா இங் ஭ஸ்ம மன இत्यேतானி சக்ஷுஷி ஭ஸ்மானி | அग्निरित்யாदிநா ஭ஸ்ம ஗ृहීத்வா விமுஜ்யாஜ்ஞானி ஸஂஸ்பூரோத् | தஸ்மா ஦ூஷ்டமேதத் பாஶுபத் பஶுபாஶவிமோக்ஷாய இதி || ஸமுத்யந்தரே – மானஸ்தோகேதி மந்த்ரே மந்தித் ஭ஸ்ம ஧ாரயேத் | ஊர்வபுண்ட்ரம் ஭வேத் ஸாம மத்யபுண்ட்ரம் யஜ்ஞஷி ச || அध: புண்ட்ரமுச்: ஸாக்ஷாத्

तस्मात्पुण्ड्रं त्रियायुषम् । त्रियायुषेण कुरुते ललाटे च भुजद्ये ॥ नाभौ शिरसि हृतपार्श्वे ब्राह्मणो वैदिकः सदा इति ॥ त्रियायुषम् - त्रियायुषसंज्ञितम् ॥ तथा च वायुपुराणम् - तत्स्त्रिपुण्ड्रं रचयेत् त्रियायुषसमाह्यम् इति ॥ तैत्तिरीयश्रुतौ च दिष्यानुशासने - 'सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव' इत्यादि । अत्र भूतिशब्दस्य भस्मार्थत्वं बोधायनेनोक्तम् - 'अथातो द्विजातीनां त्रिपुण्ड्रधारणविधिं व्याख्यास्यामो भूत्यै न प्रमदितव्यमिति विज्ञायतेऽथाप्युदाहरन्ति 'मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैस्त्रिपुण्ड्रं भस्मना कृतम् । तत्त्रिपुण्ड्रं भवेच्छस्तं महापातकनाशनम्' इति । अथ ऋग्वकमिति सर्वज्ञं संमृजेत् पूतो भवति दश-पूर्वान्दशापरात्मानं चैकविंशतिं पङ्किं च पुनाति ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतामाप्नोतीत्याह भगवान् बोधायनः इति ॥

अत्थावचीरस्सिलिलुम्, ज्ञापालोप निष्ठत्तीलुम्:- 'अक्णीरीति पस्म + पस्माणी'. (இவை मन्त्ररञ्जकள்) 'அக்னிரிதி' முதலிய மந்த்ரங்களால் விபூதியை எடுத்து அங்கங்களில் பூசிக்கொள்ளவும். இது பாசபத வரதம், பசுபாச விமோக்ஷத்தின் பொருட்டு ஆகும். மற்றும் ஸம்ருதியில்:- 'மாநஸ்தோகே' என்ற மந்த்ரத்தால் மந்த்ரிக்கப்பட்ட பஸ்மத்தைத் தரிக்க வேண்டும். மேல் புண்டரம் ஸாமவேதமாகும். நடுவிலுள்ள புண்டரம் யஜூர் வேதமாகும். கீழே உள்ள புண்டரம் ருக்வேதமாகும். ஆகையால் இந்தப் புண்டரம் 'த்ரியாயுஷம்' எனப்படுகிறது. வைதிகளைப் ப்ராம்ஹணன், நெற்றி, புஜங்கள், நாயி. தலை, மார்பு பக்கம் இவைகளில் த்ரியாயுஷ புண்டரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். த்ரियாயுஷம् - த்ரியாயுஷம் எனப் பெயருடையது.

அவ்விதமே வாயுபுராணம்:- பிறகு, தரியாயுஷம் என்று பெயருடைய த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். தெத்திரீய ச்ருதியில் சிஷ்யானு சாஸநத்தில்:- 'ஸந்யாந்ந + மாத்ருதேவோபவ' என்பது முதலியது. இங்குள்ள பூதி சப்தத்திற்கு விபூதி அர்த்தம் என்று போதாயனரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 'இனி ப்ராம்ஹணர்களுக்கு த்ரிபுண்ட்ரதாரண விதியைச் சொல்லுகிறோம். 'பூத்யை நப்ரமதிதவ்யம்' என்று ச்ருதியில் தெரிகிறது. (பஸ்மதாரணத்தை மறக்க வேண்டாம் என்பது பொருள்) இன்னமும், பெரியோர்கள் சொல்லுகின்றனர் - 'நடுவில், பவித்ரவிரல், பெருவிரல் இவைகளால், பஸ்மத்தால் த்ரிபுண்ட்ரம் செய்யப்பட வேண்டும். அந்த த்ரிபுண்ட்ரம் சிறந்ததாகும். அது மஹாபாங்களையும் அகற்றுவதாகும்' என்று. பிறகு 'த்ரியம்பகம்' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸர்வாங்கங்களிலும் பூச வேண்டும். இதனால் சுத்தனாகிறுன், தனக்கு முன் பத்துப் புருஷர்களையும், பின் பத்துப் புருஷர்களையும் 21 - ஆவது தன்னையும், தன் பங்க்தியையும் சுத்தி செய்கிறுன். ப்ரம்ஹாவின் ஸாயுஜ்யம், ஸாலோக்யம் இவைகளையும் அடைகிறுன்' என்றார் பகவான் போதாயனர்.

மாநவபுராணே² பி ஶ्रுत்யுபங்குண ஦ேயதे - 'सत्यात् प्रमदितव्यं वै धर्मच्च कुशलाच्च न । भूत्या अग्निसमुत्थायास्ततो देहावकुण्ठनात् ॥ ललाटे हृदि दोर्द्वन्द्वे त्रिपुण्ड्रस्य च धारणात् । नैव प्रमदितव्यं वै भ्रमाद्वाऽपि कदाचन ॥ स्वाध्यायाध्ययनं नित्यं कुरु प्रवचनं तथा इति । भाष्यकारेण यद्यपि भूतिशब्दः ऐश्वर्यपरतया व्याख्यातः, तथाऽपि बोधायनेन भूत्यै न प्रमदितव्यमित्यस्याः श्रुतेः भस्मत्रिपुण्ड्र- प्रमाणतयोदाहृतत्वात्, भूतिशब्दस्य भस्मपरत्वमेव युक्तम् । भूतिशब्दस्य नानार्थत्वैन ऐश्वर्यपरतया व्याख्यानेऽपि नैह कश्चिद्विरोधः । उपबृंहणस्य सत्वे तदपि व्याख्यानान्तरमस्तु ।

मानव पुराणतीव्रम्: - चंगुतिक्कुक कृतवातावु
काणप्पाटुकिऱतु - 'सत्यत्तिनिन्ऱुम् तवर वेण्टा॒म्.
तर्मत्तिनिन्ऱुम्, कुचलत्तिनिन्ऱुम् ओरुकालुम् तवरक्क
कूटा॒तु. अक्ऩीयिन्ऱु उण्टा॒किय विप्रुतियिनिन्ऱुम्,
अत्तुल तेहूत्तेतप्पुकवत्तिनिन्ऱुम्, नेन्ऱी, मार्पु,
केकल्ल इवेकलील तरीपुण्टरम् तरीप्पत्तिनिन्ऱुम्,
ओरुकालुम् परमत्तालुम् तवर वेण्टा॒म्' नित्यमुम
वेतात्ययनम् चेय, अत्यापनमुम् चेय, एन्ऱु.
पाष्यकारराल्ल पृथि चप्तमानतु ज्ञच्वर्यपरमाय
व्याक्यानम् चेय्यप्पट्टु॒लातु. आनुलुम्,
पोतायनराल्ल 'पृथिये नपरमत्तित्वयम्' एन्ऱ चंगुति,
पल्ल तरीपुण्टरत्तिऱ्कु परमानमायस
चेल्लप्पट्टिरुप्पताल अते विवरिक्कुम् पुराण
वाक्यंक्लुम् इरुप्पताल, पृथि चप्तत्तिऱ्कु, पल्ल
अर्त्तमेन्पते युक्तमाकुम्. पृथिचप्तम् अनेकार्त्त
उटेयताल, ज्ञच्वर्यपरमाय व्याक्यानम् इरुन्तालुम्
इंकु विरोतम् ओन्ऱुमिलैल. उपपरुह्म मनम्
इरुन्ताल, अतुवुम् मर्त्तेरुरु व्याक्यानमाय
इरुक्कट्टुम्.

बोधायनः - अथातो विभूतिसम्पादनधारणविधिं
व्याख्यास्यामः शुचिर्भूत्वा विकटां गामुन्मत्तामशिवां हीनातिरिक्काङ्गां
वन्ध्यामस्थिबहुलामशुद्धभक्षिणीं विहाय सुलक्षणाया गोर्गोमयमादाय
पिण्डं कृत्वा संशोष्य श्रेतपचनीयैः सम्भारैः परिच्छाद्य गृह्याग्रौ वैताने
वा पचने वोपोषयेत् । बिल्वफलपात्रे मृन्मये वा स्थापयेत् । अथ
तन्द्वस्मादायाभिमन्त्रयेत् मृन्मये वा स्थापयेत् । अथ तन्द्वस्मादायाभि-
मन्त्रयेत् 'ईशानः सर्वविद्यानां + शिवोम् । तत्पुरुषाय + प्रचोदयात् ।
अघोरेभ्यो + रूपेभ्यः । वामदेवाय नमो + मनोन्मनाय नमः ।
सद्योजातं + य नमः इति । पुनरेवाभिमृशति 'सद्योजातं प्रपद्यामी' ति
पञ्चभिः । 'मानस्तोके तनय' इति मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैः समादाय
तूष्णीमङ्ग्दिः समुदायुत्य त्रियायुषभिति त्रिपुण्डं धारयेत् ।

அथாப்யுடாஹரந்தி – லலாடே ஹடி ஦ோஷ்ந்தே ஗லே குக்ஷை ஶிரஸ்யத | ஧ாரயேசு
சிதம் ஭ஸ்ம டிஜோ நித்யமதந்தித: இதி ||

போதாயனர்:- இனி, விழுதியை ஸம்பாதிப்பது, தரிப்பது இவையின் விதியைச் சொல்வோம். சுத்தனைய் இருந்து, மிகப் பருமனுள்ளதும், பைத்யம் உள்ளதும், அமங்களமாகியதும், அங்கக் குறைவுள்ளதும், அதிகாங்கம் உள்ளதும். மலடானதும், எலும்பு அதிகமுள்ளதும், அசுத்த வஸ்துக்களை பகுப்பதுமான பசுவைத்தள்ளி, நல்ல வகைஞங்களுடைய பசுவின் கோமயத்தை எடுத்து, உருண்டை செய்து, உலர்த்தி, வெளுப்பாய், பாகம் செய்யக் கூடிய ஸம்பாரங்களால் (பதர், வைக்கோல் முதலியதால்) மூடி, ஒளபாஸனாக்னியிலோ, ச்செரளதாக்னியிலோ, பசனுக்னியிலோ தலுக்கக் வேண்டியது. வில்வப்பழுப் பாத்ரத்திலாவது, மண்பாத்ரத்திலாவது எடுத்து வைக்க வேண்டும். பிறகு அந்தப் பஸ்மத்தை எடுத்து அபிமந்தரிக்கவேண்டும், ‘சசான:’, தத்புருஷாய, அகோரேப்ய:; வாமதேவாய, ஸத்யோ ஜாதம்’ என்ற மந்த்ரங்களால். மறுபடி அதே ஜந்து மந்த்ரங்களால் அபிமர்சிக்கவும். ‘மானஸ்தோகே’ என்ற மந்த்ரத்தால், நடுவிரல், அநாமிகாவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் எடுத்து மந்த்ரம் இல்லாமல் ஜலத்துடன் சேர்த்து, ‘தரியாயுஷம்’ என்ற மந்த்ரத்தால் தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். இவ்விதம் அறிந்தவரும் சொல்லுகின்றனர். நெற்றி, மார்பு, கைகள், கழுத்து, வயிறு, தலை இவைகளில், வெளுப்பான பஸ்மத்தை, ப்ராம்ஹணன் சோம்பலற்றவனைய் நித்யமும் தரிக்க வேண்டும்.

बोधायनस्मृतौ च – सद्येन गोशकृदूष्य वामेन त्वभिसन्त्ययेत्।
अघोरैण दहेत् पिण्डं पुरुषेण तु शोधयेत् ॥ स्नानमीशानमन्त्रैण
कुर्यान्मूध्यादिपादतः ॥ आचम्य कूर्च आसीनः शिवो भूत्वा शिवं जपेत्
इति ॥

पोतायन संमरुद्धीयिलुमः:- शत्येऽज्ञात मन्त्ररत्ता॑ल कोमयत्तेत कर्णीत्तु, वामतेव मन्त्ररत्ता॑ल अपि॒मन्त्रीत्तु, अकोरा॑ मन्त्ररंकला॑ल कोमयपि॑न्टत्तेत तव्यीत्तु, तत्पुरुष मन्त्ररत्ता॑ल चोत्तु, सचान मन्त्ररत्ता॑ल तलै मुतल पातमवरयिल पस्मत्ता॑ल संनानम चेय्यवुम्. आ॒समनम चेय्तु, कुर्संकृत्तिलै उट्कार्न्तु, चिवाणुकि, चिवाणै ज्ञपीक्कवुम्.

भारद्वाजः - प्राङ्गुखश्चरणौ हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्वित् । प्राणानायस्य सङ्कल्प्य भस्मस्थानं समाचरेत् ॥ आदाय भसितं श्वेत मग्निहोत्रसमुद्भवम् । इशानेन तु मन्त्रेण स्वमूर्धनि विनिक्षिपेत् ॥ तत आदाय तद्दस्म मुखे तत्पुरुषेण तु । अघोराख्येन हृदये गुह्ये वामाह्येन च ॥ सद्योजाताभिधानेन भस्म पादद्वये क्षिपेत् ॥ सवर्णं प्रणवेनैव मन्त्रेणोद्भूलयैत्ततः ॥ एतदाग्रेयकं स्थानमुदितं परमर्थिभिः । सर्वकर्मसमृद्ध्यर्थं कुर्यादादाविदं बुधः ॥ ततः प्रक्षाल्य हस्तादीन् उपस्पृश्य यथाविधि । तिर्यक्त्रिपुण्ड्रं विधिना ललाटे हृदये गले ॥ धृत्वाऽग्निहोत्रजेनैव भस्मना तु प्रसन्नधीः ॥ पञ्चभिर्बहुभिर्बाऽपि कृतेन भसितेन च ॥ धृतमेतत्त्रिपुण्ड्रं स्यात् सर्व कर्मसु पावनम् । त्रिपुण्ड्रं धारयेनित्यं सर्वपापविशुद्धये ॥ शूद्रहस्तस्थितं भस्म न हि धार्य द्विजातिभिः । शूद्रैरन्त्यजहस्तस्थं न धार्य भस्म जातुचित् ॥ अतोऽग्निहोत्रजेनैव भस्मना तु त्रिपुण्ड्रकम् । नित्यं द्विजैः प्रमोदेन धार्य कर्मविशुद्धये ॥ अन्यथा सर्वकर्माणि न फलन्ति कदाचन इति ॥

पारत्त्वाज्ञारः:- काल्पकैा अलम्पी, किञ्चकु मुकमाय आ॒समनम चेय्तु, मुन्नेपोलं प्रराणै यामम चेय्तु, लंगकल्पपीत्तु, पस्मस्नानत्तेत्तकं चेय्य वेण्णुम्. वेणुप्पोन्तुम, अकंनिलेहात्तरत्तिलै उन्टान्तुमाण पस्मत्तेत ऎउत्तु सचान मन्त्ररत्ता॑ल चिरस्लिलुम्, तत्पुरुष मन्त्ररत्ता॑ल मुकत्तिलुम्, अकोरा॑ मन्त्ररत्ता॑ल मार्पिलुम्, वामतेव मन्त्ररत्ता॑ल तुव्यं यत्तिलुम्,

ஸத்யோஜாத மந்த்ரத்தால் பாதங்களிலும் தரிக்கவும். பிறகு ப்ரணவ மந்த்ரத்தால் ஸர்வாங்கத்திலும் உத்தாளனம் செய்யவும். இது ஆக்னேய ஸ்நானம் என்று மஹர்ஷிகளால் சொல்லப்பட்டது. அறிந்தவன், எல்லாக்கர்மங்களும் ஸம்பூர்ணமாவதற்கு ஆதியில் இதைச் செய்ய வேண்டும். பிறகு கை முதலியவைகளை அலம்பி விதிப்படி ஆசமனம் செய்து, விதிப்படி தரிபுண்ட்ரத்தை நெற்றியிலும், மார்பிலும், கழுத்திலும் தரிக்கவும், அக்னி ஹோத்ர பஸ்மத்தாலாவது பஞ்சப்ரம்ஹ மந்த்ரங்களால் செய்யப்பட்ட பஸ்மத்தினைலாவது தரிக்கப்பட்ட இந்த தரிபுண்ட்ரம் ஸகல கர்மங்களிலும் சுத்திகரமாகின்றது. ஸகல பாபங்களையும் அகற்றுவதற்காக நித்யமும் தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். சூத்ரன் கையிலுள்ள பஸ்மத்தை த்விஜர்கள் தரிக்கக் கூடாது. சண்டாளன் கையிலுள்ள பஸ்மத்தைச் சூத்ரர்கள் ஒருகாலும் தரிக்கக் கூடாது. ஆகையால் ப்ராம்ஹணர்கள் அக்னி ஹோத்ரத்தில் உண்டான பஸ்மத்தாலேயே தரிபுண்ட்ரத்தை நித்யமும் ஸந்தோஷத்துடன் கர்மஸம்ருத்திக்காகத் தரிக்க வேண்டும். இல்லாவிடில், ஸகலகார்யங்களும் ஒருகாலும் பவிக்கின்றதில்லை.

காத்யாயனோடி – ஶாக்ஷே யஞ் ஜபே ஹோஸே கைஶ்஦ேவே ஸுராஞீ |
஧ृतिपुण्डः பूतात्मा मृत्यं जयति मानवः ॥ त्रिपुण्डं यद्यधृत्वा तु
 कुर्यादित् कर्म तद्वृथा इति ॥ स्मृत्यन्तरञ्च – अग्निरित्यादिभि-
 र्मन्त्रैर्भस्मनोद्भूलनं तथा । त्रिपुण्डधारणं कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत् ॥
 त्रिपुण्डं परमं पुण्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम् । ये घोரा ராக்ஷஸா: ப்ரேதா யே
 சாந்யே க்ஷு஦்ரஜந்தவः ॥ त्रिपुण्डधारिणं दृष्ट्वा पलायन्ते न संशयः इति ॥

காத்யாயனரும்:- சராத்தம், யக்ஞம், ஜபம்,
 ஹோமம், வைச்வதேவம், தேவபூஜை இவைகளில்
 தரிபுண்ட்ரம் தரித்தவனும், சுத்தனுமான மனிதன்
 ம்ருத்யுவை ஜயிக்கின்றன். தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்காமல்
 எந்தக் கார்யத்தைச் செய்கின்றாலே அது வீணைகின்றது.

मर्त्तिरेत्रु लंमंग्रुतीयुम्:- 'अक्षिनीरीति' मुतलीय मन्त्ररन्दंकालाल, पलंमत्तिगुल उत्तुवाजन्ततेयुम्, तरीपुण्टरताराजन्ततेयुम् चेय्यु केवाण्टु, बन्त्यावन्ततन्ततेत्तेच चेय्य वेवाण्टुम्. तरीपुण्टरमाजन्तु मिकप्पुण्यमाजन्तु, परमंहृ वीष्णु चिवस्वरूप माक्षियतु. पयंकररंकालान राक्षसरंकाल, परेतरंकाल, अल्पज्ञन्तुक्कंकाल एववेयो अवेयेलाम्, तरीपुण्टरम तरीत्तवजैकंकाण्टाल छुक्किन्नरन, सम्चयमिल्लै.

लोकाक्षिरपि – मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैर्लाटे भस्मना कृतः । स त्रिपुण्ड्रो भवेच्छस्तो महापातकनाशनः ॥ त्रिपुण्ड्रं धारयेद्यस्तु शिवप्रवणमानसः । भूर्भुवः स्वस्यो लोका धृतास्तेन महात्मना ॥ त्रिपुण्ड्रधृग्विप्रवरो यो रुद्राक्षधरः शूचिः । स हन्ति रोगदुरितव्याधिदुर्भिक्षतस्करान् ॥ स प्राप्नोति परं ब्रह्म यतो नावर्तते पुनः । स पंक्तिपावनः श्राद्धे पूज्यो विप्रैः सुरैरपि इति ॥ शातातपः:- सत्यं शौचं तपो होम स्तीर्थं देवादिपूजनम् । तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्मिपुण्ड्रन धारयेत् इति ॥

लोकाक्षियुम्:- न तु विरलं, अनुमिकाविरलं, बेगुविरलं इवेवकालाल नेन्हर्न्यिल चेय्यप्पट्टुंकाल तरीपुण्टरमाजन्तु परसंस्तमाकुम्, महृपातकंकालै अकर्त्रुवत्ताकुम्. एवां चिवजै नाष्टय मनम् उटेयवाण्यं तरीपुण्टरततेत्तत तरीकंकिन्ऱुओ अवालुल, पूमि, अन्तरीक्षम्, स्वरक्कमं एन्न लून्नरु उलकंकालुम् तरीकंकप्पट्टवेवकालाय आकिन्नरन. नन्त प्ररामंहृणस्त्रेष्टान, तरीपुण्टरम गुत्तराक्षम् तरीत्तवाण्युम्, सत्तताण्युमुलावत्तेन, अवान, पिण्णी, पापम्, व्याति, तुर्पिक्षम्, तिरुटान इवारंकालै अम्लिकिरुन. अवान परपरहर्मत्तत अउटकिरुन, अतिनीन्नरुम् मरुप्रति तिरुम्पवतिल्लै. अवान सरात्तत्तत्तिल पन्क्तिपावनान, प्ररामंहृणरंकालालुम् तेवरंकालालुम् पूजीक्कत्त तकुन्तवान. सात्तातपारः:- एवान तरीपुण्टरततेत्त

தரிப்பதில்லையோ, ஸத்யம், சௌசம், தபஸ், ஹோமம், தீர்த்தம், தேவர் முதலியவரின் பூஜை இது எல்லாம் பலனற்றது. ஸ்ம்ருதிரத்நாவளியில்:- நடுவிரல், அநாமிகாவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் நெற்றியில் தரிக்கப்படும் த்ரிபுண்ட்ரம் ப்ரசஸ்தமாகும், மஹாபாதக நாசனமும் ஆகும்.

ஸ்மृतிஸாரஸமுच்சயे – அதாக்ஃ ஸமயாचாரே மனಸா பாபமாசரந् । ஶுचிரே ஭வேநித்யं திபுண்டஸ்ய ச ஧ாரணாத् இதி ॥ ஸ்மृதிமாஸ்கரே – வனஸ்பதி஗तே ஸோமே ஭ஸ்மோஷ்லிதவி஗்ரஹः । அர்சித்ஶங்கர உष்ண ஸ்தா ஸ்வ்வா ஸ்வ்வாபை: ப்ரமுच்சயதे ॥ ஭ாஸநாஶஸிதம் ப்ரோக்தம் ஭ஸ்ம கல்மஷமக்ஷணாத् । ஭ूதி஭ूதிகரி புங்ஸாஂ ரக்ஷா ரக்ஷாகரி பரம் இதி ॥ ஧ர்மசாரஸு஧ானி஧ௌ – திபுண்டஸ்க் ஸ்வா குர்யாந்தாபூதே ந ஭ஸ்மனா । வேதாக்ஷே வி஧ானே ந ஶிவசாயுஜ்யமாபூதாத् இதி ॥

ஸ்ம்ருதிஸாரஸமுக்சயத்தில்:- சமயாசாரங்களை அனுஷ்டிக்க அசக்தனையினும், மனதினால் பாபத்தை அனுஷ்டிப்பவனையினும், த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரித்தால் நித்யம் சுத்தனைக்கே ஆகிறான். ஸ்ம்ருதிபாஸ்கரத்தில்:- சந்த்ரன் வனஸ்பதிகளில் (வருகஷங்களில்) இருக்கும் பொழுது (அமாவாஸ்யையில்) பஸ்மோத்தூளனம் செய்யப்பட்ட சரீரம் உடையவனைய், பூஜிக்கப்பட்ட ஈச்வரனைத் தர்சித்தால் ஸகல பாபங்களாலும் விடுபடுவான். ப்ரகாசப்படுத்துவதால் பலிதம் எனப்படுகிறது. பாபத்தைப் பக்ஷிப்பதால் பஸ்மம் எனப்படுகிறது. மனிதருக்குப் பூதியை (ஐச்வர்யத்தை)ச் செய்வதால் பூதி எனப்படுகிறது. மிகவும் ரக்ஷையைச் செய்வதால் ரக்ஷா எனப்படுகிறது. தர்மஸார ஸதாநிதியில்:- மந்த்ரத்தால் சுத்தமான பஸ்மத்தினால், வேதத்தினால் சொல்லப்பட்ட விதியுடன் த்ரிபுண்ட்ரத்தை எப்பொழுதும் தரிக்கவும், தரிப்பவன் சிவஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான்.

महाभारतेऽपि – आयुष्कामोऽथवा राजन् भूतिकामोऽथवा नरः । नित्यं वै धारयेद्द्वस्म मोक्षकामीच वै द्विजः इति ॥ क्रियासारे – मध्याङ्गुलित्रयेणैव स्वदक्षिणकरस्य तु । षडङ्गुलायतं मानमथवाऽधिकमानकम् ॥ नेत्रयुग्म प्रमाणं वा फाले दीप्तं त्रिपुण्ड्रकम् । कदाचिद्द्वस्मना कुर्यात् स रुद्रो नात्र संशयः ॥ अकारोऽनामिका प्रोक्ता ह्युकारो मध्यमाङ्गुलिः । मकारस्तर्जनीत स्मात् त्रिभिः कुर्यात्त्रिपुण्ड्रकम् इति ॥ साङ्घन्यायनगृहोऽपि – व्यायुषमिति पञ्चभिर्मन्त्रैः ललाटे हृदये दक्षिणस्कन्धे वामे च ततः पृष्ठे च पञ्चसु भस्मना त्रिपुण्ड्रं करोति स एषां वेदानां एकं द्वौ त्रीन् सर्वानधीत इति । माध्यन्दिनगृह्येऽपि – भस्मना ललाटे ग्रीवायां दक्षिणेऽसे वामेसे हृदि च व्यायुषमिति प्रतिमन्त्रम् इति ॥ स्कान्दे – भस्मना वै त्रिसन्ध्यं च तान्त्रिकाणां जलैर्युतम् । धार्य त्रिपुण्ड्रं स्त्रीणां च यतीनां जलवर्जितम् ॥ वनस्थव्रतिकन्यानां दीक्षाहीननृणां तथा । मध्याह्नात् प्राग्जलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम् इति ॥ आदित्यपुराणे – त्रिपुण्ड्रधारी सततं ब्राह्मणः सर्वकर्मसु । भस्मनैवाग्निहोत्रस्य शिवाग्निजनितेन वा इति ॥

मஹापारतत्त्विलुमः:- मनीतनं, आयुल्लेस विरुम्पिनवग्नेयिनुम्, औक्षवर्यत्तेत विरुम्पिनव ग्नेयिनुम्, मेंोक्षत्तेत विरुम्पियवग्नेयिनुम्, एप्पेपामुत्रुम् पस्मत्तेतत्त तरीक्क वेण्णुम्. कंरियासारत्त्विलुमः:- तनतु वलतुकरत्तिनं, नुवान शुन्नरु वीरल्कलालुम् आरु अंकुलप्रमाणमाक, अल्लतु अतिकमाकवावतु, इरण्णु कण्णकलीन वरयिलावतु, नेन्नरीयिलं प्रकाशमुलं तरीपुण्टरत्तेत पस्मत्तिनुलं छुरुकालं तरीक्किंचन्नवनं रुतरन्. इतिलं लम्चस्यमिलैल. अनामिकावीरलं अकारमाम्. नुवीरलं उकारमाम्. तरंज्ञी वीरलं मकारमाम् आकेयालं इम्मुन्नरु वीरल्कलालुम् तरीपुण्टरत्तेतत्त तरीक्क

வேண்டும். ஸாங்க்யாயன க்ருஹ்யத்திலும் : - 'தரியாயுஷம்' முதலியஜந்து மந்த்ரங்களால் நெற்றி, மார்பு, வலது தோள், இடது தோள், முதுகு என்ற ஜந்து ஸ்தானங்களிலும் பஸ்மத்தினால் தரிபுண்டரத்தை எவன் தரிக்கின்றானே அவன் இந்த வேதங்களுள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்றுகளை அத்யயனம் செய்தவனுகிறுன்.

மாத்யந்தின க்ருஹ்யத்திலும் : - நெற்றி, கழுத்து, வலது தோள், இடது தோள், மார்பு இவைகளில் தரியாயுஷம் முதலிய மந்த்ரங்களால் பஸ்மத்தினால் தரிபுண்டரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். ஸ்காந்தத்தில் : - தாந்தரிகர்களுக்கு மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் ஜலத்துடன் கூடிய தரிபுண்டரம் தரிக்கத் தகுந்தது. ஸ்தீர்களுக்கும் யதிகளுக்கும் ஜலமில்லாத புண்டரம் தரிக்கத் தகுந்தது. வானப்ரஸ்தன், ப்ரம் ஹசாரி, கன்யை, தீக்ஷியில்லாத மனிதர் இவர்களுக்கும் மத்யாஹ்னத்திற்கு முன் ஜலத்துடன் கூடியதும், பிறகு ஜலமில்லாததுமான தரிபுண்டரம் விதிக்கப்படுகிறது. ஆதித்ய புராணத்தில் : - ப்ராம் ஹணன் எப்பொழுதும் ஸகல கர்மங்களிலும், அக்னிஹோத்ர பஸ்மத்தினாலாவது, சிவாக்னி பஸ்மத்தினாலாவது தரிபுண்டரம் தரித்தவனுய ஆகவேண்டும்.

வாசிஷ்டலைஜே வசிஷ்ட பிதி மஹாதேவः - ஭ஸ்ம விஞ்சி பர விஹா
ஸத்யबोधஸுखாவஹம् । ஭ஸ்ம தத்வேநால்லभ्यं முख्यं தदपरं बुधैः ॥ ஆग్யே
गौणमज्ञानध्वंसकं ज्ञानसाधनम् । गौणं नानाविधं विञ्चि व्रह्मन्
ब्रह्मविदां वर ॥ अग्निहोत्राग्निजं तद्वत् विरजानलजं मुने ।
औपாஸனஸமுத்பந் ஸமி஦ग்நிஸமுद்வம् ॥ தைவரிகானா் ஸர்வேஷாமग்நி-
ஹோत்ரஸமுத்வம् । விரஜானலஜ் சைவ ஧ார்ய ஭ஸ்ம மஹாமுனே ॥
औபாஸனஸமுத்பந் ஗ृहस्थானா் விஶேषதः । ஸமி஦ग்நிஸமுத்பந் ஧ார்ய வை
விஹாரிணாம् ॥ ஶாநாம் ஶாநாம் பஞ்சாग்நிஸமுத்வம् ।
அந்யேஷாமபி ஸர்வேஷாம் ஧ார்ய ஦ாவானலோத்வம् ॥

वालींकृष्ट लेङ्ककृष्टील वलींकृष्टरे नोक्की, महारातेवरः - ओ मुणे! 'पस्म' एन्पतु, लेंकितानन्तरत्तेत केकाटुकृम प्रम्हमेएन्ऱु अरियुम्. अतु ज्ञानत्ताल वित्वान्कलाल अरियत्तकुन्ततु. इतु मुक्यमाकुम्. मर्हतु केळाण्णमाण पस्म. अतु अक्णीयिलुन्टाकियतुम्, अक्णानत्तेत अकर्हवतुम्, ज्ञानत्तेत सातिप्पतुमाकुम्. प्रम्हमेज्ञानीकरुणसिरन्त ओ प्रम्हमेण! अन्त, केळाण्णपस्मम पलवितमाय उलातु एन्ऱर्हिवायाक. अक्णी हेहात्तराक्णीयिल उन्टाकियतुम्, विरज्ञाक्णीयिल उन्टाकियतुम्, उलापासनत्तिल उन्टाकियतुम्, समितक्णीयिल उन्टाकियतुम् एन्ऱु पलवितमाम्. ऐन्ऱु वर्णनत्तारुक्कुम्, अक्णी हेहात्तरत्तिल उन्टाकियतुम्, विरज्ञाक्णीयिल उन्टाकियतुमाण पस्मम एर्हतु. करुहूस्तरुक्कु उलापासनत्तिल उन्टाकियतुम्. प्रम्हमेशारीकरुक्कु समितक्णीयिल उन्टाकियतुम्. कुत्तरुक्कु, चरोत्तरीय करुहूत्तिल पाकाक्णीयिल उन्टाकियतुम् तार्यम. मर्ह एल्लेहारुक्कुम काटुत्त त्रियिणाल उन्टाकियतुम् तारीयम्.

अग्निरित्यादिभिर्नन्तैः षडभिराधर्वणैस्तथा । जाबालैः सप्तभिर्विष्टपि गौणेनैव तु भस्मना ॥ उच्छ्वलयेत् स्वकं देहं पापपुञ्जभयापहम् । त्रियायुषेण मन्त्रेण मेधावीत्यादिनाऽथवा ॥ गौणेन भस्मना धार्य त्रिपुण्ड्रं ब्रह्मचारिणाम् । त्रैयम्बकेण मन्त्रेण सतारेण तथैव च ॥ पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण प्रणवेन युतेन च । ललाटे हृदये चैव दोर्द्वन्द्वे च महामुने ॥ त्रिपुण्ड्रं धारयेन्नित्यं गृहस्थश्च वनाश्रमी ।

'अक्णीरीति' मुठलाण आहु आतर्वण मन्त्ररंकलाल, अल्लतु एमु ज्ञापाल मन्त्ररंकलाल, केळाण्णपस्ममत्तिलै तन तेहूत्तेत उत्तुलाणम चेय्यवुम्. इतु पापक्कूट्टत्तिणीन्ऱु पयत्तेतप पोक्कुवत्ताकुम्. 'तरीयाय॒ष' मन्त्ररत्ताल, अल्लतु, 'मेत्तावै' एन्पतु मुठलीय मन्त्ररत्ताल,

ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கு கெளனபஸ்மத்தினால் தரிபுண்ட்ரம் தரிக்கத் தகுந்ததாகும். ப்ரணவத்துடன் கூடிய 'த்ரயம்பக' மந்த்ரத்தாலும், ப்ரணவத்துடன் கூடிய பஞ்சாக்ஷரமந்த்ரத்தாலும், நெற்றி, மார்பு, இரு புஜங்கள் இவைகளில், க்ருஹஸ்தனும், வானப்ரஸ்தனும், நித்யமும் தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும்.

आत्ममन्त्रेण हंसेन प्रणवेन समाहितः ॥ त्रिपुण्ड्रं धारयेन्नित्यं
सच्यासाश्रममाश्रितः । नमोन्तेन शिवेनैव शूद्रः शुशूषणप्रियः ॥
उज्जूलनं त्रिपुण्ड्रं च नित्यं भक्त्या समाचरेत् । अन्येषामपि सर्वेषां विना
मन्त्रेण सुव्रत ॥ उज्जूलनं त्रिपुण्ड्रं च कर्तव्यं भक्तितो मुने इति ॥

ஸன்யாஸாக்ரமத்தில் இருப்பவன், ஆத்மமந்த்ரமான ஹம் ஸமந்த்ரத்தாலும், ப்ரணவத்தாலும், கவன முள்ளவனுய், தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும், 'நமः' என்பதை முடிவில் உள்ள சிவ பத்ததால் (சிவாய நமः) கச்சருஷையில் பரியமுள்ள சூத்ரன், உத்துளனம் தரிபுண்ட்ரம் இவைகளை, நித்யமும் பக்தியுடன் செய்ய வேண்டும். ஒ முனே! மற்ற எல்லோருக்கும் மந்த்ரமில்லாமல் உத்துளனமும் தரிபுண்ட்ரமும் பக்தியுடன் செய்யத் தகுந்ததாம்.

ब्रह्मचारिणां धारणप्रकारमाह बोधायनः - यस्मिन्नग्नौ कर्म
कृत्वोपतिष्ठते तस्मात्तृष्णी भस्मादाय तृष्णीमभिमन्त्याभिमृश्य
मानस्तोक इति मन्त्रेणादाय धारयेत् मेधावीति ललाटे तेजस्वीति
दक्षिणे बाहौ वर्चस्वीति सव्ये ब्रह्मवर्चसीति हृदयदेशो आयुष्मानिति
कण्ठे भूयासं स्वस्तीति सर्वत्रानुषजति इति ॥

ப்ரம்ஹசாரிகள் தரிக்கும் விதியைச் சொல்லுகிறார், போதாயனர்:- எந்த அக்னியில் கர்மத்தைச் செய்து உபஸ்தானம் செய்கின்றாலே அதினின்றும் மந்த்ரமில்லாமல் பஸ்மத்தை எடுத்து, அபிமந்த்ரித்து, ஸ்பர்சித்து, 'மாநஸ்தோகே' என்ற மந்த்ரத்தால் எடுத்து,

‘मेत्थावी’ एन्ऱू नेन्हीयीलुम्, ‘तेज्जल्सवी’ एन्ऱू वलतु पूजत्तिलुम्, ‘वरंक्षसवी’ एन्ऱू इटतु पूजत्तिलुम्, ‘प्रर्मळवरंक्षसली’ एन्ऱू मार्पिलुम्, ‘आयुष्मानं’ एन्ऱू कमुत्तिलुम् तरीक्कवम्, ‘पूपासमं स्वसंति’ एन्ऱू एल्ला मन्त्रराङ्कणीलुम् चोरक्क वेण्णुम्.

गारुडे – श्रुतयः स्मृतयः सर्वाः पुराणान्यखिलान्यपि । वदन्ति भूतिमाहात्म्यं ततस्तां धारयेद्द्विजः ॥ उच्छूलनं त्रिपुण्डं च मनसाऽपि न सन्त्यजेत् । श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्’ इति ।

कारुटत्तीलः :- लकल संग्रुतिकणुम् लकल संमंग्रुतिकणुम्, लकल पुराणांकणुम्, पलंमत्तीनं बेप्रामेययसं चेऽल्लुकिन्ऱना. आकेयालं प्ररामळवण्णं अतेतत् तरीक्क वेण्णुम्. उत्तुलानत्तेतयम्, तरीपन्नंतरत्तेतयम् मनतालुम् वीटक्कटातु. संग्रुतियिलं वीक्किक्कप्पाटुवत्तालं. अवेवक्णी वीटुकिन्ऱवनं पतित्तावाणं.

पाराशरे – भस्मना वेदमन्त्रेण त्रिपुण्डं चावकुण्ठनम् । यस्य सिध्येत् प्रयत्नेन ब्राह्मण्यं तस्य पुष्कलम् ॥ भस्मना वेदमन्त्रेण त्रिपुण्डस्य तु धारणम् । आश्रमाणां च सर्वेषां धर्मत्वेनाहुरास्तिकाः ॥ शिवस्य विष्णोर्देवानां ब्रह्मणस्तृसिकारणम् । पार्वत्याश्च महालक्ष्म्या भारत्यास्तृसिकारणम् । भस्मना वेदमन्त्रेण त्रिपुण्डस्य तु धारणम् ॥ भस्म संछन्नसर्वाङ्गं त्रिपुण्डाङ्गितमस्तकम् । ये निन्दन्ति नरा राजा हन्यात्तानविचारतः ॥ वैणर्वी धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम् । पवित्रमुपवीतं च त्रिपुण्डोऽच्छूलनं द्विजः ॥ यथा विशिष्टे मानुष्ये ब्राह्मणे पशुविग्रहे । यज्ञदानाद्यनुष्ठानं दुर्लभं सवदेहिनाम् ॥ तथा श्रौतेषु धर्मेषु त्रिपुण्डं भस्मकुण्ठनम् । रुद्रलिङ्गार्चनं चापि दुर्लभं हि शारीरिणाम् ॥ त्रिपुण्डधारणं तिर्यक् भस्मनैवावकुण्ठनम् । सुदुर्लभमिति ज्ञात्वा खलु सर्वेश्वरोऽकरोत् ॥ अनिष्पन्नस्य कर्तव्यं त्रिपुण्डादेस्तु धारणम् ॥

விஶேண ஸ்வலாभாய நாந்யலாभாய ஸத்தம் ॥ ஸ்வலாभமந்தரேணாபி
பராசாரார்஥மாஸ்திக । நிஷ்சேநாபி கர்த்ய யथா ஸ்வேஶ்வரேண து இதி ॥

பாராசரத்தில்:- வேதமந்த்ரத்துடன் பஸ்மத்தால்
த்ரிபுண்ட்ரமும் உத்துளனமும் எவனுக்கு
ஸித்தித்துளனதோ அவனுக்கே ப்ராஹ்மண்யம்
பூர்ணமாயுள்ளது. வேதமந்த்ரத்துடன் பஸ்மத்தால்
த்ரிபுண்ட்ரத்தை தரிப்பது எல்லா ஆச்ரமங்களுக்கும்
தர்மமென்கின்றனர் ஆஸ்திகர்கள். வேதமந்த்ரங்களால்
செய்யப்படும் பஸ்ம த்ரிபுண்டரமானது, சிவன், விஷ்ணு,
தேவர்கள், ப்ரம்ஹா, பார்வதி, மஹாலக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி
இவர்களின் தருப்திக்குக் காரணமாகும். பஸ்மத்தால்
பூசப்பட்ட ஸர்வாங்கங்களை உடையவளையும், த்ரிபுண்ட்ரம்
தரித்த லலாடமுடையவளையும் எந்த மனிதர்கள்
நிந்திக்கின்றனரோ அவர்களை அரசன் ஸந்தேஹமில்லாமல்
ஒடுக்க வேண்டும். ப்ராம்ஹணன், வேணு தண்டத்தையும்,
ஸஜலமான கமண்டலுவையும், பவித்ரத்தையும்,
உபவீதத்தையும், த்ரிபுண்டரத்தையும், உத்துளனத்தையும்
தரிக்க வேண்டும். உலகில், மனுஷ்யத் தன்மையில்
ப்ராம்ஹணன் சிறந்தவனுகினும், யாகார்ஹமான பசுசரீரம்
சிறந்ததாகினும், யக்ஞம் தானம் முதலியதின்
அனுஷ்டானம் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஸாலப
மாகாமல் எவ்விதம் சிலருக்கு, துர்லப மாகின்ற தோ
அவ்விதம் ச்ரெளத தர்மங்களுள், பஸ்ம த்ரிபுண்ட்ரமும்,
பஸ்மோத்துளனமும், சிவ விங்கார்ச்சனமும், சரீரிகளுக்கு,
துர்லபமாகியது. பஸ்மத்தினால் த்ரிபுண்டரமும்,
உத்துளனமும் மிகவும் துர்லபமென்று அறிந்தே,
ஸர்வேச்வரன் தான் தரித்தார். அநிஷ்பன்னால் (பூர்ண
நிலையடையாதவனால்) த்ரிபுண்டராதி தாரணம்
ஆத்மலாபத்திற்காக அன்யலாபத்திற்கு இல்லாமல்
செய்யத் தகுந்ததாம். முக்தனும் பிறர் ஆசரிப்பதற்காக,
ஸர்வேச்வரன் செய்வது போல் செய்ய வேண்டியதே.

मानवोपपुराणे – त्रिपुण्ड्रधारिणं दृष्ट्वा भूतप्रेतपुरस्सराः ।
भीताः प्रकंपिताः शीघ्रं गच्छन्त्येव न संशयः ॥ त्रिपुण्ड्रधारणं भूत्या
तथा देहावकुण्ठनम् । यो न कुर्यात् मन्त्रेण स साक्षात् पतितो भवेत्
इति ॥ कूर्मपुराणेऽपि – स्रष्टा सृष्टिच्छलेनाह त्रिपुण्ड्रस्य प्रशस्तताम् ।
ससर्जस ललाटं हि तिर्यङ्ग्नोर्ध्वं न वर्तुलम् ॥ तिर्यग्रेखाः प्रकाशन्ते
ललाटे सर्वदेहिनाम् । तथाऽपि मानवा मूर्खान् कुर्वन्ति त्रिपुण्ड्रकम् ॥
वेदस्याध्ययने शूद्रो नाधिकारी यथा भवेत् । त्रिपुण्ड्रेण विना विप्रो
नाधिकारी स्वकर्मसु ॥ यथा राजा स्वचिह्नाङ्कं स्वजनं मन्यते सदा ।
तथा शिवस्थिपुण्ड्राङ्कं नरं स्वमित्र मन्यते ॥ द्विजातिर्वाऽन्त्यजातिर्वा
सितशुद्धेन भस्मना । धारयेद्यस्थिपुण्ड्राङ्कं रुद्रस्तेन वशीकृतः इति ॥

मानवोप वृराणत्तुलिः:- पृथ प्लरेत्तंकलं
मुतवियवर्कलं, तरीपुन्नटरम् तरीत्तवैनकं कन्नटालं
पयन्तु न उन्कि, चिक्रमायं वेलीयेयरुकिन्नरनर,
सम्चयमिल्लै. मन्त्रत्तरत्तुलं पल्लमत्तालं
तरीपुन्नटरत्तेयुम् उत्तरालनत्तेयुम् एवन
चेय्वत्तिल्लैयो अवन्पत्तिलं. कुर्मं वृराणत्तुलुमः-
तरीपुन्नटरम् पाराट्टप बेर्न्ऱते एन्पत्तेत,
प्ररम्लैतेवन्लं लंगुष्टियेयन्म, कपटत्तिलुलं
वेलीयिट्टार. अवर् नेर्न्ऱरियेयकं कुरुक्काक
संगुष्टित्तार. ऊर्त्तवमाकवावतु, वर्त्तत्तुलमाकवावतु
संगुष्टित्तारील्लै. एल्लो प्रराणीकरुक्कुम् नेर्न्ऱरियिलं
कुरुक्काक मुन्ऱ्ऱु रेकेककलं काणप्पुकिन्नरन.
अव्वितम् इरुन्तुम् मुर्ककराण मनीतर्कलं
तरीपुन्नटरत्तेतत्तरीप्पत्तिल्लै. कुत्तरन् वेतात्ययनत्तिलं
एप्पटि अतिकारीयावत्तिल्लैयो अतुपोलं, तरीपुन्नटरम्
तरीक्कात प्रराम्लैन्नें लंवकर्माष्टाणत्तिलं
अतिकारीयावत्तिल्लै. अरक्कन, तनतु अटेयाणत्तेतत्त
तरीत्तवैनत्त तनतु मनीतन्न एन्ऱ्ऱु एप्पटि
एन्ऱ्ऱुकिन्नरुग्गे अव्वितम् तरीपुन्नटरम् तरीत्त
मनीतैनत्त तमतु मनीतग्गे एप्पेपामुत्रम् परमसिवन्न

என்னுகின்றார். த்விஜன் ஆனாலும், அந்தயஜன் ஆனாலும், எவன் வெளுத்தும் சுத்தமுமான பஸ்மத்தினால் தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்கின்றானே அவனால் பரமசிவன் வசப்படுத்தப்படுகிறார்.

லைஞ் – திருப்புண்டு ஸுரவிப்ராணா வர்துல் நூப வைஶயயोः । அர்ச்சநங்கு து
ஶूदாணாமந்யேஷாமूर்஧்வபுண்டகம् இதி ॥ ஬்ரஹ்மைந்தே – ஧ார்ய ஭ஸ்ம
ஸ்வாதாத்திரோத்திரநிதம் யத்தைக் வைத்தைக்குபுண்டத்தா லலாடபலகே
வக்ஷः ஸ்஥லே மஸ்தகே । ஬ாஹ்மந்திரபுரஸ்ஸர் க்ருஶாத் தைரை ஸம்யக்ஷத் ஸ்வாதம்
தீர்த்தஸ்வஸ்கோடிஷு ஧ரா ஦தாத்தநவதேத்திலா இதி ॥ ஶங்கரஸங்ஹிதாயாம் –
யதை முஞ்சித ஭ஸ்மாங்கி மூர்஖ோ வா பண்டிதோபி வா । ததை முங்கே மஹாதேவ:
ஸபந்திகோ வூஷாஷ: ॥ மூதிரைவௌஷாஷ புஞ்சா முக்திஸ்விவஶயகர்மணி இதி ॥

விங்கத்தில்:- தேவர்களுக்கும், ப்ராம்ஹனர் களுக்கும் தரிபுண்டரமும், கஷ்தரிய வைச்யர்களுக்கு வட்டபுண்டரமும், சூத்ரர்களுக்கு அர்த்தசந்தர புண்டரமும், மற்றவர்க்கு ஊர்த்வ புண்டரமும் விஹிதமாகின்றது. ப்ரம்ஹகைவர்த்தத்தில் :- அக்னி ஹோத்ரத்தில் உண்டாகியதும் வைதிகமுமான பஸ்மத்தை வைதிகர்கள் நெற்றி, மார்பு, சிரஸ், கைகள் இவைகளில் மந்த்ர பூர்வமாய், திர்யக் புண்டரமாய் தரிக்க வேண்டும். அவற்றையே நூறு யாகங்கள் விதிப்படி செய்யப்பட்டதாகும். ஆயிரம் கோடி தீர்த்தங்களில் அவர்களால் ஸ்நானம் செய்யப்பட்டதாகும். பூமி முழுவதும் தோஷமற்ற ப்ராம்ஹனனிடத்தில் தானம் செய்யப்பட்ட தாகும். சங்கரஸம்ஹிதையில்:- பஸ்மத்தைத் தரித்தவன் மூர்க்கனுயினும், பண்டிதனுயினும் எங்கே புஜிக்கின்றானே அங்கு, வருஷபத்வஜனுகிய மஹாதேவன் அம்பிகையுடன் புஜிக்கின்றார். மனிதருக்கு, முக்கு என்னும் பெண்ணை வசப்படுத்துவதில் பஸ்மமே ஒளஷதமாகும்.

सौरसंहितायाम् – भस्मनाच्छब्दसर्वज्ञमनुगच्छति यः पुमान्। सर्वपातकयुक्तोऽपि स सद्यः पूयते नरः ॥ यथा पुरेषु सर्वेषु पुरी वाराणसी शुभा । तथा शुश्रं त्रिपुण्ड्रं च सर्वपुण्ड्रेषु कथ्यते इति ॥ मानवीयसंहितायाम् – प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च त्रिपुण्ड्रकम्। सितेन भस्मना कुर्यात् स रुद्रो नात्र संशयः इति ॥ सूतसंहितायाम् – ललाटे चैव दोर्द्वन्द्वे तथैवोरसि बुद्धिमान् । त्रिपुण्ड्रं धारयेन्नित्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ भस्मनोद्भूलनं चैव तथा तिर्यक् त्रिपुण्ड्रकम् । प्रमादादपि मोक्षार्थीन् त्यजेदिति हि श्रुतिः इत्यादि ॥

लेलारसमंह्रीत्यायिलः- पस्ममत्तालं पूचप्पट्ट लेर्वाङ्कनंकजैलायुम् उत्तेयवैने एन्त मनीतां अनुलेरीत्तुसं चेलंलुकिन्ऱ्गुत्तें अवन्स, लकल पापन्कगुत्तां कृष्णयवगुयिन्नुम् अप्पेपामुतेसुत्तांकिरुन्स. लकल पट्टाणाङ्कगुक्कुलांकुम् काशीपुरी एप्पटिसं चिरन्ततेऽरो, अप्पटि, सुत्तत तरीपुण्टरमुम् लकल पुण्टरन्कगुक्कुलं चिरन्ततायसं चेलालप्पट्टकिरुतु. **माणवीयसमंह्रीत्यायिलः-** एवन्स, कालैयीलुम्, मत्याहून्ततिलुम्, मालैयीलुम्, वेलैत्तत पस्ममत्तालं तरीपुण्टरत्तेत, तरीक्किन्ऱ्गुत्तें, अवन्स रुत्तरेणे. इतिलं लेमंसयमिल्लै. **लैत्तालमंह्रीत्यायिलः-** नर्पुत्ततियुलावन्स, नेन्ऱ्नी, इरुपूज्ञंकगुलं, मार्पु इवेवकलीलं, पुक्तिमुक्तिपलत्तेत अलीक्कुम् तरीपुण्टरत्तेत नित्यमुम् तरीक्कवुम्. पस्ममत्तिन्नेलं उत्ततालानत्तेतयुम्, तरीपुण्टरत्तेतयुम्, मेंोक्षत्तेत विरुम्पुवेवालं कवनम् इन्नेमयालुम् विटक्कूटातेन्किन्ऱ्गुतु वेतम्.

पुरुषार्थप्रबोधेऽपि – विभूतिधारणविधिं प्रवक्ष्यामि समासतः । भस्माग्निहोत्रजं वाऽथ विरजाग्निसमुद्भवम् ॥ आदरेण समादाय शुद्धे पात्रे निधाय तत् । प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च द्विराचम्य समाहितः । गृहीत्वा भस्म तत् पञ्चब्रह्ममन्त्रैः शनैः करे । प्राणायामत्रयं कृत्वाऽथाग्निरित्यादिमन्त्रतः ॥ तैरेव सप्तभिर्मन्त्रैः त्रिवारमभिमन्त्र्य

தத् । ஓமாபோஜ்யோதிரித்யுக்தவா ஧்யாத்வா விஷ்ணுஞ் ஜலாधிபம् ॥ ஸ்யோஜ்ய
भस्मना तोयमग्निरित्यादिभिः पुनः । निमृज्य साम्बं ध्यात्वा
समुद्घूल्यापादमस्तकम् । तेन भावनया ब्रह्मभूतेन सितभस्मना ।
ललाटवक्षः स्कन्धेषु स्वाश्रमोचितमन्तः ॥ मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैरनु-
लोमविलोमतः । त्रिपुण्ड्रं धारयेनित्यं त्रिकालेष्वपि भक्तिः ।
उच्छूलनस्य स्नानत्वाद्वस्तौ प्रक्षाल्य तत्परम् । द्विराचामेत् त्रिपुण्ड्रस्य
धारणान्ते तथैव च इति ॥

புருஷார்த்த ப்ரபோதத்திலும்:- விபூதிதாரணத்தின் விதியைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன். அக்னி ஹோத்ர பஸ்மத்தையாவது, விரஜாக்னி பஸ்மத்தையாவது ஆதரவோடு எடுத்து, அதைச் சுத்தமான பாத்ரத்தில் வைத்து, கை கால்களை அலம்பி, கவனமாய் இருமுறை ஆசமனம் செய்து, அந்தப் பஸ்மத்தைப் பஞ்சப்ரஹ்ம மந்த்ரங்களால் எடுத்துக் கையில் வைத்து, மூன்று ப்ரராணையாமங்கள் செய்து, ‘அக்னிரிதி’ என்ற ஏழு மந்த்ரங்களால் மூன்று முறை அபிமந்த்ரித்து, ‘ஓமாப:’ என்ற மந்த்ரத்தைப் படித்து, ஐலாதிபதியான விஷ்ணுவை த்யானித்து, பஸ்மத்துடன் ஐலத்தைச் சேர்த்து, ‘அக்னிரிதி’ முதலிய மந்த்ரங்களால் குழழுத்து, ஸாம் பசிவனை த்யானித்து, தலைமுதல் கால்வரையில் உத்துாளனம் செய்து, பாவனையினால் ப்ரம்ஹமாயுள்ள அந்த வெண்ணிறமான பஸ்மத்தினால், நெற்றி, மார்பு, தோள்கள் இவைகளில் தனது ஆச்ரமத்திற்குசிதமான மந்த்ரத்தால், நடுவிரல், பவித்ரவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் அனுலோம மாகவும், விலோமமாகவும், மூன்று காலங்களிலும் பக்தியுடன், தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்க வேண்டும். உத்துாளனம் ஸ்நானமானதால், பிறகு கைகளை அலம்பி இருமுறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். தரிபுண்ட்ரத்தைத் தரித்த பிறகும் அப்படியே செய்ய வேண்டும்.

क्रियासारे - शूद्रहस्तस्थितं भस्म द्विजातिनैव धारयेत् । तथैवान्त्यजहस्तस्थं शूद्रैर्धर्यं न जातुचित् ॥ यावन्तः पतिता भूमौ भस्मनः परमाणवः । तावद्वृष्टसहस्राणि रौरवं नरकं ब्रजेत् इति ॥ पाराशरे - श्रौतधर्मैकनिष्ठानां लिङ्गं तु श्रौतमेव हि । अश्रौतधर्मनिष्ठानां लिङ्गं त्वश्रौतमेव हि । श्रौतं लिङ्गं च विज्ञेयं त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मकम् । अश्रौतमूर्ध्वपुण्ड्रादि नैव तिर्यक् त्रिपुण्ड्रकम् ॥ वेदसिद्धो महादेवः साक्षात्संसारमोचकः । उमार्धविग्रहः शुक्लश्रद्धार्द्धकृतशेखरः ॥ लोकानामुपकाराय श्रौतं लिङ्गं दधाति च । वेदसिद्धस्य विष्णोश्च श्रौतं लिङ्गं न चेतरत् ॥ प्रादुर्भावविशेषाणामपि तस्य तदेव हि इति ॥

कंगीयाशारत्त्वीलः- कुत्तरनं कैकयीलुण्ठाना पस्ममत्तेत
त्विज्ञनं तारीक्कक्क कूटातु. अन्त्यज्ञनीनं कैकयीलुण्ठाना
पस्ममत्तेत्तच कुत्तररुम् ओरुकालुम् तारीक्कक्क कूटातु.
विप्रुतीयिण्ठ एवंवளवु परमाणुक्कक्कल् पूमि यिल्
विमुन्तनेवो, अवंवलवु आयिरम् वर्षेषंकक्कल् वरेयिल्
(चिन्तियवन्ठ) रेरेलव नरकत्तेत अटेवान्.

पाराचरत्त्वीलः- चेरेलत तर्मत्तिलेये
निलैबेप्र॒रवरुक्कु लिङ्कम् (कुरी, पुण्टरम्) चेरेलतमे
आकुम्. चेरेलतमल्लात तर्मत्तिल निलै बेप्र॒रवरुक्कु
लिङ्कम् चेरेलतमल्लातताकुम्. तरीपुण्टरमुम्,
उत्तुलानमुम् चेरेलतलिङ्कमेन्ऱु अरियत्त तकुन्तवै.
उन्नर्तव पुण्टरम् मुतलियतु अस्चेरेलत लिङ्कमाकुम्.
तीर्यक्पुण्टरम् अस्चेरेलतमाकातु. वेतन्कलाल
लीत्तनुम्, मल्लातेवनुम्, लोक्षात् लम्लार
मेंोक्कनुम्, उमार्तत चरीनुम्, कक्कलनुम्, सन्तरार्तत
सेकरनुमान परमेचन्लेलोकोपकारत्तिर्काक, चेरेलत
लिङ्कत्तेतये तारीक्किण्ऱुर. वेत लीत्तरान लिष्णनुवुम्
चेरेलत लिङ्कत्तेतये तारीक्किण्ऱुर. मन्त्रतेतत
तारीप्पत्तिलै. लिष्णनुविन अवतार लिचेषंक्कनुक्कुम्
चेरेलत लिङ्कमे तार्यमाय इरुक्किरतु.

भविष्यत्पुराणे — पापानामपि बाहुल्याद् दधीचस्य च
शापतः । गौतमस्य मुनेः शापात् श्रौतं लिङ्गं न रोचते इति ।
आदित्यपुराण - दुर्वासिसो मुनेः शापात् कुपितस्य महात्मनः ।
कष्वशापाद्भूगोः शापादुपमन्योश्च शापतः ॥ दधीचस्य मुनेः
शापाद्भौतमस्य च शापतः । विप्राणां दाक्षिणात्यानां
पापोपहतचेतसाम् ॥ शिवे भस्मनि रुद्राक्षे किञ्चिच्छूद्धा न विद्यते
इति ॥ त्रिपुण्ड्रोद्भूलनार्थानि वचनानि सहस्रशः । सन्ति तानि न
लिख्यन्ते ग्रन्थविस्तरभीतिः ॥

பவிஷ்யத் புராணத்தில்:- பாபங்கள்
அதிகமாகியதாலும், ததீசருடைய சாபத்தாலும், கெளதம்
முனியின் சாபத்தாலும், சீரளதமான புண்டரம்
ருசிப்பதில்லை. ஆதித்ய புராணத்தில்:- கோபமுற்றவரும்
மஹாத்மாவுமான தூர்வாஸர் கண்வர் ப்ரகு உபமன்யு
தசீமுனி, கெளதமர் இவர்களது சாபத்தாலான பாபத்தால்
கெடுக்கப்பட்ட மனதுடைய தென்தேசத்திலுள்ள
ப்ராம்ஹணர்களுக்கு, சிவனிடத்திலும், பஸ்மத்திலும்,
ருத்ராக்ஷத்திலும், கொஞ்சமும் சரத்தை இல்லை. இவ்விதம்,
த்ரிபுண்டரத்திற்கும், உத்தாளனத்திற்கும் ப்ரமாணங்க
ளான வசனங்கள் ஆயிரக்கணக்காய் இருக்கின்றன. கரந்தம்
விரியுமென்ற பயத்தினால் அவை எழுதப்படவில்லை.

யतு ஬्रஹ்ராதவசனம् - ஬்ரஹ்ரணஸ்யோர்புண்஡் ஸ்யாத्
க்ஷத்ரியஸ்யார்ச்சந்திகம् । வைஶயஸ்ய வர்த்துலாகார ஶாத்ருவை திருபுண்டிகம் இதி ।
யदपி பாத்ரவசனம् - கபாலகேஶபஸ்மாஸ்திஶுக்திபாஷாண஧ாரிணம் ।
திருபுண்டி஧ாரிண விப்ர ச்சண்டாலமிவ ஸந்த்யஜேத् ॥ பாலேந்துவத் க்ஷத்ரியானா்
வைஶயானா் வர்த்துலாகுதி । திருபுண்஡் ஶாத்ருஜாதிநா் வி஧ிரேஷ ஸநாதனः ॥
குலீனோ ஬்ரஹ்ரணோ விச்வான் ஭ஸ்ம஗்ராஹி ஭வே஘ாடி । வர்ஜயீத்தாடார்வன் ஦ேவி
மத்யோசித்திஷ்டாந்தாயா ॥ திருபுண்஡் ஬்ரஹ்ரணோ விச்வான் லிலயாபிந ஧ாரயேத் ।
திருபுண்஡ி஧ாரணா஦ிப்ர: பதத்யேவ ந ஸஂஶயः ॥ தாமஸேஷு புராணேஷு மோஹநார்த

सुरद्विषाम् । त्रिपुण्डधारणं प्रोक्तं तामसैर्मुनिसत्तमैः ॥ तामसानि
पुराणानि दृष्टा मोहाच्च यो द्विजः । त्रिपुण्डधारणं कृत्वा तमस्यन्धे
निमज्जति ॥ तिर्यक्पुण्डं न कुर्वीत सम्प्राप्ते मरणेऽपि च ।
तिर्यक्पुण्डाद्रुतिस्तिर्यगूर्ध्वपुण्डात्थोर्ध्वंगा ॥ शखधार्यसिधारी च
धनुद्वरी धनापहः । तिर्यक्पुण्डधरो विप्रश्चण्डालसदृशो भवेत् ॥
ब्राह्मणः कुलजो विद्वान् तिर्यक्पुण्डधरो यदि । तं गर्दभं समारोप्य राजा
राष्ट्रात् प्रवासयेत् इति ॥

आगुलं, प्ररम्भूरात्म, ‘प्रराम्भूरण्णनुक्तु
उन्नर्त्तव्यपुण्टरमुम्, कृत्तरीयनुक्तु अर्त्तत चन्तर्मुम्,
वैवच्यनुक्तु वर्त्ततुमुम्, कुत्तरनुक्तेते तरीपुण्टरमुम्
विहीतम्’ ऎन्ऱु चेऽल्लिय वैचनमुल्लतु. पात्तम
पुराणात्ततीलुमः- “ऐ, मयीर, चाम्पल, एलुम्पु,
किलीन्चिल, कल इवैकौन्त तरीत्तवनुम्,
तरीपुण्टरत्ततेत तरीत्तवनुमान प्रराम्भूरण्णैचं
चण्टालैनप पोल विलक्क वेण्णुम्.
कृत्तरीयर्कर्णुक्तु, पालचन्तरन पोलुम्, वैवच्यरुक्तु
वर्त्ततुमुपुण्टरमुम्, कुत्तररुक्तु तरीपुण्टरमुम् ऎन्ऱ
इन्त विति पुरातनमाक्यतु. नन्त्रुलत्तिल पिन्नत्तवनुम्,
अन्निन्त्वनुमान प्रराम्भूरण्णन पल्लमत्तते
कर्त्तव्यप्पवन्नय इरुन्त्ताल अवैन, अवैन,
मत्यत्तताल उच्चिष्ठतमान कुट्टत्तेतप पोल विलक्क
वेण्णुम्. अन्निन्त प्रराम्भूरण्णन, विलोयाट्टित्तकाकवुम्
तरीपुण्टरत्तत तरीक्कक्क कूटातु. प्रराम्भूरण्णन
तरीपुण्टत्ततेत तरीत्तताल पत्तित्ताकवे आकिरुन्,
सम्चयमिल्लै. अलारर्कौन मयक्तुवत्तर्काक,
तमेंकुण्णमुर्त्र मुनीवर्कलाल, तामसै पुराणंकलील,
तरीपुण्टर तारणम चेऽल्लप्पत्ततु. ऎन्त
प्रराम्भूरण्णन, तामसै पुराणंकौनप पार्त्ततु,
मेंकुण्टत्ताल तरीपुण्टरत्तत तरीक्किन्नरुले अवैन
पेरुमिरुलील मुमुक्किरुन्. मरणम नेंरन्त्तालुम्
तरीपुण्टरत्तत तरीक्कक्क कूटातु. तिर्यक्पुण्टरत्तताल

திர்யக்கதிதான் கிடைக்கும். ஊர்த்வ புண்டரத்தால் ஊர்த்வமான (மேலான) கதி கிடைக்கும். ஆயுதம் தரித்தவன், கத்தியைத் தரித்தவன், வில்லைத் தரித்தவன், பணத்தை அபறுவரித்தவன், திர்யக் புண்டரம் தரித்தவன் ப்ரராம்ஹனங்கில் சண்டாளனுக்கு ஸமஞீய ஆவான். நற்குலத்திற் பிறந்தவனும், அறிந்தவனுமான ப்ரராம்ஹனன் திர்யக் புண்டரத்தைத் தரித்தால், அரசன் அவனைக் கழுதையிலேற்றி, நாட்டினின்றும் வெளியேற்ற வேண்டும்.

यदपि वसिष्ठसंहितायाम्— यत् रुद्रार्चनं प्रोक्तं त्रिपुण्ड्रवाऽपि
सत्तमाः । तदब्रह्मण्यविषयं न तु विप्रस्य कर्हिचित् ॥ न त्रिपुण्ड्रं
द्विजैऽर्थं पट्टिकाकारमेव च । न चान्यदेवतामक्तिरापघपि कदाचन
इति ॥

வளிஷ்ட ஸம்ஹிதையில்:- “ஓ ஸாதுக்களே! சிவார்ச்சனமும், த்ரிபுண்டரமும் ப்ரராம்ஹனரல்லாத வரைப் பற்றியது, ஒருகாலும் ப்ரராம்ஹனரைப் பற்றியதல்ல. ப்ரராம்ஹனர்கள் த்ரிபுண்டரத்தையும், பட்டிகை போன்ற புண்டரத்தையும், தரிக்கக் கூடாது. அன்யதேவதா பக்தியும் ஆபத்திலும் விழுதமல்ல” என்றுள்ளது.

यदपि ब्रह्माण्डपुराणवचनम्— त्रिपुण्ड्रशूदकल्पानां शूद्राणां च
विधीयते इति, एवमादीनि त्रिपुण्ड्रनिषेधवचनानि पाशुपतादि-
तन्त्रदीक्षाप्रविष्टब्राह्मणनिन्दापराणि । -அத ஏவ வாராஹே, ஗ௌதம: -
ஶஶாப தாந் ஜடாப்ஸம்஦ீக்ஷாவ்ரத஧ராஸ்தா | திபுண்஡்ராரிணோ நித்யं
भஸ்மोऽங்கூலநத்பரா: ॥ ஭விஷ்யथ தியீ஬ாஹா மி஥்யாஜானப்ரலாபின: ।
஬ௌஜே சாப்யாஹ்தீ சைவ ததா பாஶுபதேऽபிச ॥ ஶாம்வே ஦ீக்ஷிதா யூங் ஭வத
஬்ராஹ்மா: இதி ॥

ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில்:- ‘குத்ரரைப் போன்ற வருக்கும், குத்ரருக்கும் த்ரிபுண்டரம் விதிக்கப்படுகிறது’

एन्नरीरुप्पत्तुम्, इतुपोलुण्ठां तंत्रिपुण्टर निषेषत
वचनंकरुम्, पासपतम् मृतय तन्त्रंरंकलील
तीक्ष्णयटन्त्रंत प्रराम्भैर्णकला निन्तिप्पति॒ल तात्पर्यम्
उ॒लालैवकलाकुम्. आ॒केयालैतान् वराहै
पुराणैत्ती॒लः- केलात्मर अवर्कलौचं सपीत्तारं - ओ
प्रराम्भैर्णतेमर्कलै। निंकलौ, ज्ञाट, पल्लमम्, तीक्ष्ण,
वर्तम इवेकलौतं तरीत्तवराय, नित्यमुम्, तंत्रिपुण्टरम्
तरीप्पवराय, उत्तुलानम् चेय्पवराय, मूलंरु
वेतन्करुक्कुम् पाह्न्यराय, बेपाय्यान गुलात्तते
प्ररलापीप्पवराय, बेलत्तम, आ॒रैहैतम्, पासपतम्,
साम्पवम इवेकलील तीक्ष्ण बेन्नवराय आ॒कक्कैलैर.

चतुर्विशतिमते - बौद्धान् पाशुपतान् जैनान् लोकायतिक
कापिलान्। विकर्मस्थान् द्विजान् दृष्ट्वा सचेलो जलमाविशेत् इति ॥
चन्द्रिकायामपि - जैनान् पाशुपतान् स्पृष्ट्वा लोकायतिक-
नास्तिकान्। स्पृष्ट्वा देवलकं चैव सवासा जलमाविशेत् इति ॥
नारदीयपुराणे - शैवान् पाशुपतांचैव पाश्चरात्रान् जनेश्वर । स्पृष्ट्वा
स्नायाज्जपेत् सूक्तं यतो निन्दन्ति वैदिकान् इति ॥ कौर्मेऽपि -
कापालिकाः पाशुपताः पाषण्डा ये च तद्विधाः । ब्रह्मभावान्निरस्तास्ते
वर्जनीयाः प्रयत्नतः इति ॥

सत्त्वार्वविम्चस्ति मत्तत्ती॒लः- बेलत्तर, पासपतर,
ज्ञालार, लेलाकायत्तिकर, कापिलर, निषित्त कर्मन्कलील
आ॒रुक्कुम् त्विज्जर्कलौ इवर्कलौकं कल्लौता॒ल लेचेल
स्नालानम् चेय्य वेण्णुम्. सन्तरीकेयिलुमः- ज्ञालार,
पासपतर, लेलाकायत्तिकर, नालौत्तिकर, तेवलेकं
इवर्कलौकं लौपर्चित्ताल लेचेलस्नालानम् चेय्य
वेण्णुम्. नारथीय पुराणैत्ती॒लः- ओ अरचलै। लेवर,
पासपतर, पाञ्चरात्रर्कलौ इवर्कलौतं तेलौता॒ल
स्नालानम् चेय्य वेण्णुम्. (पुरुष) लौमक्तत्तत्तत्त ज्ञपीक्क
वेण्णुम्. (गलेन्नी॒लः) अवर्कलौ वैवत्तिकर्कलै
निन्तिप्पवर. केलार्मत्तत्ती॒लः- कापालिकर, पासपतर,

பாஷண்டர்கள் இவர்களும், இவர்களைப் போன்ற மற்றவரும், ப்ராம்ஹணத் தன்மையினின்றும் தள்ளப்பட்டவர்கள். அவர்களை அவச்யம் விலக்க வேண்டும்.

வாசிஷ்டலைஜேऽபி – கேचித்காபாலமிச்஛ந்தி கேचித்பாशுபத் முனே । கேचி஦்வௌஞ் பிஶங்ஸந்தி கேந்திவைம்஬ர முனே ॥ கேசில்லோகாயத் தில்லந் கேசி஦்வாம் மஹாமுனே । கேசி஦்வைமிச்஛ந்தி கேசிச்சாக்த் ததை ச । ஶாம்஭வ் கேசி஦ிச்஛ந்தி யாமல் முவி கேசன ॥ அந்யானி யானி ஶாஸ்தானி விருத்தானி மஹாமுனே । ஸ்வதः ப்ரமாணமூதேந வேதேந முனிஸத்தம ॥ தாந்யேவ ஶக்யா யுக்தா: பரி஗ृஹ ஦்விஜாதய: । ஆசரந்தி மஹாமூதா யுகாந்தே ஸமுபத்திதே இதி ॥

வாஸிஷ்ட விங்கத்திலும்:- ஒ முனே! சிலர் காபாலத்தையும், சிலர் பாசுபதத்தையும், சிலர் பெளத்தத்தையும், சிலர் திகம்பரமதத்தையும் புகழ்கின்றனர். சிலர் லோகாயதத்தையும், சிலர் வாமத்தையும், சிலர் பைரவத்தையும் விரும்புகின்றனர். சிலர் சாக்தத்தையும், சிலர் சாம்பவத்தையும், சிலர் யாமளத்தையும் விரும்புகின்றனர். ஒ முனே! ஸ்வயம் ப்ரமாணமாய் உள்ள வேதத்துடன் விரோதிக்கும் சாஸ்தரங்கள் வேறு எவையுண்டோ அவைகளை, ப்ராம்ஹணர்கள் சர்த்தையுடன் கூடியவராய் பரிக்ரஹித்து, யுகாந்தம் ஸமீபத்திருக்கும் போது மஹாமூதர்களாய் அனுஷ்டிக்கப் போகிறார்கள்.

விஷ்ணுபுராணேऽபி – யேந கேநாபி யோగேந ஦்விஜாதிரீக்ஷிதः கலை । யை ஸை சை மைத்ரேய பிராயஶ்சித்த கலை கியா ॥ யதா யதா ஹ பாஷ்பங்குஷ்டமைத்ரேய லக்ஷ்யதே । ததா ததா கலேஷ்டிரநுமேயா விச்கஷணை: இதி । ஦்விஜங்நூனாஂ தந்தே஽஧ிகார உக்தோ ஜாதிநிர்ணயஸங்஗்ரஹே – பிராலணாத்தீட்சிஜகந்யாயாஂ ஜாதோ நாம ஶிவத்தீட்சிஜ: । மஹாதேவஸ்ய பூஜாார்஥

मुपनेयः समन्ब्रकम् ॥ शिवागमं पठेनित्यं शिवशोषान्मुक्तिमान् ।
दीक्षाधर्मविधानं च द्विजो धर्ममिवाचरेत् ॥ ब्राह्मण्यां सधवायां तु
विप्राजातस्तु कुण्डकः । विधवायां तु गोलः स्यादेतौ श्राद्धबहिष्कृतौ ।
तौ च देवस्य पूजार्हा बुपनेयौ च मन्त्रतः । आरामपोषणः कुण्डो
गोलको हिङ्गुविक्रयी ॥ सर्वर्णस्वधमावेतौ कानीनत्वाच्छिवद्विजः
इति ॥

विष्णुन्नु पुराणत्तिलुमः:- कलियिल, प्रराम्भूरुण्णनं
घतावतेऽरु चास्तरत्तालं तीक्ष्णितावेवान्, औ मेत्तरेय?
घतावतेऽरु करीये (मनत्तिरुक्तं तेऽन्नरियते) प्ररायसं
सित्तमाकुमं कलियिल. औ मेत्तरेय! एन्तेतन्तकं कालत्तिलं
पाष्ठन्टरीनं वंगुत्ति काणप्पटुकिरुतेऽर, अन्तन्तकं
कालत्तिलं कलियिनं वंगुत्तियेयपं पुत्तिमान्कलं
अनुमानीक्क वेण्णुम. प्रराम्भूरुण्णनिटत्तिलिय
लेङ्करहृत्तिलः:- प्रराम्भूरुण्णनिटत्तिलियन्नुम कृष्टरीय
वेवस्य कन्येयकलीटत्तिलं प्रिरन्तवनं सिवत्तविज्ञनं
एनप्पटुवान्. अवनं महातेववनीनं पृज्ञेयक्काक
मन्तरत्तुटनं उपन्यनमं चेय्यत तकुन्तवनं. अवनं
नित्यमुमं सिवाकमत्ततेपं प्रतिक्क वेण्णुम.
सिवनीर्माल्यान्नत्ततेपं पृज्ञिक्क वेण्णुम.
प्रराम्भूरुण्णनं वेत्तिक तर्मत्तते अनुष्टिप्पतुपोलं
तीक्ष्णातर्मवितान्नत्तते अनुष्टिक्क वेण्णुम. पतियुटनं
कृष्टय प्रराम्भूरुण्णनियिटत्तिलं ज्ञारन्नुनं प्रराम्भूरुण्णनुलं
उन्टाकियवनं कुण्टकनं एनप्पटुवान्. प्रराम्भूरुण्ण
वितवेयिनिटमं प्रराम्भूरुण्णनुलं प्रिरन्तवनं केऋकनं
एनप्पटुवान्. इवरं इरुवरुमं सरात्तत्तिरुक्त
अर्हरल्लातवरं. अवरुमं तेवपृज्ञेयक्काक
मन्तरत्तिलुलं उपन्यनमं चेय्यत तकुन्तवरं. कुण्टनं
पृत्तेऽटत्ततेपं पोलशिप्पवनं, केऋकनं
पेगुन्कायमं विरपवनं, इवरीरुवरुमं लवर्मन्नरुलं
अथमर्कलं. कन्ननीयिनिटत्तिरु प्रिरन्ततालं सिवत्तविज्ञनुम
अथमन्नं.

யतு ஶङ்கவचனम् - ஦ீபாಗ்நಿं ஦ீபதைல் ச ஭ஸ்ம சாஸ்஥ி
ரஜஸ்வலாம்। எதானி஬्रாஹ்ணः ஸ்பृஷ்டா ஸ்வாஸா ஜலமாவிஶேதீதி, தத्
दीपाग्निपदसन्निधानात् तदग्निवर्तिभस्मविषयम्। ஭ஸ்மமாறபரத்வே து
பூர்வோக்தமஸ்மधாரணவிஷயக ஶ्रுதிஸ்மृதीதிஹாஸபுராணவிரோத: ஸ்யாத्।
தஸ்மாடுங்கூலன் திருப்புண்டுங்கை வைதெகைர்யமிதி ஸ்஥ிதம்॥

சங்காரின் வசனமோ:- “ தீபத்தின் சுடரையும்,
தீபத்தின் எண்ணெயையும், பஸ்மத்தையும்,
அஸ்தியையும், ரஜஸ்வலையையும், ப்ராம்ஹணன்
தொட்டால் ஸ்சேலஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்” என்று
உள்ளதே எனில், அது, தீபாக்னி பதம் ஸமீபத்தில்
இருப்பதால், தீபாக்னியில் இருக்கும் பஸ்மத்தைப்
பற்றியதாகும். அல்லாது, எல்லாப் பஸ்மத்தையும்
சொல்லுகிற தெனில், முன் சொல்லியதும்,
பஸ்மதாரணத்தை விதிப்பதுமான ச்ருதி ஸ்ம்ருதி
இதிஹாஸ புராணங்களுடன் விரோதம் நேரிடும்.
ஆகையால், உத்துளனமும், த்ரிபுண்டரமும்
வைதிகர்களால் தரிக்கத் தகுந்ததேயாகும்.

அன்ற விகல்பமாஹ வ்யாஸः - ஊர்புண்டு திருப்புண்டு வா ஧ாரயேத்
ஸர்வகர்மஸு இதி ॥ ஶவேதபி - ஊர்புண்டு திருப்புண்டு வா ஧ृत्वा கமணி வை
த்திஜः । இष்டாபூர்த்தனி குர்வித நாந்யதா தத்கல் லभेतீதி ॥ அந்யத்ராபி -
அாசம்ய ஧ாரயே தூர்வுபுண்டு புண்யஸ்தலீமுடா । அத்வா ஧ாரயேதிப்போ ஭ஸ்மநா
து திருப்புண்டுகம் ॥ யज்வா து ஧ாரயேநித்யம் ஭ஸ்மநைவ திருப்புண்டுகம் இதி ॥

இதில் விகல்பப்பத்தைச் சொல்லுகிறார், வ்யாஸர்:-
ஊர்த்வபுண்டரத்தையாவது, த்ரிபுண்டரத்தையாவது,
ஸகல கர்மங்களிலும் தரிக்க வேண்டும். சைவத்திலும்:-
ப்ராம்ஹணன், ஊர்த்வபுண்டரத்தையாவது
த்ரிபுண்டரத்தையாவது தரித்து, இஷ்டாபூர்த்தகர்மங்களைச்
செய்ய வேண்டும். இல்லாவிடில் அதன் பலனை
அடைவதில்லை. மற்றேருடத்திலும்:- ப்ராம்ஹணன்,

आशमनम् चेयंतु, पुण्य संतलत्तिलु००ला मंगुत्तिकयाल॒
श्वारंत्व पुण्टरत्तेत्तत्त॒ तरीक्कवुम्, अल्लतु पस्मत्ता॒
तरीपुण्टरत्तेत्तत्त॒ तरीक्कवुम्. याकम चेयंतवाण॒किल॒,
एप्पेपामुतुम् पस्मत्ता॒ल॒तरीपुण्टरत्तेत्तयो॒तरीक्कवुम्.

अत्र व्यवस्था माधवीये दर्शिता - ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं वा
धारयेत्तु यथा कुलम् इति ॥ पारिजाते - अपवित्रेण यज्ञसमस्नोतेन
कृतं हुतम् । यच्च शून्यललाटेन तदत्यल्पफलं भवेत् ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं
वा धारयेत्तु यथाकुलम् इति ॥ पाद्मोऽपि - आचम्य भस्मना धार्य
त्रिपुण्ड्रं गोपिचन्दनात् । ऊर्ध्वपुण्ड्रं यथापूर्वमनुष्ठानं समाचरेत् इति ॥

इति ल॒ मुष्टिवान॒ त्रीरप्पे॒ मातृवीयत्तील॑ :-
का॒ण्पिवीक्कप्प॒ट्टु००ला॒तु, “श्वारंत्वपुण्टरत्तेत्तयो॒,॒
तरीपुण्टरत्तेत्तयो॒, कुलाशारप्प॒टि॒ तरीक्कवुम्” एन्ऱू.
पारिज्ञा॒त्त॒त्तील॑ :- पवित्रमं इल्ला॒मलुम्, स्नानं
चेय्या॒मलुम्, पुण्टरमं तरीक्कका॒मलुम् चेय्त ज्ञपमं,
कर्ममं, श्रोममं इवै॒ मिक॒ स्व॒ल्प॒प्प॒ पलनु००ला॒ता॒य
आकुमं. श्वारंत्व पुण्टरत्तेत्तया॒वतु, तरीपुण्टरत्तेत्तया॒
या॒वतु कुलाशारप्प॒टि॒ तरीक्क॒ वेणु॒गुम्. पात्तमत्त॒त्तीलुम् :-
आशमनम् चेयंतु, पस्मत्तिगुल॒ तरीपुण्टरत्तेत्तया॒वतु,
कोपाच्चन्तत्तन्तत्ता॒ल॒ श्वारंत्वपुण्टरत्तेत्तया॒वतु
मुन्नेणौरीन॒ आशारप्प॒टि॒ तरीक्क॒ वेणु॒गुम्.

तत्रैव समुच्चयोऽप्यभिहितः - ऊर्ध्वपुण्ड्रं मृदा॒ पूर्वमनुष्यज्य
समाचरेत् । अग्निहोत्रसमुद्भूतभस्मनाऽपि त्रिपुण्ड्रकम् ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्रं
त्रिपुण्ड्रं च द्वावेतौ॒ धारयेद्विजः॒ । तयोरेकं परित्यज्य रौरवं॒ नरकं व्रजेत् ।
इति । यत्तु वचनम् - गोपीचन्दनसंयुक्तं॒ भूत्या॒ निर्यक॒ त्रिपुण्ड्रकम् ।
षष्ठिवर्षसहस्राणि॒ नरकं॒ तं॒ प्रवेशयेत्॒ इति,॒ तत्॒ त्रिपुण्ड्रोपरि॒
ऊर्ध्वपुण्ड्रधारणनिषेधपरम् । ऊर्ध्वपुण्ड्रे॒ त्रिपुण्ड्रं॒ स्यात्॒ त्रिपुण्ड्रे॒
नोर्ध्वपुण्ड्रकम्॒ इति॒ स्मरणात् ॥

பாத்மத்திலேயே:- ஸமுச்சயமும் சொல்லப் பட்டுள்ளது. முதலில் ம்ருத்திகையினால் ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரித்து, அக்னி ஹோத்ரத்தில் உண்டாகிய பஸ்மத்தினால் தரிபுண்ட்ரத்தையும் தரிக்க வேண்டும். ப்ராமம் ஹணன் ஊர்த்வ புண்ட்ரம், தரிபுண்ட்ரம் இரண்டையும் தரிக்க வேண்டும். அவைகளுள் ஒன்றை விட்டால் ரெளவுமெனும் நரகத்தை அடைவான். ஆனால் - “கோபீசந்தனத்துடன் கூடிய பஸ்ம தரிபுண்ட்ரமானது, தரிப்பவனை அறுபதினாயிரம் வர்ஷம் நரகத்தை அடைவிக்கும்” என்ற வசனம் உள்ளதே எனில், அது, தரிபுண்ட்ரத்தின் மேல் ஊர்த்வபுண்ட்ர தாரணத்தை நினேஷ்திப்பதில் தாத்பர்யம் உடையது, “ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தின் மேல் தரிபுண்ட்ரம் தரிக்கலாம், தரிபுண்ட்ரத்தின் மேல் ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத் தரிக்கக் கூடாது” என்று ஸ்மருதி இருப்பதால்.

ब्रह्मकैवर्ते वृद्धगिरिमाहात्म्ये – तिर्यग्भस्म मृदं तथोर्धमुदितां
धत्तेऽनयोर्व्यत्ययो विप्रध्वंसनमन्यधारणकृता भस्मापि धार्य ततः ।
अन्यनोपरि भस्मधारणकृता मोहाद्धन्तिष्पतेत् यत्तचन्दनकुञ्जमाघपि
च मृत्स्यालौकिकी केवलं इति । भस्म तिर्यग्गैव धारयेत् । तथा ग्राह्यत्वेन
उदितां - उक्तां गोपीचन्दनादिकां मृदमूर्धवार्गामेव धारयेत् । अनयोः
व्यत्ययः - व्यत्यासः भस्मना उर्ध्वपुण्ड्रकरणं, मृदा तिर्यक्पुण्ड्रकरणं
च, विप्रध्वंसनं - ब्राह्मण्यहानिकरम् । अन्यधारणकृता -
गोपीचन्दनादिमृद्धारणकृता, तत उपरि भस्मापि धार्यम् । भस्म
धारयता तदुपरि अन्यत् - गोपीचन्दनादि, न धार्यम् । मोहाद्धारयन्
पतितः स्यात् । एवं लौकिकी केवलं - अलङ்கारार्था मृत्
चन्दनकुञ्जमकस्तूरिकादिकं च भस्मोपरि न धार्यमित्यर्थः ॥

அவ்விதமே, ப்ராம் ஹ்ரகைவர்த்தத்தில்:- வருத்தகிரி மாஹாத்ம்யத்தில் ‘திர்யக்பஸ்ம + கேவலம்’ என்று. இதன் பொருள் - “பஸ்மத்தைக் குறுக்காகவே தரிக்கவும்.

कर्राहं यमायश्च शेषाल्लपपट्ट कोपीचन्तनम् मुतविय
मंगुत्तिकैकये ऊर्त्तवमाकवे तरीक्कवुम्. इवेकैै
मार्हरूवतु, पस्मत्तिगुलै ऊर्त्तव पुण्टरमुम्,
मंगुत्तिकैकयिगुलै कुरुक्कानि पुण्टरमुम् तरीप्पतु,
प्रराम्भैर्ण्यत्तिर्कु ख्वानीयेश्चेष्युम्, कोपीचन्तनम्
मुतविय मंगुत्ततेत्त तरीप्पवन्, अतनिै मेलै
पस्मत्ततेत्तयुम् तरीक्कवुम्. पस्मत्ततेत्त तरीप्पवन्,
पस्मत्तिनिै मेलै कोपीचन्तनम् मुतवियतेत्त
तरीक्कक्षुटातु. अरियामेयालै तरीत्तवन्पत्तित्तवान्.
इववित्तम् अलंक्कारत्तिर्काकत्त तरीक्कप्पटुम् मंगुत्तिकै,
सन्तनम्, कुंकुमम्, कस्तुरीमुतवियत्तुम् पस्मत्तिनिै मेलै
तरीक्कत्तक्कत्तलै” एन्पत्ताम्.

स्मृत्यन्तरे – वैदिकैर्मन्त्ररहितं चन्दनागस्तुक्षुमम् । तिर्यक्
पुण्ड्रात्मना धार्य कान्तिसौख्याभिलाषिभिः ॥ पुण्ड्रो
धृतश्चन्दनाद्यैरिति भस्म न सन्त्यजेत् । दद्येत भस्मसन्त्यागी
श्रुतिचक्रोत्थवहिना ॥ चन्दनादुपरि प्राज्ञो धारयेद्दस्म वैदिकम् ।
लौकिकं चन्दनाद्यं तु भस्मोपरि न धारयेत् इति ॥ प्रातः काले जलैर्युक्ता
मध्याह्ने चन्दनैर्युता । सायमभोविरहिता भूतिरंहोविनाशिनी इति
स्मरणात् भस्मोपरि भस्ममिश्रितं चन्दनं धार्यमित्याहुः ॥

मन्त्रिरुरु लंगं गुरुत्तियिलः- कान्तिै लेणक्यम्
इवेकैै विरुम्पिय वैवत्तिकर्कलालै मन्त्रमिल्लामलै,
सन्तनम्, अकरु, कुंकुमम् इवेत तिर्यक्यै पुण्टरारुपमाय
तरीक्कप्पटलाम्, सन्तनम् मुतवियवैवकलालै पुण्टरम्
तरीक्कप्पटतेन्ऱु, पस्मत्ततेत्त विटक्कैटातु.
पस्मत्ततेत्त विट्टवन्, वेत चक्रत्तिलुण्टाक्य
अक्षियालै तह्वीक्कप्पटुवान्. अरिन्तवन्, सन्तनत्तिनिै
मेलै वैवत्तिकमानि पस्मत्ततेत्त तरीक्कलाम्.
लेणकिकमानि सन्तनम् मुतवियतेत्त पस्मत्तिनिै मेलै
तरीक्कक्षुटातु. प्ररातः कालत्तिलै ज्वलत्तुटनिै कृष्णत्तुम्,
मत्याह्वन्त्तिलै सन्तनत्तुटनिै कृष्णत्तुम्,

ஸாயங்காலத்தில் ஜலமில்லாததுமான விபூதி, பாபத்தை அழிக்கத் தக்கதாகும் என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால், பஸ்மத்துடன் சேர்ந்த சந்தனம் தரிக்கத் தகுந்தது என்கின்றனர்.

தथा ஸ்மृதிரக्ते – ஬्रாஹணாந் நூபாணாஞ் ஭ஸ்மிஶ்ச சந்஦னம् । நேந்யும்பிரமாண் து திரிபுண்டோபரி சேஷ்டே இதி ॥ ஏவஞ், ஊர்வபுண்டு திரிபுண்டு வா ஧ாரயேது யதாகுலம் । உभयஂ வா யதாசாரं ஧ாரயேதைதிகோ ஹிஜः ॥ தந்திராஷ்ட்ரத்தந்த்ராஷ்ட்ரமேவேதி நிர்ணயः ॥ ஶாஞ்சே ஊர்வபுண்டு ஧ாரணமுக்கு ஹேமாங்கை – ஜயே ஹோமே ததா ஦ானே ஸ்வாத்யாயே பிதுக்ர்மணி । தத்ஸர்வ நஶயதி க்ஷிப்ரமூர்வபுண்டு விநாகூதம் இதி ॥

அவ்விதமே, ஸ்ம்ருதி ரத்தனத்தில் : -
 ‘ப்ராம்ஹணர்களுக்கும், கஷத்ரியர்களுக்கும் பஸ்மத்துடன் கூடிய சந்தனம், இரண்டு கண்களின் அளவுள்ளதாய் த்ரிபுண்டரத்தின் மேல் தரிக்கப்பட வேண்டும் எனப்படுகிறது’ என்றுள்ளது. இவ்விதம் இருப்பதால், வைத்திகளுடைய ப்ராம்ஹணனா, ஊர்த்வ புண்டரத்தையாவது, த்ரிபுண்டரத்தையாவது, குலாசாரப்படி தரிக்கவும். அல்லது, இரண்டு புண்டரங்களையும் குலாசாரப்படி தரிக்கவும். தந்த்ரநிஷ்டங்களை வெனில் தன் தந்த்ரத்தில் விதிக்கப்பட்டதையே தரிக்க வேண்டும் என்பது நிர்ணயம். ச்ராத்தத்தில் ஊர்த்வபுண்டரத்தின் தாரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஹோமாத்ரியில் : - ஜபம், ஹோமம், தானம், அத்யயனம், பித்ருகார்யம் இவைகளை ஊர்த்வபுண்டரம் இல்லாமல் செய்தால் அது முழுவதும் வீடு கிறது.

வர்துலநிஷே஧ः ஸமயதே ததை – வாமஹஸ்தே து ஦ர்மாஞ் ரஜ்வல்ரீ ததா ஗ூஹ । லலாடே திலக் டைகா நிராஶா: பிதரோ ஗தா: இதி ॥ ஸங்஘ை – வர்ஜியேதிலக் ஫ாலே ஶாஞ்சக்ர்மணி ஸ்வர்஦ா । திர்யங்வாடப்யூர்வபுண்டு வா ஧ாரயேஞ்சாஞ்சக்ர்மணி இதி ॥ புராணே – யாగோ ஦ானம் ஜபோ ஹோம: ஸ்வாத்யாய:

पितृपर्णम् । भस्मीभवति तत्सर्वमूर्ध्वपुण्ड्रं विनाकृतम् इति ॥
चन्द्रिकायाम् - श्रौतस्मार्तक्रियाः सर्वा ह्युर्ध्वपुण्ड्र मकुर्वतः । जायन्ते
विफला ब्रह्मन् बाधिताश्च भवन्ति ताः ॥ सन्ध्याकाले जपे होमे
स्वाध्याये पितृपर्णे । श्राद्धकाले विशेषण कर्ता भोक्ता च न त्यजेत्
इति ॥

वर्गत्तु उपन्नं टर निषेद्धमं चेऽल्लप्पाणुकिरतु,
हेह्यात्मार्थयिलेयोः - इटु कैकयिलं तर्पपंक्कैलायुम्,
वीट्टिलं कोलत्तेतयुम्, नेन्हृयिलं तिलकत्तेतयुम्
पार्गत्तालं, पितृकूक्कैलं आ॒शेयर्हृच चेल्किं॒न्हनरं॒
॒लं॒कूर॒हृ॒त्त॒त्तीलः - चरात्त कार्ययत्तिलं नेन्हृयिलं
तिलकत्तेत ए॒प्पेपा॒मुतुमं वर्जीक्कै वेण्णुमं । चरात्त त
कार्ययत्तिलं तरीपुन्नं टरत्तेतयावतु, ऊर्गत्त व
पुन्नं टरत्तेतयावतु तरीक्कै वेण्णुमं । पुराणत्ततीलः -
॒ऊर्गत्त व॒पुन्नं टरमं इल्लामलं चेय्यत्याकमं, ताऩमं, ज्ञपमं,
हेह्याममं, अत्ययनमं, पितृ तर्पपणमं इवैव
मुमुवतुमं साम्पलायं आ॒किरतु । चन्त्तरीकैकयिलः - ओ
प्रर्मै॒लै॒न् ! ऊर्गत्त व॒पुन्नं टरमं तरीक्कैतवै॒न चेय्युमं
क्षेरै॒लै॒त स्मार्गत्त कै॒रीयै॒कै॒लै॒ला॒मं पलै॒नै॒र्है॒ता॒यं
आ॒किं॒रै॒न, पा॒ति॒क्कै॒प्पै॒त्ता॒यै॒मा॒कै॒नै॒रै॒न. लै॒न्त्यै॒
का॒लै॒त्ति॒लै॒म, ज्ञै॒पत्ति॒लै॒म, हेह्यामत्ति॒लै॒म,
अत्ययनै॒त्ति॒लै॒म, पितृ तर्पपणै॒त्ति॒लै॒म पुन्नं टरत्तेतत्त
तरीक्कै वेण्णुमं । चरात्त तका॒लै॒त्ति॒लै॒ कर्गत्त ता॒वै॒म,
पोक्कै॒ता॒वै॒म अ॒वै॒क्यै॒म तरीक्कै वेण्णुमं ।

स्मृत्यन्तरे - शोभूते नित्यकर्माणि नद्यादौ विमले जले । कृत्वा
श्राद्धं मृदा शुभ्रमूर्ध्वपुण्ड्रं तु धारयेत् इति ॥ पाद्मे - ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनं तु
यः श्राद्धे भोजयेद्विजः । अशनन्ति पितरस्तस्य विष्मूत्रं नात्र संशयः ॥
ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनस्तु यः श्राद्धं कुरुते द्विजः । सर्वं तद्राक्षसैर्नीतं नरकं च
सगच्छति इति ॥

मर्त्तिरुक्तु लं॒मं॒रुत्ति॒यिलः - मरुना॒ली॒लं नृति॒ मुत्तवी॒यति॒लं

इंगु वित्तियुम्, प्रति शेषतमुम् इरुप्पत्ताल्, अवरवर्ग कुलाचारप्पदि व्यवस्थिक विकल्पपम् एन्ऱु अर्नियवुम्. चिलरोबेवनील, सरात्तत्त्विल तरिपुण्टरम्. ऊर्त्व बुण्टरम् इवेवकलीन वित्ति, शेव वेवश्वेव तन्त्रन्त्रकलीन आचरयित्तवरेप पर्न्रियतु. अवेवकलीन निशेषतम् वेवतिकर्कलीप पर्न्रियतु एन्किन्ऱनर. मन्त्रवरोबेवनील, निशेषतम् प्रेरेत सरात्तत्त्वेतप पर्न्रियतु. (एनेनील) ‘तरिपुण्टरम् तरीत्तवैनक्कण्टाल् प्रेरेतन्कली, प्रत्यन्कली मुत्तवियवेवकली पयन्तु ओउकिन्ऱन, लम्चयमिल्लै. कोरराण राष्ण्णलरुम्, प्रेरेतर्कग्नुम्, अन्प ज्ञन्तुक्कग्नुम्, तरिपुण्टरम् तरीत्तवैनक्कण्टाल् ओउकिन्ऱग्नुकली, लम्चयमिल्लै’, एन्पतु मुत्तलाण पुराण वसन्नकलाल् एन्किन्ऱनर. ‘निराचा: प्रित्रोकत्ता:’ एन्किर वसन्मेवनील, प्रित्तरुत्तवैत्त अटेन्त्वानुक्कुम्, वर्षम् मुष्टियुम् वरेयील प्रेरेतपावैन निव्वरुत्तिक्कात्तताल्, लपिण्णलकरणत्तिरुक्कुप प्रिरुक्कुम् प्रेरेतत्तन्मेम निव्वरुत्तिक्कात्तताल्, वर्षम् पूर्णमाकुम् वरेयील विष्टुति तरीक्कत्त तकात्ततु’ एन्ऱु लम्गुरुति इरुप्पत्ताल् एन्किन्ऱनर. चिष्टाचारत्त अनुलरीत्तु उचितमाणतेह इंगु कर्लविक्कवुम्.

ननु देवतोत्कर्षनिकर्षप्रतिपादकानि पुण्ड्रस्तुतिनिन्दा पराणि च वचनानि परस्परविरुद्धानि बहूनि इतिहासपुराणेषु दृश्यन्ते। अतः परस्परविरुद्धार्थाभिधायकत्वात् इतिहासपुराणानि अप्रमाणानीति चेत्, भवेदयं दोषो भेदवादिनां शैवानां वैष्णवानां च शिवादन्यो विष्णुः, विष्णोरन्यः शिव इत्यवगच्छताम्। अभेदवादिनां तु सिद्धान्तिनां नायं दोषः, ईश्वरस्यैकत्वाम्युपगमात्॥

கண்டால் பித்ருக்கள் ஆசையற்றவராய்ச் செல்கின்றனர். மண் பாத்ரத்திலுள்ள அர்க்யத்தையும், மண் பாத்ரத்திலுள்ள சந்தனத்தையும், நெய்யால் செய்யப்பட்ட தூபத்தையும் கண்டால் பித்ருக்கள் ஆசையற்றவராய்ச் செல்கின்றனர். ருத்ராக்ஷம் தரித்த ப்ராம் ஹனைனை ச்ராத்தத்தில் புஜிப்பித்தால் பித்ருவோகத்தை அடைகிறுன், இதில் ஸந்தேஹப்பட வேண்டாம். த்ரிபுண்ட்ரத்துடன் கூடியவனேய் எந்த ப்ராம் ஹனைன் ச்ராத்தம் செய்கின்றாலே அவனது அந்த ச்ராத்தத்தை ராக்ஷஸர்கள் அழிக்கின்றனர், என்று வைவஸ்வதமனு சொன்னார். த்ரிபுண்ட்ரத்தையாவது, ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தையாவது தரித்து எவன் ச்ராத்தம் செய்கின்றாலே அவள் பாபி ஆவான், ரெளவமெனும் நரகத்தை அடைவான். ப்ராம் ஹனைர்களை வரித்து, எவன் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்கின்றாலே, அந்தக் கர்த்தா பயங்கரமான நரகத்தில் பித்ருக்களுடன் முழுகுகிறுன். த்ரிபுண்ட்ரம் எல்லோருக்கும் அக்னி ஹோத்ரத்திற்குச் சமமாய் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் ச்ராத்த காலம் வந்தால், கர்த்தாவும், போக்தாவும் அதை விடவேண்டும்.

அற வி஧ிப்ரतிஷेधாभ्यां யथாகுலாचாரं வ்யவस्थிதோ விகல்போ
஦ிஷ்வः ॥ கேचித்து - ஶாஞ்சே திபுண்டோர்விர்஧ி: ஶைவவைணவ-
தந்வாவலம்விஷய: , தனிஷே஘ோ வைதிகவிஷய: இத்யாஹு: ॥ அந்யே து -
நிஷே஧: ப்ரேதஶ்ராஞ்சவிஷய: | திபுண்டூரிண் வீஷா ப்ரேதா ஭ூதபுரஸ்ஸரா: |
भीता: प्रकंपिता: शीघ्रं गच्छन्त्येव न संशयः ॥ ये घोरा राक्षसाः प्रेताः
ये चान्ये क्षुद्रजन्तवः । त्रिपुण्टूरिणं वृष्ट्वा पलायन्ते न संशयः
इत्यादिपुराणवचनैरित्याहुः ॥ निराशाः पितरो गताः इति तु वचनं,
पितृत्वं प्राप्तस्याप्यबद्पूर्तिपर्यन्तं प्रेतभावनाऽनिवृत्तेः , सपிண्डநா-
நந்தரமாவினி மாசிகஶாஞ்சே புண்ட் ந ஧ார்யமித்யேவ் பரம् ।
ஸபிண்டீகரணாடூர்வ் ப்ரேதத்வஸ்யானிவृத்திதः । தாவந்தஸ்ம ந ஧ார்ய
ஸயாநாவந்தோ ந பூர்தே' இதி ஸமரணாதித்யாஹு: । ஶிஷாசாரானுஸரேண
யதோஞ்சித மற ஗ிரைம् ॥

कुरुक्काण बुन्नट्रत्तिनिं नीवेष्टम्
 चेशाल्लप्पुकिरतु खेमात्तरीयिलः- कुरुक्काण
 बुन्नट्रत्तेतयुम्, कमुत्तिल मालैलयेयुम्, वंगुवेळी
 पतियेयुम्, कन्नटाल, पित्तरुक्कक्कल आशयर्नवराय
 तिरुम्पिच चेल्लुकिरुर्क्कल. वेलीक्किटारः:- वेण्णकलप
 पात्तरत्तिल खेविस्सेआन वस्तुवेवयुम्, कमुत्तिल
 मालैकेयेयुम्, नेन्नरीयिल तुलकत्तेतयुम् कन्नटाल,
 पित्तरुक्कक्कल आशयर्नवरायच चेल्लुकिन्नरु. तुलकम्
 एन्पत्तरंकु वर्त्तुलामान तुलकम् एन्नरु बेपारु.ल.
 मालैके एन्पत्ताल बुंपमालैयिन नीवेष्टम्
 चेशाल्लप्पुकिरतु.

तथा च पद्धतौ – ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं वा नित्यमेव तु धारयेत्।
 श्राद्धकाले तु सम्प्रासे कर्ता भोक्ता च वजर्येत्॥ आयसं घटानादं च
 त्रिपुण्ड्रं च विशेषतः । पुण्यमालां च मुद्रां च निराशाः पितरो गताः ॥
 मृत्पात्रगतमध्यं च मृत्तिकागन्धलेपनम् । आज्येन धूं दृष्ट्वा च
 निराशाः पितरो गताः ॥ रुद्राक्षधारिणं श्राद्धे भोजयित्वा तथा
 द्विजम् । पितॄलोकमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ त्रिपुण्ड्रेण च
 संयुक्तो यः श्राद्धं कुरुते द्विजः । राक्षसास्तद्विलुम्पन्तीत्याह वैवस्वतो
 मनुः ॥ त्रिपुण्ड्रं वर्तुलाकारमूर्ध्वपुण्ड्रं च धारयन् । श्राद्धं कुर्वन् स पापी
 स्याद्वौरवं नरकं ब्रजेत् ॥ विप्रान्निमन्त्रयित्वा तु त्रिपुण्ड्रं यस्तु धारयेत् ।
 स कर्ता नरके घोरे पितॄभिः सह मज्जति ॥ त्रिपुण्ड्रं चैव सर्वेषां
 मग्निहोत्रसमो विधिः । श्राद्धकाले तु सम्प्रासे कर्ता भोक्ता च तत्त्यजेत्
 इति ॥

अवृवितमें, पत्तत्तनीयिलः- ऊर्त्तव बुन्नट्रत्तेत
 यावतु, तरीबुन्नट्रत्तेतयावतु नीत्यमुम् तरीक्क
 वेण्णन्नुम्. सरात्तकालम् वन्तत्ताक्किल कर्त्तत्तावम्,
 बोक्कत्तावम् तविरक्क वेण्णन्नुम्. इरुम्पुप
 पात्तरत्तेतयुम्, मणीयिन औशयेयुम्, मुत्तरयेयुम्
 तरीबुन्नट्रत्तेतयुम्, बुंपमालैयेयुम्, मुत्तरयेयुम्

நிர்மலமான ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்து, நித்யகர்மங்களைச் செய்து, ச்ராத்தம் செய்வதற்கு, ம்ருத்திகையால் வெண்ணிறமான ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைத்தரிக்க வேண்டும். பாத்மத்தில்:- எந்த ப்ராம்ஹணன் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரிக்காத ப்ராம்ஹணனை ச்ராத்தத்தில் புஜிப்பிக்கின்றானே, அவனது பித்ருக்கள் மலழுத்ரங்களைப் புஜிக்கின்றனர். இதில் ஸம்சயமில்லை. எந்த ப்ராம்ஹணன் ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்காமல் ச்ராத்தத்தைச் செய்கின்றானே அவனது ச்ராத்தம் முழுவதும் ராக்ஷஸர்களால் அபஹரிக்கப்பட்டதாகும். கர்த்தாவும் நரகத்தை அடைவான்.

**त्रिपुण्डृधारणमाह लोकाक्षिः । त्रिपुण्डृधृग्विप्रवरः यो
रुद्राक्षधरः शुचिः । स पञ्जिपानः श्राद्धे पूज्यो विप्रैः सुरैरपि । श्राद्धे
यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुराचर्चने । धृतत्रिपुण्डः पूतात्मा मृत्युं जयति
मानवः ॥ त्रिपुण्डं यद्यधृत्वा तु कुर्यादित् कर्म तद्वथा इति ॥**

த்ரிபுண்ட்ரதாரணத்தைச் சொல்லுகிறார். லோகாக்ஷி:- எந்த ப்ராம்ஹணன் த்ரிபுண்ட்ரம், ருத்ராக்ஷம் இவைகளைத் தரித்தவனுடுள்ளவானே அவன் ச்ராத்தத்தில் பங்க்தியைச் சுத்தம் செய்பவனுடும், ப்ராம்ஹணர்களாலும், தேவர்களாலும் பூஜிக்கத் தகுந்தவனுடும் ஆகிறான். ச்ராத்தம், யாகம், ஜபம், ஹோமம், வைச்வதேவம், தேவபூஜை இவைகளில் த்ரிபுண்ட்ரம் தரித்த மனிதன் சுத்தாத்மாவாய் ம்ருத்யுவை ஜயிக்கின்றான். த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்காமல் எந்தக் கர்மத்தையாவது செய்வானுகில் அக்கர்மம் வீணாகும்.

**तिर्यक्पुण्डनिषेधो हेमाद्रौ स्मर्यते । तिर्यक्पुण्डं तथा दृष्टा
स्कन्धे मालां तथैव च । निराशा: पितरो यान्ति दृष्टा च वृषलीपतिम्
इति ॥ वसिष्ठः - कांस्यपात्रे हविर्द्वयं कण्ठे चैव तु मालिकाम् । ललाटे
तिलकं दृष्ट्वा निराशा: पितरो गताः इति ॥ तिलकं - वर्तुलम् ॥
मालिकामिति पुष्पमालानिषेधः ॥**

'தேவதைகளுக்கு உத்கர்ஷத்தையும் அபகர்ஷத்தையும் சொல்லுகின்றனவும், புண்ட்ரங்களின் ஸ்துதியிலும் நிந்தையிலும் தாத்பர்யம் உள்ளவைகளுமாய், பரஸ்பரம் விரோதமுள்ள வெகு வசனங்கள் இதிஹாஸ புராணங்களில் காணப்படுகின்றன. ஆகையால், பரஸ்பரம் விரோதமுள்ள விஷயங்களைச் சொல்லுகின்றநான்தான்தால், இதிஹாஸ புராணங்கள் ப்ரராமாணங்களல்ல' எனில், இது தோஷமாகலாம், பேதத்தைச் சொல்லுகின்ற வரும், சிவனினின்றும் வேறு விஷ்ணு, விஷ்ணுவினினின்றும் வேறு சிவன் என்று அறியும் சைவருக்கும் வைஷ்ணவருக்கும். அபேதத்தைச் சொல்லுகின்ற ஸித்தாந்திகளுக்கோ வெனில், இது தோஷமாகாது, ஈச்வரன் ஒருவன் என்று ஒப்புதலால்.

तथा हि — एक एवेश्वरो जगत्सृष्ट्यादिकरणाय मायया ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रादिविग्रहान् स्वीकृत्य तत्तद्विग्रहे भक्तान् तेन तेन रूपेणानुगृह्णन् वर्तते । अष्टादशपुराणानां कर्ता व्यासोऽपि तत्तद्विग्रहभक्तानां तत्र तत्र भक्त्यतिशयोत्पादनाय तत्तद्रूपं स्तौति । अयमेव सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मा नान्ये । अतोऽयमेक एव सेव्य इति ॥
सा तु निन्दा तेषां न निन्दापरा भवति । किन्तु प्रकृतविग्रहस्तुतिपरा । यथा अनुदितहोमनिन्दा उदितहोमस्तुतिपरा । न हि निन्दा निन्द्यान्निन्दितुमपि तु स्तुत्यान् स्तोत्रुम् इति न्यायात् । अन्यथा प्रकृत विग्रहस्य स्तुत्यस्य वचनान्तरेण निन्दितत्वेन तेन वचनान्तरेणास्य विरोधात् । तस्माद्बोपान्तरनिन्दया एकैकं रूपं स्तुवन् तद्वारा स्वरूपमेव सर्वेश्वरं दर्शयति । तस्य च स्वरूपस्यैकत्वात् सर्वेषामिति हासपुराणानां तत्रैव पर्यवसानात् एकार्थत्वेनाविरोधात् । पुराणानामद्वैतपरत्वे वेदान्तानुसारित्वेन च तन्मूलत्वात् प्रामाण्यम् ।

அவ்விதமே ஈச்வரன் ஒருவனே, உலகத்தின் ஸ்ருஷ்டி முதலியதைச் செய்வதற்காக, மாயையால் ப்ரம்ஹா,

वीष्मिन्नु, गुह्यरन्ज, इन्द्ररन्ज मुहूर्तत्तिकौशलैकरीत्तु, अनंतनंत मुर्त्तियिलं पक्तियुटेयवरै, अनंतनंत रूपत्तुटनं अनुकूलीप्पवराय इरुक्किऩ्ऱुर्. पतिजेन्टटुप्पुराणांकौश्लैयैर्नियव्यासरुम्, अनंतनंत मुर्त्तियिलं पक्तियुटेयवरुक्कु अतूलं पक्तियै अतिकप्पत्तुवत्तर्नकाक अनंतनंत रूपत्तत्तै संतुतिकौश्लैर्, 'इवेनो लर्वकंगुनं, लर्वेवेच्वरैनं, लर्ववात्मा, मर्त्तवरल्ल, आकेयालं इवलेन्नरुवेने लेवविक्कै तत्तुन्तवलं' एन्ऱु. अनंत निन्ततै, अवर्कौश्लै निन्तिप्पत्तिलं तात्पर्यमूलतल्ल. आगुलं, प्रकरुतमाण मुर्त्तियै संतुतिप्पत्तिलं तात्पर्यमूलौतु. एवंवितम्, अनुत्तित्तेहोमत्तिनं निन्ततै, उत्तित्तेहोमत्ततै संतुतिप्पत्तिलं तात्पर्यमूलौतो अवंवितम्, 'निन्तावचनमाणतु निन्त्यर्कौश्लै निन्तिप्पत्तर्कल्ल, आगुलं, पुकम्बेण्णद्यवरैप्प चकम्भवत्तर्कु, एन्ऱ नियायत्तालं. इवंवितम् इलंलाविष्टिलं, प्रकरुतमाण मूलैत्तुतिक्क वेण्णद्य विकूलैत्ततै वेवृवचनम् निन्तित्तिरुप्पत्तालं, अनंत वचनत्तालं, प्रकरुतवचनत्तिन्ऱु विरोतमाकुम्. आकेयालं, वेवृ रूपत्ततै निन्तिप्पत्तालं ओवंवेवारु रूपत्ततै संतुतिप्पवराय, अनंत वधियाय तेवत्तयिनं स्वरूपम् ओरो रास्वरैनं एन्त तेरीविक्किन्ऱुर्. अनंतस्वरूपम् ओन्नरेआन्तालं इति॒हा॒स पुराणांकौशलै एलंलावर्णरुक्कुम् अतिलेये मुष्टिवाणतालं, ओरो अर्त्तमं उत्तेयवेकौवत्तालं विरोतमं इलंलात्ततालं पुराणांकौश्लै अत्तेवत विष्यत्तवम् इरुप्पत्तालुम्, वेत्तान्तनंतकौशलै अनुसरीप्पत्तालुम् अवेकौशलै मूलमाण्यम् उत्तेयवै आन्तालं प्रामाण्यम् लित्तिक्किन्ऱतु.

भेदवादिपक्षे तु परस्परविरुद्धार्थाभिधानात् पौरुषेयत्वेन मूलप्रमाणापेक्षायां तदनिरूपणादप्रामाण्यम्। तस्मादेकस्यैवेश्वरस्य सर्वदेवमयत्वात् देवतान्तरनिन्दा वजितैरेव ईश्वर आराध्यः शिवो विष्णुरन्यो वा देवः। पुण्ड्रमपि तत्तदेवताप्रीतिकरं पुण्ड्रान्तरनिन्दा-वजितैरेव धार्यम्॥

பேதம் சொல்பவரின் பகுத்தில், பரஸ்பரம் விரோதமுள்ள விஷயங்களைச் சொல்வதால் பெளருஷேயங்களன்றுக, மூலப்ரமாணத்தை அபேக்ஷிக்கும் போது அதை நிரூபிக்க முடியாததால் அப்ராமாண்யம் வருகின்றது. ஆகையால் ஒரே ஈச்வரன் ஸர்வதேவஸ்வ ரூபமாயிருப்பதால், வேறு தேவர்களை நிந்திக்காதவர்களாய் ஈச்வரனை ஆராதிக்க வேண்டும். சிவனையோ, விஷ்ணுவையோ, மற்றத் தேவனையோ. அந்தந்தத் தேவதைக்கு பாந்தியைச் செய்யும் புண்டரத்தையும், மற்ற புண்டரங்களை நிந்திக்காதவராய்த் தரிக்க வேண்டும்.

तथा च पादे कौर्मे च विष्णुशङ्करादिवचनानि – मद्भक्तः
शङ्करदेवी मद्भूषी शङ्करप्रियः । तावृभौ नरकं यातो यावदाभूतसंस्तवम् ॥
परात् परतरं यान्ति नारायणपरायणाः । न ते तत्र गमिष्यन्ति ये
द्विषन्ति महेश्वरम् ॥ अयं नारायणो योऽहमीश्वरो नात्र संशयः । नान्तरं
ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिदं परम् ॥ ममैव परमा मूर्तिरायण
समाह्या । ये त्वन्यथा प्रपश्यन्ति लोके भेददृशो जनाः । न ते मां
संप्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः ॥ ये त्विमं विष्णुमव्यक्तं वामदेवं
महेश्वरम् । एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्धवः ॥
तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्मानमव्ययम् । मामेव संप्रपश्यध्वं
पूजयध्वं तथैव च ॥ येऽन्यथा मां प्रपश्यन्ति मत्वेमं देवतान्तरम् । ते
यान्ति नरकान् घोरान्त्राहं तेषु व्यवस्थितः ॥ मूर्खं वा पण्डितं वाऽपि
ब्राह्मणं वा मदाश्रयम् । मोचयामि श्रपाकं वा न नारायणनिन्दकम् ॥
तस्मादेष महायोगी मद्भक्तैः पुरुषोत्तमः ॥ अर्चनीयो नमस्कार्यो
मत्प्रीतिजननाय हि ॥ अहन्तामात्रशरणाः केचि द्वैदिकमानिनः ॥
भेददृश्या विनिन्दन्ति युगशक्तिकृतं तु तत् इति ॥

அவ்விதமே, பாத்மத்திலும், கெளார்மத்திலும்:- விஷ்ணு சங்கரர் முதலியவரின் வசனங்கள் - சிவனை

त्त्वेषीप्पवग्नेयं एन्नीटम् पक्तियूलवन्न एवग्नेऽ
 एन्नै त्त्वेषीप्पवग्नेयं चिवनीटत्त्विल् पक्तियूलवन्न
 एवग्नेऽ, अव्विरुवरुम्, प्ररूपयकालम् वरयील
 नरकत्तत्त अटेकिन्नरन्स. नारायणैन्स
 सरणमटेन्तवर्म मिक्षिरन्त पतत्तत्त अटेकिन्नरन्स.
 आग्नेल्, अवर्करुल् एवर्म सच्वरैन्स त्त्वेषीक्किन्नरन्सरो
 अवर्कल् अन्तप्प पतत्तत्त अटेवत्तिल्लै. इन्त
 नारायणैन्स, सच्वरैन्स नारो आकिरुन्स. इति॒ल्स
 सम्चयमिल्लै. एवर्कल् पेतत्तत्तप्प पारामाल
 इरुक्किन्नरन्सरो अवरुक्केक्कै इतेक्क केक्कै
 वेण्टुम्. एन्नैउटेय मुर्त्तिये नारायणैन्स
 बेयरुटेयतुम्, लर्वपूतन्करुक्कुम् आत्मावाय
 इरुप्पतुम्, चान्तमायम्, अक्षरमेन्स
 बेयरुटेयतुमाय उल्लातु. उलकत्तिल् पेत
 त्तरुष्टियूल एन्त. ज्ञानंकल् वेऱुवितमाय
 अरिकिन्नरुर्कलो अवर्कल् एन्नै नन्कु अरियविल्लै.
 आकेयाल् अवर्कल् अटिक्कै प्रिऱप्पै अटेकिन्नरन्स.
 एवर्कल् इन्त व्यक्तरान विष्णुवैयुम्,
 वामतेवग्नेन महेष्वरैन्यम् ओरुवैनेन्न
 पावत्ताल् पार्क्किन्नरन्सरो अवर्कट्कु मरुपाय
 प्रिऱप्पिल्लै. आकेयाल्, आति अन्तमर्त्तवन्नुम्,
 आत्मावम्, अव्ययन्मान विष्णुवै नाबेनेन्सरो
 पारुन्कल्, अव्वितमे पूज्यियैक्कल्. एवर्कल्
 वेऱुवितमाय, विष्णुवै वेऱु तेवत्तयेन्स
 निनेत्तु एन्नैउपालीक्किन्नरन्सरो, अवर्कल् कोरमान
 नरकन्कलै अटेकिन्नरन्स. नान् अवर्कलीटम्
 इरुप्पत्तिल्लै. एन्नै अन्नियवन्न, मुर्करुग्नेल्लै
 पन्नित्तग्नेल्लै, प्रामूर्हणग्नेल्लै, स्वपाक
 ग्नेल्लै अवैन विट्विप्पै पेण. अवैन नारायणैन्स
 निन्तिप्पवग्नेकिल्, अवैन विट्विप्पत्तिल्लै. आकेयाल्,
 एन्नैउटेय पक्तर्कल्, एनक्कु पर्तिये उन्टु
 पन्नुवत्तर्काक, महायोक्याक्याक्य इन्तप्प
 पुरुषोत्तमैन अर्क्षिक्क वेण्टुम्, नमस्करीक्क
 वेण्टुम्. अहून्कारत्तत्त मट्टिल् अटेन्तवरुम्,

வைதிக னென்று தன்னை நினைத்தவருமான சிலர். பேதக்ஞானத்தால் நிந்திக்கிண்றனர், அது (கவி) யுகத்தின் சக்தியால் செய்யப்பட்டதேயாம்.

தथா ச கூர்மபுராண — விநிந்஦ன்தி மஹாदேவ விஷயாண் புருஷோத்தமம் । ஆஸ்தாய் ஧ர்மஶாஸ்திராणி புராணானி கலை யுगे ॥ குர்வன்தி சாவதாராணி ஬ிராஹ்மணாந் குலேஷு வை । ஦धிசஶாபனிர்஦்஧ா: புரா ஦க்ஷா஧ரீ திர்ஜா: ॥ நிந்஦ன்தி ச மஹாதேவ தமஸா¹²விஷஷ்செதஸ: । யே சாந்யை ஶாபனிர்஦்஧ா: ஗ௌதமஸ்ய மஹாத்மன: । ஸர்வே தேவதரிஷ்யன்தி ஬ிராஹ்மணாதாஸயோனிஷு । விநிந்஦ன்தி ஹ்ரிகேஶ ஬ிராஹ்மணாந் ஬ிராஹ்மாதிரிஃ ॥

அவ்விதமே, கூர்ன புராணத்தில்:- கவி யுகத்தில், சிவனையும், ப்ரம்ஹாவையும், விஷ்ணுவையும், வேதத்தையும், தர்மசாஸ்தரங்களையும் நிந்திக்கிண்றனர். முற்காலத்தில் தகழ்னின் யாகத்தில் தத்தீசி மஹர்ஷியின் சாபத்தால் தஹிரிக்கப்பட்ட ப்ரராம்ஹணர்கள் ப்ரராம்ஹணர்களின் குலங்களில் பிறக்கிண்றனர். அவர்கள் தமோகுணத்தால் ஆக்ரமிக்கப்பட்ட சித்தம் உடையவர்களாய் சிவனை நிந்திக்கிண்றனர். கெளதமரின் சாபத்தால் தஹிரிக்கப்பட்ட மற்றவர்கள் எவரோ அவர்களும் ப்ரராம்ஹணர்முதலிய பிறவிகளில் பிறக்கப் போகிண்றனர். அவர்கள், விஷ்ணுவையும், ப்ரம்ஹவாதிகளான ப்ரராம்ஹணர்களையும் நிந்திக்கப் போகிறார்கள் என்று.

—★—

ஸந்஧்யாவி஧ி: |

அथ ஸந்஧்யாவி஧ி: தत्र ஦க்ஷ: — அஹோராத்ரஸ்ய ய: ஸந்஧ி: ஸூர்யநக்ஷತ்ரவர்ஜித: | ஸா து ஸந்஧்யா ஸமா஖்யாதா முனி஭ிஸ்தத்வத்ரிர்மி஭ி: இதி ॥ பிதாமஹ: — நக்ஷத்ரஜ்யோதிரார்ம்ய ஸூர்யஸ்யோதயத்ராநாத् । பிராத: ஸந்஧்யேதி தாஂ ப்ராஹு: ஶ्रுதயோ முனிஸத்தமா: இதி ॥

लन्तंत्र्यावीक्षी

இனி ஸந்த்யாவிதி சொல்லப்படுகிறது. அதில், தக்ஷரः:- பகலுக்கும் ராத்ரிக்கும் நடுவிலுள்ள காலம் ஸுர்யனும் நக்ஷத்திரமும் காணப்படாமல் இருப்பது எதுவோ, அது உண்மையறிந்த முனிவர்களால் ஸந்த்யை என்று சொல்லப்படுகிறது. பிதாமஹரः:- ஓ முனிச்ரேஷ்டர்களே! நக்ஷத்ரங்களின் ஒளி மறைவது முதல் ஸுர்யோதயம் வரையிலுள்ள கால மீது வோ அதை, ப்ராதஸ்ஸந்த்யை என்று வேதங்கள் சொல்லுகின்றன.

अत्र व्यवस्थामाह दक्षः – रात्रन्त्ययामनाडी द्वे सन्ध्यादिः काल उच्यते । दर्शनाद्विरेखायाः तदन्तो मुनिभिः स्मृतः इति ॥ यद्यपि कालवाचकत्वेनात्र सन्ध्याशब्दः प्रतीयते, तथाऽपि तस्मिन् काले उपास्या देवता सन्ध्याशब्देनोपलक्ष्यते । अत एव योगयाज्ञवल्क्यः – सन्धौ सन्ध्यामुपासीत नास्तगे नोद्रते रवौ । ब्रह्मणोपास्यते सन्ध्या विष्णुना शङ्करेण च ॥ कस्मान्नोपासयेद्वीर्ण श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः इति ॥ शङ्कः – प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रां मध्यमां स्नानकर्मणि । सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यां उपासीत यथाविधीति । स्नानकर्मणि - मध्याह्नस्नानानन्तरमित्यर्थः ।

இங்கு வ்யவஸ்தையைச் சொல்லுகிறார், தக்ஷரः:- ராத்ரியின் கடைசி யாமத்தில் இரண்டு நாழிகைகள். ஸந்த்யையின் ஆரம்பகாலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸுர்ய பிம்பத்தின் மேல்ரேகையைக் கண்டால் ஸந்த்யையின் முடிவு, என்று முனிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இங்கு, ஸந்த்யா சப்தம் காலவாசகமாய்த் தோன்றுகிறது தான். ஆயினும், அந்தக்காலத்தில் உபாளிக்கத் தகுந்த தேவதை ஸந்த்யா சப்தத்தினால் சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் தான். யோகயாக்ஞவல்க்யரः:- ஸந்தியில் ஸந்த்யையை உபாளிக்க வேண்டும். ஸுர்யன் அஸ்தமயத்தை அடைந்த

பிறகு உபாளிக்கக் கூடாது. உதயமாகிய பிறகும் உபாளிக்கக் கூடாது. ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, சங்கரன் இவர்களும் ஸந்த்யையை உபாளிக்கின்றனர். நன்மையை விரும்பும் ப்ராம்ஹணன் ஸந்த்யையை ஏன் உபாசிக்காமல் இருப்பான்? சங்கர்:- ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை நக்ஷத்ரங்களுடன் கூடியதாயும், மத்யாஹ்ன ஸந்த்யையை மத்யாஹ்ன ஸ்நானத்திற்குப் பிறகும், ஸாயம் ஸந்த்யையை ஸார்யன் இருக்கும் போதும் விதிப்படி உபாளிக்கவும்.

ஸ்வतோऽपि-ப்ராதः ஸந்஧்யா ஸந்கஶபாமுபாஸीத யथாவி஧ி । ஸாதித்யா பஶ்சிமா ஸந்஧்யா ம஧ாஸ்தமிதமாஸ்கராம् இதி ॥ காக்யபः - ஬்ரஹ்மோ ஹ௃தய விஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ ஹ௃தய ஶிவः । ஶிவஸ்ய ஹ௃தய ஸந்஧்யா தேநோபாஸ்யா ஦ிவ்ஜோத்தமை: இதி ॥ வ்யாஸோऽபி - உபாஸதே து யां ஸந்஧ௌ மிஶாயா ஦ிவஸஸ்ய ச । தாமேவ ஸந்஧்யா தஸ்மாது ப்ரவदந்தி மனீஷிண: ॥ அனாగतாஂ து யே பூர்வமிந்திதாஂ து பஶ்சிமாம् । ஸந்஧்யா நோபாஸதே விப்ரா: கத்தே ஬்ராஹ்மா: ஸ்மृதா: ॥ யோऽந்யந் குருதே யத்தீஂ ஧ர்மகார்யோऽபி வை ஦ிவ்ஜ: । விஹாய ஸந்஧்யாப்ரணதिं ஸ யாதி நரகாயுதம् ॥ அதிக்ராமதி யோ மோஹாத் ஸந்஧்யாமன்யபராயண: । ஸ ஸாதுமிர்஬ீஹ்ஷ்கார்ய: ஸர்வஸ்மாத்திரங்கர்மண: ॥ உத்தமா து ஸந்கஶபா ம஧்யமா லுப்தாரகா । அ஧மா ஸ்ரூபஸ்ஹிதா ப்ராத: ஸந்஧்யா திர்஧ா மதா' இதி ॥ ஸ்ரூபஸ்ஹிதேதி ஗ௌணகாலாமிப்ராயேண ।

ஸம்வர்த்தகரும்:- ப்ராதஸ் ஸந்த்யையை நக்ஷத்ரங்களுடன் கூடியதாய் விதிப்படி உபாளிக்க வேண்டும். ஸாயம் ஸந்த்யையை ஸார்யனுடன் கூடியதாய் ஸார்யன் பாதி மறைந்திருக்கும் பொழுது உபாளிக்க வேண்டும். காக்ஷபர்:- ப்ரம்ஹாவின் ஹ்ருதயம் விஷ்ணு. விஷ்ணுவின் ஹ்ருதயம் சிவன், சிவனின் ஹ்ருதயம் ஸந்த்யை. ஆகையால் ப்ராம்ஹணர்கள் ஸந்த்யையை உபாளிக்க வேண்டும். வ்யாஸரும்:- ராத்ரி, பகல் இவைகளில் ஸந்தியில் உபாளிக்கப்படுகிற

तेवतेषये, पुत्रं त्रिमाणं कर्ता॒ लन्तं त्ये॒ एन्तु॑
सेवा॑ लवु॑ किरु॑ कर्क॑। प्ररा॑म् ल॒रण॑रक॑, उत्य॑त्ति॑रु॑ कु॒ मु॑
प्ररा॑त॑ स्वं लन्तं त्ये॒ यय॑ यु॑, अ॒स्तम॑ यत्ति॑रु॑ कु॒ मु॑
लन्तं त्ये॒ यय॑ यु॑ उपा॑लि॑क्का॑तवर्प॑ प्ररा॑म् ल॒रण॑रक॑ एन्तु॑
सेवा॑ लव॑ तु॑ त्यु॑त्य॑ यर्नवर्प॑। लन्तं त्या॒ वन्तन॑त्ते॒ वी॑टु॑
वे॑रु तर्मका॑र्यत्ति॑ल म॒य॑न्त्रि॑रु॑प्पव॑, पति॑ग॑यी॑रम्
न॒रकंक॑ल॑ अ॒टेवा॑न्। अ॒रीया॑मैया॑ल, वे॑रुका॑र्मत्ति॑ल
स॒टु॑पट्ट॑वाण्य॑ लन्तं त्ये॒ यय॑ अ॒ति॑क्रमि॑प्पव॑ल॑
सा॑तु॑क॑क॑ प्ररा॑म् ल॒रण॑ कर्मन्तक॑ ल॑ला॑वर्न॑नी॑न्त्रु॑म्
वे॑ली॑ये॑र्न वे॑न्तु॑म्। प्ररा॑त॑ स्वं लन्तं त्ये॒
न॒क्षु॑त्तरंक॑ल॑ ल॒रु॑प्पता॑ल॑ उ॑यर्न॑त्तु। न॒क्षु॑त्तरंक॑क॑
म॒र॑हन्ता॑ल म॒त्यम॑म, ल॑लर्यन्तु॑ल॑ क॑ष्ट॑ल॑ अ॒तम॑म,
त्रिव॑वित्तम॑ म॒ुन्तु॑ वि॑तमा॑य्च॑ सेवा॑ ल॑प्पत्तु॑ल॑ल॑त्तु।
ल॑लर्यन्तु॑ल॑ क॑ष्ट॑य॑तेन्न॑तु। क॑ला॑ना॑ का॑लत्ति॑ल॑
अपि॑प्ररा॑यत्ति॑ल॑ल॑।

स एव — यः सूर्यसहितां सन्ध्यां सदा कुर्वीत मोहतः । न तस्य
विद्यते सन्ध्या सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ विधिनाऽपि कृता सन्ध्या
कालातीताऽफला भवेत् । अयमेव हि दृष्टान्तो बन्ध्याख्वीमैथुनं यथा ॥
अकाले चेत् कृतं कर्म कालं प्राप्य पुनः क्रिया । कालातीतं तु य(ः)त्
कुर्याद्कृतं तद्विनिर्दिशेत् ॥ अकाले = स्वकालात् पूर्वस्मिन्काले ॥ यः
सन्ध्यां कालतः प्राप्तामालस्यादतिवर्तते । सूर्यहत्यामवाप्नोति
उलूकत्वभियात्ततः ॥ सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विप्रा नो उपासते ।
कामं तान् धार्मिको राजा शूद्रकर्मसु योजयेत् ॥
सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु । यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य
फलभाग्मवेत् ॥ अनन्य चेतसः शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगा: । उपास्य
विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूर्वे परां गतिम् ॥ या सन्ध्या सा जगत्सूतिः
मायातीता तु निष्कला । ऐश्वरी केवला शक्तिः स(त)त्वत्रय-
समुद्भवा ॥ तस्मात् सर्वप्रियद्रेन सन्ध्योपासनमाचरेत् । उपासितो
भवेत्तेन दे(शि)बो योगतनुः परः इति ॥

வ்யாஸரே:- எப்பொழுதும், அறியாமையால், ப்ராதஸ் ஸந்த்யயையை ஸார்யோதயத்திற்குப் பிறகு செய்பவனுக்கு ஸந்த்யோபாஸன பலனில்லை. அவன் ஸர்வகர்மங்களின்றும் வெளியேற்றப்பட்டவனைவான். ஸந்த்யை விதியுடன் செய்யப்பட்டாலும், காலத்திற்குப் பிறகு செய்யப்பட்டால் நிஷ்பலமாகும். வந்தய(மலடு) ஸ்தரீயுடன் மைதுனம் போல், இதுவே த்ருஷ்டாந்தம். விழிதமான காலத்திற்கு முன் கர்மம் செய்யப்பட்டால், முக்யகாலம் வந்த பிறகு, மறுபடி அந்தக் கர்மத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். முக்யகாலம் அதிகரமித்த பிறகு செய்யப்படும் கர்மத்தை, செய்யப்படாததென்று கருதவேண்டும். காலத்தில் ப்ராப்தமான ஸந்த்யயை சோம்பலால் அதிகரமிப்பவன் ஸார்யஹ்யை செய்த தோஷத்தை அடைவான். பிறகு கோட்டானேய் பிறப்பான். மாலையிலும், காலையிலும் ஸந்த்யயை உபாஸிக்காத ப்ராம் ஹணர்களை தாமிஷ்டனை அரசன் சூதரரின் கார்யங்களில் நியமிக்க வேண்டும். ஸந்த்யயை உபாஸிக்காதவன் எப்பொழுதும் அசுத்தன். ஸகல கர்மங்களிலும் யோக்யனல்ல. அவன் வேறு எந்தக் கர்மத்தைச் செய்தாலும், அதன் பலனை அடையமாட்டான். ஏகாக்ரமான மனதுடையவரும், சாந்தரும், வேதத்தை முற்றுமறிந்தவரும், முன்னேருமான ப்ராம் ஹணர்கள், முறைப்படி ஸந்த்யயை உபாஸித்துச் சிறந்த கதியை அடைந்தனர். ஸந்த்யை என்னும் தேவதை ஜகத்திற்குக் காரணமாகியது, மாயையை அதிகரமித்ததும், நிஷ்களமானதும், ஈச்வரனுடைய தனிப்பட்ட சக்தியும் மூன்று தத்வங்களுக்கும் காரணம் ஆகியதாம். ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் ஸந்த்யயை உபாஸிக்க வேண்டும். உபாஸித்தவனால் யோக சரீரான பரமசிவனே உபாஸிக்கப்பட்டவராய் ஆகிறுர்.

யம: – ஸந்஧்யாமுபாஸதே யே து ஸதत் ஸ்திதவ்ரதா: | வி஘ூதபாபாஸதே யாந்தி ஭்ரஹ்லோக் ஸனாதனம् || யத்ரா குருதே பாப் கர்மண மனसா ஗ிரா |

आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामैस्तु हन्ति तत् ॥ यद्राध्या कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा । पूर्वा सन्ध्यामुपासीनः प्राणायामैव्यर्पोहति इति ॥ मनुः - ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वादीर्घमायुरबापूयुः । प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च इति ॥ यागादिकर्मकृतं यशः ॥ त्यागादिकृता कीर्तिः ॥

यमनः:- एप्पेबाहुतुम् त्तरुटमान नियमम् उटेयवराय लन्त्तयये उपालीप्पवर्पा पापन्कलन्त्रवराय नित्यमान प्ररम्हलेलोकत्तेत्त अटेकिन्नरन्नर. मनीतन्न, पकलीलं सरीरत्तहालुम्, मनत्तालुम्, वाक्किणेलुम् एन्तप्प पापत्तेत्तस्च चेयकिन्नरुतेऽनेत्त मालैयीलं लन्त्तयये, प्राणे यामन्कगुटन्न उट्कार्न्तवग्नेय उपालीत्तुप्प पोक्कुकिन्नरुन्न. रात्तरीयीलं, कायत्तहालुम्, मनत्तालुम्, वाक्कालुम् एन्तप्प पापत्तेत्तस्च चेयकिन्नरुतेऽनेत्तक्क कालैयीलं लन्त्तयये प्राणे यामन्कगुटन्न (निन्नरु) उपालीत्तुप्प पोक्कुकिन्नरुन्न. **मनुः:-** मुनीकलं, अविच्छिन्नन्माय लन्त्तयये उपालीत्तहालं, त्रीरक्कमान आयुलंलेयुम्, पुत्तति, यसलं, किर्तति, प्ररम्हल वर्स्सस्त्तत्तयुम् अटेन्तन्नर. याकाति कर्मन्कलालं उन्नटाकियतु यसलं. त्याकम् मुत्तवियत्तालं उन्नटाकियतु किर्तति.

गोमिलः - सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता । जीवन्नेव भवेच्छूदो मृतः श्वा चाभिजायते इति ॥ चन्द्रिकायाम् - उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्यां वै यथाविधि । गायत्रीमध्यसेत्तावद्यावदक्षाणि पश्यति ॥ पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रा मुपक्रम्य यथाविधि । गायत्रीमध्यसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम् इति ॥

कोपीलारः:- एवं लन्त्तयये अरीयवीलंलैयो, लन्त्तयये एवं उपालीक्कवीलंलैयो अवन्न, ज्ञेवित्तिरुक्कुम् पोतेऽकुत्तरन्नवान्न. इरन्त प्रिरकु

நாயாயும் பிறப்பான். சந்தரிகையில்:- 'ஸாயம் ஸந்த்யையை ஸமர்யனுடன் கூடியதாய் விதிப்படி உபாளித்து, நக்ஷத்ரங்களைப் பார்க்கும் வரையில் காயத்ரியை ஜபிக்க வேண்டும். ப்ராதஸ் ஸந்த்யையை நக்ஷத்ரங்களுடன் கூடியதாய் உபாளித்து, ஸமர்யோதயம் வரையில் காயத்ரியை ஜபிக்க வேண்டும்.

஛ந்஦ோगஶ்சுதிரபி – ஬்ரஹ்மாதினோ வदந்தி கஸ்மாத் ஬்ரஹ்ம: ஸந்஧ாமுபாஸ்தே கஸ்மாத் பிராதஸ்திஷ்ண் கா ச ஸந்஧ா கஶ் ஸந்஧ாயா: கால:, கிஞ் ச ஸந்஧ாயா: ஸந்஧ாத்வ, ஦ேவாಶ் வா அஸுராಶாஸ்பஞ்சந்த தேஸுரா ஆடித்யம்பிரவன், ஸ ஆடித்யோஸ்விமேத, தஸ்ய ஹடய் கூர்ம்பேணாதிஷ்டத் ஸ பிரஜாபதிமுபா஧ாவத் தஸ்ய பிரஜாபதிரெதத் தேஸுரா பேணாதிஷ்டத் ச ஸத்ய ச ஬்ரஹ் சோங்கார் ச திப்பாந் ச ஗ாயத்ரீ ஬்ரஹ்மா முखமபஶ்யத் தஸ்மாத் ஬்ரஹ்மாதோராத்ரஸ்ய ஸஂயோಗ ஸந்஧ாமுபாஸ்தே ஸ ஜ்யோதிஷ்யாஜ்யோதிஷோ ஦ர்ஶனாத் ஸோஸ்ய கால: ஸ ஸந்஧ா தத்ஸந்஧ாயா: ஸந்஧ாத்வ யத்ஸாயமாஸீன: ஸந்஧ாமுபாஸ்தே தயா வீரஸ்தாந் ஜயத்ய஥ யதப: பிருஞ்சே தா விபுஷா வஜ்ரிமூல்வாதஸுரானபஞ்சந்தி இதி॥

சந்தோகச்சருதியும்: - 'ப்ரம்-ஹவாதி நோ வதந்தி + நபக்ளனந்தி' என்று. இதன்பொருள், வேதவாதிகளான முன்னோர்கள் இவ்விதம் கேட்டுக் கொண்டனர். ப்ராம்-ஹணன், ஏன் மாலையில் உட்கார்ந்தவனுய் ஸந்த்யையை உபாளிக்கின்றான்? ஏன் காலையில் நின்றவனுய் உபாளிக்கின்றான்? எது ஸந்த்யை? எது ஸந்த்யையின் காலம்? எது ஸந்த்யையின் ஸந்த்யைத் தன்மை? என்று. இதற்கு விடை - தேவர்களும் அஸ-ரார்கள் யுத்தம் செய்வதற்கு ஸமர்யனை எதிர்த்துச் சென்றனர். ஸமர்யன் பயத்தை அடைந்தான். அவனது ஹ்ருதயம் ஆமை போல் இருந்தது. (தன்னைக் குறுக்கிக்

केण्णं ततु) अन्त शर्मर्याणं प्रमहा वैवच सरणमटन्ताणं. प्रमहौ तेवनं शर्मर्याणुक्तु इतेप परि ल्लारमाय्कं कण्टार. गुतम (पेपाय्कं पोशामे - नेर्ममे), लत्यम (उन्नमे पोशतल), प्रमहौ (वेतम), छन्कारम, मुन्नरु पातन्कण्टटय वेतत्तिन्तु मुकमाकिय कायतर्दि इवेकलौ. अवाणुक्तुकं केण्टुत्तार. आकेयाल्ताणं प्रराम्हौ ज्ञानं, पकल, रात्तरी इवेकलीनं लन्ति यिलं लन्त्ययय उपालिक्किण्ऱुन्. ओरु ओली इरुक्तुम कालत्तिलं आरम्पित्तु, मन्त्र लिरुरु ओली काणप्पाटुम वरेयिलं (मालैयिलं शर्मर्याणं ओली तेरीयुम पोतु आरम्पित्तु, नक्षत्र ओली इरुक्तुम पोतु आरम्पित्तु शर्मर्याणं ओली तेरीयुम वरेयिलं) अतुताणं लन्त्याकालम, अतु लन्त्यय, अतु लन्त्यययिनं तन्ममे. मालैयिलं उट्कार्न्तु लन्त्यययय उपालिप्पताल, वीर स्तानत्तेत अटेकिरुन्. तविर अर्क्यम केण्टुप्पताल अन्तत त्रिवीलकलं वज्जरायुतमाकप परिणामित्तु अल्लारकलौ ल्लीम्लीक्किण्ऱन, एन्नरु.

तैत्तिरीयकेऽपि — रक्षाऽसि हवा पुरानुवाके तपोग्रमतिष्ठन्ते तान् प्रजापतिवरेणोपामन्त्रयत तानि वरमवृणीतादित्यो नो योद्धा इति तान् प्रजापतिरब्रवीद्योधयध्वमिति तस्मादुत्तिष्ठन्ते हवा तानि रक्षाऽस्यादित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगात्तानि भवा एतानि रक्षाऽसि गायत्रियाऽभिमन्त्रितेनाम्भसा शाम्यन्ति तदुहवा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्रियाऽभिमन्त्रिता आप ऊर्ध्वं प्रक्षिपन्ति ता एता आपो बज्रीभूत्वा तानि रक्षाऽसि मन्देहारुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति यत्प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति तेन पाप्मानमवधून्वन्ति इति ॥

तेत्तुत्तीर्यकृत्तिलुमः- 'रक्षाम्ली + यत्वम् वेत' एन्नरु. इतनं बेपारुल - मन्त्रकालत्तिलं राक्षसर्कलं त्रिवरमाण तपस्सैव चेय्तनर. अन्तत तपस्सीनुलं लन्तेतोष्मुन्नरु प्रमहौ तेवनं 'इष्टमाण वरजैनप

பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்' என்றார். அந்த ராக்ஷஸர்கள் 'எங்களுடன் ஸமர்யன் யுத்தம் செய்பவனேய் ஆக வேண்டும்' என்று வரலை வேண்டினர். அவர்களை நோக்கி ப்ரம்ஹதேவன் 'அவ்விதமே ஸமர்யனேடு யுத்தம் செய்யுங்கள்' என்று உத்தரவு கொடுத்தார். அதனால் ராக்ஷஸர்கள், உதயகாலம் முதல் அஸ்தமய காலம் வரையில் ஸமர்யனேடு யுத்தம் செய்கின்றனர். அந்த ராக்ஷஸர்கள் காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிக்கப்பட்ட ஜலத்தால் தணிவை அடைகின்றனர். அக்காரணத்தாலேயே வேதத்தைச் சொல்பவரான இந்த ப்ரராம்ஹனர்கள் ப்ரராதஸ் ஸந்த்யா காலத்தில் கிழக்கு நோக்கியவராய் இருந்து, காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிதமான ஜலத்தை உயரமாய் விடுகின்றனர். அந்த ஜலமானது காயத்ரியின் ஸாமர்த்யத்தால் வஜ்ரத்தின் ரூபத்தை அடைந்து, அந்த ராக்ஷஸர்களை, மந்தேஹர்கள் என்னும் ராக்ஷஸர்களுக்குச் சொந்தமான அருணம் என்னும் தவீபத்தில் தள்ளுகின்றது. அந்த ப்ரம்ஹவாதிகள் ப்ரதக்ஷிணமாய்ச் சுற்றுவதால் பாபத்தை உதறுகின்றனர். இந்த ஆதித்யன் ப்ரம்ஹம் என்று சாஸ்தரத்தால் அறிந்த ப்ரராம்ஹனன் உதய காலத்திலும், அஸ்தமய காலத்திலும் ஸமர்யனை அவ்விதமே த்யானித்து, ப்ரதக்ஷிணம் செய்கின்றன். அவன் ஸகலமான நன்மையையும் அடைவான். 'ஆதித்யன் ப்ரம்ஹம்' என்று அறிகின்ற அவன், முன்பு தான் அறியாதவனுயினும் உண்மையாய் ப்ரம்ஹமாகவே இருப்பவனுகையால், இந்த ஜ்ஞானத்தால் அக்ஞானம் விலகியபின் தனது அனுபவத்தாலும் ப்ரம்ஹத்தை அடைகின்றன், என்று.

அற ஹரிதः - ஆदித்யேन ஸह ப்ரதமந்஦ேஹா நாம ராக்ஷஸாः |
யுध்யந்தி வர்஦ாநேந ஬்ரஹ்மோऽந்தாஞ்மனः || உடகாञ்ஜலிநிக்ஷேபா
஗ாயத்ரை சாமிமந்திதாः | நிஷ்டந்தி ராக்ஷஸாந् ஸவாந् மந்஦ேஹார்யாந्
திஜேரிதாः || ததः ப்ரயாதி ஸவிதா ஬்ரஹ்மைரக்ஷிதः |
மரிச்யாதைர்மஹாமாஹै: ஸநகாதைஶ யோगி஭ி: || தஸ்மாந் லக்ஷ்யேத் ஸந்஧ா

स्मृतिमुक्ताफले - आहिककाण्डः पूर्व भागः
सायं प्रातः समाहितः ॥ उल्लङ्घयति यो मोहात् स याति नरकं धुक्म्
इति ॥

இங்கு, ஹார்தர்:- மந்தேஹர்கள் என்ற ராக்ஷஸர்கள் ப்ரம்ஹாவின் வரதானத்தால், காலையில் ஸ-அர்யனுடன் யுத்தம் செய்கின்றனர். காயத்ரியால் அபிமந்தரிக்கப்பட்டு, ப்ராம்ஹணர்களால் விடப்பட்ட அர்க்ய ஜலாஞ்ஜலிகள், மந்தேஹர்கள் என்ற அந்த ராக்ஷஸர்களை அகற்றுகின்றன. பிறகு ஸ-அர்யன், மஹாத்மாக்களான மரீசி முதலிய ப்ராம்ஹணர்களாலும், ஸனகர் முதலிய யோகிகளாலும் ரக்ஷிக்கப்பட்டவராய்ச் செல்லுகிறார். ஆகையால் கவனம் உடையவனுய், மாலையிலும் காலையிலும் ஸந்த்யையை அதிக்ரமிக்கக் கூடாது. அறியாமையால் அதிக்ரமிப்பவன் நிச்சயமாய் நரகத்தை அடைவான்.

योगयाज्ञवल्क्योऽपि – त्रिंशत्कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम
राक्षसाः । प्राद्रवन्ति सहस्रांशु मुदयन्तं दिने दिने ॥ अहन्यहनि ते सर्वे
सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् । अथ सूर्यस्य तेषां च युद्धमासीत् सुदारुणम् ॥
ततो देवगणास्तर्वे क्रषयश्च तपोधनाः । सन्धौ सन्ध्यामुपासीना
यत्क्षिपन्त्यन्वहं जलम् ॥ ब्रह्मव्याहृतिसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् ।
तेन दद्यन्ति ते दैत्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥ एतद्विदित्वा यः
सन्ध्यामुपास्ते संशितब्रतः । दीर्घमायुः स विन्देत सर्वपापैः
प्रमुच्यते ॥ यस्तु तां केवलां सन्ध्या मुपासीत स पुण्यभाक् । तां
परित्यज्य कर्मणि कुर्वन् प्राप्नोति किल्बिषम् ॥ स हन्ति सूर्य सन्ध्याया
नोपास्ति कुरुते तु यः ॥ ये हिंसन्ति सदा सूर्य मोक्षद्वारमुनुत्तमम् । कथं
मोक्षस्य सम्प्राप्तिर्वैतेषां द्विजन्मनाम् ॥ कामान्मोहाद्याल्लोभात्
सन्ध्यां नातिक्रमेद्विजः । सन्ध्यातिक्रमणाद्विप्रो ब्राह्मण्यात् पतितो
यतः इति ॥

योகयाक्ञवल्क्यस्यामः - மந்தேஹர்கள் என
ப்ரளித்தர்களான முப்பது கோடி ராக்ஷஸர்கள்,

ப்ரதிதினமும் உதய காலத்தில் ஸுர்யனை விரட்டுகின்றனர். அவரெல்லோரும், ஒவ்வொரு நாளிலும் ஸுர்யனைக் கொல்ல விரும்புகின்றனர். ஸுர்யனுக்கும் அந்த ராக்ஷஸர்களுக்கும் மிகப் பயங்கரமான யுத்தமாகின்றது. பிறகு, ஸகல தேவர்களும், தபோதனரான முனிகளும், அஹோராத்ர ஸந்தியில் ஸந்த்யையை உபாஸிப்பவராய், ஒங்காரத்துடனும் வ்யாஹ்ருதிகளுடனும் கூடியதாயும், காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிக்கப்பட்டதுமான ஜலத்தை விடுகின்றனர் அந்த ஜலம் வஜ்ரமாய் மாறுவதால் அதனால் அந்த ராக்ஷஸர்கள் பொசுக்கப்படுகின்றனர். இதை அறிந்துத்ருடமான வரதம் உடையவனும் ஸந்த்யையை உபாஸிப்பவன் நீண்ட ஆயுளை அடைகிறான். ஸகல பாபங்களாலும் விடப்படுகிறான். எவன், அந்த ஸந்த்யை ஒன்றை மட்டில் உபாஸிக்கின்றானே அவன் புண்யத்தை அடைவான். அந்த ஸந்த்யையை விட்டு, மற்றக் கர்மங்களைச் செய்பவன் பாபத்தை அடைகின்றான். ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யாதவன் ஸுர்யனை வதைக்கின்றான். சிறந்த மோக்ஷத்தின் வழியாகிய ஸுர்யனை எப்பொழுதும் ஹிம்லிக்கிற ப்ராம்ஹணர்களுக்கு மோக்ஷப்ராப்தி எப்படி உண்டாகும்? காமம், மோஹம், பயம், லோபம் இவைகளுள் எக்காரணத்தாலும், ப்ராம்ஹணன் ஸந்த்யையை அதிக்ரமிக்கக் கூடாது. ஸந்த்யையை அதிக்ரமிப்பதால் ப்ராம்ஹணன் ப்ராம்ஹணத் தன்மையினின்றுமே நழுவியினாவான்.

सन्ध्यात्रयमाह अत्रः - सन्ध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा इति ॥ அது ஸந்஧்யாஶாவை ஸந்஧்யோபாஸனரूபகர்மௌபலக்ஷ்யதே । அந்தா ஦ேவதாயா: கர்த்யத்வாயோగாத् ॥ ஏதदभிப்ரேத, பராஶாரः - ஸந்஧்யா ஸ்நான் ஜபோஹஸோ ஦ேவதானா ச பூஜனம् । ஆதி஥்யं வைஶ்வதேவं ச ஷட்கர்மாणி ஦ிநே ஦ிநே இதி ॥

மூன்று ஸந்த்யைகளைச் சொல்லுகிறார், அத்ரி:-

आत्मावव अर्निन्त प्रराम्भैर्जन्न एप्पेबाघुमुम् झुन्ऱु
सन्त्ययकौयुम् चेय्य वेण्णुम्. इंकु 'सन्त्या'
एन्ऱ सप्तत्त्वाल् सन्त्येयोपासन रूपमाण कर्मम
चेषाल्लप्पटुकिरतु. तेवतेयाच चेय्वतेन्पतु
पेपारुन्तातु. इववपि प्ररायत्तेतक केऊन्टेट, प्राचराः-
सन्त्या स्नानम्, जपम्, ख्रोमम्, तेव पूज्ज,
अथितीपूज्ज, वेचवतेवम् एन आरु कर्मन्कलं
प्रतितिन्मुम् चेय्यत्तकुन्तवै.

अत्र कालभेदेन देवताया नामादिभेदमाह व्यासः - गायत्री
नाम पूर्वाह्नि सावित्री मध्यमे दिने । सरस्वती च सायाह्ने सैव सन्ध्या
त्रिषु स्मृता ॥ प्रतिग्रहादन्वदोषात् पातकादुपपातकात् । गायत्री
प्रोच्यते तस्मात् गायन्तं त्रायते यतः ॥ सवितुर्धोतनाचैव सावित्री
परिकीर्तिता । जगतः प्रसवित्री वा वाग्रूपत्वात् सरस्वती ॥ गायत्री तु
भवेद्रक्ता सावित्री शुक्लवर्णिका । सरस्वती तथा कृष्णरूपा
स्याद्वर्णभेदतः ॥ गायत्री ब्रह्मरूपा तु सावित्री रुद्ररूपिणी ॥ सरस्वती
विष्णुरूपा उपास्या रूपभेदतः ॥ उदये ब्रह्मरूपं तु मध्याह्ने तु
महेश्वरम् । सायाह्ने विष्णुरूपं तु त्रिरूपं वै दिवाकरम् ॥ अनुसन्ध्य-
मुपासीत सन्ध्यारूपं रविं द्विजः इति ॥

इंकु, काल वेतत्त्वाल्, तेवतेयावै वेयर
मुतवियतिनि वेतत्त्वाच चेषाल्लुकिरुर, व्यासरः-
कालैयील कायतर्ही एन्ऱुम, मत्याह्नैतत्तिल लावितर्ही
एन्ऱुम, मालैयील लरव्वति एन्ऱुम, सन्त्ययक्कु
झुन्ऱु कालत्तिलुम् झुन्ऱु वेयर्कल. प्रतिकरूप
तेऽवृत्तिनिन्ऱुम, अन्न तेऽवृत्तिनिन्ऱुम,
पातकत्तिनिन्ऱुम, उपपातकत्तिनिन्ऱुम, तन्नैन काणम
चेय्पवै (उच्चारिप्पवै) त्राणम् चेय्वताल्
(काप्पताल) कायतर्ही एन्स चेषाल्लप्पटुकिरुल.
लवितावव (लमर्यै) प्रकाशप्पटुत्तुवताल् लावितर्ही
एन्पपटुकिरुल. अल्लतु उलकत्तेत उन्नुपन्नुवताल्

ஸாவித்ரீ எனப்படுகிறார்கள். வாக்ஞபமாய் இருப்பதால் ஸரஸ்வதி எனப்படுகிறார்கள். காயத்ரீசிவப்பு நிறமுள்ளவள். ஸாவித்ரீ வெண்ணிறம் உள்ளவள். ஸரஸ்வதி கறுப்பு நிறமுள்ளவள். காயத்ரீ ப்ரஹ்மரூபினை ஸாவித்ரீ ருத்ரரூபினை ஸரஸ்வதி விஷ்ணு ரூபினை என்றும் உபாளிக்க வேண்டும். உதயகாலத்தில் ப்ரம்ஹ ரூபங்கும், மத்யாஹ்நத்தில் மகேச்வரங்குமும், ஸாயங்காலத்தில் விஷ்ணு ரூபங்கும் ஸந்த்யா ரூபங்கள் ஸார்யனை ஒவ்வொரு ஸந்த்யையிலும் ப்ராம்ஹணன் உபாளிக்க வேண்டும்.

யாஜவல்க்ய: – யா ஸந்஧ா ஸா து ஗ாயத்ரி திரிஸ்ரூபா பிரதிஷ்஠ிதா । ஸந்஧ா ஹ்பாஸிதா யேந விஷ்ணுஸ்தேந ஹ்பாஸித: இதி ॥ உபாஸன் = அभி஧்யானம् ॥ அத ஏவ தைத்திரீய ஬்ரஹ்மணம் – உதயந்தமஸ்தம் யந்த மாதித்ய மதி஧்யாயன் குர்வந் ஬்ரஹ்மனோ வி஦்வாந் சுகல் மந்திரமஶ்நுதேஸாவாதித்யோ ஬்ரஹ்மேதி ஬்ரஹ்மைவ ஸந் ஬்ரஹ்மாப்யேதி ய ஏவ ஽வேத இதி ॥ அயமர்஥: - குர்வந் - பிராணாயாம் குர்வந் யதோக்த நாமவர்ணஸ்ரூபமேத: ஸந்஧ாத்மிநமாதித்ய ஬்ரஹ்மத்வேந ஧்யானம், ஏஹிகமாமுஸ்மிக்ச சுகல் மந்திரமஶ்நுதே । ய ஏவமுக்த஧்யானேந ஶுஞ்சாந்த: - கரணோ வேத - ஬்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்குருதே, ஸ பூர்வமஷி ஬்ரஹ்மைவ ஸந் அஜானாஜ்ஜிவமாவும் ப்ராஸ: , யதோக்தஜானேந ததஜானாபஙமே ஬்ரஹ்மைவ ப்ராப்நோதி இதி ॥

யாக்ஞவல்க்யர்:- ஸந்த்யை என்பவளே காயத்ரீ, மூன்று வேதரூபமாயும் நிலைபெற்றவள். ஸந்த்யையையை உபாளிப்பவன் விஷ்ணுவை (தியானிக்கிறார்கள்) உபாளிக்கிறார்கள். தைத்திரீய ப்ராம்ஹணம் “உதயந்தமஸ்தம் + ஏவம்வேத” என்கிறது. இதற்கு இது பொருளாம் - “குர்வன் = ப்ராணை யாமத்தைச் செய்பவனுய், முன் சொல்லிய படி நாம வர்ண ரூப பேதங்களுடன் ஸந்த்யா சப்தத்தால் சொல்லப்படும் இந்த ஆதித்யன்

प्रमंहू चप्तवाक्षयं एन्ऱू, सन्त्येययुटनं पेतमिल्लात
 आति॒यै॒न प्रमंहू पा॒वत्तु॒त्त॑ त्या॒नी॒प्पव॑न्,
 इ॒व॒व॒ल॒क॒ल॒उ॒ल॒उ॒म्, पर॒लो॒क॒त्ति॒ल॒उ॒ल॒उ॒मा॒न
 मन्क॒ल॒त्त॒त्त॒य॒म् अ॒ट॒क॒र॒ु॒न्. इ॒व॒व॒ी॒त्त॑ च॒स॒ल॒प्प॒ट॒
 त्या॒न॒त्त॒त्त॒य॒ल॒ स॒त्त॒मा॒न॒ म॒न॒त्त॒ट॒य॒व॒ग॒ु॒य॒,
 वेत = प्रमंहू त्त॒त्त॒ ला॒क॒ष॒ा॒त्त॒क॒र॒ि॒न॒र॒व॑न्, अ॒व॒न॒ म॒न॒प॒म्
 प्रर॒ह॒म॒म॒मा॒क॒व॒ इ॒रु॒न॒त्त॒म्, अ॒क॒न॒ा॒न॒त्त॒त्त॒ा॒ल॒
 ज॒व॒त्त॒त्त॒म॒य॒ अ॒ट॒न॒त्त॒व॒ग॒ु॒ता॒ल॒, म॒न॒ च॒स॒ल॒व॒ि॒य॒
 क॒न॒ा॒न॒त्त॒त्त॒ा॒ल॒ अ॒न॒त्त॒ अ॒क॒न॒ा॒न॒म् वी॒ल॒क॒ि॒य॒व॒ट॒न॒
 प्रमंहू त्त॒त्त॒य॒ अ॒ट॒क॒र॒ु॒न्' एन्ऱू.

अत एव व्यासः - प्राकूलेषु ततः स्थित्वा दर्भेषु सुसमाहितः ।
 प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत् सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥ न भिन्नां प्रतिपद्येत
 गायत्रीं ब्रह्मणा सह । साऽहमस्मीत्युपासीत विधिनाऽनेन वै द्विजः
 इति ॥ ध्यानदेशोऽपि चन्द्रिकायां दर्शितः - गायत्रीं चिन्तयेद्यस्तु
 हृत्पद्मे समुपस्थिताम् । धर्मधर्मविनिरुक्तः स याति परमां गतिम्
 इति ॥

व्याख्याताः - पीरु, किञ्चकु नुनीयायुल्लासा
 तर्प्पनकलीलं निन्ऱू, मिक्क कवनमं उटेयवग॒ुय॒,
 मून्ऱू प्रराणु यामन्कलीक्क चेय्तु, सन्त्येयय॒
 त्यानीक्क वेण्णुमं एन्किरुतु वेतमं. कायत्रीय॒
 प्रमंहू त्त॒त्त॒त्त॒ वेरुपट्टता॒य॒ त्यानीक्कक्क कूटातु.
 'नानं अन्त कायत्रीया॒क॒व॒ इ॒रु॒क॒क॒र॒ेन॒' एन्ऱू इन्त
 वित्तियुटनं प्ररामंहू उपालीक्क वेण्णुमं. त्यान
 तेचमुमं च॒स॒ल॒प्प॒ट॒उ॒ल॒उ॒त्त॒ चन्त्तरीक॒य॒ल॒ः -
 कायत्रीय॒ व॒रुत्तय॒ कमलत्ति॒ल॒ इ॒रु॒प्पव॒ल॒ा॒य॒
 त्यानीप्पव॑न्, पुण्य पा॒पन्कला॒ल॒ वी॒ट॒प्प॒ट॒व॒ग॒ु॒य॒,
 चिरन्त क॒त्तिय॒ (मेंोक्षत्त॒त्त॒) अ॒ट॒क॒र॒ु॒न्.

एवश्च सन्ध्यामुपासीतेत्यनेन सन्ध्यामुक्तरूपामर्क-
 मण्डलान्तर्गतामादित्याख्यां ब्रह्मात्मिकां देवतां हृदि
 साऽहमस्मीत्युपासीत ध्यायेदित्युक्तं भवति । तेनात्र 'उपासनमेव

ප්‍රධානම् । අන්ත් සර්ව මාර්ජනාධ්‍යමිත්‍යනුසන්ධීයම් ඇති ඡන්දිකාමාධ්‍යීයාදී ॥

இவ්‍ளිතம் இருப்பதால், ‘ஸந்த்யையை உபாளிக்க வேண்டும். என்றதால், ஸந்த்யையை, சொல்லப்பட்ட ரூபங்களை உடையவளாய், ஸளர்யமண்டலத்தினுள் இருப்பவளாய், ஆதித்யனென்ற நாமமுடையவளாய், ப்ரம்ஹஸ்வருபிணியான தேவதையாய், ஹ்ருதயத்தில் நான் அவளாகவே இருக்கிறேன் என்று உபாளிக்கவேண்டும் - த்யானிக்க வேண்டும். அதனால் இங்கு உபாஸனே ப்ரதானம், மார்ஜனம் முதலிய மற்ற தெல்லாம் அங்கமென்று அறியத் தகுந்தது, என்று சந்தரிகா மாதவீயம் முதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அத ஏவ வ்யாஸ: - ஦ேகாக்ஷோமே மஹாபதௌ மார்ஜனாଘ்யாதிஸம்பவே । ஸந்஧ாகதம் ஸஹஸ்ராங்கு மந்திர: குர்யடுபாஸிதம் இதி ॥ அத ஏவ யுதிஷ்டிரமிருஷ்தோத்தை: ஸாஜாநுஷாநாஸமதை: ஸகலாஜபரித்யாகே- நாடித்யோபஸ்஥ானமாநமநுஷ்டிதம் ॥ தடுக்க மஹாமாரதை - ‘தே ததை மஹாராஜ ஦ஂஶிதா ரணமூர்ச்சனி । ஸந்஧ாகதம் ஸஹஸ்ராங்கு மாடித்யமுபதஸ்திரே’ இதி ॥ ஸந்஧ாகதம் - ஸந்஧ிமாகதம் ॥ அபரே து அர்ய்஦ானா ஸந்஧ா஧்யானாந் ஗ாயத்ரி ஜப: உபஸ்஥ான ச ப்ர஧ானமிதி வடந்தி ॥ தடேவ் ஗ாயத்ராதிநாமோபேத ஸந்஧ாஶ஬்஦ப்ரतிபாத: ஸவிதைவோபாஸ்ய: ॥

வ்யாஸர்:- ‘தேச கேஷாபத்திலும், பெரிய ஆபத்திலும், மார்ஜனம் முதலிய அங்கங்களைச் செய்ய முடியாவிடில், ஸந்த்யா காலத்தில் மந்த்ரங்களால் ஸளர்யனை உபாளிக்க வேண்டும்.’ என்றார். ஆகையால் தான், யுத்தத்தில் முயற்சி உள்ளவரானதால் ஸாங்கமாய் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்ய முடியாதவர்களான யுதிஷ்டிரர் முதலியவர்கள், அங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் தள்ளி

सौर्योपस्तानं तत्त्वं मट्टुम् अनुष्ठित्तं तारकं. अतु चेष्टलप्पट्टुं लातु, महापारतत्त्वीलः- ओ महाराज्ञेन। युत्तत्त्वील ईट्टुपट्टुं ला अवरकं, युत्तत्त्वील इरुन्तवराकवे, सन्त्याकालत्तत्त्वं अटेन्त लार्यज्ञेन उपस्तानम् चेष्टनर. मर्नवरोवेणील, अर्क्यतानम्, सन्त्यात्यानम्, कायतर्हि ज्ञपम्, उपस्तानम् इवेकलेल्लाम् प्रतानम् एन्किन्नर. आकेयाल, इवंवितम् इरुप्पताल कायतर्हि मुतविय बेयर्करुटं कृष्णय लन्त्याचपत्तत्ताल चेष्टलक्ष्मिय लवितातान उपालीक्कत तकुन्तवर.

—★—

सन्ध्योपासनकालः ॥

सन्ध्योपासनकालश्च प्रागुदयात् घटिकाद्यात्मकः ‘रात्र्यन्त्ययामनाडी द्वे सन्ध्याकाल उदीरितः ‘दिनाडिका भवेत् सन्ध्या’ ‘उदयात् प्राक्तनी सन्ध्या घटिकाद्यमीरिता’ ‘सन्ध्यामुहूर्तमात्रैव हासवृद्धौ समा स्मृता’ इति दक्षगर्बोधायनादि-स्मरणात् ॥ यत्तु ‘प्रातः सन्ध्या त्रिनाडी स्यात् सायं सन्ध्या तथाविधा’ इति स्मरणम्, तत्सन्ध्याकालविहितकर्मन्तराभिप्राय-मित्याहुः ॥ यत्तु ‘द्विघटी तूदयादवार्कप्रहरार्धतथोपरि। सन्ध्याकालः स विज्ञेयो ह्यन्यथा लक्ष्मनं स्मृतम् इति स्मरणम्, तत् राष्ट्रक्षोभ जलालभाशाकत्याद्यापत्सु अनुकल्पाभ्यनुज्ञापरम् ॥

सन्त्येयोपासन कालम्

सन्त्येयोपासनत्तिन्तिन्तकुक्कालम् सौर्योपात्यत्तिन्तकु मुनि इरण्णु नाम्मिके अलावुं लातु. ‘रात्रीयिन्कलेट्चि यामत्तिन्क इरण्णु नाम्मिकेकं लन्त्याकालम् एनपपट्टुं लातु’ एन्ऱुम्, “इरण्णु नाम्मिकेयुं लातु सन्त्यय” एन्ऱुम्, “सौर्योपात्यत्तिन्तकु मुनि इरण्णु नाम्मिके प्ररातल्स लन्त्यय एनपपट्टतु” एन्ऱुम्,

“ஸந்த்யை முஹ உர்த்தம் அளவுள்ளதே தான், பகல் ராத்ரிகளின் குறைவு வருத்திகளிலும் ஸமமாகியதே” என்றும் தக்ஷர், கர்க்கர், போதாயனர் முதலியவர்கள் சொல்லுகின்றனர். ஆனால், “ப்ராதஸ் ஸந்த்யை மூன்று நாழிகையுள்ளது, ஸாயம் ஸந்த்யையும் அவ்விதமே” என்ற வசனம் உள்ளதேயெனில் அது, ஸந்த்யா காலத்தில் விதிக்கப்பட்ட வேறு கர்மங்களில் அபிப்ராயம் உள்ளது என்கின்றனர். ஆனால், “உதயத்திற்கு முன் இரண்டு நாழிகையும், உதயத்திற்குப் பிறகு அரையாமமும் ஸந்த்யா காலமென்று அறியத்தக்கது. அதற்கு மேல் ஆனால் ஸந்த்யையைத் தாண்டுவது ஆகும்” என்ற ஸ்மருதியுள்ளதே எனில், அது, தேச கேஷாபம், ஜலம் கிடைக்காதது, அசக்தி முதலிய ஆபத்துகளில் அனுகல்பத்தை ஒப்புவதில் தாத்பர்யமுள்ளது.

யदாஹ வृஷ்மனुः : - ந விதம் ந பிரதோஷं ச ஸந்஧ாகாலோऽதிபதே ।
முख்யகல்போऽனுகலபश் ஸர்வஸ்மிந् கர்மणि ஸ்மृதः இதி ॥
மத்யாஹஸந்஧ாயா ஗ௌணகாலமாஹத்தீ : - அத்யாஹஸந்஧ா மா஧்யாஹிகிஷ்டே இதி ॥ யாஜாவல்க்ய : - அனார்த்ஶோத்ஸுஜேயஸ்து ஸ விப்ர :
ஶடூஸமித : | பிராயஶ்சித்தியதே சைவ லோகே ஭வதி நிந்஦ித : இதி ॥
அன்றிரபி - நோபதிஷ்஠ந்தி யே ஸந்஧ா ஸ்வஸ்஥ாவஸ்஥ாஸ்து யே டிஜா : |
ஹிஸந்தி தே ஸ்வா பாபா ஭஗வந்த ஦ிவாகரம् இதி ॥

வருத்தமனு : - சொல்லுகிறூர் - வரதானுஷ்டான காலத்திலும், ப்ரதோஷ காலத்திலும் ஸந்த்யைக்கு அதிக்ரமமில்லை. முக்ய கல்பம் அனுகல்பம் என்ற இரண்டும் எல்லாக் கர்மங்களிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மத்யாஹ்ன ஸந்த்யைக்கு கெளன காலத்தைச் சொல்லுகிறூர், தக்ஷர் : - ஒன்றரை யாமத்திற்கு மேல் ஸாயங்காலம் வரையில் மாத்யாஹ்னிக ஸந்த்யைக்குக் காலம் எனப்படுகிறது. யாக்ஞவல்க்யர் : - வ்யாதி இல்லாத எவன் ஸந்த்யையை விடுகிறு என்ற ப்ராம்ஹணன்

कुत्रुनुकंकुचं सममावानं. प्ररायशं चित्ततत्त्विरं कुमं
अर्प्त्वा गैकिरुन्. उलकत्तिलं नीन्तिकंकप्पट्टवग्नेयं
आकिरुन्. अत्तरियुमः- व्याति अन्त्रवरायं इरुन्तुमं
नन्त्रितन्त्रं प्रराम्भवान्नरकं लवन्त्ययये
उपालीकंकवीलैलैयो अन्तप्पं पापिकविलाम्,
एप्पेबामुत्रुमं लार्यपकवाजै ल्रिम्लीकंकिन्नरन्नर.

विष्णुपुराणे – उपतिष्ठन्ति वै सन्ध्यां ये न पूर्वा न पश्चिमाम्।
ब्रजन्ति ते द्वारात्मानस्तामिस्तं नरकं नृप ॥ तस्मान्त लञ्जनं कार्यं
सन्ध्योपासनकर्मणः । स हन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्तिं कुरुते तु यः ॥
सर्वकाल मुपस्थानं सन्ध्ययोः पार्थिवैष्यते । अन्यत्र
सूतकाशौचविभ्रमातुरभीतितः इति ॥ सूतकादौ तु सत्यपि सामर्थ्ये
सन्ध्योपासनं न कार्यमित्याह मरीचिः – सूतके कर्मणां त्यागः
सन्ध्यादीनां विधीयते इति ॥

विष्णुपुराणे – पुराणत्तिलः- प्ररातस्त लवन्त्ययययुम्,
लायम् लवन्त्ययययुम् उपालीकंकात तु ष्टटरकं
तामिल्लरमेन्नुम् नरकत्तत्त अटेकिन्नरन्नर. ओ अरचेनो
आकेयालं लवन्त्ययेयोपालनत्तत्त विटक्कूटातु. एवं
लार्येयोपालनम् चेय्यवत्तिलैलैयो अवन्न लार्यजै
ल्रिम्लीकंकिरुन्. अरचेनो एककालत्तिलूम्, इरुन्नु
लवन्त्ययकवीलूम् उपस्तानम् वित्तिकंकप्पट्टकिरतु.
ज्ञनानुचेलास्त, मरानुचेलास्त, चित्तप्रमम्, व्याति, पयम्
इवेवकानुलाल कालम् तविरत्ततु. लातकम् मुतवियत्तिलं
लामार्त्यम् इरुन्ततालूम् लवन्त्ययेयो पालनम् चेय्यकं
कूटातेन्नकिरुर, मरीचिः- आचेलात्तिल, लवन्त्ययेयोपालनम्
मुतविय कर्मन्तकानुकंकु त्याकम् वित्तिकंकप्पट्टकिरतु.

सद्ग्रहेऽपि — राष्ट्र क्षोभे नृपाक्षिसे रोगातौ शावसूतके ।
सन्ध्यावन्दनविच्छिन्निर्दोषाय कदाचन इति ॥ यत्तु पुलस्त्येनोक्तम्
– सन्ध्यामिष्टिं चरुं सोमं यावज्जीवं समाचरेत् । न त्यजेत् सूतके वाऽपि
त्यजन्नाच्छेदधो द्विजः इति तत् मानससन्ध्याभिप्रायम् ।

யதஸ்தேநैவோக்தம् – ஸूதகे மृतके चैव सन्ध्याकर्म न सन्त्यजेत् ।
மனसोच्चारयेन्मन्त्रान् प्राणायामत्रये द्विजः इति ॥ एवच्च यानि
सूतकादौ सन्ध्याकर्मनिषेधप्रतिपादकानि, तानि वचनानि
मन्त्रप्रयोगनिषेधपराणीति मन्तव्यम् । अत्र विशेषमाह व्यासः –
प्रक्षिपेत् सूதके त्वधर्य गायत्रीं तु समुच्चरन् । दत्त्वा प्रदक्षिणं कुर्यात् सूर्य
ध्यायेत् ततो द्विजः इति ॥

ஸங்கரஹுத்திலும்:- தேச கோபம், அரசனால்
நிர்ப்பந்தம், ரோகத்தால் தொந்தரை, மரணத்தீட்டு
ஸாதகம் இவைகளில், ஸந்த்யா வந்தனம் நிற்பது கேடு
தருவதில்லை. புலஸ்த்யரா:- “ஸந்த்யா வந்தனம், இஷ்டி,
சரு, ஸோமம், இவைகளை ஜீவனுள்ள வரையில்
அனுஷ்டிக்க வேண்டும். ஆசௌசத்திலும் விடக்கூடாது.
விட்ட ப்ராம்ஹணன் நரகத்தை அடைவான்” என்று
சொல்லிய வசனமோ எனில், அது, மானஸ ஸந்த்யையைப்
பற்றியதாகும். ஏனெனில், புலஸ்த்யரே - ப்ராம்ஹணன்,
ஜனஞ்சௌசத்திலும், மரண சௌசத்திலும் ஸந்த்யோ
பாஸனத்தை விடக்கூடாது. மனதினால் மந்த்ரங்களை
உச்சரிக்க வேண்டும், மூன்று ப்ராண யாமங்களிலும்
அப்படியே” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸாதகம்
முதலியதில் ஸந்த்யையை நிஷேஷத்திக்கும் வசனங்கள்
எல்லாம் மந்த்ரங்களை உச்சரிப்பதை தடுக்கவே தாத்பர்யம்
உள்ளவை. இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்.
வ்யாஸர்:- ஸாதகத்திலோ எனில், காயத்ரியை உச்சரித்துக்
கொண்டு அர்க்யத்தை விடவேண்டும். அர்க்யதானம்
செய்து, ப்ரதக்ஷிணம் செய்ய வேண்டும். பிறகு
ப்ராம்ஹணன் ஸார்யனை த்யானிக்க வேண்டும்.

பைठிநஸிரபி — ஸूதके सावित्र्या चञ्जलिं प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं
कृत्वा सूर्य ध्यायनमस्कुर्यादिति ॥ एतन्मार्जनादिसकलसन्ध्या-
कर्मोपलक्षणार्थमिति केचित् । यदत्र सन्ध्याकर्मणि श्रौतं
जलञ्जलिदानादि तदेवानुष्ठेयं नान्यदित्येवंपर मित्यपरे ।
यथाशिष्टाचारमत्र व्यवस्था ॥

प्रैषदनवीयम्:- लग्नतत्त्वात् कायतरीयालं अर्क्यतत्त्वात् विट्टु प्ररत्क्षीणाम् चेयंतु, लग्नर्यजैन त्याणीप्पवन्नेयं नमस्कारम् चेय्य वेण्णुम् एन्किरुर्. इतु, मार्ज्जनम् मुत्तवीय लकल लन्त्या कर्मन्कज्ञायम् चेऽलवत्तरकाक एन्किन्नरन्नर् चिलर्. इन्त लन्त्या कर्मतत्त्वात् चंगुत्तियालं चेऽललप्पट्ट अर्क्यतानम् मुत्तवीयतु मट्टिलं अनुष्ठिक्कत्त तक्कतु, मर्न्नतु अनुष्ठिक्कत्त तक्कत्तल्ल एन्नरत्तिलं तात्पर्यमुलातु. एन्किन्नरन्नर् मर्न्नवर्. इन्कु चिष्टासारप्पटि व्यवस्तुत अनियत्तक्कतु.

शक्तस्य मुख्यकालातिक्रमे प्रायश्चित्तमाह सञ्चहकारः -
आचान्तो विधिवत् प्राणा नायम्याद्य चतुर्थकम् ।
कालात्ययविशुद्ध्यर्थं दत्त्वा सन्ध्यां समाचरेत् ॥ चतुर्थमद्यं गायत्र्या
दद्याद्याहति संपुटम् । कालात्ययविशुद्ध्यर्थं त्रिसन्ध्यासु समाचरेत् ॥
प्राणायामत्रयं कृत्वा सन्ध्याकर्म समाचरेत् । प्रातः काले त्रयं
कुर्यात्संगवे द्वौ दशोपरि । षट्त्रिंशन्मध्यमे काले ततो न प्राण संयमः ।
कालात्यये त्वकृत्वै कृता सन्ध्या तु निष्कलेति ।

कक्तियुलावनुक्कु, मुक्यकालम् अतिक्रमिक्कप पट्टालं प्ररायच चित्ततत्तत्तेत्तच चेऽलुकिरुर्. लग्नक्रमूरुकारारः:- कालातिक्रम प्ररायच चित्ततत्तिरुकाक, वित्तिप्पटि अर्क्यतत्तत्तेत्तक केऽलुत्तु, लन्त्येयोपालनम् चेय्य वेण्णुम्. कायतरीयालं, व्याख्यात्तु लम्पुत्तमायं (मुन्नलुम् पिन्नलुम् व्याख्यात्तु लिक्जैसच चेर्त्तु) नाण्कावतु अर्क्यतत्तत्तेत्तक केऽलुक्क वेण्णुम्. कालातिक्रम प्ररायच चित्ततत्तिरुकाक झुन्नरु लन्त्येयकलिलुम् चेय्य वेण्णुम्. झुन्नरु प्रराणेया मन्कजैसच चेयंतु लन्त्येयोपालनत्तत्तेत्तच चेय्य वेण्णियतु. कालेयील झुन्नरु प्रराणे यामन्कजैसच चेय्यवुम्. लग्नकवत्तिलं पनीरण्णु प्रराणे यामन्कजैयम्, मत्याख्यात्तत्तिलं मुप्पत्ति आरु प्रराणे

யாமங்களையும் செய்யவும். அதற்கு மேல் ப்ராணையாமமில்லை. காலாதிக்ரமத்தில் இவ்விதம் செய்யாமல் செய்த ஸந்த்யை நிஷ்பலன் ஆகும்.

ஸ்வர்த: – அர்ப்பிரானதः பूर्वमुदयेऽस्तमयेऽपि வा । ஗ாயத்யஷ்டஶतं ஜப्यं ப்ராயश்சித்தं ஦्वிஜாதி஭ி: இதி ॥ மௌணகாலாதிக்ரமே ஸ ஏவ – உபாசிதா ந சேத் ஸந்஧ா அதிகார்ய ந சேத் கृதம् । ஗ாயத்யஷ்டஸஸ் து ஜப் கृத்வா விஶு஧்யதி இதி ॥ க்ரதிவ்வி஧ானே – யடாடிச்சுநேஜபேந்மந்ந் ஦ஶாகாராஂ ஦ினே ஦ினே । அகாலே நித்யகர்மணி காலே காலே கृதானி வை இதி ॥ மந்திரா – ‘யடா ஦ீச்சுநேவிஷாண்யேभி: பராயத்யோ வஹீயே ஸखி஭்ய: । ந்யுஸாஶ ஬ந்நவோ வாசமக்ரத் எமீடேஷாஂ நிஷ்கृத் ஜாரிணிக இதி ॥

ஸம்வர்த்தர்: - அர்க்யத்தைக் கொடுப்பதற்கு முன், ஸமர்யனின் உதயமானாலும், அஸ்தமயமானாலும் ப்ராயச் சித்தமாக 108 - முறை காயத்ரியை, ப்ரராம்ஹணர்கள் ஜபிக்க வேண்டும். கெளனகாலமும் அதிகரமித்தால், ஸம்வர்த்தரே:- ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யப்படா விட்டாலும், அக்னிகார்யம் செய்யப்படா விட்டாலும், 1008-முறை காயத்ரியை ஜபித்தால் சுத்தங்கிறான். ருக்விதானத்தில்:- ‘யதாதீத்யே’ என்னும் மந்த்ரத்தை ப்ரதிதினம் பத்து முறை ஜபிக்க வேண்டும். நித்யகர்மங்கள் அகாலத்தில் செய்யப்பட்டாலும் முக்ய காலத்தில் செய்யப்பட்டதாய் ஆகின்றன. மந்த்ரம் இவ்விதம் - ‘யதாதீத்யே + ஜாரிணீவே’ என்று.

஬ோधாயன: – ஸாயமதிக்ரமே ராத்யுபவாஸ: பிராதரதிக்ரமே�ஹ- ருபவாஸ: இதி ॥ இடம்புஞ்சிபூர்வவிஷயம் । புஞ்சிபூர்வே து வேதோதிதானாஂ நித்யானாஂ கர்மணாஂ ஸமதிக்ரமே । ஸ்தாதகவ்ரதலோபே ச ப்ராயஶ்சித்தம்஭ோஜனம் இதி மனூக்காலோபவாஸ: கார்ய: ॥ ஶஸ்த்ரோऽபி – ஸந்஧்யாதிவித்யலோபே து ஦ிநமேகம்஭ோஜனம் । ஦ிநங்கை திராந் ஸ்யாத் குஞ்சார்஧ து ஦ிநங்கை ॥

दशाहे कृच्छ्रमेकं स्यादूर्ध्वं चान्द्रायणं चरेत् । चान्द्रायणं पराकं च
मासादूर्ध्वं विधीयते ॥ ततोऽप्येवं प्रकल्प्यं स्याद्व्यासस्य वचनं तथा
इति ॥

पोतायनरः:- लायन्ताल लन्त्ययय
अतिक्रमित्ताल, रातरी मुमुवतुम् उपवासमुम्, कालै
लन्त्ययय अतिक्रमित्ताल पकविल् मुमुवतुम्
उपवासमुम् प्ररायचं चित्तम्. इतु पुत्तिपूर्वम् इल्लात
विषयम्. पुत्तिपूर्वमाकिल्, “वेतत्तिल् चेऽल्लप्पट्ट
नित्यकर्मन्कला अतिक्रमित्तालुम्, लन्नातक वरतत्तिन्त्कु
लेवपमेन्पट्टालुम् ओरुनाळं उपवासम् प्ररायचं
चित्तमाकुम्” एन्ऱु मनुवाल चेऽल्लप्पट्टपटि ओरुनाळं
उपवासम् चेय्यत्तकुन्ततु. **संकरुमः:-** लन्त्ययमुत्तलीय
नित्यकर्मत्तिन्त्कु लेवपमेन्पट्टाल ओरुनाळं मुमुवतुम्
उपवासम् प्ररायचं चित्तम्. इरण्णु नाट्कलील
लेवपमेन्पट्टाल औन्ऱु नाळं मुमुवतुम् उपवासम्.
औन्ऱु नाट्कलील लेवपमेन्पट्टाल अरे कंरुचरम्.
पत्तु नाळंकलील एन्पट्टाल ओरु कंरुचरम्. अतर्न्त्कु मेल
एन्पट्टाल चान्तरायणम्. ओरु मालत्तिन्त्कु मेल
लेवपमेन्पट्टाल चान्तरायणमुम्, पराकमुम् प्रिरायचं
चित्तमाय वित्तिकप्पटुकिरतु. प्रिरुकुम् इव्वितमेल
कज्जकिटप्पटि वेण्णुम्. इव्वितम् व्यासरीनं
वचनमाकुम्.

सन्ध्यात्रयस्य तारतम्यादेशविशेषमाहव्यासः - गृहत्वेकगुणा
सन्ध्या गोष्ठे दशगुणा स्मृता । शतसाहस्रिका नद्यामनन्ता
विष्णुसन्धिधौ । बहिः सन्ध्या दशगुणा गर्तप्रसवणेषु च । ख्याता तीर्थे
शतगुणा सहस्रं जाहनीजले इति ॥ शातातपः - अनृतं मधगन्धं च
दिवामैथुनमेव च । पुनाति वृषलस्यानं बहिः सन्ध्या ह्यपासिता इति ॥
हारीतोऽपि - ततः सन्ध्यामुपासीत बहिर्गत्वा विधानतः इति ॥

औन्ऱु लन्त्ययकरुक्कुम्, तारतम्यत्ताल तेच
विचेष्टत्तेतचं चेऽल्लुकिरुर्, व्यासरीनः - लन्त्यया

வந்தனமானது க்ருஹத்தில் செய்யப்பட்டால் ஒரு பங்கு பலமுடையதே. பசுத் கொட்டிலில் பத்துப்பங்கு பலனுள்ளதாம். நதியிலானால் லக்ஷம் பங்கு பலனுள்ளதாம். விஷ்ணு ஸன்னிதியிலானால் அழிவற்ற பலனுள்ளதாம். வீட்டிற்கு வெளியில் செய்யப்பட்டால் பத்து மடங்கு பலனுள்ளதாம். குட்டை அருவி இவைகளிலும் படியே! புண்ய தீர்த்தத்திலானால் நூறு மடங்கு பலனுள்ளதாம். கங்கா ஜலத்திலானால் ஆயிரம் மடங்கு பலனுள்ளதாம். சாதாதபர்:- வெளியில் செய்யப்பட்ட ஸந்த்யோபாஸன மானது, பொய்பேசுதல், மத்யத்தின் நாற்றத்தை முகர்தல் பகலில் ஸ்தரீ ஸங்கம் செய்தல், சூத்ரான்ன போஜனம் இவைகளால் உண்டாகிய பாபத்தையும் போக்குகின்றது. ஹார்தரும்:- பிறகு வெளியிற் சென்று விதிப்படி ஸந்த்யையை உபாளிக்க வேண்டும்.

बहिः सन्ध्यायामुपासितायामाहिताग्रेयदा विहरणाद्यज्ञलोपः, तदा विहरणादिदेश एव सन्ध्याद्वयं कर्तव्यम् ॥ तदेवाभिप्रेत्योक्त-मत्रिणा - सन्ध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा । उभे सन्ध्ये तु कर्तव्ये ब्राह्मणौश्च गृहेष्वपि इति ॥

வெளியிற் சென்று ஸந்த்யோ பாஸனம் செய்தால், ஆஹிதாக்னிக்கு விழுரணம் முதலிய அங்கங்களுக்கு லோபமேற்படும் போல் இருந்தால் அப்பொழுது, விழுரணம் முதலியதைச் செய்யும் இடத்திலேயே இரண்டு ஸந்த்யையும் செய்ய வேண்டும். இதையே அபிப்ராயப்பட்டுச் சொல்லுகிறோர். அத்ரி:- ஆத்ம ஜ்ஞானியான ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும் மூன்று ஸந்த்யைகளையும் உபாளிக்க வேண்டும். ப்ராம்ஹணர்கள் வீட்டில் இரண்டு ஸந்த்யைகளைச் செய்யலாம்.

आपस्तम्बोऽपि — सन्ध्ययोश्च बहिग्रीषादासनं वायतश्च विप्रतिषेधे श्रुतिलक्षणं बलीयः' इति ॥ अहोरात्रयोः सन्धानं सन्धिः । तौ च द्वौ । सायं प्रातश्च । तयोः सन्ध्योग्रीषाद्वहिः सन्ध्यामुपासीत ।

बाग्यतश्च भवेत् । लौकिकीं बाचं न वदेत् । आहिताग्नि-
विषयेऽस्यापवादः । विप्रतिषेधे - श्रुतिविरोधो विप्रतिषेधः ।
अग्निहोत्रिणो बहिरासनमग्निहोत्रमश्च विरुद्धेते । तत्र
श्रुतिलक्षणमग्निहोत्रमेव कर्तव्यम् । न स्मार्ते बहिरुपासनम् । तस्य
कल्प्यमूलत्वात् । इतरत्र क्लृप्तमूलत्वादित्यर्थः ॥

आपसंतुम्परः:- 'सन्त्तयोगच्च + पल्लयः' एनकिरुर्.
इतनं बेपारुं - "पकलुक्कुम् रात्तरीक्कुम् परस्परम्
सम्पन्तम् एर्पटुम् कालम् लन्त्ति लन्पटुकिरतु. अवै
इराण्णु, मालैलयुम् कालैलयुम्. अन्त लन्त्तिकलील,
करामत्तिर्त्तु. वेवलीयिल् लन्त्तययय उपालीक्क
वेण्णुम्. मेलाणीयायुम् इरुक्क वेण्णुम्.
लेलकिकमाण वार्त्तत्तययप् पेषक्कूटातु. आउत्तिताक्किनी
विषयत्तिल् इतर्त्तु मरुप्पुच्च चेल्लप्पटुकिरतु -
विप्रतिषेधम् वेतत्तत्तुटन् विरोतम्. अतु नेर्नंत्ताल.
अक्किनी हेत्तात्तरीक्कु वेवलीयिल् लन्त्तयोगपालनमुम्
अक्किनी हेत्तात्तर हेत्ताममुम् परस्परम् विरोत्तिक्किन्नन.
अव्विट्त्तिल् चंगुत्तियिल् चेल्लप्पट्ट, अक्किनी
हेत्तात्तरमे पलिष्टमाकुम्. अतुवे चेय्यत तकुन्तत्तु.
स्मंगुत्तयुक्तमाण वेवलीयिल् लन्त्तयोगपालनम् चेय्यत
तकुन्तत्तल्ल. अतु कल्प्य मुलमाणत्ताल, अक्किनी हेत्तात्तरम्
कल्पितमुलमाणत्ताल" लन्पतु (अनुमित्तचंगुत्ति मुलकमाण
पल्लील्ल लन्त्तयोग पालनत्तत्तविट प्रत्यक्ष चंगुत्ति
मुलकमाण अक्किनी हेत्तात्तरमे पलिष्टम्. आकेयाल
अक्किनी हेत्तात्तरी वेट्टिलेये लन्त्तयोग पालनम्
चेय्यलाम् लन्पत्ताम्.)

—*—

प्रातस्सन्ध्या

अथ प्रातः सन्ध्या ॥ तत्र याज्ञवल्क्यः - शारीरचिन्तां निर्वर्त्य
कृतशौचविधिद्विजः । प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥

பிராணாயம்ய ஸம்ப்ரோக்ஷ ச்யूचேநாங்கைதென து இதி ॥ வ்யாஸः - ஆபோஹிஷ்டை:
ரூயूசை: குர்யாந்மார்ஜன் து குஶா஦கை: । பிரணவென து ஸஂயுக்த கிபேத்ராரி படே
படே । விபுஷோऽஷை கிபேத்ரார்ம஧ோ யஸ்ய க்ஷயாய ச । ரஜஸ்தமோஹஜாதாந்
ஜா஗்ரத் ஸ்வப்னஸுஷுபிஜாந் । வாங்ந: காயஜாந் ஦ோஷாந்வைதாந்வமி஦ீதை
இதி ॥

ப்ராதஸ்ஸந்த்யை

இனி ப்ராதஸ் ஸந்த்யை சொல்லப்படுகிறது. அதில்,
யாக்ஞவல்க்யர்:- ப்ராம்ஹணன், மலழுத்ர விஸர்ஜனம்
செய்து, சௌகாத்தை விதிப்படி செய்து, தந்ததாவனம்
செய்து, ப்ராணை யாமம் செய்து, ஆபோஹிஷ்ட முதலிய
மூன்று ருக்குகளால் ப்ரோக்ஷித்து ப்ராதஸ் ஸந்த்யையை
உபாளிக்க வேண்டும். வ்யாஸர்:- ‘ஆபோஹிஷ்ட’
முதலிய மூன்று ருக்குகளால், குசஜலங்களால் மார்ஜனம்
செய்யவும். ஒவ்வொரு பாதத்திலும் ப்ரணவத்துடன்
கூடியதாகிய ஜலத்தை ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். தலையில்
எட்டுத் திவலைகளையும், காலில் ஒரு திவலையையும்
ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். ரஜஸ், தமஸ், மோஹம் இவற்றால்
ஜாகரம், ஸ்வப்நம், ஸாஷாப்தி நிலைகளில் வாக்கு,
மனம். காயம் இவைகளில் உண்டான ஒன்பது
பாபங்களையும் ஒன்பது திவலைகளால் தலைப்பான்.

யோगயாஜாவல்க்ய: - நவப்ரணவயுக்தாமிர்ஜல் ஶிரसி விக்ஷிபேத் ।
ஆபோஹிஷ்டெதி திஸூभி: க்ரம்஭ி: ஸ்ப்ரயத: ஶூचி: இதி ॥ நாராயண: -
பிராங்காஶோதங்காஶோ வாऽபி ஸந்஧்யோபாஸனமாசரேத் । நவப்ரணவஸ்யுக்த-
மாபோஹிஷ்டங்கைந து ॥ ஶிரஸ்யஸ்தமிரம்யுக்ஷேத் மூமை யஸ்யக்ஷயாய ச ।
ஸந்஧்யாத்ரயேऽபி கர்த்யமாபோஹிஷ்டஸ்து மார்ஜனம் இதி ॥ மூமை = பாடயோ: ॥
அத எவ யோగயாஜாவல்க்ய: - ஆசமன் ஸ்வீயமார்ஜன குத்தா
க்ரஷிச்஛ந்஦ோதைஸ்மரணபூர்வகமாபோஹிஷ்டாதித்யूசஸ்யாடித: ஸஸ்மி:
பாதைருஷ்வ ஸஸ விபுஷோ விக்ஷிப்ய அட்மேநைகா விபுஷம஧: ஶரீரே விக்ஷிப்ய
நவமேநைகா விபுஷமஷ்வமுக்ஷிபேத் இதி ॥

யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- ஒன்பது ப்ரணவங்களுடன் கூடிய 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று ருக்குகளால், காயத்திலும் மனதிலும் சுத்தனுய், ஜலத்தைத் தலையில் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். நாராயணர்:- கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கியவனுய், ஸந்த்யோ பாஸநம் செய்யவும். ஒன்பது ப்ரணவங்களுடன் கூடியதாய், 'ஆபோஹிஷ்ட', முதலிய மூன்று ருக்குகளால், தலையில் எட்டுப் பாதங்களாலும், பாதத்தில் 'யஸ்யக்ஷயாய' என்பதாலும் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். இவ்விதம் ஆபோஹிஷ்டாதி மந்த்ரங்களால் மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் ப்ரோக்ஷணம் செய்ய வேண்டும். யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- தனசாகையில் சொல்லிய ப்ரகாரமாய் ஆசமனம் செய்து, ருஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளை முதலில் ஸ்மரித்து, 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று ருக்குகளின் முதலில் உள்ள ஏழு பாதங்களால் தலையில் ஏழு திவலைகளை ப்ரோக்ஷித்து, எட்டாவது பாதத்தால் ஒரு திவலையை பாதத்தில் ப்ரோக்ஷித்து, ஒன்பதாவது பாதத்தால் ஒரு திவலையைத் தலையில் ப்ரோக்ஷிக்கவும்.

பிணவயுத்தேந மந்திர பிணவயுதேந பிணவயுதேந பிணவயுதேந ஆபோஹிஷ்டத்யூதேந து । ஸ்வத்ஸரகृதं பாபं மார்ஜனாந்தே விநஶயதி இதி ॥ இதை — ‘ऋग्नते मार्जनं कुर्यात् पादान्ते वा समाहितः । त्यूचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतसीदशम् ॥ इதி ॥ बहुप्रभाणानुग्रुण्यात् शिष्टाचाराच्च पादान्तमार्जनमेव कार्यम् ॥

ப்ரணவத்துடன் கூடிய மந்த்ரங்களால் ப்ரோக்ஷிப்பதில் சிறப்பைச் சொல்லுகிறார். செளனகார்:- ஒன்பது ப்ரணவங்களுடன் கூடிய 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று ருக்குகளால் மார்ஜனம் செய்து கொண்ட உடனேயே, ஒருவர்ஷம் செய்த பாபம் நசிக்கின்றது. ப்ரஹ்மா:- ஒவ்வொரு ருக்கின் முடிவில் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவும். அல்லது, கவனம் உடையவனுய் ஒவ்வொரு பாதத்தின் முடிவில் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவும். அல்லது,

மூன்று ருக்குகளின் முடிவில் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவும். சிஷ்டர்களின் கொள்கை இவ்வாறு. அநேக ப்ரமாணங்களுக்கு ஒத்ததாய் இருப்பதாலும், சிஷ்டர்களின் ஆசாரத்தாலும், ஒவ்வொரு பாதத்தின் முடிவிலும் மார்ஜனம் செய்வதே யுக்தமானது.

ஸ்மृत்யर்஥சாரே – ‘ஆபோஹிஷ்டேत்யृचா ஸம்யगுலேख्यं ந து வேतி யः । ந தस्य வி஦्यते ஸन்஧ா யथா ஶடூஸ்தநீதை ஸ: ॥ ஆபோஹிஷ்டேत்யृசாமேக முலேख्यं திஷு காரயேத् । சதுர्थ காரயேத்யஸ்து ஬்ரह்மத்யां ஸ விந்஦தி இதி ॥ பிரதிபாதமேகமேவோலேख्यं கார்யம् । ஏவாக ப்ரத்யृச் மார்ஜனநியமேவ ந சதுர்஥மித்யர்஥: । உலேख्यं - மார்ஜனம् ॥ ததா ச தत்ரை - உத்தாநாதேவதீர்஥ேந ஦ம்பிரீமீநிர்ஜிவ விபுஷாம் । ஸ்பृஷ்டாடப ஜ்ஞவிக்ஷேப உலேख்யமிதி ஸ்ரூயः ॥ ஭ूமிஷ்டமுடக் ஸ்பृஷ்டா ப்ரஸ்வயே கரேண து । மார்ஜனாந்யாசரேஷ்டாந் ஸந்஧ாகர்மஸு ஸர்வா இதி ॥

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- ‘ஆபோஹுஷ்ட’ என்ற ருக்கில் உல்லேக்யத்தை (மார்ஜனத்தை) எவன் நன்றாய் அறியவில்லையோ, அவனுக்கு ஸந்த்தைய இல்லை. அவன் சூத்ரனுக்கு சமமானவனே. ‘ஆபோஹுஷ்ட’ முதலிய ருக்குகளில் ஒரு உல்லேக்யத்தை (மார்ஜனத்தை) மூன்றிலும் செய்ய வேண்டும். நான்காவது மார்ஜனத்தை எவன் செய்கின்றானே, அவன் ப்ரம்ஹ ஹத்தையை அடைகிறான். ஒவ்வொரு பாதத்திலும் ஒவ்வொரு மார்ஜனமே செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாவதால், ஒவ்வொரு ருக்கிலும் மூன்று மார்ஜனங்களே, நான்காவது மார்ஜனம் இல்லை என்பது பொருள். ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்திலேயே:- நிமிர்ந்த கையின் தேவ தீர்த்தத்தினால், தர்ப்பங்களின் நுனியால் ஜலத்தைத் தொட்டு, திவலைகள் சிரஸ்லில் ப்ரோக்ஷிப்பது ‘உல்லேக்யம்’ எனப்படும். அறிந்தவன், எப்பொழுதும் ஸந்த்தை கர்மங்களில், பூமியிலுள்ள ஜலத்தை, இடது கையால் ஸ்பர்சித்துக் கொண்டு மார்ஜனங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

हारीतः - मार्जनार्चन बलिकर्मभोजनानि देवतीर्थेन कुर्यात् इति । तन्मार्जनं धाराच्युतं न कर्तव्यम् । तथा च ब्रह्मा - धाराच्युतेन तोयेन सन्ध्योपास्तिर्विर्गहिता । न प्रशंसन्ति पितरो न प्रशंसन्ति देवताः इति ॥ अत्र हेतुमाह स एव - मन्त्रपूर्तं जलं यस्मा दापोहिष्ठाभिमन्त्रितम् । पतत्यशुचिदेशोषु तस्मात्तपरिवर्जयेत् इति ॥ अनेन मार्जनजलबिन्दुः क्षितितले यथा न च्युतो भवति, तथा शिरस्येव मार्जनं यन्नतः कुर्यादिति च गम्यते ॥

ह्रौर्गीत्तरः :- मार्ज्जनाम्, अर्चस्चनाम्, पलिकर्म, पोआज्जनाम् इवेवक्लैत् तेव तीर्त्तत्तत्त्वालं चेय्य वेण्णुम्. अन्त मार्ज्जनाम्, तारयाय विमुवताय्च चेय्यकं कूटातु. अव्वितमे, प्रमंह्राः - तारयाय विमुम् जलत्तिणुलं चेय्यप्पागुम् लन्त्येया पासनाम् इच्छिवानताकुम्. अतेतप्प वित्तरुक्कर्ण एकम्भवतिल्लै. तेवर्कर्णुम् एकम्भवतिल्लै. इव्विष्यत्तिलं कारणत्तेत्तच चेऽल्लुकिरुर्. प्रमंह्रावेः - 'अु पोएविष्ट' मुतलिय मन्त्रत्तत्त्वालं अपिमन्त्रितमाण ज्ञलम् मन्त्रत्तरक्तत्तमाणतालं, अतु असत्त लंत्वालं विमुम् जलत्तत्त्वालं मार्ज्जनत्तेत्त) वर्ज्जिक्क वेण्णुम्. इत्तालं, मार्ज्जन ज्ञलपीन्तु, पूमियिलं एप्पाति विमामलं इरुक्कुमो अव्वितम् चिरस्लिलेये मार्ज्जनाम् चेय्यतु केालं वेण्णुम् एन्पतुम् तेऽन्नरुकिरुतु.

कथं तर्हि मार्जनमिति चेत् तत्राह स एव । नद्यां तीर्थे हृदे वापि भाजने मृन्मयेऽपि वा । औदुम्बरेऽथ सौवर्णी राजते दारुसम्बवे ॥ कृत्वा तु वामहस्ते वा सन्ध्योपास्तिं समाचरेत् इति ॥ औदुम्बरे - ताम्रमये । कृत्वा - उदकमिति शेषः ॥ यत्त्विदं वचनम् - 'वामहस्ते जलं कृत्वा ये तु सन्ध्यामुपासते । सा सन्ध्या वृषली ज्ञेया असुरास्तेन तर्पिताः इति, तत् मृन्मयपात्रादिसम्भवविषयम् ॥ मृन्मयाद्यभावे तु कृत्वा तु वामहस्ते वेति वामहस्तविधानमिति माधवीये ॥

அப்பொழுது, மார்ஜனம் எப்படிச் செய்யப்பட வேண்டும்? எனில், அதில் சொல்லுகிறீர், ப்ரம்ஹாவே நதியிலாவது, புன்யதீர்த்தத்திலாவது, மடுவிலாவது, மன் பாத்ரத்திலாவது, தாம்ர பாத்ரத்திலாவது, ஸ்வர்ண பாத்ரத்திலாவது, வெள்ளிப் பாத்ரத்திலாவது, மரப் பாத்ரத்திலாவது, இடது கையிலாவது ஜலத்தை வைத்துக் கொண்டு ஸந்த்யோ பாஸனம் செய்ய வேண்டும். ஆனால், “இடது கையில் ஜலத்தை வைத்துக் கொண்டு, எவர்கள் ஸந்த்யோ பாஸனம் செய்கின்றனரோ அவர்களின் அந்த ஸந்த்யை ‘வ்ருஷ்ணீ’ என்று அறியத் தகுந்தது. அதனால் அஸூரர்களே த்ருப்தி செய்யப்பட்டவராய் ஆகின்றனர்” என்ற வசனமுள்ளதே எனில். அது, மன் பாத்ரம் முதலியவை இல்லாவிடில் ‘இடது கையிலாவது வைத்துக் கொண்டு’ என்று, இடது கையின் விதானம் என்று மாதவீயத்தில் உள்ளது.

வ்யாஸः – உபवीती बद्धशिखः स्वाचान्तो द्विरनाकुलः ।
प्राञ्छुखः सततं विप्रः सन्ध्योपासनमाचरेत् ॥ आपोहिष्ठादिति-
 सृभिमर्जियैत्तु कुशोदकैः ॥ सिन्धुद्वीप ऋषिश्छन्दो गायत्र्यापो हि
 देवता ॥ मार्जने विनियोगश्च अब्देवत्ये प्रकीर्तिः ॥ अविदित्वा ऋषिं
 छन्दो दैवतं योगमेव च । नाध्यापयेऽपेद्वाऽपि पापीयान् जायते तु सः
 इति ॥ योगः विनियोगः ॥ याज्ञवल्क्योऽपि – ब्राह्मणं विनियोगं च
 छन्द आर्षं च दैवतम् ॥ अज्ञात्वा पञ्च यः कुर्यानि स तत्फलमश्रुत
 इति । मन्त्रार्थश्च प्रतिपत्तव्यः । यतः अविदितार्था मन्त्राः
 नानुष्टेयार्थप्रकाशनसमर्थाः । अतः प्रतिपन्न मन्त्रार्थोऽनुष्टातैव
 कर्मफलानि प्राप्नोति न च प्रत्यवैतीति न्यायसिद्धम् ॥

வ்யாஸர்:- யக்ஞோபவீதியாய், சிகையைக் கட்டியவனுய், இருமுறை ஆசமனம் செய்தவனுய், ஏகாக்ரசித்தனுய், கிழக்கு நோக்கியவனுய் ப்ராம்ஹணன்

एप्पेबायुमुम् लन्त्तेयोपासनम् चेय्य वेण्णुम्.
 'आपोब्रह्मिष्ट' मुतवीय मुन्नु रुक्कुकलालं
 कुचलुन्कलालं मार्ज्जनम् चेय्य वेण्णुम्. अन्त
 रुक्कुकरुक्कु लिन्त्तुत्वीपरं रुषी, कायत्तर्हि सन्तत्सं, अप्पु
 तेवतेत, मार्ज्जनत्तिलं विन्दियोकमं
 चेल्लप्पट्टलातु. रुषी, सन्तत्सं, तेवतेत,
 विन्दियोकमं इवेकला अर्नियामलं, वेतमन्त्तिरत्तेतकं
 कन्नरुक्क केकाटुक्कक्क कूटातु. ज्ञपिक्कवुम् कूटातु. अवन्न
 अतिक पापमुत्तेयवग्गुय आकिरुन्. याक्कुवल्क्यरुमः-
 प्रराम्भेण्णम्, विन्दियोकमं, सन्तत्सं, रुषी, तेवतेत ऎन्नर
 ज्ञन्तेतयुम् अर्नियामलं एवन्न कर्मत्तेतकं चेय्किन्नुग्गेऽ
 अवन्न अक्कर्मत्तिलं पलत्तेत अटेवतिल्लै. मन्त्तरन्कलीनं
 अर्त्तरन्कलीनं अर्त्तत्तेतयुम् अर्नियवेण्णुम्.
 एनेनिलं, अर्त्तमं अर्नियप्पटात मन्त्तरन्कली,
 अनुष्टुक्कक्कप्पट वेण्णुष्टय विषयन्कली
 वेवलीयिदुवतिलं समर्त्तत्तन्कलाय आवतिल्लै. आकेयालं
 मन्त्तरार्त्तत्तन्कली अर्निन्त अनुष्टातावेकर्मपलन्कली
 अटेकिरुन्. प्रत्यवायत्तेतयुम् अटेवतिल्लै ऎन्पतु
 न्यायत्तालं लित्तमाकियतु.

मनुरपि –यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दते । अनग्रविव
 शुज्जेधो न तज्जलति कर्हिचित् इति ॥ व्यासोऽपि –
 पाठमात्रावसानस्तु पक्षे गौरिव सीदति इति ॥ श्रूयते च – यदेव विद्यया
 करोति तदेव वीर्यवत्तरम्भवतीति अर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते स
 नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मेति च ॥

मनुवुमः- अर्त्तकं गुणमिल्लामलं अत्ययनमं
 चेय्यप्पट्टतु पाटमात्रात्तत्तालं उच्चरीक्कक्कप्पट
 अक्कनीयिल्लात चाम्पलिलं उलर्न्त लमित्तुप्प पोलं
 छुरुकालुम् ज्वलविप्पतिल्लै. व्यालाग्नुमः- अत्ययनत्तेत
 मट्टिलं मुष्टित्तवन्न (अर्त्तकं गुणमिल्लातवन्न) चेन्नरीलं
 आम्नंत पक्षप्पोलं वरुन्तुवान्न. चरुतीयुमः- 'मन्त्तरार्त्तत्तकं
 गुणत्तुटनं एक्कर्मत्तेतकं चेय्किन्नुग्गेऽ अक्कर्ममेमे

அதிக வீர்யமுள்ளதாய் ஆகின்றது. 'அர்த்தக் ஞானமுள்ளவரேன ஸகலமான நன்மையையும் அடைகிறோன், அவன், ஜஞானத்தால் பாபங்களையகற்றி ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறோன்.

அது ஹரத்தேந மன்னார்஥ோऽभिहितः - ஆபோ ஹிஷா மயோभுவः । ஹ ஆபः ! யூயं மயோभுவः ஸ்஥ । மய இதி ஸுखநாம । தஸ்ய ஭ாவயித்யः ஸ்஥ । ஹ ஶब्दः பிஸிஷ்டௌ । தா ந ஊர்ஜே ஦்஧ாதன । தாः யூயं நः - அஸ்மாந् ஊர்ஜே - அந்நாய ஦்஧ாதன - ஧த்த । அந்ந அஸ்மभ்ய ஦்தேत்யர்஥ः । மஹே ரணாய சக்ஷஸே । மஹே - மஹதே ரணாய - ரமணியாய சக்ஷஸே - ஦ர்ஶனாய ஦்஧ாதன । மஹத் ரமணிய ஜானமஸ்மभ்ய ஦்தேத்யர்஥ः । 'யோ வः ஶிவதமோ ரஸः । வः - யுஷ்மாக் ஸம்஬ந்஧ி, யः ஶிவதமோ ரஸः ஸுखாதிஶயஹதே: ரஸநேந்திய஗்ராஹः, தஸ்ய ஭ாஜயதேஹநः । தஸ்யேதி ஦்விதீயார்஥ே ஷ்டி । தான் ரஸ ஭ாஜயத । இஹ லோகே நः அஸ்மாந् ॥ கிமிவ । உஶதீரிவ மாதரः । உஶதீ: உஶத்யः காமயமானா:, மாதர: புத்ராந् யथா க்ஷீராடிரஸேந ஭ாஜயந்தி, ததா யுஷ்மார்ய ரஸமஸ்மभ்ய ஦்தேத்யர்஥ः । அபி ச - தஸ்மா அரக்ஞமாமவः । தஸ்மை ஦்விதீயார்஥ே சதுர்஥ி । தான் ரஸ, அரங் அலன் பர்யாசிஸ, ஗மாம பிராஞ்சுயமேத்யர்஥ः । ஛ாந்஦ஸ் ரूபம् । வः யுஷ்மாகம् । யஸ்ய க்ஷயாய ஜிந்வத । யஸ்ய தृதீர்஥ே ஷ்டி । யேந ரஸேந க்ஷயாய நிவாசாய । நிவாசவசநோऽயமாடுதாத்தத்வாத् । ஦்விதீயார்஥ே சதுர்஥ி । க்ஷய நிவாசமஸ்மார்ய ஜிந்வத பிரீணயத । ஆபோ ஜனயதா ச நः । ஹ ஆபः யேந ச புத்ராடிப்ரஜா: நः அஸ்மாக் ஜனயத ஸம்பாடுயதேதி ॥

இங்கு, ஹரதத்தால், மந்த்ரார்த்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 'ஆபோஹி + புவः' ஆபः = ஓஜலங்களேன! நீங்கள், மயோபுவः ஸ்த - மயः என்பது ஸாகத்தின் நாமம். அந்த ஸாகத்தைச் செய்பவர்களாய் இருக்கின்றீர்கள். ஹி - ப்ரலித்தம். 'தாந + ததாதன' தா: அந்த நீங்கள், நः - எங்களை, ஹர்ஜே - அன்னத்தின்

पेपारुट्टु, तत्ता तन - तरीयुंक्कलं. अन्नत्तेत ऎंकगुंक्कु केकाटुंक्कलं. 'मेहे + सक्षुले - तर्चनत्तिर्काक, शिर्नंत्तुम् रमण्यमुमान क्गुनत्तेत ऎंकगुंक्कु केकाटुंक्कलं. 'योवप्सं चिवतमेमोरलः' वः - उंकगुंटयताक्षिय एन्त, चिवतमः - लाकातिशयत्तिर्कुक कारणमाक्षिय, रलः - नाक्किगुलं कर्त्रहीक्कक्क कृष्टय रसमुन्नेटो, 'तस्य + लुनः' तस्य - अन्त रसत्तेत, पाज्जयत - अटेवियुंक्कलं, इल - इव्वलकिलं, नः - ऎंकगुंक्कलं एतेप्पेओल? 'उच्तीरिवमात्रः' उच्तीः=वात्सल्यमुमान, मात्रः इव = ताय्यमार्कलं पेओल. अवर्कलं एप्पटिप्पुत्तररक्कुक्कुप्प पालं मुत्तलिय रसत्तेतक केकाटुक्किंचन्नरो अप्पटि उंकगुंटय रसत्तेत ऎंकगुंक्कु केकाटुंक्कलं एन्नरु पेपारुलं. इन्नियुम्, 'तस्माअरान्कमामवः' वः= उंकगुंटय तस्माम - अन्त रसत्तेत अरम् वेण्णुम्वरे, कमाम - अटेयक्कटवेओम्. 'यस्यक्षुया यज्ञिन्वत' यस्य - एन्त रसत्तालं, क्षुयाय - ऎंकगुंटय निवासत्तेत, 'क्गुलृत्तेत', ज्ञिन्वत - प्रीतियेय अटेविक्किन्नीर्कलो, 'आपोज्जन्यताचनः' आप - लेह ज्ञलंकलो! एन्त रसत्तिगुलं पुत्तरनं मुत्तलिय प्रज्ञेयगुंक्कलो नः - ऎंकगुंक्कु, ज्ञन्यतस - उण्णु पण्णुक्किर्कलो, अन्त रसत्तेत अटेयक्कटवेओम्.

व्यासः — आपोहिष्ठाः सुप्रसिद्धा नवपादा भवन्ति ते । पादेपादे क्षिपेद्वारि ब्रह्महत्यां व्यपोहति इति । श्रूयते च - आपो हिष्ठामयोभुव इत्यन्दिर्मर्जियन्ते । आपो वै सर्वा देवताः । देवताभिरेवात्मानं पवयन्ते इति ॥ एवमुक्तविधिना मार्जियित्वा सूर्यश्चेत्यपः पिबेत् ।

व्यासालारः:- 'आपोहृष्ट' मुत्तलिय मन्त्ररान्कलं मिक प्रसिद्धित्तमाक्षियवे. अवै छन्पतु पात्तंकगुंटयवे. छव्वेवारु पात्तत्तालुम् ज्ञलत्तेत प्रेरोक्षिक्कवुम्. प्रेरोक्षिप्पवनं प्रम्हृलृहत्तययेययुम् पेपाक्कुकिरुलं.

ச்சுநுதியும்:- 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலியவையால் ஜலத்தை ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஜலங்கள் ஸர்வதேவதைகளாயுமுள்ளன. தேவதைகளால் தன்னைச் சுத்தனாக்குகின்றனர். இவ்விதம் சொல்லிய விதிப்படி மார்ஜனம் செய்து கொண்டு, பிறகு 'ஸ்ரீரயச்ச' என்ற மந்த்ரத்தால் ஜலத்தைப் பருகவேண்டும்.

தथா ச ஶௌநகः - அग्निश्चेत्यनुवाकेन सायंकाले त्वपः पिबेत् ।
सूर्यश्चेत्यनुवाकेन प्रातः काले पिबेदपः ॥ आपः पुनन्त्वित्येतेन मध्याह्ने
च जलं पिबेत् । अब्लिङ्गाभिः पवित्राभिः प्रोक्षयेत् कुशवारिणा इति ॥
व्यासोऽपि - सायमग्निश्चमेत्युक्त्वा प्रातः सूर्योत्यपः पिबेत् । आपः
पुनन्तु मध्याह्ने ततः त्वद्विद्विराचमेत् ॥ ततः सुरभिमत्या च मार्जनं तु
कुशोदकैः । कुर्याद्विरण्यवर्णाभिर्यथाशाखं तु मार्जनम् इति ॥

அவ்விதமே, சிசானாகர்:-- 'அக்னிப்ச' என்ற அனுவாகத்தால், மாலையில் ஜலத்தைப் பருகவும், 'ஸ்ரீரயச்ச' என்ற அனுவாகத்தால் காலையில் ஜலத்தைப் பருகவும் 'ஆபः புனந்து' என்ற அனுவாகத்தால் மத்யாஹ்னத்தில் ஜலத்தைப் பருகவும். பிறகு சுத்தங்களான, அப்லிங்கங்களான 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலியதான மந்த்ரங்களால் குச ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷனம் செய்யவும். வ்யாஸரும்:- மாலையில் 'அக்னிப்ச' என்றும், காலையில் 'ஸ்ரீரயச்ச' என்றும், மத்யாஹ்னத்தில் 'ஆபः புனந்து'. என்றும் மந்த்ரத்தால் ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். பிறகு இருமுறை ஆசமனம் செய்யவும். பிறகு 'ஸ்ரீரமிதீ' என்ற ருக்காலும், 'ஹிரங்யவர்ணே' : என்பது முதலாகிய ருக்குகளாலும், குசோதகங்களால் மார்ஜனத்தை, அவரவர் சாகையில் சொல்லியபடி செய்ய வேண்டும்.

बोधायनोऽपि - अथातस्सन्ध्योपासनविधिं व्याख्यास्या-
मस्तीर्थं गत्वा प्रयतोऽभिषिक्तः प्रक्षालितपाणिपादोऽप
आचम्याब्लिङ्गाभिः प्रोक्ष्य अग्निश्च मामन्युश्चेति सायमपः पीत्वा

सूर्यश्च मामन्युश्चेति प्रातः सपवित्रेण पाणिना सुरभि-
मत्याऽब्लिज्ञाभिर्हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरन्यैश्च पवित्रै रात्मानं
प्रोक्ष्य प्रयतो भवति इति ॥

पोतायणरुमः:- इनी उन्नत्येयोपासनात्तिणं
वित्तियेच चेऽल्लुकिरेऽम्. पुण्य तीर्त्तत्तत्तेत अटेन्तु,
कृत्तत्ताण्य, लन्नाणम् चेय्तवण्य, कै काल्कैला
अलम्पियवण्य, आचमनम् चेय्तु, आपोवृष्टाति
मन्त्तरन्कलालं प्रेरोक्षित्तु, 'अक्णीपंच' एन्न
मन्त्तरत्तत्तालं मालैयिलुम्, लमर्यपंच एन्पत्तालं
कालैयिलुम् ज्ञलत्तत्तेप्परुकि, पवित्रमणीन्त कैयालं,
तत्तिक्रावृण्णः, आपोवृष्ट, लृरण्यवर्णः,
पवमाणः एन्न मन्त्तरन्कलालुम्, मर्त्रप्प पवित्र
मन्त्तरन्कलालुम् तन्नैन प्रेरोक्षित्तुप्परीक्षत्तत्ताण्यकिरुन्.

पितामहोऽपि - सूर्यशेत्यनुवाकेन त्वपः पीत्वा समाहितः ।
आत्मानं प्रोक्ष्येत् पश्चात् सपवित्रकरो द्विजः ॥ प्रोक्षेत् सुरभिमत्याच
आपोहिष्ठादिभिस्तथा । प्रदक्षिणं परिषिच्य त्वारभेच्छुतिचोदितम्
इति ॥ सुरभिमती - दधिक्रावृण्ण इति ऋक् ॥ दधिक्रावृण्णो
अकारिषमिति सुरभिमतीमृचं वदन्ति । प्राणा वै सुरभयः ।
प्राणानेवात्मन्दधते इति श्रुतेः ॥

पितामहरुमः:- प्रराम्भैरण्णनं पवित्र मणीन्तकै
युट्णं कवणमुलौवण्य, 'लमर्यपंच' एन्न
अनुवाकत्तत्तालं ज्ञलत्तत्तेप्परुकि, पिऱ्ठु 'लमर्यपिमति'
यालुम्, 'आपोवृष्ट' मुत्तवियवेकलालुम्
प्रेरोक्षिक्क वेण्णुम्. प्ररत्तक्षिणमायंस्कृन्त्रिप्प पिऱ्ठु
वेतमं वित्तित्तत्तेत्तस्च चेय्य आरम्पिक्क वेण्णुम्.
लमर्यपिमति - तत्तिक्रावृण्णः एन्न रुक्कु. अव्वितमं
क्षरुक्तियूलाक्तु.

भरद्वाजः - सूर्यानुवाकस्याग्निरुक्तपिश्छन्दो गायत्रमंशुमान् ।
देवता विनियोगोऽपां प्राशने समुपस्पृशेत् । देवता विनियोगोऽपां

प्राशने समुपस्पृशेत् ॥ क्रषिरग्निश्चमेत्यस्य सूर्यो वा बामनोऽपि वा ।
 छन्दो गायत्रमित्युक्तं देवताऽग्निः समीरितः ॥ आपः पुनन्तुमन्त्रस्य
 विश्वेदेवास्तर्थर्षयः । छन्दोऽनुष्टुब्देवताऽपो बृहस्पतिरथापि वा ।
 आत्मानं प्रोक्षयेत् पश्चाद्धिक्रावृण्ण इत्यृचा । आपोहिष्टादितिसूभिः
 क्रग्भिश्च सकुशैर्जलैः । दधिक्रावृण्ण इत्यस्य बामदेव क्रषिः स्मृतः ।
 छन्दोऽनुष्टुब्दिश्वेदेवा देवताः प्रोक्षणे स्मृताः ॥ व्याहृत्या तत आत्मानं
 परिषिञ्चेत् समस्तया इति ॥

प्रत्यक्षाज्ञारः:- ‘लार्यपर्स’ एन्ऱ अनुवाकत्तिर्कु, अक्णी रुषी, कायत्तरम् सन्तस्स, लार्यन् तेवतेत्, ज्ञलप्रराचनत्तिलं विनीयोकम्. इवंवितमरीन्तु परुकवम्. ‘अक्णीपर्स’ एन्पत्तर्कु लार्यन्, अल्लतु वामनान्नं रुषी, कायत्तरम् सन्तस्स, अक्णी तेवतेत्, ‘आपःपुनन्तु’ एन्पत्तर्कु विच्वेव तेवर्कलं रुषीकलं, अनुष्टुप्सन्तस्स, अप्पुकलं अल्लतु प्रगुह्यस्पति तेवतेत्. पिऱ्कु ‘तत्तिक्रावन्नन्नः’ एन्ऱ रुक्किग्नेलुम् आपोलीष्टु मुत्तवीय रुम्नर्य रुक्कुकलालुम् कुचज्ञलवंकलालं तन्नैन प्रेरोक्षीकक वेण्टुम्. ‘तत्तिक्रावन्नन्नः’ एन्पत्तर्कु वामतेवर् रुषी, अनुष्टुप्सन्तस्स, विच्वेव तेवर्कलं तेवतेत्, प्रेरोक्षीन्नत्तिलं विनीयोकम्. पिऱ्कु चेस्ककप्पट्ट व्याहृं रुक्किकलालं तन्नैन ज्ञलत्तालं सर्न वेण्टुम्.

चर्यापादे – पादौ हस्तौ च संक्षाल्याचम्य बद्धशिखश्शुचिः ।
 प्राणानायम्य सङ्कल्प्य सन्ध्योपासनमाचरेत् ॥ प्रोक्ष्यालिङ्गै-
 व्याहृतिभिः परिषिच्य समन्त्रकम् । पीत्वाऽचम्य दधिक्राद्यैः
 प्रोक्ष्याद्द्विः परिषिच्य चेति ॥ स्मृत्यन्तरेऽपि – सूर्यश्वेत्यनुवाकस्य
 छन्दो गायत्रमुच्यते । सविता देवता त्वस्य क्रषिरग्निरिति स्मृतः ॥
 दधिक्राव क्रचोऽनुष्टुब्दवामदेव क्रषिः स्मृतः । विश्वेदेवा देवता
 स्याद्धिक्रावेति वा स्मृतः इति ॥ छन्दोगानान्तु आचमनमन्त्रौ

गौतमेनोक्तौ अहश्चमाऽऽदित्यश्च पुनात्विति प्रातः, रात्रिश्च मा
वरुणश्च पुनात्विति सायम् इति ॥

संयापात्तत्त्वीलः- काॳलं कैकैला अलम्पी, आ॒चमनम्
सेयंतु, सि॒कैयै॒कं कृ॒टि, स॒त्तत्त्वै॒यं, प्र॒रा॒णै॒या॒मयं
सेयंतु, ल॒न्क॑ल॒प्प॒पी॒त्तु, ल॒न्त॒र्त्त॒यो॒पा॒लन॒म् सेयंव॒यम्.
आ॒पो॒ल॒री॒ष्टा॒ति॒कै॒ला॒लं प्र॒रो॒क्षि॒त्तु, व्या॒त्त॒रु॒ति॒कै॒लं
ज॒लत्त॒त्ता॒लं त॒न्नै॒सं॒कृ॒ति, म॒न्त॒रत्त॒त्तु॒ट॒नं॒ ज॒लत्त॒त्त॒त्त॒प॒प॒रु॒कि,
'त॒त्ति॒क्रा॒' म॒ुत्त॒ली॒य म॒न्त॒रन॒कै॒ला॒लं प्र॒रो॒क्षि॒त्तु, ज॒लत्त॒त्ता॒लं
त॒न्नै॒सं॒कृ॒त॒रव॒यम्. म॒र्त्ति॒रु॒रु॒ स॒म्म॒रु॒ति॒यी॒लः :- 'स॒म॒र्य॒प॒र्च'
ए॒न्न॒र अ॒नु॒वा॒क॒त्ति॒रु॒कु॒क क॒ाय॒त्तरम् स॒न्त॒स्स, ल॒वी॒ता॒
ते॒व॒त्त॒त, अ॒क्ति॒रु॒षि. 'त॒त्ति॒क्रा॒' ए॒न्न॒रु॒क॒कु॒कु॒
अ॒नु॒ष्टु॒प॒ स॒न्त॒स्स, वा॒म॒त्ते॒व॒रु॒षि, वि॒स्ते॒व॒ ते॒व॒रु॒
ते॒व॒त्त॒त, अ॒ल्ल॒तु, त॒त्ति॒क्रा॒वा॒ ते॒व॒त्त॒या॒म्.
स॒न्त॒त्तो॒कर्त्त॒रु॒कु॒ आ॒चमन॒ म॒न्त॒रन॒कै॒लं कै॒ल॒त्तम॒रा॒लं
सेव॒ल॒प्प॒ट॒रु॒न्नै॒ल - 'अ॒ल्ल॒प॒र्च + पु॒ना॒तु' ए॒न्न॒रु॒
कौ॒ल॒यी॒ल, 'रा॒त्तरी॒प॒र्च + पु॒ना॒तु' ए॒न्न॒रु॒ मौ॒ल॒यी॒ल ए॒न्न॒रु॒.

**मन्त्रार्थस्तु - सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च । सूर्यो॒ नाम
अहोऽधिपतिः॒ मण्डलान्तर्वर्ती॒ देवः । अह्वि॒ करिष्यमाणानां॒ कर्मणां॒
तदधीनत्वात्॒ तत्प्रार्थना॒ । मन्युः॒ क्रोधः॒ तदधीनत्वात्॒ पाप॒ प्रवृत्तेरिति॒
तत्प्रार्थना॒ । मन्युपतयश्च॒ मन्युः॒ क्रोधः॒ पतिः॒ नियोजकः॒
येषामिन्द्रियाणां॒ तानीन्द्रियाणि॒ मन्युपतयः॒ । तैश्चक्षुरादीन्द्रियबडिशै॒
र्विषयदुरन्तसूनास्थानेषु॒ स्वस्याकर्षणाभावाय॒ तद्विषय॒ प्रार्थना॒ । सर्वत्र॒
चकारः॒ समुच्चयार्थः॒ । मन्युकृतेभ्यः॒ पापेभ्यो॒ रक्षन्ताम्॒ । काम॒ एष॒ क्रोध॒
एष॒ रजोगुणसमुद्भवः॒ । महाशानो॒ महापाप्मा॒ विद्ध्येनभिह॒ वैरिणम्॒
इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध॒ क्रोधाख्यमन्युकृतेभ्यः॒ तन्निमित्तेभ्यः॒ पापेभ्यः॒
सर्वेभ्यो॒ रक्षन्तां॒ मा॒ माम्॒ । यथाऽहं॒ मन्युपरबशो॒ भूत्वा॒ पापं॒ न॒
करिष्यामि॒, तथा॒ सूर्यादियो॒ रक्षन्त्वित्यर्थः॒ ।**

மந்த்ரங்களின் அர்த்தமோவெனில் - 'ஸுர்யச + மன்யுபதயச' ஸுர்யன் என்பவர், பகலுக்கு அதிபதியும் மண்டலத்தில் உள்ளிருப்பவருமான தேவன். பகலில் செய்யப் போகும் கர்மங்கள் அவருக்கு அதீனமானதால் அவரைப்பற்றி ப்ரார்த்தனை. மன்யு என்பது க்ரோதம். பாபத்தில் ப்ரவ்ருத்தி அவனதீனமானதால் அவனைப்பற்றி ப்ரார்த்தனை. மன்யுபதயச = மன்யு என்கிற க்ரோதம் பதி = ஏவுகின்றவன் எந்த இந்தரியங்களுக்கோ அந்த இந்தரியங்கள் மன்யுபதிகள் என்பபடுகின்றன. அந்தக்கண் முதலிய இந்தரியங்களாகிய தூண்டில்களால், விஷயங்களாகிய கொடிய வதஸ்தானங்களில், தன்னை இழுக்காமல் இருப்பதற்காக அவைகள் விஷயமான ப்ரார்த்தனை. சகாரம் சேர்ப்பதற்காக. மன்யுக்ருதேப்யः பாபேப்யோ ரகஷ்ந்தாம். 'காமஏஷ க்ரோதஏஷः' என்பது முதலிய சாஸ்த்ரங்களால் ப்ரஸித்தனான. க்ரோத எனும் மன்யுவினால் செய்யப்பட்ட அவனை நிமித்தமாயுடைய பாபங்கள் எல்லாவற்றினின்றும் என்னைக் காக்க வேண்டும். எவ்விதம் நான் மன்யுக்கு அதீனனுகிப் பாபத்தைச் செய்யாமலிருப்பேனே அவ்விதம் ஸுரியன் முதலியவர்கள் என்னைக் காக்க வேண்டும் என்பது பொருள்.

கிஞ் யத்ரான்திரா பாபமகார்ஷம् । ராத்யா - ஸஸ்ம்யரே தூதியா । ராதாவித்யर्थः । யத்ரா ராதிராவேந தदभிமானிநி ஦ேவதோच்யते । ராத்யभிமானிந்யா ஦ேவதயா ப்ரேரிதः ஸந்யத்யபாபம் ராதௌ கृதவானஸ்மி । ததேவ ஸாதநதோ விஶிநஷ்டி - மனसா வாசா ஹஸ்தாம்யாம् । படம்யாமுடரே ஶிஶ்வேतி । மனஸா பரஹ்ஸா ஦ிசிந்தனே, வாசா அனுத்஭ாவணா ஦ிமிஃ, ஹஸ்தாம்யா ஬்ராஹ்மா புரணா ஦ிமிஃ, படம்யா அனாக்ரமிதவ்யக- லிங்கதேஶாத்யாக்ரமணா ஦ிமிஃ, உதரேண அம்஭ுக்யமக்ஷணா ஦ிமிஃ, ஶிஶ்வா- ஶிஶ்வேந । ஸுபா ஸுலுகித்யாகாரः । அगம்யா ஗மனா ஦ிமிஃ, உபலக்ஷணத்வா ஦ன்யேந்திரயைஶ யஜ் பாபமகார்ஷம् । ராதிஸ்தநவலும்பது - ராத்யभிமானிநி ஦ேவதா அதிசந்஦்ரை வா தத்ஸ்வமங்கலும்பது தினத்து விநாஶயது ।

இனியும், - 'यत्त्रात्तरीया पापमकारश्चम्'. रात्तरीया रात्तरीयिल் अल्लतु, रात्तरी चप्ततत्त्वाल् अतर्कु अपिमाणी तेवतेत चेऽल्लप्पटुकिऱतु. रात्तरीयपिमाणीनीयाण तेवतेतयाल् इवप्पट्टवण्णुय, एन्तप्प पापतत्तेत रात्तरीयिल् चेय्येतेतेने अतेतेये लोतनंकलाल् विचेष्विक्किऩ्ऱुन्. 'मन्लोवावाशा + चिंगु' ऎन्ऱु. मनतिणुल् पिऱ्गुक्कु लृम्मेसे मुतवियतेतच चिन्तिप्पत्ताल्, वाक्किणुल् बेपाय पेक्षवतु मुतवियवेकलाल्, लृस्तनंकलाल् प्रराम्लृणैन् अष्टिप्पत्तर्कुक्क केकये ऒंकुवतु मुतवियवेकलाल्, काल्लकलाल् चेल्लक्कुटात् कलींकतेचम् मुतवियतेतच चेल्लवत्ताल्, वयिऱ्ऱिणुल् नीष्वित्त पक्षज्ञम् मुतवियवेयाल्, चिंगु = चिंनत्तत्ताल् अकम्याकमणम् मुतवियवेकलाल्. उपलक्ष्णाणमाणताल् मर्ह इन्तरीयनंकलालुम्, एन्तप्प पापतत्तेतच चेय्येतेतेन, रात्तरीलंकतवलुम्पतु' = रात्तरीयपिमाणीनीयाण तेवतेत, अल्लतु अक्षिनीचन्तररक्कल् अतु मुमुवतेयुम्, अवलुम्पतु = अकर्ह वेण्णुम्.

यत् किञ्च दुरितं मयि । इदमहं माममृतयोनौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कृतं यत्किञ्चनापि दुरितं पापराशिः मयि वर्तते, इदं पापजातं सर्वं मां चास्य पापस्य कर्तरं लिङ्गशरीराभिमानिनं अमृतयोनौ अमृतं तदेव योनिश्वेत्यमृतयोनिः । तस्मिन्मृते अमरणधमके नित्ये योनौ सर्वकारणे सूर्ये - सुषुर्इरयति प्रेरयतीति सूर्यः, तस्मिन्बादित्यात्मके ज्योतिषि स्वयं प्रकाशबोधैकताने आत्मनि अहं जुहोमि प्रक्षिपामि । आत्मवहौ प्रक्षिप्य तेनाग्निना पूर्वोक्तं पापं सर्वं भस्म करोमीति यावत् ॥

'यत्किञ्चक्षुरीतम्मयि + ज्ञालेहामिलंवाहा' इन्त ज्ञानंमत्तिल्, ज्ञानंमान्तरत्तिलेवा चेय्यप्पट्ट एन्त तुरीतम् - पापक्कुवियल् एन्नीटम् इरुक्किऩ्ऱुतेवा इन्तप्पापक्क कुवियल् मुमुवतेयुम्, इन्तप्प पापतत्तेतच

செய்தவனும், விங்கசரீராபிமானியமான என்னையும், அம்ருதயோநெள = மரண தர்மமற்றதும், ஸர்வகாரணமுமான, ஸ-அர்யே = நன்றாய் ப்ரேரணம் செய்வதுமான, ஆதித்யஸ்வரூபமான, ஜ் யோதிஷி - ஸ்வயம் ப்ரகாசபோதமயமான ஆத்மாவில், ஜ-ஹோமி - நான் சேர்க்கிறேன். ஆத்மாக்னியில் சேர்த்து அந்த அக்னியால் முன் சொல்லிய பாபம் முழுவதையும் பஸ்மமாக்குகின்றேன் என்பது பொருள்.

அग्निश्वेत्यस्य च सूर्यश्वेत्यनेन समानोऽर्थः । इयांस्तु विशेषः ।
अग्निः रात्र्यधिपतिः । 'यदहा' अहस्तदवलुम्पतु इत्यत्र च अहः
पतिरादित्योऽहरित्युच्यते । सत्ये ज्योतिषीति अवितथस्वभावे
ज्योतिषीति ॥

'அக்னிஸ்ச' என்கிற மந்த்ரத்திற்கும் அர்த்தம் 'ஸ-அர்யஸ்ச' என்பதற்குப் போலவே. இது மட்டில் விசேஷம். அக்னி: என்பதற்கு ராத்ரியின் அதிபதி என்று பொருள். 'யதஹ்ன', 'அஹஸ்ததவலும்பது' என்ற வகளிலும், பகவுக்குப்பதியாகிய ஆதித்யன் 'அஹ': எனப்படுகிறோன். 'ஸத்யேஜ் யோதிஷி' என்பதற்கு ஸத்ய ஸ்வபாவமான ஜ் யோதிஷிஸ்லில் என்பது பொருள்.

आपः पुनन्त्विति – आपः अभिमन्त्रिताः । पुनन्तु - शोधयन्तु
पृथिवीम् । पृथिव्यंशस्य बहुलत्वात् पृथिवीशब्देन स्थूलशरीरमुच्यते ।
पृथिवी पूता - पूतं शरीरं, लिङ्गशरीराभिमानिनं मां पुनातु ।
तद्वतरागद्वेषपापादिमलनिरासेन शोधयतु । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः ।
एकवचनस्य बहुवचनम् । ब्रह्मणस्पतिश्च भगवान् पुनातु । परं ब्रह्म
विश्वतः पूतम् । प्रथमैकवचनस्याकारः । वेदो वा ब्रह्म । यदुच्छिष्ठं -
அப்ராயத்யகர் மலாடி, யச்சாமோஜ்ய் பதிதாயங்கம், யா மம ஸம்பந்தி
டுஶ்ரிதம் பரதாரங்மனாடிக், தனிமித்த் ஸ்வமித்தாத் புனன்து ஆபः ।
அஸ்தாஂ ச இவ்யப்ரतி஗்ரஹனிமித்த் பாபं ஶोधயन्तு நாஶயन்து ।

अपास्ताशेषपां मां स्वाहा - प्रक्षिपामि निरस्तसमस्तोपस्थिते
परमात्मनि एकीकरोमीत्यर्थः ।

‘आपःपुनन्तु’ ऎन्पतिं बोगुरुं. आपः - अपिमन्तरीकंपपट्ट ज्ञलंकर्ण, पुनन्तु - कृत्ति चेय्य वेण्णुम्. प्रगुति वीम् - प्रगुत्तविये. पूमियिं अम्चम् अतिकमुंलाताल्, प्रगुतिवै चप्तत्तत्ताल् संतु लसरीरम् चेऽलंलप्पट्टुकिरतु. प्रगुतिवै पूता - कृत्तमाक्कप्पट्ट सरीरमाणतु. माम् - लिङ्कसरीरापिमाणियाण ऎन्णैसंकृतम् चेय्य वेण्णुम्. लिङ्क सरीरत्तिलुंला राकम्, त्वेवेषम्, पापम् मृतविय मलंकौप पोक्कुवताल् कृत्तम् चेय्य वेण्णुम्. पुनन्तु प्ररम्भाविऱ्कुप पतियाकिय पकवाणुम् कृत्ति चेय्य वेण्णुम्. ऎन्कुम् कृत्तमाण परप्रम्भामुम् कृत्ति चेय्य वेण्णुम्. प्ररम्भ चप्तत्तत्ताल् वेतमुम् चेऽलंलप्पटलाम्. यतुस्चिष्टम् - असृत्तियेक चेय्युम् मलम् मृतवियतु ऎतुवेवा, अपेऋयम् - पुज्जीकृत्तकात पतितात्येण्णम् मृतवियतु ऎतुवेवा, ऎन्णैसं चेसंन्त, तुस्चिरीतम् - प्रतारकमणम् मृतवियतु ऎतुवेवा, अनंत निमित्तमाय उंला लकल पापराकियेयुम् ज्ञलंकर्ण चेऽतिक्क वेण्णुम्. असृत्तुकंकरीं तरव्यत्तेत प्रतिकरूपित्ततालुण्टाकिय पापत्तेतयुम् पोक्क वेण्णुम्. लकल पापंकर्णमर्ह ऎन्णै, संवाह्ना - चेसंक्किरेण, लकलवित तेऽन्तिरेयुमर्ह प्रमात्माविणीत्तिल इन्नु चेसंक्किरेण, ऎन्पतु बोगुरुं.

अत्र विष्णुः - जानुभ्यामुपरिष्टात् शुक्वासाः स्थितो जले ।
सन्ध्यामाचमनं कुर्वन् शुचिः स्यादशुचिः स्वयम् इति ॥

इन्कु, वीष्णुः - उलर्न्त वलंतरत्तेतत्तत्तरीत्तवेण, मुमुक्षालंकर्णकु मेलाण ज्ञलत्तिल निण्णरु, लन्त्या वन्त्तेनम्, आचमणम् इवेकौसंकृत्ति चेय्ताल्, ताणं कृत्तनुयिनुम् असृत्तनुवाण.

மந்திரமநானந்தர் நாராயணஸ்து விஶேஷமாஹ – ஸ்பृஷ்டா சாமிஷுதா
தோய் மூர்஧்நீ ஬்ரஹ்முகேந து । ஆபோஹிஷ்டேதி ஸூக்ளேந ஦மீமர்ஜினமாசரேத्
இதி ॥ அமிஷுத் ஓங்கார: । ஬்ரஹ்முகமபி மனுநோக்ம் –
அங்காரபூர்விகாஸ்திஸ்மோ மஹாவ்யாஹ்தயஸ்தथா । திப்பா சைவ ஗ாயத்ரி
விஜேயா ஬்ரஹ்மனோ முகம் இதி ॥ தென் தோய் ஸ்பृஷ்டா தென் தோயேந ஆபோ ஹிஷ்டேதி
ஸூக்ளேந ஦மீமூர்஧்நீ மர்ஜினமாசரேதித்யர்஥: ॥ காத்யாயனஸ்து – ஶிரஸோ
மார்ஜன் குர்யாத்குஶை: ஸோடகவிந்துமிஃ । ப்ரணவோ ஭ூர்஭ுவ: ஸ்வஶ ஗ாயத்ரி ச
தூதியகா ॥ அங்கைவத் த்யூச் சைவ சதுர்஥மிதி மார்ஜனமிதி ॥

மந்த்ராசமனத்திற்குப் பிறகு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார், நாராயணர்:- அபிஷ்டுத்தினாலும், ப்ரம்ஹமுகத்தாலும் ஜலத்தைத் தொட்டு, ‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்ற ஸாக்தத்தினால், தர்ப்பங்களால் சிரஸ்ஸில் ப்ரோகஷனம் செய்ய வேண்டும். அபிஷ்டுத் - ஒங்காரம். ப்ரம்ஹமுகமும் மனுவினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒங்காரத்தை முதலில் உடைய மூன்று மஹாவ்யா ஹ்ருதிகளும், மூன்று பாதங்களுடைய காயத்ரியும் ப்ரஹ்மத்தின் முகம். அதனால் ஜலத்தைத் தொட்டு, அந்த ஜலத்தால் ‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்ற ஸாக்தத்தினால், தர்ப்பங்களால் தலையில் மார்ஜனம் செய்ய வேண்டும் என்று பொருள். காத்யாயனரோவனில்:- “‘ஜலத் திவலைகளுடன் கூடிய குசங்களால் சிரஸ்ஸாக்கு ப்ரோகஷனம் செய்ய வேண்டும். ப்ரணவம், பூர்ப்புவஸ்ஸாவ:, காயத்ரீ மூன்றுவது, ஆபோஹிஷ்டாதி மூன்று ருக்குகள் நான்காவது, இவை மார்ஜன மந்த்ரங்கள்’ என்றார்.

மந்திரமநானந்தரபோக்ஷன் ஬ஹஸ்மृத்யனுரோධாத் ஶிஷ்டாசாராச்
ஸுரமித்யாத்தில்ஜாமிஶ திஸுமிரவशய் கர்த்யம் । அதிக் து
யதாஸ்வாசாராங்஗்ராஹம் ॥

मन्त्रराचमन्त्रिर्गुप्तं प्रियं चेष्यप्पादुम्
प्रेरोक्षणामाणतु, अनेक लम्गुत्रिकैना अनुलिप्पं
तालुम्, चिष्टाचारत्तालुम्, लारप्रिमति, 'आपोल्लिष्ट'
मुतलीय ऐन्ऱु गुक्कुकलं इवेवकलालं अवश्यं चेष्य
वेण्णुम्. इति वीट अतिकमाणुलं अति अवरवर्ग
आचारप्पति कर्त्तव्यिक्कवुम्.

अर्थस्तु – दधिक्रावृणो अकारिषम्। दधि क्रामति प्राप्नोतीति
दधिक्रावा । एतामाको दधिप्रियः कश्चिद्देव(ता)विशेषः ।
अग्निरित्यन्ये । तस्य देवस्य अकारिषं - अहं कर्म कृतवानस्मि ।
कीद्वास्य ? जिष्णोः - जयशीलस्य, अश्वस्य - व्यापिनः, वाजिनः
- अन्वतः । स देवः नः अस्माकं मुखा - मुखं, सुरभि करत् -
कर्पूरादिद्रव्यसमृद्धिप्रदानेन सुगन्धोपेतं करोतु । नः - अस्माकं,
आयूषि च प्रतारिषत् प्रवर्द्धयत्विति । शुद्धिहेतुत्वश्च श्रूयते
दधिक्रावृणा पुनातीति ॥

इतनं अर्तत्तमेवेवणीलं - 'तत्तिकरावंण्णेत्रे
अकारीषम्'. तयिरे अटेवतालं 'तत्तिकरावा' ऐन्ऱु
बेयगुरुं ला, तयिरीलं पर्तियुं ला ओरु तेवनं, अकं णी
एन्किन्ऱनारं लिलर. अन्तत्त तेवनुक्कु, अकारीषम् - नाऊं
कर्मत्ततेचं चेष्यतवणुयं आकिन्ऱेन. जीष्टेण्णेत्रे : -
जयशीलनुक्कु, अस्वस्य - व्यापित्तवनुक्कु, वाजीनः -
अन्नामं उत्तेयवनुक्कु, अन्तत्त तेवनं, नः -
एन्कागुत्तेय, मुका - मुकत्ततेत, लारप्रिकरत् - कर्पंप्लुम
मुतलीय नल्वालैन्युं ला त्तरवंयलम्पत्ततेकं
केकाटुप्पतालं नल्वालैन्युं ला त्तरवंयलम्पत्ततेकं
नः - एन्कागुक्कु, आयुम्बिच - वाम्नाट्कौलायुम्, प्रतारीषत्
- वरुत्ति चेष्य वेण्णुम्. सुत्ति हेतुत्त तन्मेययुम्
स्क्रुतियालं तेत्रीकिरतु, 'तत्तिकरावंण्णु पुनाति' ऐन्ऱु,

मार्जनानन्तरं प्रजापतिः - जलपूर्णं तथा हस्तं नासिकाग्रे
समर्पयेत् । क्रतञ्चेति पठित्वा तु तज्जलं तु क्षितौ क्षिपेत् इति ॥ ततः

ஸூர்யா஧்ய நிவேದயேत् । தत्र ஶौனகः - வ்யாஹ்த்யா ஸஹ ஗ாயத்யா ஸந்஧்யா
ப்ரத்யங்கலில் க்ஷிபேத् இதி ॥ வ்யாஸோऽபி - கராம்யா தோயமாடாய ஗ாயத்யா
சாமிமந்திதம் । ஆடித்யாமிமுखஸ்திஷ்டந் திருஷ்வமத சோத்கிபேத्
இதி ॥

மார்ஜனத்திற்குப் பிறகு ப்ரஜாபதி:- ஜலத்தால்
நிறைந்த கையை மூக்கின் நுனியில் வைக்கவும். 'ருதம்ச' என்ற மந்த்ரத்தைப் படித்து, அந்த ஜலத்தை பூமியில்
விடவேண்டும். பிறகு ஸார்யனின் பொருட்டு
அர்க்கத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். அதில், செளன்காரர்:-
வ்யாஹ்ருதியுடனும், காயத்ரியுடனும், ஸந்த்யையைக்
குறித்து ஜலாஞ்வியை விடவேண்டும். வ்யாஸரும்:-
கைகளால் ஜலத்தை எடுத்து, காயத்ரியால் அபிமந்த்ரித்து,
ஸார்யனுக்கு எதிராய் நின்று கொண்டு, மூன்று தடவை
அர்க்கத்தை உயர்த்தி விடவேண்டும்.

அது விஶேஷமாக ஹரித: - ஸாவித்யாத்மிமந்திதமுடக்
புஷ்மிஶ்ரமங்கலினா க்ஷிபேத् இதி ॥ பிதாமஹ: - உமாம்யா தோயமாடாய
ஹஸ்தாம்யா ஸுஸ்மாஹித: । ஗ாயத்யா மந்திதா ஆப ப்ரணவந்யாஹ்திபூர்வா ॥
ரவேரமிமுखஸ்திஷ்டந்துஷ்வ் திஃ ஸந்஧்யா: க்ஷிபேத् இதி ॥ ஶஸ்தோऽபி -
ஸூர்யை து ஗ாயத்யா திரஸந்஧்யாஸ்வங்கலில் க்ஷிபேத् । பிராதம்஧்யாஹ்யாஸ்திஷ்டந்
ஸாயமாஸீன ஏவ வா । மந்஦ேஹானா வ஧ார்஥ி ப்ரக்ஷிபேடுகாஞ்கலிம் ।
ப்ராயக்ஷித்தார்஥மாசம்ய முச்யதே ஦ைத்யஹ்த்யா ॥ ப்ரணவந்யாஹ்தீமிஶ்ர
குத்வாத்தமான் ப்ரதக்ஷிணம் । ஆசம்யை ததஸ்திஷ்டந் ஧்யாயேத் ஸந்஧்யா
ஸமாஹித: இதி ॥

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறீர். ஹார்தூர்:-
காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிக்கப்பட்ட ஜலத்தைப்
புஷ்பங்களுடன் கூடியதாய் அஞ்ஜலியால் விடவேண்டும்.
பிதாமஹர்:- கவனமுடையவனுய், இரு கைகளாலும்
ஜலத்தை எடுத்து, ப்ரணவ வ்யாஹ்ருதிகளுடன் கூடிய

कायत्तरीयालं अपि मन्त्रतरीक्कप्पट्ट अन्त ज्ञलत्तेत,
सैर्ग्यानुक्कु नेरोऽ्य निन्ऱु केाण्णु, घुन्ऱु तटवेव,
इरु सन्त्तयेकविलुम् उयर्त्ति विटवेण्णुम्. सञ्करुमः-
घुन्ऱु सन्त्तयेकविलुम्, सैर्ग्यानीनं बेपारुट्टु
कायत्तरीयालं अर्क्यत्तेत विटवेण्णुम्. कालैयिलुम्,
मत्याहून्तत्तिलुम् निन्ऱु केाण्णुम्, मालैयिल
उट्कार्न्तु केाण्णुम् विटवेण्णुम्. मन्त्रेतेहरकलं
एन्किर राक्षसरकविनं वत्तत्तिर्काक अन्त्तविय
विटवेण्णुम्. परायसित्तत्तिर्काक आसमनम्
चेयतालं, राक्षसहरत्यातेऽशत्तालं विटप्पट्टिरुन्.
प्ररणवम्, व्याहूरुत्तिकलं इवेकलालं, तन्नैन
प्रतक्षिणम् चेयतु, आसमनम् चेयतु, पिरकु निन्ऱवलुय्,
कवनमुट्टयवलुय् सन्त्तयेयत्यानीक्क वेण्णुम्.

पारिजाते - ईषनमः प्रभाते तु मध्याह्ने तु क्रजुस्तथा । गायत्र्या
प्रक्षिपेदर्थ्य सायं तूपविशन् भुवि ॥ गोशृङ्गमात्रमुद्धृत्य रविं दृष्टा
जलाञ्जलिम् । द्वौ पादौ च समौ कृत्वा पाणी उद्धृत्य विक्षिपेत् इति ॥
सञ्चहेऽपि - द्वौ हस्तौ युग्मतः कृत्वा पूर्येदेकमञ्जलिम् ।
गोशृङ्गमात्रमुद्धृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत् ॥ जलेष्वर्थ्यं प्रदातव्यं
जलाभावे शुचिस्थलम् । सम्प्रोक्ष्य वारिणा सम्यक्तोऽर्घ्याणि
प्रदापयेत् ॥ मुक्तहस्तेन दातव्यं मुद्रां तत्र न कारयेत् । तर्जन्यज्ञुष्योर्योगे
राक्षसी मुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत् इति ॥

पारीज्ञातत्त्विलः - कालैयिल केान्त्तसम् तुनीन्तु
निर्पवलुयम्, मत्याहून्तत्तिल नेरोऽ्य निर्पवलुयम्,
मालैयिल औमियिल उट्कार्न्तवलुयम्, कायत्तरीयालं
अर्क्यत्तेत विटवेण्णुम्. इरण्णु काल्कैलायम्
सममाय वेत्तत्तुक केाण्णु, तुक्किक्काल्कैला उयर्त्ति,
सैर्ग्यानेप्प पार्त्तत्तुक केाण्णु, माट्टिनं केाम्पलावु
तुक्कि अर्क्यत्तेत विटवेण्णुम्. सञ्करलूत्तत्तिलुमः-
इरु कैकैलायम् चेर्त्तत्तु ओरु अन्त्तसलि ज्ञलत्तेतप्प
पुर्णमायक्क चेययवम्. पक्षविनं केाम्पलावु उयर्त्तत्ति

ஜலத்தின் நடுவில் அர்க்யத்தை விடவும். ஜலத்தில் அர்க்யத்தை விடவேண்டும். ஜலமில்லாவிடில் சுத்தமான ஸ்தலத்தை ஜலத்தால் ப்ரோகஷித்து அந்த இடத்தில் அர்க்யங்களைக் கொடுக்க வேண்டும். கைகளைப் பிரித்தவனுய்க் கொடுக்க வேண்டும். அக்காலத்தில் முத்ரையைச் செய்யக் கூடாது. தர்ஜுனீ விரல் பெருவிரல் இரண்டும் சேர்ந்தால் ராக்ஷஸீ முத்ரை எனப்படுகிறது. அந்த முத்ரையுடன் கொடுக்கப்பட்ட ஜலம் ரக்தமாய் ஆகும்.

भरद्वाजः - ततः प्रदक्षिणीकृत्य त्वच्छ्रससम्प्रोक्षिते शुचौ । देशे च दर्भसंक्षेपे वाग्यतः प्राञ्जुखः स्थितः ॥ दर्भन् धारयमाणः सन्नात्मनो ध्यानमाचरेत् । उपविश्य द्विराचम्य ग्रहादीस्तर्पयेत्ततः इति । **योगयाज्ञवल्क्यः** - बाह्यानि करणानि प्रत्याहृत्य अन्तःकरणं चात्मनि प्रतिष्ठाप्य स्फटिकमणिकलपे चित्तदर्पणे प्रतिबिम्बित-मात्मानमुपाधेनिष्कृष्य स्वे महिम्मि स्थितं सच्चिदानन्दमहमस्मीति किञ्चित् कालं ध्यायेत् इति ॥ **पितामहः** - पाणिना जलमादाय सகृत् कुर्यात् प्रदक्षिणम् ॥ आदित्यादीन् ग्रहांस्तत्र तर्पयेत् सुसमाहितः इति ॥

பரத்வாஜர்:- பிறகு ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, ஜலத்தால் ப்ரோகஷிக்கப்பட்டதும், சுத்தமும், தர்ப்பம் உள்ளதுமான ஸ்தலத்தில், மெளனியாய், கிழக்கு நோக்கியவனுய்நின்று, தர்ப்பங்களைத் தரித்தவனுய், ஆத்மத்யானம் செய்ய வேண்டும். பிறகு, உட்கார்ந்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்து, நவக்ரஹங்கள் முதலியவரைத் தர்ப்பிக்க வேண்டும். **யோகயாக்ஞவல்க்யர்:-** வெளியிலுள்ள இந்தரியங்களை உள்ளிழுத்து, அந்தகரணத்தையும் தன்னிடத்தில் நிறுத்தி, ஸ்படிகரத்னத்திற்குச் சமமான சித்தமெனும் கண்ணேடியில் ப்ரதிபிம்பித்துள்ள ஆத்மாவை உபாதியினின்றும் வெளியேற்றி, தனக்கே உரிய மஹிமையிலுள்ள ஸ்சிதானந்த வஸ்துவாக நான் இருக்கிறேன் என்று கொஞ்சகாலம் த்யானிக்க வேண்டும். **பிதாமஹர்:-** கையால் ஜலத்தை எடுத்து, ஒருமுறை

प्रतकृष्णिणम् चेष्यवम्, कवनमुष्टयवण्य, आकृत्यं
मुतलीय करत्तुरंकौलात् तारप्पिक्कवुम्.

जाबालियोगयाज्ञवल्क्यौ – सन्ध्ययोरुभयोः काले ध्यात्वा
विष्णुं सनातनम्। निर्मलात्मा स्थितो दर्भे गायत्रीमारभेत्तः इति ॥
अर्घदाने मन्त्रान्तरमुक्तं विष्णुना – कराभ्यामञ्जलिं कृत्वा जलपूर्ण
समाहितः । उदुत्पमिति मन्त्रेण तत्तोयं च क्षिपेन्द्रुवि ॥ ततः प्रदक्षिणं
कृत्वा जलं स्पृष्ट्वा विशुध्यति । जलाभावे महामार्गे बन्धने
त्वशुचावपि । उभयोः सन्ध्ययोः काले रजसा वाऽर्घ्यमुत्क्षिपेत् ।
तदभावेऽपि सूर्यस्य ध्यानमेव समाचरेत् इति ॥ कात्यायनस्तु –
उत्थायार्कं प्रति प्रास्य त्रिकमञ्जलिमंभसः । उच्चित्रमित्यनेनैव
मुपतिष्ठेदनन्तरम् इति ॥

ज्ञापालियुम्, येऽक्याकं-नुवल्क्यरुमः- इरण्णु
सन्त्या कालत्तिलुम्, तारपत्तिल निंरवण्य, निर्मल
सित्तत्तण्य नित्यण्णने विष्णुन्नुवै त्यानीत्तु, प्रिऱ्कु
कायत्तिये तुवक्क वेण्णुम्. अर्क्य तान्त्तिल वेवृ
मन्त्तरत्तत्तेच चेऽल्लुकिरुर्विष्णुः- इरु कैकौलायुम्
चेर्त्तु, अन्त अन्जलिये ज्ञलत्ताल निरप्पि,
कवनमुष्टयवण्य, 'उत्तयम्' एन्न मन्त्तरत्ताल, अन्त
ज्ञलत्तत्तप्प युमियिल विटवुम्. प्रिऱ्कु प्रतकृष्णिणम् चेष्यतु,
ज्ञलत्तत्तत्त तेऽट्टु सत्तत्तुकिरुन्. ज्ञलम् इल्लावीट्टिणुम्,
पेगु वमियिलुम्, काराकरुल्लत्तिलुम्, असत्तुयिलुम्,
इरण्णु सन्त्या कालन्कौलुम् पुमुक्तियालावतु
अर्क्यत्तत्त विटवेण्णुम्. अतुवम् इल्लावीट्टिल,
स-उर्य त्यान्त्तत्तये चेष्य वेण्णुम्.
कात्यायनरोबेवणिलः- एमुन्तु, स-उर्यैकं कुर्तित्तु
मुन्नु अर्क्यम् विट्टु, प्रिऱ्कु 'उत्तयम्' 'सित्तरम्' एन्न
मन्त्तरंकौलाल उपस्तानम् चेष्य वेण्णुम्.

स्मृत्यन्तरेऽपि – उदुत्यं चित्रं तच्छ्रुपस्थाय त्रिभिस्सदा ।
सन्ध्ययोरुभयोः सूर्य गायत्रीजपमारभेत् इति ॥ शातातपः – दर्भहीना

து யா ஸந்஧ா யச் ஦ான் விநோடகம் । அஸ்ங்காத் து யஜஸ் தத்ஸர்வ
ஸ்யானிர்஥கம் ॥ ஸந்஧ாதிக்ரமணே யஸ்ய ஸஸ்ராத் ஗மிஷ்யதி ।
உந்மத்தாதேயுக்தோऽபி புனஸ்ஸ்காரமர்ஹ்தி இதி ॥

மற்றெனு ஸ்மிருதி யிலும்:- இரண்டு
ஸந்த்யைகளிலம், 'உதுத்யம்' 'சித்ரம்' 'தச்சகஷ்ண': என்ற
மூன்று மந்த்ரங்களால் உபஸ்தானம் செய்து, காயத்ரீ
ஜபத்தை ஆரம்பிக்கவும். சாதாதுபார்:- தர்ப்பம் இல்லாமல்
செய்த ஸந்த்யோபாஸனமும், ஜலம் இல்லாமல் கொடுத்த
தானமும், கணக்கிடாமல் ஜபித்த ஜபமும் முழுவதும்
பயனற்றதாகும். எவன் ஏழுநாள் ஸந்த்யா வந்தனம்
செய்யவில்லையோ, அவன் உன்மாத தோஷமுள்ளவ
ஞினும் புனருபநயனத்திற்கு அருஹதாகிறான்.

அற பிரயोகக்ரம: - பாடை ஹஸ்தை பிரகால்ய டிராசம்ய ர்ம்பாணி:
பிராணாயம்ய பிராதஸ்ஸந்஧ாமுபாஸிஷ்ய இதி ஸக்லப்ய வாரிணா புண்டு
஧ृத்வா, ஆபோஹிஷ்டேதி மந்த்ரஸ்ய ஸிந்஧ுஷ்டிப க்ரषி: ஗ாயத்ரி ஛ந்஦: ஆபோ
தேவதா இதி ஶிரோமுகுஷத்ரயேஷு விந்யஸ்ய பிரோக்ஷனே விநியோగ இதி விநியோಗங்
ஸ்மृத்வா மந்த்ரார்஥ஸ்மரணபூர்வக் ஆபோஹிஷ்டேதி த்யூசஸ்யாடித: ஸஸ்மி:
பாடை: ஸப்ரணவைஸ்தாத்ரஹிதைவா ஸஸவிபுஷஶிஶாரஸ்யுத்திக்ஷப்ய அஷ்மேநைகாங் விபுஷ
பாடயோநிர்நிக்ஷப்ய நவமேநைகாங் ஶிரஸ்யுத்திக்ஷப்ய ஸப்ரணவாத்யாத்தமான
பரிவிச்சேது।

இங்கு ப்ரயோகத்தின் க்ரமம் சொல்லப்படுகிறது.
கால் கைகளை அலம்பி, இருமுறை ஆசமனம் செய்து,
தர்ப்பபாணியாய் ப்ராணையாமம் செய்து, 'ப்ராதஸ்
ஸந்த்யாம் உபாஸிஷ்யே' என்று ஸங்கல்பித்து, ஜலத்தால்
புண்ட்ரம் தரித்து, ஆபோஹிஷ்டேதி மந்த்ரஸ்ய
ஸிந்துத்வீப: ருஷி:, காயத்ரீ சந்த:, ஆபோ தேவதா என்று
சிரஸ், முகம், மார்பு இவைகளில் ந்யஸித்து 'ப்ரோகஷணே
விநியோக:' என்று விநியோகத்தை ஸ்மரித்து,
மந்த்ரார்த்தங்களின் ஸ்மரணத்துடன், 'ஆபோஹிஷ்ட'

मुतविय मुन्नरु गुक्कुकणीन मुतविल उन्ना, प्ररणवत्तुटन कृष्ण, अल्लतु प्ररणवम चेरात, एमु पातंकणाल एमु तिवलैकैन चिरस्सिल प्रेरोक्षीत्तु, एट्टावतु पातत्ताल ओरु तिवलैये पातत्तिल प्रेरोक्षीत्तु, ओन्पत्तावतु पातत्ताल ओरु तिवलैये चिरस्सिल प्रेरोक्षीत्तु, प्ररणवत्तुटन कृष्ण वयाहेंगुठियाल ज्ञलत्ताल तन्नैनेस कर्त्तव्यम.

ततः सूर्यशेत्यनुवाकस्य अग्निः क्रषिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता आचमने विनियोग इति पूर्ववद्विन्यस्य विनियोगं च स्मृत्वा अर्थस्मरणपूर्वकं सूर्यशेत्यनेनाभिमन्त्रिता अपः पीत्वा द्विराचामेत्। दधिक्रावृण इति मन्त्रस्य वामदेव क्रषिः अनुष्टुच्छन्दः विश्वेदेवा देवता, दधिक्रावा वा देवता, मार्जनै विनियोग इति पूर्ववद्विन्यस्य एतया सुरभिमत्या आपोहिष्ठाभिस्तिसृभिश पादशो मार्जयित्वा पूर्ववदात्मानं परिषिष्ठेत्।

पिऱ्कु, 'ल-मर्यपर्स' एन्नर अनुवाकत्तिर्कु अक्णी गुवी, कायतर्सी सन्तस्स, ल-मर्यन तेवतेत, आसमनत्तिल विनियोकम एन्नरु मुन्पोपाल न्यलित्तु, विनियोकत्तेतयुम ल्मरीत्तु, अर्तत ल्मरणत्तुटन 'ल-मर्यपर्स' एन्नर अनुवाकत्ताल अपिमन्तरीक्कपपट्ट ज्ञलत्तेतप परुकी, इरुमुरै आसमनम चेय्य वेण्टुम. 'तत्तिकर्रावैन्ननः' एन्नर मन्तरत्तिर्कु, वामतेवर गुवी, अनुष्टुप सन्तस्स, विच्वेवतेवर, अल्लतु तत्तिकर्रावा तेवतेत, प्रेरोक्षणत्तिल विनियोकम एन्नरु मुन्पोपाल न्यलित्तु, इन्त गुक्किणुलुम, 'आपोहवीवृट' मुतवियवयालुम पातम पातमाय प्रेरोक्षीत्तु, मुन्पोपाल तन्नैन ज्ञलत्ताल कर्त्तव्यम.

ततः अघ्यप्रदानं करिष्य इति सङ्कल्प्य गायत्राश्व वक्ष्यमाणमृष्यादिकं विन्यस्य तदर्थं च स्मृत्वा अभिमन्त्रितं जलाञ्जलिं सूर्याघ्यं त्रिरुत्क्षिपेत्। तत आचम्य सजलेन पाणिना

ஸகுடாத்மப்ரதீகாஷனாக குத்வாஸாவாடித்யோ ஬்ரஹ்மத்யாத்மாந் ஧்யாத்வா
ஹத்யமभிமृதயாசம்ய யதாசாரங் ஗ிரார்஦்ஸ்தபீயேத் இதி ॥

பிறகு ‘அர்க்யப்ரதானம் கரிஷ்ணே’ என்று ஸங்கல்பித்து, காயத்ரியின் (சொல்லப்போகிற) ருஷி முதலியதை ந்யளித்து, அர்த்தத்தையும், ஸ்மரித்து, காயத்ரியால் அபிமந்தரிக்கப்பட்ட ஜலாஞ்ஜலியை, ஸலர்யனுக்கு அர்க்யமாய் மூன்று முறை உயர்த்தி விடவேண்டும். பிறகு, ஆசமனம் செய்து, ஜலத்துடன் கூடிய கையுடன் ஒரு முறை ஆத்மப்ரதக்ஷிணம் செய்து, ‘அஸாவாதித்யோ ப்ரஹ்ம’ என்று ஆத்ம த்யானம் செய்து, மார்பைத் தொட்டு ஆசமனம் செய்து, அவரவர் ஆசாரப்படி நவக்ரஹங்கள் முதலியவரைத் தர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ஜபதேஶாஸநாடிவி஧ி: |

ஜபதேஶமாஹ யோगயாஜ்வல்க்ய: – அத்ய஗ரே ஜலாந்தே வா ஜபதேவாலயேऽபி வா | புண்யதீर்஥ ஗வாஂ ஗ோஷே ஸிஞ்சக்ஷேநேऽத்வா ஗ூஹே இதி ॥
ஸ்மृதிரஸை – ஸூர்யாஸ்திராத்மாந் ஗ுருஷாமபி ஸநி஧ௌ | அந்யேஷாஂ ச
ப்ரஶஸ்தாநாஂ மந்வானமிமுகோ ஜபேத् ॥ | அஶ்வத்஥வில்வதுலஸிவன-
புष்பாந்தராவுதே இதி ॥ | ஸ்மृதிஸாரே – ஸூர்யாஸ்திராரிந்஦ோர்மீபஸ்ய ச
ஜலஸ்ய ச | விப்ராணாஂ ச ஗வாஂ சைவ ஸநி஧ௌ ஶாஸ்யதே ஜப: இதி ॥

ஜபதேச ஆஸநாதி விதி

ஜபதேசத்தைச் சொல்லுகிறார், யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- அக்னி சாலை, ஜல ஸமீபம், தேவாலயம், புண்ய தீர்த்தம், பசுக் கொட்டில், ஸித்தரின் கேஷத்ரம், தனது கருஹம் இவைகளும் ஒன்றில் ஜபம் செய்யவும். ஸ்மிருதிரத்னத்தில்:- ஸலர்யன், அக்னி, ருத்ரன், தேவர்கள், குருக்கள் இவர்களின் ஸன்னிதியில், சிறந்த மற்றவருக்கு எதிரிலாவது ஜபிக்கவும். அச்வத்தம், பில்வம், துளை வனம், புஷ்பங்கள் இவைகளால்

कुमप्पबट्टा इट्तंतिलावतु ज्ञपीक्कवुम्.
 लंमंग्रुतीलारात्तथीलः:- लार्यन्न, अक्णी, कुरु, सन्त्तरन्न,
 तीपम्, ज्ञलम्, प्रराम्भेणर, पक्ककल्ल इवरतु एतिरीलं ज्ञपम्
 चेय्वतु पुकमप्पबट्टीक्रितु.

शङ्खः - गृहे त्वेकगुणं प्रोक्तं नद्यादौ द्विगुणं स्मृतम्। गवां गोष्ठे
 दशगुणमध्यगारे शताधिकम्। सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु देवतायाश्च सञ्चिधौ।
 सहस्रं शतकोटीनामनन्तं विष्णुसञ्चिधौ इति ॥ व्यासोऽपि - गुह्यका
 राक्षसास्त्रिज्ञाः हरन्ति प्रसमं यतः । एकान्ते गुह्यदेशे तु तस्माज्जप्यं
 समाचरेत् इति ॥ अज्ञिरा अपि - प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च
 निरहक्षतम्। जप्यानि च सुगुप्तानि तेषां फलमनन्तकम् इति ॥

चंकरः :- कंगुलूहत्तिलं चेय्वतु कुरु पन्कु
 पलमुॱ्ळूलातु. नति मुतलीयतीलं चेय्वतु इरण्णु पन्कु
 पलमुॱ्ळूलात्यताकुम्, पक्ककलीं केकाट्टीलीलं चेय्वतु
 पत्तु मटन्कु पलमुॱ्ळूलात्यतु. अक्णी चालैयीलं चेय्वतु
 नुरु मटन्कु पलमुॱ्ळूलात्यतु. लीत्त केषुत्तरंकल्ल, पुण्य
 तीर्त्ततंकल्ल, तेवतेतयीं लेण्णीति इवेवकलीलं चेय्वतु
 नुरु केऋकलीलं आयिरम् मटन्कु पलमुॱ्ळूलात्यतु. वीञ्जन्तु
 लेण्णीति यीलं चेय्वतु ऎल्लैयर्हताकुम्. व्यासरुमः:-
 कुव्यंयकर, राक्षसर, लीत्ततर इवर्कल्ल पलात्कारमायं
 ज्ञपत्तेत अपलूरीक्किण्णनर. आकेयालं रकान्त लंतलत्ति
 मरेवूल्ला इट्तंति लं ज्ञपत्तेतसं चेय्य वेण्णुम्.
 आक्कीरल्लामः:- मरेत्ततुक्क केकाट्टीक्कप्पट्टतानंकल्ल,
 अहुन्कारमर्ह कंगुलानम्, मरेत्ततुसं चेय्यप्पट्ट
 ज्ञपन्कल्ल इवेवकलीं पलमं अप्पिवर्हताकुम्.

शौनकः - आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् । ये
 वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमोनमः ॥ इति मन्त्रं समुच्चार्य
 नमस्कुर्यात् सुरद्विजान् ॥ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ।
 ये भूता विघ्नकर्तरास्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया ॥ तलेन वामपादस्य भूमौ
 घातत्रयं चरेत् ॥ उग्रभूतपिज्ञाचाद्या ये च वै भूमि(भा)धारकाः ।

எதேசாமவிரோධேந விஷகர்ம ஸமாரமே ॥ சக்ளப்யைங் ஜபேது
ஸம்யஸ்தாந்திரத்தானாஸः ।

சௌனாகார்:- 'ஆப்ரம்ஹைலோகா + நமோநமः' என்ற மந்த்ரத்தை உச்சரித்து, தேவர்களையும் ப்ராம்ஹனர்களையும் நமஸ்கரிக்கவும். இதன் பொருள்:- 'மேல் ப்ரம்ஹைலோகம் வரை, கீழ் சேஷலோகம் வரை, பூமியில் லோகா லோகபர்வதம் வரையிலும் எந்த ப்ராஹ்மணர்களும் தேவர்களும் வளிக்கின்றனரோ அவர்களுக்கு நித்யமும் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்' என்பது. பிறகு, 'அபஸர்ப்பந்து + சிவாக்ஞாயா' என்ற மந்த்ரத்தால், பூமியில் இடது காலினால் மூன்று முறை உதைக்கவும். 'உக்ரபூத + ஸமாரபே' என்று ஸங்கல்பித்து, மந்த்ரார்த்தத்தை நாடியமனமுடையவனுய் ஜபிக்க வேண்டும். 'அபஸர்ப்பந்து' என்பதின் பொருள்:- எந்தப் பூதங்களிங்கு பூமியில் இருக்கின்றனவோ, அவைகள் விரைந்து செல்ல வேண்டும். விக்னம் செய்யும் பூதங்கள் எவையோ அவைகள் சிவனின் ஆக்ஞாயால் இங்கிருந்து செல்ல வேண்டும். 'உக்ரபூத' என்பதின் பொருள்:- 'உக்ரமான பூதப்ரேத பிசாசங்கள் முதலிய எவர் பூமியை தரிக்கிருக்கின்றனரோ இவர்களுக்கு விரோதம் இல்லாமல் ஜபகர்மத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்' என்று.

குஶாஜிநாம்஬ரேணாந்த் கலபயேடாஸன் ஬ுधः ॥ வஶோषகா-
ஶம்஧ரணीதூநபஜ்ஜவனிர்மிதம् । வஜயேடாஸன் ஧ீமாந् ஦ாரி஦்ரா-
வ்யாधி஦ு: ஖दம् । ஸர்வஸி஧ை வ்யாபிரச்சர்ம ஜானஸிஜ்ஜை மृ஗ாஜிநம् ।
நாடீக்ஷிதஸ்ய ஗ृहிண: கृष்ணசாராஜிந ஸ்மृதம् ॥ விஶேஷத்திர்வநஸ்தஶ
விஷாகாரி மृ஗ாஜிந । வக்ஷாஸன் ரோගஹர் கம்பல் டு: ஖மோசனம् ।
ஸ்வஸ்திகா஧ாஸனேநாநா விஶேஷத்து நிராகுல: । வீராஸன் ஸ்வஸ்திக் வா
஬்஧ா஽ந்யதராஸனம् ॥ பத்ர் வா முக்குக் வாடபி ஬்஧ா ஜபமதாசரேது
இதி ।

குசம், க்ருஷ்ணஜினம், வஸ்தரம் இவைகளுடன் சேர்ந்த ஆஸனத்தைச் செய்து கொள்ளவும். மூங்கில், செங்கல், கல், மண், புல், தளிர் இவைகளால் செய்யப்பட்ட ஆஸனத்தை அறிந்தவன் வர்ஜிக்க வேண்டும். அவை தரித்ரத் தன்மை, வ்யாதி, துக்கம் இவைகளைக் கொடுப்பதாகும். புலியின் தோல் எல்லா ஸித்திகளையும் செய்யும். மானின் தோல் ஜ்ஞானத்தை அளிக்கும். தீக்ஷிதனல்லாத க்ருஹஸ்தனுக்கு, க்ருஷ்ணஸார மானின் தோல் கூடாது. யதியும், வானப்ரஸ்தனும் மான்தோலில் உட்காரலாம். வஸ்தராஸனம் ரோகத்தை ஹரிக்கும். கம்பளாஸனம் துக்கத்தை அகற்றும். விழிதமான ஆஸனத்தில், ஸ்வஸ்திகம் முதலான ஆஸனத்தால் ஏகாக்ரசித்தனுய் உட்கார வேண்டும். வீராஸனம், ஸ்வஸ்திகாஸனம், பத்மாஸனம், முக்தகாஸனம் என்றவைகளுள் ஏதாவது ஒரு ஆஸனத்தைச் செய்து ஜபத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

आसनलक्षणमुक्तं तेनैव – एकं पादमथैकस्मिन् विन्यस्योरुणि
 संस्थितः । पादेऽन्यस्मिंस्तथा चोरुं वीरासन मुदाहृतम् ॥
 जानूर्वोर्न्तरे सम्यकृत्वा पादतले उभे । क्रजुकायस्समासीनः स्वस्तिकं
 तत् प्रचक्षते ॥ ऊर्वोरुपरि विप्रेन्द्र कृत्वा पादतले लभे । पश्चासनं
 वदेदेतत् सर्वेषामपि पूजितम् ॥ सम्पीड्य सीवर्णीं दक्षां गुलफेनैव तु
 सव्यतः । सव्यां दक्षिणगुलफेन मुक्तासनमुदीरितम् ॥ एवमासनयुक्तः
 सन् भूतशुद्धिं समाचरेत् इति ॥

ஆனங்களின் வகுணத்தைச் சொல்லுகிறார்.
சௌனகரே:- ஒரு துடையின் மேல் மற்றொரு
 பாதத்தையும், மற்றொரு பாதத்தின் மேல் மற்றொரு
 துடையையும் வைத்து உட்காருவது ‘வீராஸனம்’
 எனப்பட்டது. முழங்கால், துடை இவைகளின் நடுவில்
 இரண்டு பாதங்களையும் வைத்துக் கொண்டு ருஜாவான
 சர்ரத்துடன் உட்கார்ந்திருப்பது ‘ஸ்வஸ்திகம்’ என்னும்

ஆவளனமென்று சொல்லுகின்றனர். இரண்டு துடைகளின் மேல், இரண்டு பாதங்களையும் வைத்து உட்காருவது ‘பத்மாஸனம்’ இது எல்லா ஆவளங்களிலும் சிறந்தது. வலது ஸீவனியை (குஹ்யத்திற்குக் கீழ் உள்ள ஸ்த்ரம்) இடது காலின் (மணிக்கட்டால்) நெருக்கியும், இடது ஸீவனியை வலது காலின் குல்பத்தால் நெருக்கியும் உட்காருவது ‘முக்தாஸனம்’ எனப்பட்டது இவ்விதம் ஆவளத்திலிருந்து, பூத சுத்தியைச் செய்ய வேண்டும்.

மந்த்ராதைப்ரகாஶிகாயாம् :- பृथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः । अतलं छन्दः । कूर्मोदेवता । आसने विनियोगः । पृथिव्या धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । त्वं च धारय मां देवि पवित्रं चासनं कुरु इत्यासनं परिकल्प्य उरसि गुरुभ्यो नमः इत्यजलिं कृत्वा गणपतये नमः सरस्वत्यै नमः इति दक्षिणांसे दुग्यै नमः क्षेत्रपालकाय नमः इति सव्यांसेऽजलिं कृत्वा भूतशुद्धिं कुर्यात् ॥

மந்த்ரதேவதா ப்ரகாசிகையில்:- ‘ப்ருத்வி’ என்பதற்கு, மேருப்ருஷ்டர் ருஷி, அதலம் சந்தஸ், கூர்மன் தேவதை, உட்காருவதில் விநியோகம். ப்ருத்வித்வயா + சாஸனம் குரு’ (இதன் பொருள்:- ஓ பூதேவி! உன்னால் உலகங்கள் தரிக்கப்படுகின்றன. நீ விஷ்ணுவினால் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறோய். பூதேவி! நீ என்னையும் தரிக்க வேண்டும். ஆவளத்தையும் சுத்தமாய்ச் செய்ய வேண்டும், என்பது) என்ற மந்த்ரத்தால் ஆவளத்தைக் கற்பித்து, மார்பில் குருப்யோ நமः’ என்று அஞ்ஜலியைச் செய்து, ‘கணபதயே நமः, ஸரஸ்வதியை நமः’ என்று வலது தோளிலும், ‘தூர்காயை நமः, கேஷத்ரபாலகாய நமः’ என்று இடது தோளிலும் அஞ்ஜலியைச் செய்து, பூத சுத்தியைச் செய்யவும்.

धर्मकन्दं ज्ञाननालमैश्वर्यष्टदलं वैराग्यकर्णिकं हृदयाम्बुजमुकुलं
प्रणवेन विकसितं ध्यात्वा कर्णिकास्थं चैतन्यात्मकं जीवं सूत

प्रणवोचारणेन सुषुम्नानाडीमार्गतः निस्सार्यं तं जीवं द्वादशान्त-स्थितसहस्रदलकमलनिष्ठपरमात्मना सह हंस इति मन्त्रेणैकीकृत्य स्वशरीरस्थकलमषजातं पुरुषाकारेण विचिन्त्य शोषण दाहनप्लावनानीत्यं कुर्यात्।

तर्मत्तेतकं किञ्चन्कायुटेयतुम्, ज्ञानत्तेतत्त तज्ज्ञानाक उटेयतुम्, ज्ञेयवर्यन्कैला एट् ६ तज्ज्ञानकौयुटेयतुम्, वेवराकंयत्तेतकं कर्णीकै (तातु) याप्य उटेयतुमानं त्रिरुत्यपत्तम् मुकुलत्तेत, प्ररणवत्ततालं मलर्न्तत्ताक त्याणीत्तु, कर्णीकैयीलं इग्रुकंकुमं शेतनंयं स्वरूपीयाणं ज्ञेवैन, प्लवुतमानं प्ररणवत्तते उच्चरीप्पत्तालं सावधाम्णे नाम मार्ककत्ततालं वेवैलीयेन्नृ, अन्त ज्ञेवैन त्वात्तशान्तत्तिलुूला लभुूलरत्ताू पत्तमत्तिलुूलाू परमात्मावेऽु, 'ह्रम्सः' एन्नै मन्त्ररत्ततालं छन्ग्रुक्कि, तज्ज्ञानीरत्तिलुूलाू पापकंकुवीयलै मणीत रुपमाप्य त्याणीत्तु, चेऽवैनम्, ताहृनम्, प्लावैनम् इवैकैलाू वरुमारु चेय्यवैम्.

ब्रह्महत्याशिरस्कं च स्वर्णस्तेयभुजद्वयम् । सुरापानहृदा युक्तं गुरुतल्पकटिद्वयम् ॥ तत्संयोगपदद्वन्द्वं प्रत्यज्जसमपातकम् । उपपातकरोमाणं नखश्मशुविलोचनम् ॥ खड्गचर्मधरं कृष्णं कुक्षी पापं विचिन्तयेत् । तं पापपुरुषं नाभिदेशस्थितषट्कोणान्तर्गतं यमितिवायुबीजोत्थवायुना शोषयित्वा पुनस्तं हृदयदेशस्थितत्रिकोणं गतरमित्यग्निबीजोत्थवहिना दाहयित्वा तद्द्वस्म दक्षिणनासापुटान्निस्सार्यं भ्रूमध्यस्थार्द्धचन्द्राकारामृतमण्डलान्तस्थ - वमित्यमृतबीजोत्थितया अमृतधारया निष्कलमषं स्वशरीरमाप्लाव्या शुद्धिं कृत्वा द्वादशान्तनीतमात्मानं सुषुम्नानाडीमार्गेण हृदयकमले औं सोऽहमितिमन्त्रेण स्थापयेत् ॥

ப்ரம்ஹ ஹத்யையை சிரஸ்லாய் உடையவனும், ஸ்வர்ண ஸ்தேயத்தை இரண்டு கைகளாய் உடையவனும், ஸ்ராபானத்தை மார்பாய் உடையவனும், குருதல்ப்பகமனத்தை இரண்டு இடுப்பாய் உடையவனும், தத்ஸம் யோகத்தை இரண்டு பாதங்களாய் உடையவனும், ஸமபாதகங்களை மற்ற அங்கங்களாய் உடையவனும், உபபாதகங்களை ரோமங்கள், நகங்கள், மீசை, கண்கள் இவையாய் உடையவனும், கத்தி, கேடையம் இவைகளைத் தரித்தவனும், கறுப்பு நிறமுள்ளவனுமாய் பாபபுருஷனை வயிற்றில் இருப்பவனைய் த்யானிக்க வேண்டும். அந்தப் பாப புருஷனை, நாயி தேசத்திலுள்ள ஷட்கோணத்திலுள்ள ‘யம்’ என்னும் வாயுபீஜத்தால் சோஷணம் செய்து, மறுபடி அவனை, ஹ்ருதய தேசத்திலுள்ள தரிகோணத்திலுள்ள ‘ரம்’ என்னும் அக்னி பீஜத்தால் தஹிக்கச் செய்து, அந்தச்சாம்பலை வலது மூக்கின் த்வாரத்தால் வெளியேற்றி, புருவங்களின் மத்யத்திலுள்ள அர்த்த சந்தராகாரமான அம்ருத மண்டலத்தின் உள்ளிலுள்ள ‘வம்’ என்னும் அம்ருத பீஜத்தினின்றும் எழும்பிய அம்ருத தாரையால் பாபமற்ற தன் தேஹத்தை மூழ்க்கி சுத்தமாய்ச் செய்து, த்வாதசாந்த ஸ்தானத்தில் சேர்க்கப்பட்ட ஆத்மாவை ஸ்ராஷாம் நாநாடியின் வழியாய் ஹ்ருதய கமலத்தில், ‘ஓம் ஸோஹம்’ என்ற மந்த்ரத்தால் ஸ்தாபிக்க வேண்டும்.

एवं भूतशुद्धिं कृत्वा प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् । प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य
ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा क्रषयः । क्रग्यजुस्सामाथर्वाणि छन्दांसि ।
प्राणशक्तिः परादेवता । प्राणप्रतिष्ठार्थे विनियोगः - रक्तां
भौधिस्थपोतोऽसदरुणसरोजाधिरूढा कराजैः पाशां कोदण्ड-
मिक्षूद्वय मलिगुण मप्यङ्कुशां पञ्चबाणान् । विभ्राणासृक्कपालं
त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी
प्राणशक्तिः परा नः ॥ इति ध्यात्वा प्राणप्रतिष्ठामन्त्रं जपेत् - 'अं ह्रीं
क्रों यरलवशाषसहो हंसः सोऽहं सोऽहं हंसः । अमुष्य प्राणा इह प्राणा

अमुष्य जीव इह स्थितः । अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि अमुष्य वाङ्मनश्चक्षुः
श्रोत्रजिह्वाप्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा इति ॥
अमुष्यस्थाने ममेत्युच्चारयन् प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् ॥

आवृत्तिशब्दात्याकृत्य उत्तमं तद्विषयं चेयत्, प्रराणे
प्ररुद्धिशब्दात्याकृत्य उत्तमं तद्विषयं चेयत्, अतां प्ररकाराम
मुलत्तिलुलात्. त्याणे चलोकत्तिन् बोपारुलः- “रक्त
समुत्तरत्तिलुलां छृटत्तिलं विळांकुम् चिवन्त तामरेप
पूविल् इरुप्पवर्णम्, तामरे पोन्न केकलाल
पासत्तेत्युम्, वण्णुकैला नाणेक उत्तेय करुम्पु
विल्लैलयुम्, अंकुचत्तेत्युम्, ज्ञन्तु पाणंकैलयुम्,
संरक्केयुम्, (पूमालै अल्लतु ज्ञपमालै) कपालत्तेत्युम्
तरीक्तवर्णम् मुन्नरु नेत्रंकलालं प्ररकाशिप्पवर्णम्,
प्ररुत्त लंतनंकर्णउत्तेयवर्णम्, पालल-मर्याणे पोल
चिवन्त निर्मुमत्तेयवर्णमाणे चिरन्त प्रराणकैक्ति तेवते
नमक्तु लाक्तेत्तसंकेयपवलाय त्रुक्वेण्णुम्” एन्पतु.

ततो मातृकान्यासं कुर्यात् – मातृकासरस्वतीमन्तस्य ब्रह्मा
कृषिः । गायत्री छन्दः । मातृकासरस्वती देवता । मातृकान्यासे
विनियोगः । पञ्चाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनदोः पादयुक्तक्षिवक्षोदेशां
भास्वत्कपर्दकलितशाश्विकलामिन्दुकुन्दावदाताम् । अक्षसङ्कुम्भ-
चिन्तालिखितकर्वरां पद्मसंस्थां त्रिनेत्रामच्छाकल्पामतुच्छस्तन-
जघनभरां भारतीं तां नमामि इति ध्यात्वा बिन्दुसहितां मातृकां न्यसेत् ।

पिऱकु मात्तरुकान्यासूलत्तेत्तसं केयय वेण्णुम्.
मात्तरुका लरस्वती महो मन्त्रत्तिरुकु प्रम्हो रुषी,
कायतरी सन्तल्स, लरस्वती तेवते, मात्तरुका न्यासूलत्तिल
विनियोगकम्. त्याणम् - ‘पञ्चाशास्तवर्णन + ताम् नमामि’
एन्नरु. आत्त बोपारुलः- ‘ज्ञम्पतु अक्षरंकलाल
कल्पपितमाण मुकम्, केकलां, काल्कलां, वयिरु, मार्पु
प्ररुद्धेशंकैला उत्तेयवर्णम्, प्ररकाशिक्किन्न र
ज्ञटाज्ञाटत्तिलं तरीक्कप्पट्ट सन्तर कैलये

உடையவரும், சந்தரன், குருக்கத்திப் புஷ்பம் இவை போல் வெண்ணிறம் உள்ளவரும், ஜபமாலை, அம்ருதகும்பம், சின்முத்ரை, புஸ்தகம் இவைகளைக் கைகளில் உடையவரும், பத்மத்தில் இருப்பவரும் மூன்று கண்களை உடையவரும் நிர்மலமான அலங்காரம் உடையவரும், பருத்த ஸ்தனஜகனம் உடையவரும், ஆன அந்த பாரதி தேவியை வணங்குகின்றேன்' என்று.

பிப்ரவரி ந்யாஸஸ்஥லம்பிஹிதம் – கானநவृத்தத்திக்ஷித்து-நாசிகா஗ண்டோஷ்டந்தமூ஧்வரஸ்யே । ஦ோ:பத்ஸந்஧்யாஶே ச பாஷ்வத்ய-பூஷ்டநாமிஜதரேஶு ॥ ஹஹ்மூலாவராக்ஷேஷு ஹாடிபாணி பாடயுगே । ஜதராநநயோஷ்யபிகசஸ்தாதாநக்ஷராஷ்யஸேத்க்ரமதः இதி ॥ கேதி ॥ க் ஷிரः । இந்தாந்தா: அக்ஷிஶ்ரோத்ரநாசிகா஗ண்டோஷ்டந்தேஶு பித்யேக் ஸம்஬ாத்யதே । ஦ோ:பத்ஸந்஧்யாஶீணி விஂஶதிஃ । ஦ோமூல் ஦க்ஷிணம் । ஆ(ய)ா(த) ஦ிக்ஷாந்தா வ்யாபகச்சா: । தை: வ்யாபகந்யாஸமபி குரீடித்யர்஥ः ॥

ப்ரபஞ்சஸாரத்தில் ந்யாஸ ஸ்தானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது - 'காநந + க்ரமதः' என்று இதன் பொருள்:- நெற்றி, முகவ்ருத்தம், கண்கள் இரண்டு, காதுகள் இரண்டு, மூக்குகள் இரண்டு, கண்ணங்கள் இரண்டு, உதடுகள் இரண்டு, பல் வரிசைகள் இரண்டு, தலை, வாய், கைகள், கால்கள், ஸந்தி அக்ரங்கள் முதலியவை இருபது, வயிற்றின் பக்கங்கள் இரண்டு, முதுகு, நாயி, வயிறு, மார்பு, வலதுதோள், கழுத்தின் பின்புறம், இடது தோள், வ்யாபக ந்யாஸத்திற்கு ஆறு ஸ்தானங்கள், இவைகளில் அக்ஷரங்களை ந்யாஸிக்கவும்.

ந்யாஸப்ரகாரம் இவ்விதம்: அந்ம: நெற்றியில் அந்ம: முகவ்ருத்தத்தில். இந்ம: வலது கண்ணில். ஈம் நம: இடது கண்ணில். உந்ம: வலது காதில். ஊந்ம: இடது காதில். க்ரந்ம: வலது மூக்கில் கூட்டு நம: இடது மூக்கில் லூடு நம: வலது கண்ணத்தில் லூடு நம: இடது கண்ணத்தில் ஏந்ம: மேலுதட்டில் ஏ-

नमः क्रिमि तट्टिलं औं नमः मेलं तन्तनंकणीलं. औं नमः क्रिमि तन्तनंकणीलं. अं नमः किरस्सलीलं. अः नमः मुकत्तिलं. आकप्पतिनग्नु. कं नमः वलतु केयीनं मुलत्तिलं. सं नमः कूरप्परत्तिलं. गं नमः मणीक्कट्टिलं. घं नमः विरलंकणीनं मुलत्तिलं. ङं नमः विरलंकणीनं नुनीयीलं. चं नमः इटतुकेयीनं मुलत्तिलं. छं नमः कूरप्परत्तिलं. जं नमः मणीक्कट्टिलं. झं नमः विरलंकणीनं मुलत्तिलं. अं नमः विरलंकणीनं नुनीयीलं. टं नमः वलतुकालं मुलत्तिलं. ठं नमः मुमृंक्कालीलं. डं नमः मणीक्कट्टिलं. ढं नमः विरलंकणीनं मुलत्तिलं. एं नमः विरलंकणीनं नुनीयीलं. तं नमः इटतुकालं मुलत्तिलं, थं नमः इटतु मुमृंक्कालीलं, दं नमः मणीक्कट्टिलं, धं नमः विरलंकणीनं मुलत्तिलं, नं नमः विरलंकणीनं नुनीयीलं, पं नमः वयिन्नरिणं वलतुपाकत्तिलं. फं नमः इटतु पाकत्तिलं. बं नमः मुतुकिलं. भं नमः नापीयीलं. मं नमः वयिन्नरिलं. यं नमः मारपीलं. रं नमः वलतु तेऽवीलं. लं नमः कमुत्तिणं पिणं पुरत्तिलं. वं नमः इटतु तेऽवीलं. शं नमः श्वरुतयम् मुतलं वलतुकेविरलंकणं वरयीलं. षं नमः श्वरुतयम् मुतलं इटतुकेविरलंकणं वरयीलं. सं नमः श्वरुतयम् मुतलं वलतु कालं विरलंकणं वरयीलं. हं नमः श्वरुतयम् मुतलं इटतु कालं विरलंकणं वरयीलं. ञं नमः श्वरुतयम् मुतलं वयिन्नरिणं वरयीलं. क्षं नमः श्वरुतयम् मुतलं मुकम् वरयीलं. इवंवितम् मात्तरुकान्यासे व्यापकं न्यासकरमम्.

प्राणायामविधिः

अथ प्राणायामविधिः । तत्र योगयाज्ञवल्क्यः — एवं संमार्जनं कृत्वा बाह्यशुद्ध्यर्थमादरात् । तथाऽभ्यन्तरशुद्ध्यर्थं प्राणायामं

ஸமாச்சரெத் இதி ॥ வृஹஸ்பதி: — ஬धாஓஸனங் நியம்யாஸூன் ஸ்மृत்வா
ச்சீர்஦ிக்ததோ । ஸனிமீலிதஷ்ணைநீ பிராணாயாம் ஸம்யஸெத் இதி ॥

ப்ராணையாயவிதி

இனி ப்ராணையாம விதி சொல்லப்படுகிறது. அதில்,
யோகயாக்ஞவல்க்யர்: - இவ்விதம் பாஹ்ய சுத்திக்காக
ப்ரோக்ஷனம் செய்து, ஆப்யந்தர சுத்திக்காக
ப்ராணையாமத்தைச் செய்ய வேண்டும். ப்ருஹஸ்பதி: -
ஆஸன பந்தம் செய்து, மூச்சை அடக்கி ருஷி, சந்தஸ்,
தேவதை, விநியோகம் இவைகளை ஸ்மரித்து, கண்களை
மூடியவனும், மெளனியாய் ப்ராணையாமத்தைச்
செய்யவும்.

आसनं चात्र स्वस्तिकादि — यत् दक्षवचनम् —
सन्ध्यात्रयेऽपि कर्तव्यं प्राणायामत्रयं द्विजैः । आसीनस्तु भवेत् सायं
मध्याहे स्थित एव च ॥ तिष्ठन्नेव तथा कुर्यात् प्रातः काले समाहितः
इति, तत् ‘असावादित्यो ब्रह्मेति ध्यानात् पूर्वकालिकविषयम् ।
प्राकूलेषु ततः स्थित्वा दर्भेषु सुसमाहितः । प्राणायामत्रयं कृत्वा
ध्यायेत् सन्ध्यामिति श्रुतिः इति व्यासस्मरणादिति केचित् ॥ अन्ये तु
बधாஓஸனமिति सायंकालविषयम् । प्रातस्तिष्ठन् प्राणायामेन
शुद्ध्यति सायमासीनः प्राणायामेन शुद्ध्यति, इत्यखण्डादर्शवचनात्
प्रातस्तिष्ठतैव प्राणायामः कर्तव्यः इत्याहुः ॥

இங்கு ‘ஆஸனம்’ என்பது ஸ்வஸ்திகம் முதலியது.
ஆனால், ‘‘ப்ராம் ஹன்னர்கள் மூன்று ஸந்த்யைகளிலும்
மூன்று ப்ராணையாமங்களைச் செய்ய வேண்டும். மாலையில்
உட்கார்ந்தும், மத்யாஹ்னத்தில் நின்றும், காலையில்
அவ்விதமே நின்றும் கவனம் உடையவனும் ப்ராணை
யாமம் செய்ய வேண்டும்’’ என்று தகைநின் வசனம்
உள்ளதே எனில், அது ‘அஸாவாதித்யோ ப்ரமஹ’ என்ற

त्यागनेत्तिन्ऱु कु मुनि चेय्युम् प्रराणे यामत्तेतप् पर्न्रियतु,
 “पिऱकु किमकंकु नुनीयायुला तरप्पनकलील निन्ऱु, कवलम
 उटेयवाण्ये रुन्ऱु प्रराणे यामन्कलोचं चेय्तु,
 सन्त्ययये त्याणीक्क वेण्णुम् एन्किरतु वेतम्”
 एन्ऱु व्यालर चेलवत्तालं” एन्किन्ऱनर चिलर.
 मर्न्ऱवराणुलं ‘पत्वालनम् एन्पतु लायन्काल
 विषयम्. ‘कालैयिल निन्ऱवाण्ये प्रराणे यामम
 चेय्वत्तालं कुत्तालुन. मालैयिल उट्कार्न्तवाण्ये
 प्रराणे यामम चेय्वत्तालं कुत्तालुन’ एन्ऱु
 अकण्टातुर्स वचनमिरुपपत्तालं, कालैयिल
 निन्ऱवाणुकवे प्रराणे यामम चेय्य वेण्णुम्”
 एन्किन्ऱनर.

संवर्तः — प्राणायामैखिभिः पूतो गायत्री तु जपेत्तः इति ॥
 कर्मप्रदीपे — देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । स्नाने दाने तथा
 ध्याने प्राणायामाख्यत्वयः ॥ आदावन्ते च गायत्र्याः प्राणायामत्रयं
 स्मृतम् । सन्ध्यायामध्यदाने च स्मृत एकोऽसुसंयमः ॥
 अज्ञानानामिकाभ्यां तु तथैव च कनिष्ठया । प्राणायामस्तु कर्तव्यो
 मध्यमां तर्जनीं विना ॥ तर्जनीमध्यमायोगं प्राणायामे तु वर्जयेत् ।
 तर्जनीमध्यमां स्पृष्ट्वा कुर्वन् शूद्रसमो भवेत् इति ॥ तत्रैव — वामहस्तेन
 गणयन् प्राणायामं जपेद्विजः । कुर्याद्विमे च सर्वत्र
 तथाऽकुत्सितकर्मकृत् इति ॥

लम्बवार्त्तुराः:- मुन्ऱु प्रराणे यामन्कलालं कुत्तालुय
 आकिपि पिऱकु कायत्तरीये ज्ञपिक्क वेण्णुम्.
 कार्मप्रत्तिपत्तीलः:- तेवप्पज्जे, ज्ञपम्, लेहामम्,
 अत्ययनम्, चरात्तम्, सन्नानम्, तानम्, त्याणम्
 इवेकलील मुम्मुन्ऱु प्रराणे यामन्कलं चेय्यप्पत
 वेण्णुम्. कायत्तरी ज्ञपत्तिन आकियिलुम् अन्तत्तिलुम्
 मुन्ऱु प्रराणे यामन्कलं, सन्त्यययिलुम्, अर्क्य

தானத்திலும், ஒரு ப்ராணை யாமம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பெருவிரல், பவித்ரவிரல், சிறுவிரல் இவைகளால் ப்ராணை யாமம் செய்ய வேண்டும். நடுவிரல், தர்ஜனீ விரல் இவைகளை விட்டு. ப்ராணா யாமத்தில் மத்யமா தர்ஜனீ இவ்விரல்களைச் சேர்க்கக் கூடாது. தர்ஜனீ மத்யமா விரல்களைச் சேர்த்துச் செய்பவன் குத்ரனுக்கு ஸமன் ஆவான். கர்மப்ரதீபத்திலேயே:- இடது கையால் எண்ணிக் கொண்டு ப்ராணை யாமத்தை ப்ராம் ஹனன் ஜபிக்க வேண்டும். ஹோமத்திலும், அவ்விதமே. எல்லாக் கர்மங்களிலும் அவ்விதமே. இழிவான கார்யத்தைச் செய்யாதவனுய் ஜபிக்க வேண்டும்.

பிராணாயாமலக்ஷணமாக மனு: - ஸவ்யாஹ்தி ஸப்ரணவாஂ ஗ாயத்ரீ ஶிரஸா ஸஹ | திஃ பதே஦ாயதப்ராணः பிராணாயாமः ஸ உच்யதே இதி || பதேத் மனஸேதி ஶோபः | தथா ச ஸ்வர்த்தः - ப்ரணவேந து ஸ்யுக்தா வ்யாஹ்தி: ஸஸ நித்யஶः | ஸாவித்ரீ ஶிரஸா ஸார்஧ மனஸா திஃ பதேத்ருதிஃ இதி || யாஜ்வால்க்யோத்பி - ஗ாயத்ரீ ஶிரஸா ஸார்஧ ஜபேத்ருதிபூர்விகாம் | பிரதிப்ரணவ ஸ்யுக்தாஂ திரய் பிராணஸ்யமः இதி || பிரதிவ்யாஹ்தி ப்ரணவேந ஸ்யுக்தாஂ ஗ாயத்ரீ ஸுக்னாஸிகாஸஞ்சாரிண் வாயு நிருந்஧ன் மனஸா திந்வாராந் ஜபேதித்யஂ ஸர்வத்ர பிராணாயாமः இதி விஜானேஶ்வரः ||

ப்ராணை யாமத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார், மனு:- வ்யாஹ்ருதிகளுடன் கூடியதும், ப்ரணவத்துடன் கூடியதுமான காயத்ரி யை சிரஸ்ஸ-டன், மூச்சுக் காற்றை அடக்கியவனுய், மூன்று தட்டை ஜபிக்க வேண்டும். அது ப்ராணை யாமம் எனப்படுகிறது. இங்கு, 'மனதினால்' என்று சேர்க்கவும். அவ்விதமே, ஸம்வர்த்தாரः:- ப்ரணவத்துடன் கூடிய ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும், காயத்ரி யை சிரஸ்ஸ-டனும், மனதினால் ப்ராம் ஹனன் மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும். யாக்ஞவல்க்யரும்:- வ்யாஹ்ருதிகளை முன்னுடைய காயத்ரி யை சிரஸ்ஸ-டன்,

‘‘ऽवैवान्निलुम् प्ररणवत्तुटनं कृष्टयता॒यं मू॒न्न॒रु॒
मृ॒न॒र॒ ज्ञपि॒क्क॒वु॒म् । इतु॒ प्ररा॒णे॒ या॒मम् । इ॒ंकु॒,
‘‘ऽवैवारु॒ व्या॒र॒ह॒रु॒ति॒यि॒लु॒म् प्ररणवत्तुटनं
का॒यत्ती॒य॒, मृ॒क॒त्ति॒लु॒म् मृ॒क॒क॒लु॒म् स॒र्कु॒च॒री॒क॒कु॒म्
वा॒य॒व॒ अ॒टक॒क॒य॒व॒गु॒य॒, मृ॒न॒त्ति॒गु॒ल॒ मू॒न॒रु॒ मृ॒न॒र॒
ज्ञपि॒क्क॒ वेण्णु॒म् । इ॒व॒वि॒तमा॒क्षि॒य॒ इ॒तु॒ ए॒ल्ला॒व॒र्न॒रु॒लु॒म्
प्ररा॒णे॒ या॒मम्’’ एन्नरु॒र् वीक्को॒नेक्क॒वरर् ।

योगयाज्ञवल्क्योऽपि – भूर्भुवः स्वर्महर्जनस्तपः सत्यं तथैव च ।
प्रत्योङ्कारसमायुक्तं तथा तत्सवितुः परम् । ओमापो ज्योतिरित्ये-
तच्छिरः पश्चात् प्रयोजयेत् । ओमापो ज्योतिरित्येष मन्त्रो वै
तैत्तिरीयकः । त्रिरावर्तनयोगान्तु प्राणायामस्तु शब्दितः इति ॥
यमोऽपि-ओङ्कारपूर्विकास्सप्त जपेत् व्याहृतीस्तथा । शिरसा सह
गायत्री प्राणायामः परं तपः इति ॥

योक्याक्तुवल्क्यरः- पूः, पुवः, लवः, मल्लः, ज्ञनः,
तपः, सत्यम् इवैवकैलौ ऽवैवान्निलुम् ऽन्कारत्तुटनं
कृष्टयतायुम्, पिऱकु ‘तत्सवितुः’ एन्पत्तयुम्, पिऱकु
‘ॐापोऽञ्जयोऽतिः’ एन्नै चिरस्लैसयुम् चेरक्क
वेण्णुम्. ‘ॐापोऽञ्जयोऽतिः’ एन्नै इन्त मन्तरम्
तत्तिरीयतत्तिलुैैतु. इवैवकैलौ मून्नैरु मृनैरु
आवैरुत्ति चेयवत्तरालौ, प्रराण्यामम् एन्क
चेल्लप्पटुकिरतु. यमनुमः- ऽन्कारत्तत्त मुतविलुैैताै
एमुै व्या॒र॒ह॒रु॒ति॒य॒, का॒यत्ती॒य॒ चिरस्लै॒टनु॒म्
ज्ञपि॒क्क॒ वेण्णु॒म् । इन्तप्रराण्यामम्, चिरन्त
तपस्सरकुम्.

अशक्तस्य जपमाह भारद्वाजः – अशक्यः स्याद्दि॒प्रोक्तः
प्राणायामो द्विजन्मनः । बालस्य चैतरेषां च दशकृत्वो जपः स्मृतः
इति । अत्यन्ताशक्तौ स एव – सप्तैव व्याहृतीरेताः केवला वा द्विजो
जपैत् । जपक्रमोऽय मेवं स्यात् सर्वपापप्रणाशनः इति ॥

சக்தி இல்லாதவனுக்கு ஜபத்தை விதிக்கின்றார். பாரத்வாஜர்:- ப்ராம்ஹணனுக்கு, சொல்லப்பட்டபடி ப்ராணை யாமம் செய்வது இயலாவிடும், சிறுவனுக்கும், மற்றவருக்கும் பத்து முறை ஜபம் விதிக்கப்படுகிறது. அதிக அசக்தி விஷயத்தில், பாரத்வாஜரே:- ப்ராம்ஹணன், இந்த ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளை மட்டில் தனியாகவாவது ஜபிக்கவும். இந்த ஜபக்ரமமும் ஸகல பாபங்களையும் அகற்றுவதாய் ஆகும்.

स च प्राणायामः पूरककुम्भकरेचक भेदेन त्रिविधः ॥ तथा च
योगयाज्ञवल्क्यः - पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामख्लिलक्षणः ।
नासिकाकृष्ट उच्छ्वासो धमातः पूरक उच्यते ॥ कुम्भको निश्चलश्वासो
रिच्यमानस्तु रेचकः ॥ बाह्यस्थितं घ्राणपुटेन वायुमाकृष्य यद्वेन
शनैः समस्तम् । नाड्यश्च सर्वाः परिपूर्णीयाः स पूरको नाम
महान्निरोधः इति ॥ कुम्भकरेचकयोर्विशेषमाहात्रिः -
आकेशाग्रान्तखाग्राच्च निरोधः शस्यते बुधैः । निरोधाज्ञायते
वायुर्वायोरग्निश्च जायते ॥ अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तश्शुद्धयते त्रिभिः ।
शनैर्नैसापुटे वायुमुत्सजेन्न तु वेगतः ॥ न कम्पयेच्छरीरं तु स योगी
परमो मतः इति ।

அந்த ப்ராணை யாமம், பூரகம், கும்பகம், ரேசகம் என்ற பேதத்தால் மூன்று விதமாயுள்ளது. அவ்விதமே, யோகயாக்ஞவல்க்யர்:- ப்ராணை யாமம், பூரகம், கும்பகம், ரேசகம் என்று மூன்று விதமாயுள்ளது. மூக்கிணல் இழுக்கப்பட்ட ச்வாஸம் பூரகம் எனப்படுகிறது. அசைவற்றதாய் ச்வாஸம் இருப்பது கும்பகம் எனப்படுகிறது. குறைக்கப்படும் ச்வாஸம் ரேசகம் எனப்படுகிறது. வெளியிலிருக்கும் வாயவை முழுவதையும் மூக்கின் த்வாரத்தினால் மெதுவாய் இழுத்து, அதனால் எல்லா நாடிகளையும் நிரப்பவும். அந்த நிரோதம் பூரகம் எனப்படுகிறது. கும்பக ரேசகங்களின்

விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறோர். அத்ரி:- கேசங்களின் நுனிமுதல் கால் நகம் நுனிவரையில் ச்வாஸ நிரோதம் ச்லாக்யம் என்கின்றனர் அறிந்தவர்கள். ச்வாஸ நிரோதத்தினின்றும் வாயு உண்டாகிறது. வாயுவினின்றும் அக்னி உண்டாகிறது. அக்னியினின்றும் ஜலமுண்டாகிறது. பிறகு இம்மூன்றினாலும் சர்ரத்தினுள் சுத்தஞ்சிருன். மூக்கின் த்வாரத்தில் வாயுவை மெதுவாய் விடவேண்டும். வேகமாய் விடக்கூடாது. சர்ரத்தை அசைக்கக் கூடாது. இவ்விதம் செய்பவன் சிறந்த யோகீ எனப்படுகிறன்.

வ்யாஸः - நாभிமधே ஸ்஥ிதं ஧்யாயேத् கं ரக்தं பூர்கேண து । நிலோத்பலாம் ஹத்பங்கே கும்மகேன ஜநார்஦னம् ॥ லலாடஸ்஥ं ஶிவं ஶ்வேतं ரேசகேநாभிசிந்தயேத् । ஶுஷ்ஸ்஫டிகஸ்ங்காஶஂ நிர்மலं பாபனாशனம् ॥ ஶங்கர்த்யங்கங்க்ஶேதஂ ஧்யாயந்முच்யேத ஬ந்஧னாத் இதி ॥ யோగயாஜாவலக்யः - பூரகே விஷ்ணுஸாயுஜ்யं கும்மகே ஬்ரஹ்மணோऽந்திகம् । ரேசகேன தூதியேன பிராபுயாதைஶ்வர் பதம் ॥ இங்யா வாயுமாரோப்ய பாஹா டாதஶமாநாகம் । பூரமித்வோदர் தேன நாஸாய்நயநங்கு: । ஧்யாயந் விரேசயேத் பஶ்சாந்மந்஦் பிங்கலா புன: இதி ॥ இங்கா வாமநாடி । பிங்கலா - ஦க்ஷிணாநாடி । கும்மகே மாநஸ ஜப: ॥

வ்யாஸர்:- பூரகம் செய்யும் பொழுது. நாபிமத்யத்ததில் இருப்பவனும், ரக்தவர்ணனுமான ப்ரஹ்மாவை த்யானிக்கவும். கும்பகத்தில், ஹ்ருதய கமலத்தில் இருப்பவனும், நீலோதப்பலம் போன்ற நிறம் உடையவனுமான விஷ்ணுவை த்யானிக்கவும், ரேசகத்திலே, நெற்றியில் இருப்பவனும், வெண்ணிறம் உடையவனுமான சிவனை த்யானிக்கவும். சுத்த ஸ்படிகம் போன்றவனும், நிர்மலனும், பாபத்தை அகற்றுபவனும், முக்கண்ணனும், வெண்ணிறமானவனுமான சங்கரனை த்யானிப்பவன் ஸம்ஸார பந்தத்தினின்றும் விடுபடுவான். **யோகயாக்ஞவல்க்யர்:-** பூரகத்தில் விஷ்ணுவின்

ஸாயுஜ்யத்தையும், கும்பகத்தில் ப்ரம்ஹாவின் ஸாமீப்யத்தையும், ரேசக்ததால் ஈச்வரனின் பதத்தையும் அடைகிறோன். இடையினால் வெளியிலுள்ள வாயுவை பன்னிரண்டு மாத்ராகாலமுள்ளதாய் ஏற்றி, அதனால் வயிற்றை நிரப்பி, மூக்கின் நுனியில் இரண்டு கண்களையும் வைத்தவனுய், பிறகு த்யானிப்பவனுய், பிங்களையினால் மொதுவாய் காற்றை வெளியில் விடவேண்டும். இடா - இடது நாடு. பிங்களா - வலது நாடு. கும்பகத்தில் மானஸமாய் ஜபம் செய்யவும்.

**ஸ்முதிரக்தே - ஦க्षिणे ரேचக் குர्या ஦்ராமேநாபூரிதோదரः | கும்஭கேந
जपं कुर्यात् प्राणायामस्य लक्षणम् इति ॥ நாரदः - பிராணோ
वायुङ्गशரीரस्थ आयामस्तस्य निग्रहः | प्राणायाम इति प्रोक्तो द्विविधः
प्रोच्यते हि सः | அगर்஭ஶ ஸ஗ர்஭ஶ ஦्वितीयस्तु तयोर्वरः | அपि ध्यानं
विनाऽगर्भः ஸ஗ர்஭स्तसமन्वितः इति ॥**

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:- இடது நாளிகாத்வாரத்தால் காற்றை வயிற்றில் நிரப்பி, கும்பகத்தால் ஜபம் செய்து, வலது நாளிகாத்வாரத்தால் காற்றை வெளியில் விடவேண்டும். இது ப்ராணை யாமத்தின் லக்ஷணமாம். நாரதர்:- ப்ராணன் என்பதற்கு சர்ரத்திலுள்ள வாயு என்பது பொருள். ஆயாமம் என்பதற்கு அடக்குவது என்பது பொருள். வாயுவை அடக்குவது ப்ராணையரமம் எனப்பட்டது.. அது, அகர்ப்பமென்றும், ஸகர்ப்ப மென்றும், இரண்டு விதமாய்க் சொல்லப்படுகிறது. அவைகளுள் இரண்டாவது சிறந்ததாகும். த்யானம் இல்லாமல் செய்யப்படுவது அகர்ப்பம். த்யானத்துடன் கூடியது ஸகர்ப்பம்.

**भारद्वाजः - समाहितमनाः प्राणानायम्यैव तदाकृतिम् ।
दशाकृत्वो जपित्वैवं प्राणायत्रीं ततो जपेत् । जपक्रमोऽयमेवं स्यात्
सर्वपापप्रणाशनः इति । ததாகृतिं - கும்஭கஜபோக்ரूபாம् ॥**

पारत्त्वाज्ञारः:- एकाक्षरमाण मनम् उटेयवण्ये, प्राणे यामम् चेय्तु, कुम्पक ज्ञपत्तिल शोल्लप्पट्ट वष्टिवै पत्तु मुरेह मुत्तिल ज्ञपीत्तु, प्रिरु, कायत्तिये ज्ञपीक्कवुम्. इवंवितम् उल्ला इन्त ज्ञपक्करमम्, लकल पापन्कलौयम् अकर्त्रुवत्ताय आकुम्. मर्त्तिरु लंग्मुरुत्तियिलः:- एमु वंयाह्मरुत्तिकर्त्तुन्कृत्य कायत्तिये चिरल्लस्तन् पत्तु मुरेह ज्ञपीत्त प्रिरु के कायत्तिये ज्ञपीक्क वेण्णुम्.

ऋष्यादिकमाह भारद्वाजः – प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्म परमात्मा च देवता । छन्दस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशः इति ॥ पितामहः – प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्म देवताऽग्निस्थायी च सा । छन्दस्तु देवी गायत्री वेदादौ विनियुज्यते ॥ जपकाले त्रयी देवो होमकाले हुताशनः । ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्ततोऽन्यदा इति ॥

रुषी मुत्तियतेत्त शोल्लुकिरुरः. **पारत्त्वाज्ञारः:-** प्रणवत्तिर्त्तु प्रम्हम् रुषी, परमात्मा तेवतेत, तेवी कायत्तरी सन्तत्तस्स, विनियोगकम् कर्तियेयक्कुत्त तकुन्तत्तु. पितामाहुराः:- प्रणवत्तिर्त्तु प्रम्हम्, रुषी, तेवतेत अक्णी, तर्त्रयीयम् (मुन्नरु वेतन्कल्ल). सन्तत्तस्स तेवी कायत्तरी, वेतम् मुत्तियतिल विनियोगकम्. ज्ञपकालत्तिल तर्त्रयीतेवतेत, लेहामकालत्तिल अक्णीतेवतेत, त्यान कालत्तिल प्रप्रम्हम् तेवतेत. मर्त्त कालत्तिल विच्वेतेवर्कल तेवतेत.

व्याहृतीनां ऋष्यादिकमाह स एव – अत्रिभूगुश्च कुत्सश्च वसिष्ठो गौतमस्तथा । काश्यपश्चान्निराश्रैव ऋषयस्युर्यथाक्रमम् ॥
गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पङ्किरेव च । त्रिष्टुप्च जगती चैव छन्दांस्येतानि सप्तवै ॥ अग्निवर्युस्तथाऽर्कश्च वागीशो वरुणस्तथा ।

இந்தஶ் விஶேதோஶ ஦ேவதா: ஸமுடாஹ்தா: ॥ ஬்ராஹ்மி ஸ்வாஹா வாஹினி ச
ததா நித்யா விலாசினி । ப்ரமாவதி ச லோலா ச ஸஸ்வாஹ்திஶக்தி: ॥
ஶ்ரேத் ஶயாம் ச பீத் ச பிஶங் நிலலோஹிதம் ॥ நீல் கனகவர்ண் ச
வர்ணாந்தென்றுக்மாத் ॥ விஶாமித்ரஸ்து ஗ாயத்ரா த்ரष்ண்ட: ஸ்வய்
ஸ்மृதம் । ஸவிதா ஦ேவதா சை ஬்ரஹ்மா திர த்ரषி: ஸ்மृத: ॥ அனுஷ்டுதே
த்தந்தஸ்தாதுப்ரமாத்மா ச ஦ேவதா இதி ॥

வ்யாஹ்ருதிகளுக்கு ருஷி முதலியதைச்
சொல்லுகிறோம். பிதாமஹரோ:- ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளுக்கும்,
முறையே அத்ரி, ப்ரகு, குத்ஸர், வளிஷ்டர், கெளதமர்,
காச்யபர், அங்கிரஸ் இவர்கள் ருஷிகளாவர், காயத்ரி,
உஷ்ணிக், அனுஷ்டுப், ப்ரகுஹதி, பங்கதி, தரிஷ்டுப், ஜகதீ
இவைகள் ஏழும் சந்தஸ்ஸூக்களாம். அக்னி, வாயு,
அர்க்கன், வாகீசன், வருணன், இந்த்ரன், விச்வேதேவர்
இவர்கள் தேவதைகள். ப்ரராம்ஹி, ஸ்வாஹா, வாஹிநீ,
நித்யா, விலாஸினீ, ப்ரபாவதி, லோலா என்ற ஏழும்
சக்திகளாம், சுவேதம், ச்யாமம், பீதம், பிசங்கம்,
நீலலோஹிதம், நீலம், கனகவர்ணம் இவ்வேழமும்
முறையே வர்ணங்களாம். காயத்ரீக்கு விச்வாமித்ரர் ருஷி,
காயத்ரி சந்தஸ், ஸவிதா தேவதையாம். சிரஸ்ஸூக்கு
பரம்ஹா ருஷி, அனுஷ்டுப் சந்தஸ், பரமாத்மா
தேவதையாம்.

யோग்யாஜ்வல்க்யஸ்து - வ்யாஹ்தீனா் ச ஸர்வா ஸுஷிஶை
ப்ரஜாபதி: । அஸ்திரியுஸ்ததாத்திர்யோ வூஹஸ்பத்யாப ஏவ ச । இந்தஶ் விஶே
தைஶ ஦ேவதா: ஸமுடாஹ்தா: । திரஸ: ப்ரஜாபதி: த்ரष்டிர்யுஷ்ண்டோ
விவக்ஷிதம் ॥ (ப்ரஹ்மிவாயுஸூர்யாஶ இதி கசித् ।) அஸ்திரியுஶ ஸூர்யா
தைஶ: பரிகிர்திதா: । ப்ராணாயாமப்ரயோதே து விநியோக உதாஹத: இதி ॥

யோகயாக்ஞவல்க்யர் : - எல்லா வ்யாஹ்ருதி
களுக்கும் ப்ரஜாபதி ருஷி, அக்னி, வாயு, ஆதித்யன்,
ப்ரகுஹஸ்பதி, ஜலம், இந்த்ரன், விச்வேதேவர் இவர்கள்

तेवतेतकालीन. चिरस्लेषाकंकु प्ररज्जापति गुणी, यज्ञास्लं
सन्ततास्लं, अकंनी, वायु, शारीर्यान् इवार्ते तेवर्कालीन.
(पिरुम्मारा, अकंनी, वायु, शारीर्यान् इवार्कालीन तेवतेत
एनंपर.) प्रराण्याम प्ररयोकात्तिल विनियोगाकम एन्ऱुरा.

न्यासमाहस एव — पादयोर्ज्ञयोर्जान्वोस्तथैव जठरेऽपि च ।
कण्ठे मुखे तथा मूर्धिं क्रमेण व्याहृतीन्यसेत् ॥ भूरङ्गुष्टद्ये न्यस्य
भुवस्तर्जनिकाद्ये । ज्येष्ठाङ्गुलिद्ये धीमान् स्वः पदं विनियोजयेत् ॥
अनामिकाद्ये धीमान्व्यसेत्तत्पदमग्रतः । कनिष्ठिकाद्ये भर्गः
पाण्योर्मध्ये धियः पदम् ॥ भूः पदं हृदि विन्यस्य भुवः शिरसि
विन्यसेत् । शिखायां स्वः पदं न्यस्य कवचे तत्पदं न्यसेत् ॥ अक्षणोर्मर्गः
पदं न्यस्य न्यसेद्दिक्षु धियः पदम् । शिरस्तस्यास्तु सर्वज्ञे प्राणायामपरो
न्यसेत् ॥ विन्यस्यैवं ततः कृत्वा मुद्रां ध्यात्वा क्रमेण तु । पूरकादिक्रमेणैव
प्राणायामान् समाचरेत् ॥ पद्ममुद्रा सौरभेयी शङ्खमुद्रा वराहका ॥
वासुदेवात्मसंविच्च सप्तव्याहृतिमुद्रिकाः इति ॥

न्यासलैत्तत्त्वाच चेषाल्लुकिग्रुरां, योक्याकंकुलंक्यरो
:- पातन्त्रकालीन कल्पकालं मुमुक्षुकालं, वयिरु, कण्टटामं,
मुकमं, तालै इवेकलीलं मुरार्हये ऋमु-
व्याहृलंगुरुतिकलौयमं न्यलिक्कवुमं. 'पूः' एनंपतेत इरण्णु
पेरुविरलंकलौयमं, तर्जुनीं विरलंकालीन इरण्णिलौयमं 'पुवः'
एनंपतेतयमं, विरुविरलंकालीन इरण्णिलौयमं 'स्वः'
एनंपतेतयमं न्यलिक्कवुमं. पवित्रविरलंकालीन इरण्णिलौयमं
'ततः' एनंर पातत्तत्तयमं, चिरु विरलंकालीन इरण्णिलौयमं,
'परक्कः' एनंर पातत्तत्तयमं, केककलीनं नुविलं 'त्रियः'
एनंर पातत्तत्तयमं, 'पूः' एनंपतेत उरुरुतयत्तिलौयमं, 'पुवः'
एनंपतेत चिरस्लेषालौयमं, 'स्वः' एनंपतेत चिककयिलौयमं, 'ततः'
एनंर पातत्तत्त कवक्तत्तिलौयमं, 'परक्कः' एनंर पातत्तत्तकं
कण्ककलीलौयमं, 'त्रियः' एनंर पातत्तत्त त्रिक्कुकलीलौयमं, अतां
चिरस्लेषाले शर्ववाङ्कन्ककलीलौयमं प्रराण्याम प्रस्तुवान्
न्यलिक्कवे वेण्णुमं. इवंवितमं विन्यासमं चेय्यतु,

முத்ரைகளைச் செய்து, க்ரமமாய்ச் த்யானித்து, பூரகாது க்ரமமாகவே ப்ராணையாமங்களைச் செய்யவும். பத்மமுத்ரா, தேனுமுத்ரா, சங்கமுத்ரா, வராஹா, வாஸு தேவ முத்ரா, ஆத்ம முத்ரா, ஜ்ஞான முத்ரா என்று முத்ரைகள் ஏழாம்.

பிணவध்யானமுக்த மன்றைவதாப்ரகாಶிகாயாம् — விஷ்ணு
भास्वत्किरीटाङ्गदवलयगलाकल्पहारोदराङ्गिश्रोणीभूषं सुवक्षोमणि-
मकृटमहाकुण्डलामण्डिताङ्गम् । हस्तोघच्छङ्गक्राम्बुजगदममलं
पीतकौशेयवीतं विद्योतद्वास मुद्यदिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमामि इति ॥

ப்ரணவத்தின் த்யானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது மந்த்ரதேவதாப்ரகாசிகையில்:- விஷ்ணும் + பத்மஸம்ஸ்தம் நமாமி' இதன் பொருள் - “ப்ரகாசமுன்ன கிரீடம், தோள்வளைகள், கடகங்கள், கண்டாபரணம், ஹாரம், வயிற்றிலும் கால்களிலும் இடுப்பிலும் அணியக்கூடிய ஆபரணங்கள் இவைகளையடையவனும், நல்ல மார்புடையவனும் மணிகிரீடம், மஹா குண்டலங்கள் இவைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அங்கங்களை உடையவனும், கைகளில் ப்ரகாசிக்கும் சங்கம் சக்ரம், பத்மம், கதை இவைகளை உடையவனும், நிர்மலனும், மஞ்சள் நிறமான ஆடையுடைவனும், விசேஷமாய் விளங்கும் ஒளியையடையவனும், உதிக்கும் ஸார்யனுக்குச் சமமானவனும், தாமரையில் வீற்றிருப்பவனுமான விஷ்ணுவை வணங்குகின்றேன்” என்று.

व्यासः — स्वस्वोक्तवर्णतनवो रूपयौवनसंयुताः । क्षौमवस्त्र-
परीधानाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ दिव्यचन्दनलिसाङ्गा दिव्यमाल्यैर-
लङ्घताः । सितोपवीतहृदयाः सपवित्राश्रतुष्कराः ॥ उन्निद्रवदनांभोज
प्रभामण्डलमण्डिताः । जटाकलापपूर्णन्दुप्रभापूरितदिङ्गुखाः ॥
अभयाक्षसगप्पात्रवरहस्तसरोहहाः । एवं होमजपारम्भे ध्येया व्याहृतयो
द्विजैः ॥

वंयासारः- अवरवरुक्कुचं शोल्लिय वर्णनमुटेय
सरीरमुटेयवरुम्, रुपत्तुटनुम् येणवन्त्तुटनुम्
कृष्टियवरुम्, वेण्णपट्टु आटेयये अणीन्तवरुम्,
लकल आपरणाङ्कलालुम् अलंकरीक्कप्पट्टवरुम्,
तिव्यसन्तनत्ताल्प ध्रुचप्पट्टवरुम्, तिव्य मालैकलाल्प
अलंकरीक्कप्पट्टवरुम्, वेणुत्त उपवीतत्तत्त
मार्पिलुल्ल उटेयवरुम्, पवित्रम् अणीन्तवरुम्, नाणंकु
केकलौ उटेयवरुम्, मलर्न्त मुकपत्तमत्तिन्ळ छलीयिण्णल्
अलंकरीक्कप्पट्टवरुम्, ज्ञातामकुत्तत्तिल्ल उंला धूर्ण
सन्तरनीन्ळ कान्त्तियाल्प निऱेक्कप्पट्ट तिक्कुकलौ
उटेयवरुम्, अपयम्, ज्ञपमालै, कमण्णलु, वरम्
इवेकलौक्क केकलील्ल उटेयवरुमाक व्याहूरुति
तेवतेकलौ, लेंगाम ज्ञपारम्प कालंकलील्ल
प्रराम्भूरणारक्कल त्याणीक्क वेण्णटुम्.

गायत्री ध्यानम् — मुक्ताविद्वमहेमनीलधवलच्छायै-
मुखैस्त्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुकलानिबद्धमकुटां तत्त्वात्म(थ)वर्णात्मिकाम्।
गायत्रीवरदाभयाङ्गुशकशाः शुश्रंकपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्द्युगलं
हस्तैर्नहन्तीभजे इति ॥

कायत्तिर्त्याणामः- ‘मुक्तावित्तरुम + वहन्तीम् पद्जे’
छित्तं बेपारुलः- “मुत्तु, पवम्मम्, तन्कम्, न्लेम्,
वेणुप्पु इन्त निऱंकरुटेयतुम्, मुम्मुन्ऱन्ऱ
कण्णकरुटेयतुमाण ज्ञन्तु मुकंकरुटन्ळ कृष्टियवरुम्,
सन्तरनुटन्ळ चेर्न्तुलौ रत्तनीकीटम् अणीन्तवरुम्,
परम्भूरुत्तत्तसं शोल्लियुम् वर्णनेल्लपिणीयायुम्,
पत्ततुक्क केकलाल्प वरताणम्, अपयताणम्, अंकुचम्,
कतेत, वेण्णणीरमाण कपालम्, नाणं, संकम्, संरम्,
इरण्णटु तामरेप धुष्पनंकल इवेकलौत्
तरीत्तवरुमाण कायत्तरीये लेवीक्किन्नरेण्ण” एन्ऱ्रु.

इत्येवं कुर्वतः फलमाह संवर्तः – मानसं वाचिकं पापं कायेनैव तु
यत्कृतम् । तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रं प्राणायामत्रये कृते इति ॥
योगयाज्ञवल्क्योऽपि – प्राणायामत्रयं कृत्वा सूर्यस्योदयनं प्रति ।

நிர்மலா: ஸ்வர்஗மாயாந்தி ஸந்த: ஸுகृதினோ யथா இதி । மனு: - பிராணாயாமா பிராஹ்ணஸ்ய நிர்மாதபி வி஧ிவது கூடா: । வ்யாஹ்திப்ரணவீர்த்தா விஜேயம் பரம் தப: ॥ ஦க்ஷன்தே ஧்மாயமானான் ஧ாதூநா ஹி யதா மலா: । ததேந்திர்யாணா ஦க்ஷன்தே ஦ோஷா: பிராணஸ்ய நி஗்ரஹத் ॥ ஸ்வாஹ்திகா: ஸப்ரபா: பிராணாயாமாஸ்து ஷோத்ரா । அபி ஷூணஹந் மாஸாது புனந்த்யஹரஹ: கூடா: இதி ॥

இவ்விதம் செய்யபவனுக்கு பலனைச் சொல்லுகிறார் ஸம்வர்த்தார்:- மனதினாலும், வாக்கினாலும், காயத்தினாலும், எந்தெந்தப் பாபம் செய்யப்பட்டதேர் அதெல்லாம், மூன்று ப்ரராணை யாமங்கள் செய்தால் உடனே நஷிக்கின்றது. யோக்யாக்ஞவல்க்யரும்:- ஸுரர்யோதய காலத்தில், மூன்று ப்ரராணை யாமங்கள் செய்தால் அவர்கள், பாபபமற்றவராய், புண்யம் செய்தவர்கள் போல் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகின்றனர். மனு: - வ்யாஹ்நுதிகளுடனும், ப்ரணவத்துடனும் சேர்த்து, விதியுடன் செய்யப்பட்ட மூன்று ப்ரராணை யாமங்கள், ப்ரராம்ஹணனுக்குச் சிறந்த தபஸ் என அறியத் தகுந்தது. உலையில் ஊதப்படும் தாதுக்களின் மலங்கள் எப்படி பொசுக்கப்படுகின்றனவோ, அப்படி, ப்ரராணை யாமத்தால், இந்தரியங்களின் தோஷங்கள் தஹிக்கப்படுகின்றன. வ்யாஹ்நுதிகளுடனும், ப்ரணவத்துடனும் கூடிய ப்ரராணை யாமங்கள் பதினாறு, பரதி தினம் செய்யப்பட்டால், ஒரு மாஸத்தில், ப்ரம்ஹஹத்யை செய்தவனையும் சுத்தனுக்குகின்றன.

ஶௌநக: - பிராணாயாமாந் ஧ாரயேத்ரீந् யதாவி஧ி ஸமாஹித: । அஹோராத்ரகृத் பாப் தத்க்ஷணாதேவ நஶ்யதி ॥ ஆத்மா சு஧யேதூதாஸமிஶ்வதுர்விர்தாதுபரம் தப: இதி ॥ யமோபி - தாப்ரணவஸ்யுக்தை: பிராணாயாமைஶ்வதுர்வை: । முஞ்சதே திருத்தாயா: மாஸாக்ஷைப்பாதகை: இதி ॥

செளாணகார்:- கவனமுடையவனுய், விதிப்படி மூன்று ப்ரராணை யாமங்களைச் செய்ய வேண்டும். ஒருநாள் முழுவதும்

चेयंत प्रापम् अन्त षष्ठ्यत्तिलेये न किंकिन्नरतु. पन्नीरण्णां प्रराणे यामनंकालालं सित्तमं सत्तमाकिन्नरतु. इरुपत्तु नान्कु प्रराणे यामनंकालालं किरन्त तपस्स एरपाटुकिन्नरतु. यमनुमः:- पत्तु प्ररणवन्काळां षष्ठ्य पतिण्णन्कु प्रराणे यामनंकालं चेयंताल, ओरु मालत्तिलं प्ररम्भै लृत्ययीनीन्नरुम् विटुपाटुवाणं, उपपातकंकालालुम् विटुपाटुवाणं.

व्यासः - सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह। ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित् इति ॥ योगयाज्ञवल्क्योऽपि - य एता व्याहृतीस्सप्त संस्मरेत् प्राणसंयमे । उपासितं भवेत्तेन विश्वं भुवनसप्तकम् । सर्वेषु चैव लोकेषु कामचारश्च जायते ॥ षोडशाक्षरकं ब्रह्म गायत्र्यास्तु शिरः स्मृतम् । सकृदावर्तयन् विप्रः संसारादपि मुच्यते इति ।

व्याख्यालः :- व्याख्यालं गुरुकिंकाळानुम, प्ररणवत्तुलानुम, शिरस्सलाटानुम कृष्णय कायत्तीये एवर्कालं नित्यमुम् जपिक्किन्नरणरो अवर्काळकु कु ओरुकालुम् पयमिल्लै. यें याकंकालवल्क्यरुमः :- एवनं, प्रराणे यामत्तिलं इन्त एमु व्याख्यालं गुरुकिंकाळायुम् स्मरीक्किन्नरुलै. अवनेलं एमुलुकंकालं मुमुवतुम् उपालीकंकपपट्टवेवयायं आकुम्. अवनुक्कु, लकल उलकंकलीलुम् इष्टपपटि लंकार चक्तियुम् उन्टाकिन्नरतु. पतिण्णरु अक्षरानंकाळायुलै वेतवाक्यम् कायत्तीक्कु, शिरस्स एनपपाटुकिरतु. अतेह ओरु तटवेल जपित्तालुम् प्रराम्भैरण्णनं लम्लारत्तिनीन्नरुम् मुक्तालुकिरुन्.

—★—

गायत्र्यावाहनव्याहृत्यर्थौ ।

अथ गायत्र्यावाहनम् । भरद्वाजः - आयात्वित्यनुवाकेन हृदये वाऽर्कमण्डले । देवीमावाह्य गायत्री ततो ध्यायेद्विजोत्तमः इति ॥

பிதாமஹ: - ஆயாத்வித்யநுவாகேன ஦ேவீமாவாஹயேத்த: ।
 ஆயாத்வித்யநுவாகஸ்ய வாமதேவ க்ரஷி: ஸ்மृத: ॥ சந்஦ோ^३நுஷ்டமவேदஸ்ய
 ஗ாயத்ரீ ஦ேவதா ஸ்மृதா । அனேன சாநுவாகேன த்வாவாஹ து யதாவி஧ி ॥ ஗ாயத்ரீ
 விமலாஂ ஦ேவீ ஹடி வா ஸூரீமண்டலே । ஧்யாநயோగேன ஸ்பஷ்டேஷ்டிர்ணரூப-
 ஸமநிதிதாம் ॥ பிராணா நாயம்ய சாவாஹ ஸ்மृத்வஷ்டாதித்ததோ ந்யசேத । முத்ரா:
 பிரத்ர்ய ஧்யாத்வா^४ ஜபேந்மந்த்ரமய் க்ரம: இதி ॥

காயத்ரீ ஆவாஹனமும், வ்யாஹ்ருதிகளின்
 அங்தத்தமும்

இனி, காயத்ரீயின் ஆவாஹனம் சொல்லப்படுகிறது.
 பரத்வாஜர்:- ‘ஆயாது’ என்ற அனுவாகத்தால்,
 ஹ்ருதயத்திலாவது, ஸ்தர்யமண்டலத்திலாவது, காயத்ரீ
 தேவியை ஆவாஹனம் செய்து, பிறகு ப்ராம்ஹணன்
 த்யானிக்க வேண்டும். பிதாமஹர்:- பிறகு ‘ஆயாது’ என்கிற
 அனுவாகத்தால் காயத்ரீயை ஆவாஹனம் செய்ய
 வேண்டும். ‘ஆயாது’ என்ற அனுவாகத்திற்கு, வாமதேவர்
 ருவி எனப்படுகிறார். அனுஷ்டுப் சந்தஸ் ஆகின்றது. காயத்ரீ
 தேவதை எனப்படுகிறாள். இந்த அனுவாகத்தால் விதிப்படி
 ஆவாஹனம் செய்து, நிர்மலையான காயத்ரீ தேவியை,
 ஹ்ருதயத்திலாவது, ஸ்தர்ய மண்டலத்திலாவது, வர்ண
 ரூபங்களுடன் கூடியவளாய் த்யானிக்க வேண்டும். பிறகு,
 ப்ரானையாமம் செய்து, ஆவாஹனம் செய்து, ருவி
 முதலியதை ஸ்மரித்து ந்யாஸம் செய்து, முத்ரைகளைக்
 காண்பிவித்து, த்யானம் செய்து, பிறகு மந்த்ரத்தை
 ஜபிக்கவும். இது க்ரமமாகும்.

ஸ்தோனக: - ஆவாஹந் தைத்திரீயே ஹுக்க் சாபி விஸர்ஜநம் இதி ॥
 மந்த்ரமாஹ ஗ோமில: - ஆயாது வரதா ஦ேவீ அக்ஷரே ஬்ரஹ்மாதிநி ।
 ஗ாயத்ரீ சந்஦ஸாஂ மாதா ஬்ரஹ்மோனே நமோ^५ஸ்து தே இதி ॥ வ்யாஸோ^६பி -
 ஆவாஹயேது ஗ாயத்ரீ ஸ்வர்பாபப்ரணாஶிநிம் । ஆகஞ்சல் வரதே ஦ேவி ஜப்யே மே
 ஸனி஧ௌ ஭வே: ॥ ஗ாயந்த் திரயை யஸ்மாநாயத்ரீ த்வं தத: ஸ்மृதா இதி ॥

बृहस्पतिः - क्रष्णं छन्दो देवतां च ध्यात्वा मन्त्रार्थमैव च । गायत्र्यास्तु समस्ताया क्रष्णच्छन्दोऽधिदेवताः ॥ स्मृत्वा प्रत्यक्षरं पश्चाद्घ्यादीनथं संस्मरेत् इति ॥

केशानकारः - आवाहनामुम्म, विशर्जनामुम्म, तत्त्वत्तिर्ग्यत्तिलं शोल्लप्पट्टुं लातु. वेऱु मन्त्रत्तत्तेशं शोल्लुकिरुर् कोपीलारः - 'आयातु' + नमेास्तुतेते'. वंयास्त्रुम्मः - लकल पापन्कज्ञाम् अकर्त्रुम् कायत्तिरीये आवाहनाम् चेय्य वेण्णुम्. 'आक्षस्चवरतेते तेवी + स्मंग्रुता' एनपतु मन्त्ररमाम्. पंगुहूस्पतीः - रुषी, सन्तस्स, तेवतेत, मन्त्ररार्तत्तम् इवकज्ञात्यानीक्क वेण्णुम्. लकलैयान कायत्तिरीयिन् रुषी, सन्तस्स, तेवतेत इवकज्ञा स्मारीत्तुप् पिऱ्हु, रुषेवारु अक्षरत्तिर्कुम् रुषी मुतलीयतेत स्मारीक्क वेण्णुम्.

पितामहः - सविता देवता यस्या मुखमग्निखिपाच्च या । विश्वामित्र क्रष्णच्छन्दो गायत्री सा विशिष्यते इति ॥ व्यासः - विश्वामित्र क्रष्णच्छन्दो नृचिद्रायत्र मुच्यते । देवता परमात्मा च सविता वा प्रकीर्तिः ॥ प्राणायामे जपे त्वद्यदाने च विनियुज्यते इति ॥

पीठामहारः - एव गुक्कु लवीता तेवतेतेयो, अक्णी मुकमें, एवलं लुन्नरु पातन्कज्ञा उत्तेयवलें, एव गुक्कु लीकवामित्तरार् रुषीयो, कायत्तर् सन्तस्सलें, अवलं पुक्मप्पट्टुकिरुलं. वंयास्त्रः - लीकवामित्तरार् रुषी, निक्करुत् कायत्तरम् सन्तस्स, परमात्मा अल्लतु लवीता तेवतेत. पराणे यामत्तिलुम्, जपत्तिलुम्, अर्क्कय त्राणत्तिलुम् लीनीयोकम्.

ओं भूरित्यादीनामयमर्थः - अकारोकारमकारात्मकस्य प्रणवस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरात्मकः परमात्मा प्रतिपाद्योऽर्थः । तेन सह सप्तव्याहृतिप्रतिपाद्यार्थस्यैकत्वमुच्यते । ओं भूः - सत्त्वास्वभावः प्रणवार्थः । एवमो भुवः - स्थितिकाले सर्वमस्मिन् भवतीति भुवः । सर्वस्थितिकारणमपि प्रणवार्थः । ओं सुवः - सुपर्वस्य वृज् वरण

இத்யस्य रूपम् । शोभनैः सनकादिभिर्वृत्तम् । सुषु सर्वं वृणोति व्याप्रोतीति वा सुवः ब्रह्म । औं महः - महते: पूजाकर्मणो रूपम् । मुमुक्षुभिः पूजनीयत्वात् ब्रह्मैव मह इत्युच्यते । औं जनः - जनेरन्तर्भावितप्यर्थस्य रूपम् । सर्वस्य जगतो जनकं ब्रह्मेत्यर्थः । औं तपः - तपतेरन्तर्भावितप्यर्थस्य रूपम् । सूर्यात्मना स्थित्वा जगत्तापयति प्रकाशयतीति तपः । तदपि प्रणवार्थ एव । औं सत्यं - कचिदपि देशो काले वस्तुनि केनापि प्रमाणेनावाधितम् । सच्च त्यच्चेति वा सत्यं कार्यं कारणमप्यदः । प्रत्यक्षं च परोक्षं च यद्वा सत्यमितीरितमिति । तदपि प्रणवार्थ एव । यद्वा - भूरित्येतदधोलोकानामप्युपलक्षणम् । भूप्रभृतयश्च सप्त उपरि लोकाः पातालाद्याश्च अधोलोकाः सप्त चतुर्दशलोका अपि ब्रह्मकार्यत्वात्तदुपादानभूतब्रह्मात्मका इत्यर्थः ॥

ஓம் பூ: என்பது முதலியவைக்கு இது அர்த்தம்:- அகார உகார மகாராத்மகமான ப்ரணவத்திற்கு ப்ரம்ஹவிஷ்ணு மஹேஸ்வரஸ்வரூபியான பரமாத்மா பொருள். அவருடன், ஒழு வ்யாஹ்ருதிகளால் ப்ரதிபாத்யமான அர்த்தத்திற்கு ஜக்யம் சொல்லப்படுகிறது. ஓம்பூ: = ஸத்தா ஸ்வரூபம் பிரணவார்த்தம். இவ்விதம் ஓம் புவ: - ஸதிதி காலத்தில் ஸகலமும் இவனிடத்தில் இருக்கிறது என்பதால் புவ: ஸர்வ ஸதிதி காரணமும் ப்ரணவார்த்தம். ஓம் ஸாவ: + சோபனர்களான ஸனகாதிகளால் வரிக்கப்பட்டது. அல்லது, நன்றாய் எல்லாவற்றையும் வ்யாபிக்கின்றது என்பதால் ஸாவ: - ப்ரம்ஹம். ஓம் மஹ: - முக்தியை விரும்புகிறவர்களால் பூஜிக்கத்தக்கதாய் இருப்பதால் ப்ரஹ்மமே மஹ: எனப்படுகிறது. ஓம் ஜந: - ஸகல ஜகத்திற்கும் ஜநகம் ப்ரம்ஹம் என்று பொருள். ஓம் தப: - ஸத்ரய ஸ்வரூபமாய் இருந்து ஜகத்தைத் தபிக்கச் செய்கின்றது. அதுவும் ப்ரணவார்த்தமே. ஓம் ஸத்யம் = ஒரு தேசத்திலும், ஒரு காலத்திலும், ஒரு வஸ்துவிலும், எந்த ப்ரமாணத்தாலும் பாதிக்கப்படாதது. அல்லது

संतोवरज्जन्कम रुपमायीरुप्पतुम्, कारय कारण
रुपमायीरुप्पतुम्, प्ररथ्यक्षु परोक्षु रुपमायीरुप्पतुम्,
'सत्यम्' एनप्पेटु किरतु एन्ऱु चेऽल्लप्पट्टतुम्
प्ररणवार्त्तमेऽ. अल्लतु, तुः एन्पतु किञ्चि
उलकंकगुक्कुम उपलक्ष्मिन्म. त्रुमि मुतलीय एमु
मेलुलकंकगुम, पाताळाम् मुतलीय एमु किञ्चुलकंकगुम.
अन्तप्प चिन्नेन्कु उलकंकगुम प्रम्हृत्तिन्म
कारयन्कगुन्ताल, अवेकगुक्कु उपाताळ
कारणमाक्षिय प्रम्हृत्तमकंकगुन्ताल एन्पतु बेपारुन्म.

गायत्र्यर्थः

अथ गायत्र्यर्थः - सवितुः - सर्वजगतः प्रसवितुः
जगत्कारणस्य । देवस्य - द्योतनस्वभावस्य स्वयंप्रकाशचिदेकरसस्य ।
बरेण्यं = बरणीयं सर्वैः प्रार्थनीयं सुखैकतानरूपम्, सर्वैः सुखस्यैव
प्रार्थनीयत्वात् । भर्गः - भ्रस्ज दाहे । प्रकृतिप्राकृतलक्षणस्य संसारस्य
दाहकम् । यः धियः - धीवृत्तीः प्रचोदयात् - प्रेरयति, तस्य
बुद्ध्यादिप्रेरकस्य सवितुर्वेस्य बरेण्यं परमानन्दैकरसं भर्गः -
सकाशान्तः, संसारदाहकं निर्गुणं ब्रह्म धीमहि - ध्यायामः इति ॥

कायत्रीयिन्न अर्त्तम्

त्रिणी कायत्रीयिन्न अर्त्तम् चेऽल्लप्पटु किरतु.
सवितुः + लकल ज्ञकत्तिर्कुम कारणमाक्षिय, तेवल्लय =
प्ररकाश चित्तस्वपावण्णु, वरेण्यम् = एल्लेलारालुम्
प्ररार्त्तिक्कक्क कृष्णताळा, लाक्षस्वरुपमाण, लाक्षमे
एल्लेलारालुम् प्ररार्त्तिक्कक्त तकुन्तताळाल परकः -
सम्लारत्तिर्कु तालुकमाण, यः - एवण्ण, त्रियः = पुत्रत्ति
वरुत्तिकौला, प्ररेत्तात्यात् = एवुक्तिन्ऱुग्ने, अन्त,
पुत्र्यात्तिकृक्कु प्ररेत्तालुन सवितावाण तेवणीन्न,
वरेण्यम् - परमानन्ततेत्तरलमाण, परकः -
सम्लारतालुकमाण नीरक्कुणमाण प्रम्हृत्ततेत, त्रिमही
- त्याणीक्किन्न ग्रेम, एन्ऱु.

ස්මූතිමාසකරे - තදිත්‍යේතත් පරං බ්‍රහ්ම දෘශ්‍යෙන් තත්සුර්යමණ්ඩලे । සභිතු: සකලොත්පත්‍රිස්ථිතිසංහාරකාරිණ: ॥ බැරේණ්‍යමාච්‍රයණීයන් යදාධාරමිද ජගත् । බර්ග: ස්වසාක්ෂාත්කාරෙණාවිධාතකාර්යදාහකමු ॥ දෙවස්‍ය නොන්දන් ස්වානන්දාත් ක්‍රිඛ්‍රෝජ්‍යා බා । දීමහාහ් ස එවෙති තෙනැබාමේදසිද්‍යා ට ॥ අධ්‍යෝජන්ත: කරණා බුත්තී: ප්‍රත්‍යකුප්‍රවණකාරිණී: ॥ ය ඇත්‍යරුපමඩ්‍රුක් සත්‍යඝානාදිලක්ෂණමු ॥ නොඝ්‍රාකං බහුධාඝ්‍රස්ථ- බෙදෙනැනේ දෙහිනාමු । ප්‍රච්‍රාදයාත් ප්‍රේරය(ති)තු සත්‍යඝානාදිලක්ෂණ: ඇති ।

ස්ම්‍රින්ති පාස්කරත්තිල්: - තත් ගන්පතු පරපරමඹම්. අතු සාමූර්යමණ්ඩලත්තිල් ත්‍යාණික්කත් තැතැත්තු. සැඩිතු: - සෙකල දැක්ත්තුක්කුම දැන්ම එත්ති සෙමඹාරණක්කීන් රැස්‍යුම්. වරෙණ්‍යම - ආශ්‍රායික්කත් තැතැත්ත, මින්ත ඉලකම් ගතෙ ඇතාරාමාක ඉடෑය තො, පර්ක: - තන්නීන සාක්ෂාත්කාරීප්පතාල් අවිත්‍යායායුම් අත්‍යන් කාර්යත්‍යායුම් තහවුරු ප්‍රාත්‍යායියතු. තෙවස්‍ය- ස්න්ගාන්‍රායා ප්‍රාත්‍යායිය, අල්ලතු තන් ආනන්තත්තාල් ක්රේඩික්කීන්‍ර තීමහ්‍රි - නාං අවෙනු ගන්‍රු, අවෙනුගු අපෙතම එත්තිප්පතර්කාක, තිය: - අන්ත: කරණව්‍රුත්තික්කීනා, ඉංනොක්කිස් රැස්ලප්පාවක්කාය. ය: - ණුපමර්‍රවනුම්, ව්‍යක්තමල්ලාතවනුම්, එත්‍යම ස්න්ගානම් මුතලියතෙ ලක්ෂණමායු ගැනීමු අත්‍යායික්කප්පට් පෙතත්තාල් අනෙක තෙහුරික්කාන නම් මුණෑය. ප්‍රශ්නාතයාත් = ගුවක්කීන්‍රුගො. (ගුවවෙන්ගුම්) එත්‍යක්න්ගැනීම් ලක්ෂණගැනීම් යුතු ඇති.

විශ්වාමිත: - දෙවස්‍ය සභිතුස්ථස්‍ය අධ්‍යෝ‍යන: ප්‍රච්‍රාදයාත්. බර්ග් බරේණ්‍ය තදුහ් දීමහීත්‍යර් ඉච්‍යතේ ඇති ॥ අගස්‍ත්‍ය: - ය දෙවස්‍ය සභිතුස්ථස්‍ය අධ්‍යෝ‍යන: දෙවස්‍ය සභිතුස්ථාන යන්දග්‍රස්ථදුරේණ්‍යමුපාසමහේ ඇති ॥ මන්ත්‍රදීපිකායාමු - දෙවස්‍ය සභිතුස්ථාන බරේණ්‍ය බර්ගස්සිභ්‍රිතමු. දායාමහීතිඡාඩොක් දීමහීත්‍යර් ඉච්‍යතේ ॥ ය: ජාබද්‍රේ යදිත්‍යරේ ලිජ්‍යත්‍යත්‍යතාතො බවෙත් ඇති ॥

विच्वामीत्तराः:- एवं नमतु पृथिव्ये गुरुत्तिकौ शब्दिन्नेन् अन्त लवीता वेनुम् तेवरीन् उपालीक्कत तत्त्वान्त परक्कस्सै अन्त प्रमूलत्तेत त्याणीक्किन्नेन् रेम, एन्ऱु अर्ततम् चोल्लप्पटुकिरतु. **अकृत्याः**:- एन्तत तेवण्णै लवीता, नम्मुलेय पृथिव्ये गुरुत्तिकौ, तर्मम्म मुत्तव्य विषयं कौप्प पर्न्नियता य शब्दिन्नेन् अवन्तु परक्कस्सै एतुवेवा, एल्लेलाराम्म उपालीक्कत तत्त्वान्त अतेत उपालीक्किन्नेन् रेम. **मन्त्तर्त्तीपिकेकायिलः**:- तेवण्णै लवीतावीन्, वरेण्यमान परक्कम्म एन्प्पटुम् तेज्जस्सै, त्याणीक्किन्नेन् रेम. त्यायेमली एन्पत्तराकु 'त्तीमली' एन्ऱु चोल्लप्पटुकिरतु. 'यत्' एन्ऱु अर्ततत्त्विल 'यः' एन्ऱु पतम् विंकवित्या लत्तालुं ऊं ऊं.

वरदराजीये नित्यमन्त्रव्याख्याने - तच्छब्दश्रुतेर्यच्छब्दो-
ऽध्याहार्यः । सवितुः जगतां प्रसवितुः, सविता वै प्रसवानामीत्रो, उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इत्यादिश्रुतेः । वरेण्यम् - वृद्ध संभक्तौ । एण्यप्रत्ययः । सर्वेषां भजनीयम् । भर्गः - प्रकाशप्रदानेन जगतो बाह्याभ्यन्तरतमोभ-र्जनाद्वा, कालात्मकतया सकलकर्मफलपाक-हेतुत्वेन भर्जनाद्वा, वृष्टिप्रदानेन भूतानां भरणाद्वा भर्गः । देवस्य = घोतमानस्य । धीमहि - धैचिन्तायाम् । देवस्य सवितुवरेण्यं यत् भर्गः, तदध्यायामि । तच्छब्दो ब्रह्मवाचकत्वेन प्रसिद्धः । औं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः इति भगवद्वीतासु स्मरणात् । आदित्यमण्डलान्तर्वर्तिनं पुरुषमनुचिन्तायामः । य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषः, अथ य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिषि पुरुषः इत्यादिश्रुतेः । यस्सविता नः - अस्माकं, धियः - हानोपादानादिविषयाणि ज्ञानानि प्रचोदयात् - प्रचोदयति प्रवर्तयति, तस्य सवितुः तत् भर्गश्चिन्तायामः इति ॥

वरत्तराजीयत्तीलः- नित्य मन्त्तर व्याक्यानत्तिल-
तत्त्वस्पतमिरुप्पतालं, यत्स्पतम चोरक्कप्पत वेण्णुम्.

ஸவிதுः - ஜகத்துக்களை உண்டு பண்ணுகிற வனுடைய. அவ்விதம் ச்ருதிகளில் இருப்பதால். வரேண்யம் - எல்லோருக்கும் உபாளிக்கத் தகுந்ததான். பர்க: = ப்ரகாசத்தைக் கொடுப்பதால் உலகத்தின் வெளியிலும் உள்ளும் உள்ள இருளைப் போக்குவதால், கால ஸ்வரூபியாய் இருப்பதால் எல்லோருடைய கர்ம பலன்களின் பாகத்திற்கு ஹேதுவாய் இருப்பதால், வறுப்பதால் மழையைக் கொடுப்பதால் ப்ராணிகளைப் தாங்குவதால் 'பர்க:' எனப்படும் தேஜஸ்ஸை. தேவஸ்ய - ப்ரகாசிப்பவனின். தீமஹி - சிந்திக்கின்றேம். தேவனே ஸவிதாவின் உபாஸ்யமான எந்தப் பர்க்கஸ்ஸோ அதை த்யானிக்கின்றேன். 'தத்' என்ற சப்தம் ப்ரம்ஹவாசகம் என ப்ரளித்தமாகியது, அவ்விதம் பகவத் கீதையில் இருக்கிறது. ஸமர்ய மன்டலத்தின் உள்ளிலுள்ள புருஷனைச் சிந்திக்கின்றேம். அவ்விதம் ச்ருதிகள் இருக்கின்றன. ய: - எந்த ஸவிதா, ந: - நம்முடைய, தி ய: - ஹாநோபாதான (விடுவதும், க்ரஹி ப்பதும்) விஷயங்களான ஜ்ஞானங்களை, ப்ரசோதயாத் = ஏவகின்றானே, அந்த ஸவிதாவின், அந்தப் பர்க்கஸ்ஸைச் சிந்திக்கின்றேம்.

மார்க்ஷேயோऽபி - குशबृस्यां நिविष्टस्तु குशपाणिजितेन्द्रियः |
அர்க்மध்யगतं ஧்யாயेत् புருஷं து மஹாட்சுதிம् இதி ॥ நிருத்தமாட்சேऽபி - யத्
஬்ரह்ம நித்யं ஹுதி ஸ்விநிஷ்டம் ப்ரேயத்திஷ்டதி ந: ஸுபுத்தி: | ஭ர்஗ஸ்ததாரவும்
भजनीयमेतद्वायायामि नित्यं रविमण्डलस्थम् ॥ देवस्य सवितुर्मध्ये यो
भर्गो नो धियः स्वयम् । प्रचोदयात्तद्वरेण्यं धीमहीत्यन्वयक्रमः ॥
द्युस्थानाद्योतनाद्वाऽपि भानुर्देव उदाहृतः । जगत्प्रसवहेतुत्वात् स एव
सविता भवेत् ॥ तत्सम्बन्धीच यो भर्गः पापानां भजकत्वतः । अस्माकं
कार्यविषये बुद्धीः प्रेरयतीह यः ॥ तत् ब्रह्म प्रार्थनीयं स्या
द्वरणीयमुपास्महे ॥ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः
सरसिजासनसंनिविषः । केयूवान् மகரகுण्डலवान् கிரीटி ஹரி
हिरण्मयवपुर्वृतशङ்கचक्रः இதி ॥

मार्क्कन्नेयग्रुमः- कुचालनंतील
 उट्कार्न्तवण्य, कुचन्कलौकं केयिलं उटेयवण्य,
 इन्तरीयंकलौ ज्ञयित्तवण्य, सूर्यं मन्तलत्तिणं
 नाविलुलौवण्यम्, महो प्रकाशमूलौवण्यमाकिय
 पुरुषलै त्याणीक्क वेणुम्. निरुक्तं पाष्ठयत्तिलुमः-
 एन्तं प्रमहम्, नित्यमायं हर्ग्रुतयत्तिलं उलौतायं एन्जै
 एवकिन्नरतायं उलौतो, एंकलुउटेय नर्पुत्तिकलौयम्
 एवकिन्नरतो, पर्ककलं एन्ऱै बेयरुउटेयतायं
 लेविक्कत तकुन्ततायं नित्यमायं सूर्यं मन्तलत्तिलं
 इरुप्पतायं उलौ अन्तं प्रमहत्तते त्याणीक्किरेण.
 तेवण्णे लविताविनं नाविल, एन्तपं पर्ककलं, नमतु
 पुत्तिवर्गुत्तिकलौताणं एवकिन्नरतो, अन्तउपास्यमाण
 पर्ककलंले त्याणीक्किन्नेग्रेमं एन्ऱै अन्वयत्तिणं
 कर्ममाम. त्युल्लताणमाण वाणत्तिलं इरुप्पतालो,
 (त्येऽताण) औलीयालं तुलंकुवतालो, तेवण्णे
 एन्पवण्णे लूर्यायं एन्प्पटुकिरुण. ज्ञकतुत्पत्तिक्कु
 लेहतुवाणतालं अवणे लविता एन्प्पटुकिरुण.
 अवैणेच्चेस्तुलौ एन्तपं पर्ककलं उन्नेटो, (पापंकलौ
 वरुप्पतालं पर्ककलं एन्प्पटुकिरतु) एतु नमक्कुकं कार्य
 विषयत्तिलं पुत्ति वर्गुत्तिकलै एवकिन्नरतो, अन्त
 वरणीयमाण - प्ररार्त्तरणीयमाण प्रमहत्तते
 उपालिक्किन्नेग्रेम. लूर्यायं मन्तलत्तिणं नाविलं
 इरुप्पवण्यम्, तामरे औलनत्तिलं वैर्निरुप्पवण्यम्,
 तेलौवण्णे, मकराकुज्जलम्, कीर्तम्, होराम् इवेकलौ
 अणीन्तवण्यम्, लवरण्णे मयमाण सर्वमं उटेयवण्यम्,
 संक्कं कंकरान्कलौत तरीत्तवण्यम् आकिय नारायणाणं
 एप्पेपामुतुमं त्याणीक्कत तकुन्तवण्णे.

अथ गायत्रीशिरसोऽर्थः

ओमित्युक्तार्थः । आप्नोतीत्यापः । अखण्डसत्तास्वरूपेण
 सर्वव्यापकः स एव । ज्योतिः - स्वयं प्रकाशचैतन्यज्योतिः । रसः = स
 एव आनन्दस्वभावः । तदेव अमृतं - अमरणधर्मकम् । तदेव ब्रह्म -

දෙශාධනවච්චිතම् । එව්‍යාභ්‍යාර්ථා ව්‍යාහ්‍යිත්‍රියාර්ථීනැක්‍යම්‍යුෂ්‍යාතේ
බුරිත්‍යාදිනා । බු: - ස්තාස්වභාව: । සුඩිකාලේ සර්(ම)ස්මිනු
භවතීති । ස්ථිතිකාලේ සර්ස්මිනු බවතීති ත බුව: । සර්ව්‍යාදානම්
සර්වස්ථිතිකාරණ තේති යාවත් । සුව: - සර්වසංහර්තු । අය ශිරසොත්‍රි:
ප්‍රණවාර්ථ එව । ප්‍රණවසහිතසස්වාහ්‍යිත්‍යි: ප්‍රණවසහිතගා‍යාචා
ප්‍රණවසහිත්‍යිරසා ත ප්‍රතිපාදිතමර්යාජිකරසම් බ්‍රහ්ම
ප්‍රත්‍යගාත්මතයාත්‍යාජ්‍යානාති ඇමිති ॥

කායත්රී සිරස්ලින් අර්ත්තම්

இனி காயத්ரී சிரஸ்லின் அர්த්තம் சொல்லப்படுகிறது.
இம் என்பதற்கு அர්த්තம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆப:-
அகண்ட ஸத்தாஸ்வ ரூபத்தால் ஸர்வ வ்யாபகஞ்வனவன்
பரமாத்மாவே. ஜ் யோதி:- ஸ்வயம் ப்ரகாசமான சைதன்ய
ஜ் யோதி ஸ்வ-ம் அவனே, ரஸ:- ஆனந்த ஸ்வபாவன்
அவனே, அதுவே அம்ருதம் - மரணதர்மமற்றது. அதுவே
ப்ரம்ஹ - தேசகாலாதிகளால் பிரிக்கப்படாதது.
இவ்விதமுள்ள வஸ்துவுக்கு, மூன்று வ்யாஹ්‍රුதිகளின்
அர්த්தத்துடன் ஜக்யம் சொல்லப்படுகிறது. 'பු:' என்பது
முதலியதால். பු:- ஸத்தாஸ்வபாவமாயுள்ளது. ஸ்ரஷ்டி
காலத்தில் ஸகலமும் இவனிடத்தில் உண்டாகிறது. ஸ்திதி
காலத்தில் ஸகலமும் இவனிடத்தில் இருக்கின்றது,
என்பதால் புவ: ஸர்வோபாதானமாயும், ஸர்வ ஸ்திதி
காரணமாயும் உள்ளது. ஸ-வ: - ஸர்வத்தையும்
ஸம்ஹரிப்பது. இந்தக் காயத්ரී சிரஸ்லின் அர්த්තம்
ப்ரணவார்த்தமே. ப்ரணவத்துடன் கூடிய ஏழு
வ்யாஹ්‍රුதිகளாலும், ப்ரணவத்துடன் கூடிய
காயத්ரීயாலும், ப்ரணவத்துடன் கூடிய சிரஸ்லாலும்
சொல்லப்பட்ட, அகண்டகரஸமான ப்ரம் ஹத்தை,
ப்ரத்யகாத்மா என்று ஒப்புக் கொள்ளுகிறோம் என்பதால்.

அथ ஆயாதித்யந්‍யாகாර්ථ: - ஆயாது - ஆகஞ்சது । வர்஝ිபිतம்
மக்தேயோ ஦दாதීதி வர்஦ா । ஦ேவி - ஘ோதனஸ்வභාவா । ந க්‍රரதி, ஸர்வமஶநுத

इति वा अक्षरम् । ब्रह्म - अपरिच्छिन्म् । संमितं सम्यक् मितमवगतम् । भावे निष्ठा । ज्ञानस्वभावम् । यदेवं भूतम्, तदायात्मित्यर्थः । गायत्री - प्रथमार्थे द्वितीया । गायत्री । छन्दसां माता - छन्दसां देवतानामुष्णिगादीनां च माता, गायत्री त्वं, इदं - अपरोक्षैकरसं पूर्वोक्तं ब्रह्म नः - अस्माकं जुषस्व - अन्तर्भावितण्यर्थः । सेचय ॥

இனி ‘ஆயாது’ என்ற அனுவாகத்தின் அர்த்தம். ஆயாது - வரவேண்டும், வரதா - இஷ்டமான வரனைக் கொடுக்கும், தேவீ - ப்ரகாசஸ்வபாவமாகியவள். அகங்கரம் - நாசமற்றதும், அல்லது எல்லாவற்றையும் வ்யாபிக்கின்றதும், பிரம்ஹ - பரிச்சேதமற்றதும், ஸம்மிதம் - நல்ல அறிவும், எது இவ்விதமாயுள்ளதோ, அது வரவேண்டும் என்பது பொருள். காயத்ரீம் - காயத்ரீ, சந்தஸாம் - வேதங்களுக்கும், உஷ்ணிக் முதலியதுக்கும், மாதா - தாயாகிய காயத்ரியாகிய நீ, இதம் = அபரோகங்கரஸமான முன் சொல்லப்பட்ட ப்ரம்ஹத்தை, நः - எங்களுக்கு, எங்களை, ஐஷஸ்வ - ஸேவிக்கச் செய்வாயாக.

गायत्र्यात्मकं परं ब्रह्म स्तूयते –ओजोसीत्यादिना । ओजः - तेजः । तदसि । सहः - पराभिभवशक्तिः । तदसि । महाप्रलयादौ सर्वभिभवसामर्थ्यस्य सत्त्वात् । बलं - प्राणाः । भ्राजः - दीसिः । देवानां वस्त्रादीनां धाम-स्थानमसि । नामाख्यनिखिलशब्दराशिरपि त्वमेवासि । किंबहुना । विश्वमसि - विश्वं परिदृश्यमानं प्रपञ्चजातम् । विश्वायुः - विश्वजीवनहेतुत्वात् । सर्वमसि । सर्व - सर्वान्तरादि कार्यम् । तदसि । सर्वायुः - असीति सम्बन्धः । विश्वायुरित्यनेन व्याख्यातः । अभिभूः - सर्व सर्वजातमभिभवतीति अभिभूः । ओं प्रणवार्थश्चासि । अथ वा ओं गायत्रीमावाहयामि - गायत्र्यात्मकं परं ब्रह्मावाहयामि, सोऽहमिति ममात्मतया प्रापयामि इति ॥

காயத்ரீ ஸ்வரூபமான பரப்ரம்ஹம் ஸ்துதிக்கப் படுகிறது, 'ஓ ஜோஸி' என்பது முதலியதால், ஓஜ:- தேஜஸ்ஸாக, அஸி - இருக்கிறோய். ஸஹ: - பிறரை வெல்லும் சக்தியாக, அஸி - இருக்கிறோய். மஹாப்ரளயம் முதலியதில் எல்லாவற்றையும் வெல்லும் ஸாமர்த்யம் உள்ளது. பலம் - ப்ராணன்களாய், அஸி - இருக்கின்றோய். ப்ராஜ: - காந்தியாக, அஸி - இருக்கின்றோய். தேவாநாம் - வஸா முதலியவர்க்கு, தாம - ஸ்தானமாய், அஸி - இருக்கிறோய். நாமமென்கிற ஸகல சப்தராசியும் நீயே. அதிகம் சொல்வதேன். விச்வம் அஸி - காணப்படும் ப்ரபஞ்சமெலாம் ஆகவும், அஸி - இருக்கின்றோய். விச்வாய: - உலகம் ஜீவிப்பதற்கு ஹேதுவான ஆயுளாய் இருக்கிறோய். ஸர்வமஸி - மற்றும் உள்ள ஸ்ருஷ்டி கார்யமாய் உள்ளாய். ஸர்வாய: - அதற்கும் ஆயுளாக உள்ளாய். அபிழு: - ஸகலமான ஸ்ருஷ்ட பதார்த்தங்களை ஸம்ஹரிப்பவளாய். ஆகிறோய். ஓம் - ப்ரணவத்தின் அர்த்தமாக இருக்கின்றோய் அல்லது, ஓம் காயத்ரீமாவாஹ்யாமி - காயத்ரீஸ்வரூபமான பரப்ரம்ஹத்தை ஆவாஹனம் செய்கிறேன், அதுவே நான் என்று எனது ஆத்மத்தன்மையுடன் சேர்க்கின்றேன்.

அथ க்ரஸ்யாடி ந்யாஸ: ஸ்மृதிரக्षே - சுந்஦ோ ஗ாயत்ரி - ஗ாயத்ரய: ஸ்விதா சைவ ஦ேவதா | முखமஶி ஸிபாசைவ விஶாமிதிரக்ஷி: ஸ்மृத: | த்ரயி ஶிர: ஶி஖ா ருத: விஷ்ணுரூப்யமேவ ச | உபநயனே விநியோக: ஸாஞ்சாயன ஸாஞ்சிகா | திரைக்கும் சரண் ஜீய பூதிவி குக்கிரேவ ச | ஏவ ஧்வாத்வா து ஗ாயத்ரீஜபேதா ஦ஶாலக்ஷணாஂ || இதி |

இனி, ருஷ்யாதி ந்யாஸம் சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ம்ருதி ரத்னத்தில்:- காயத்ரீக்கு, காயத்ரீ சந்தஸ், ஸவிதா தேவதை, அக்னி முகம். மூன்று பாதங்களுடையவள். விச்வாமித்ரர் ருஷி. மூன்று வேதமும் சிரஸ். ருத்ரன் சிகை. விஷ்ணு ஹ்ருதயம். உபநயனத்தில் விநியோகம். ஸாஞ்சியாயனம் கோத்ரம். மூன்று உலகமும் பாதம். பூமி வயிறு. இவ்விதம் பன்னிரண்டு விசேஷணம் உடையவளாய் த்யானித்து காயத்ரீயை ஜபிக்கவும்.

अथ अक्षरक्रषयः — विश्वामित्रो भरद्वाजो गौतमः कुत्स एव च । भूगः शाण्डिल्यकश्चैव लोहितो गर्ग एव च । शातातपः सनत्कुमारस्तथा सत्यतपाः स्मृतः । भार्गवः पराशारश्च पुण्डरीकः क्रतुस्तथा ॥ दक्षश्च काश्यपश्चैव जमदग्निश्च वत्सकः । विमलश्वाङ्गिराश्चैव अविः कण्वस्तथैव च । कुम्भयोनिश्चतुर्विंशाष्टयः परिकीर्तिताः ॥

இனி, அக்ஷர ருவிகள் சொல்லப்படுகின்றனர். விச்வாமித்ரர், பரத்வாஜர், கெளதமர், குத்ஸர், ப்ரகுகு, சாண்டில்யர், லோஹிதர், கர்கர், சாதாதபர், ஸனத்குமாரர், ஸத்யதபஸ், பார்கவர், பராசரர், புண்டரீகர், க்ரது, தக்ஷர், காச்யபர், ஜமதக்னி, வத்ஸகர், விமலர், அங்கிரஸ், அத்ரி, கண்வர், கும்பயோனி என்று இருபத்துநான்கு ருவிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

अथ छन्दांसि – गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पङ्क्तिरेव च । त्रिष्टुप्च जगती चैव अनुष्टुपङ्क्तिरेव च ॥ जगती विष्टारपङ्क्तिरनुष्टुपङ्क्तिरेव च । अक्षरपङ्क्तिरनुष्टुप् च जगतीत्रिष्टुभौ तथा ॥ जगत्यनुष्टुभौ चैव अनुष्टुप् त्रिष्टुभौ तथा । त्रिष्टुप् च जगती चैव देवीगायत्रमुच्यते ॥ गायत्र्यास्तु चतुर्विंशच्छन्दांस्यक्षरशः क्रमात् इति ॥

இனி, சந்தஸ்ஸைகள் சொல்லப்படுகின்றன. காயத்ரீ, உஷ்ணிக், அனுஷ்டுப், ப்ரகுஹதி, பங்க்தி, த்ருஷ்டுப், ஜகதி, அனுஷ்டுக், பங்க்தி, ஜகதி, விஷ்டாரபங்க்தி, அனுஷ்டுப் பங்க்தி, அக்ஷரபங்க்தி, அனுஷ்டுப், ஜகதி, த்ரிஷ்டுப், ஜகதி, அனுஷ்டுப், அனுஷ்டுப், த்ரிஷ்டுப், த்ரிஷ்டுப், ஜகதி, தேவீ காயத்ரம் என்று 24 சந்தஸ்ஸைகள் அக்ஷரக்ரமமாய்.

अथ अक्षरदेवताः — अग्निः प्रजापतिश्चैव सोम ईशान एव च । आदित्योऽथ गुरुश्चैव इन्द्रश्चैव भगस्तथा ॥ अर्यमा चैव सविता त्वष्टा पूषा च देवता । इन्द्राग्नी चैव वायुश्च वामदेवस्तथैव च ॥ मित्रश्च वरुणश्चैव क्रमशो देवताः स्मृताः । वैश्वदेवं ततः प्रोक्तं वैष्णवं वासवं तथा । मारुतं

चैव कौबेरमाश्चिनं ब्राह्ममेव च । सावित्र्यास्तु चतुर्विंशदेवताः
समुदाहृताः इति ॥ चन्द्रिकायाम् - अक्षराणां च सर्वेषां प्रजापति ऋषिः
स्मृतः । छन्दो गायत्रमेव स्यात् देवो ब्रह्मैव कीर्तिः । इति ॥

இனி, அக்ஷர தேவதைகள் சொல்லப்படுகின்றனர். அக்னி, ப்ரஜாபதி, ஸோமன், ஈசானன், ஆதித்யன், குரு, இந்த்ரன், பகன், அர்யமா, ஸவிதா, த்வஷ்டா, பூஷா, இந்த்ராக்னீ, வாயு, வாமதேவன், மித்ரன், வருணன் இவர்கள் க்ரமமாய் தேவதைகள், பிறகு விச்வேதேவர், விஷ்ணு, வஸாக்கள், மருத்துங்கள், குபேரன், அக்ளிகள், ப்ரம்ஹான்ற இவர்களும் ஆக காயத்ரீக்கு 24 தேவதைகள். சந்தரிகையில்:- எல்லா அக்ஷரங்களுக்கும் ப்ரஜாபதி ருஷி, காயத்ரம் சந்தஸி, ப்ரம்ஹா தேவதை.

விஶாமித्रः - அथ தत்வானிவக्ष्यामि அக्षराणां வி஭ாగशः ।
பृथिवी चोदकं तेजो वायुरम्बरमेव च ॥ गन्धो रसश्च रूपं च स्पर्शः
शब्दोऽथ वागिति ॥ हस्तावुपस्थं पायुश्च पच्छोत्रे त्वक्च चक्षुषी ॥ जिह्वा
ग्राणं मनस्तत्वमहङ्कारो महत्तथा । गुणत्रयं च क्रमशो वर्णतत्वविनिश्चयः
इति ॥

விச்வாமித்ரர்:- இனி அக்ஷரங்களுக்குத் தத்வங்களைப் பிரித்துச் சொல்லுகிறேன். பூமி, ஜலம், தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், கந்தம், ரஸம், ரூபம், ஸ்பர்சம், சப்தம், வாக், கைகள், உபஸ்தம், குதம், கால், காது, தோல், கண்கள், நாக்கு, மூக்கு, மனஸ், அஹங்காரம், மஹத்தத்வம், ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்கள் என்ற 24-ம் வர்ணதத்வங்களாம்.

அதாக்ஷரஶக்தியः - பிரஹ்லாதிநி பிரமா நித்யா விஶா ஭ద்ரா விலாஸினி । ஈஶ்வரி சு ஜயா ஶாந்தா காந்திர்஦்வா ஸரஸ்வதி ॥ விருப்பா விஶா சேஶா வ்யாபினி விமலா ததா । தஸோபஹாரிணி ஸூக்ஷ்மா விஶ்யோனிர்ஜியாவஹா ॥ பத்மாலயா பத்மா ஭ந்ரஸேதி ஶக்தியः இதி ॥

श्रीनी, अकृष्णर चक्तिकाळं चेऽल्लप्पातु किञ्चन् न. प्ररब्धलातीनैः, प्ररपा, नीत्या, वीक्ष्वा, पत्तरा, वीलालीनैः, सच्चवरीं, ज्या, सान्त्ता, कान्ति, तुर्गक्का, लर्गस्वति, वीरुपा, वीक्ष्ता, सचा, व्यापीनैः, वीमला, तमोपह्नारीनैः, उलक्ष्मा, वीक्ष्वयोगीनी, ज्यावह्ना, पत्तमालया, पत्तमेचोपा, पत्तरुपा एनं न 24 चक्तिकाळाम्.

अथाक्षरन्यासः । विश्वामित्रः - आदावस्त्रेण संशोध्य करन्यासं ततश्चरेत् । दक्षिणां तर्जनीमादिं कृत्वा पर्वसु विन्यसेत् ॥ क्रमाद्वामकनिष्ठान्त मक्षराणि करद्यये । तत्कारं विन्यसेत् स्वाङ्गपादाङ्गुष्ठद्यये द्विजः ॥ सकारं गुल्फदेशो तु विकारं जञ्जयोन्यसेत् । जान्वोस्तु विष्णु तुः कारं वकारं चोरुदेशातः ॥ रेकारं विन्यसेद्वृद्ध्ये णिकारं वृषणे न्यसेत् । कटिदेशो तु यं कारं भकारं नाभिमण्डले ॥ गोकारं जठरे योगी देकारं स्तनयोन्यसेत् । वकारं हृदि विन्यस्य स्यकारं कण्ठ एव तु ॥ धीकारमास्ये विन्यस्य मकारं तालुमध्यतः । हिकारं नासिकाग्रेतु धिकारं नयनद्यये ॥ भ्रुवोर्मध्ये तु योकारं ललाटेतु द्वितीयकम् । पूर्वानेतु नः कारं प्रकारं दक्षिणानने ॥ उत्तरास्ये तु चोकारं दकारं पश्चिमानने । विन्यसेन्मूर्धिनि यात्कारं सर्वव्यापिनमीश्वरम् ॥ ओङ्कारमादाकुञ्चार्य नमोन्तं चाक्षरं न्यसेत् इति ॥

श्रीनी, अकृष्णरन्यासमं चेऽल्लप्पातु किरतु. वीक्ष्वामीत्तराः - आत्मीयिलं, अस्तिरत्तालं चेऽनमं चेयतु, पिऱ्हु करन्यासमं चेययवुम्. वलतु कैकयीनं तर्जुनैः वीरलं मुत्तराकपं पर्ववंकलीलं (कल्पुक्कलीलं) न्यलीक्कवुम्. कर्ममायं श्रीतु कैकयीनं श्रीवीरलं मुत्तय 24 अकृष्णरंकलायुम्, 24 पर्ववंकलीलं न्यलीक्कवुम्. पिऱ्हु, तत् एनं पतेत् श्रीराण्डु कालंकलीनं बेपरुवीरलंकलीलुम्, उ कारत्ततेत् मणीक्कटं उकलीलुम्, वी एनं पतेत् ज्ञंकैकलीलुम्, तुः एनं पतेत् मुमुक्षुकालंकलीलुम् 'व' एनं पतेत् तु उत्तेकलीलुम् 'ओ' एनं पतेत् तु उर्घयत्तिलुम्, णीः एनं पतेत् वरुष्णत्तिलुम्, यम् एनं पतेत्

இடுப்பிலும், ப என்பதை நாபியிலும், ர்கோ என்பதை வயிற்றிலும், தே என்பதை ஸ்தனங்களிலும், வ என்பதை மார்பிலும், ஸ்ய என்பதைக் கண்டத்திலும், தீ என்பதை முகத்திலும், ம என்பதைத் தாலுவிலும், ஹி என்பதை மூக்கின் நுனியிலும், தி என்பதை இரு கண்களிலும், யோ என்பதைப் புருவங்களின் நடுவிலும், இரண்டாவதுயோ என்பதை நெற்றியிலும், ந: என்பதை முகத்தின் மூன் பாகத்திலும், ப்ர என்பதை வலது பாதத்திலும், சோ என்பதை இடது பாதத்திலும், த என்பதை தலையின் புறத்திலும், யாத் என்பதைத் தலையிலும் ந்யளிக்கவும். ஸர்வவ்யாபியான ஈச்வரரான ஒங்காரத்தை ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்கும் முதலில் உச்சரித்து, நம: என்பதைக் கடைசியில் சேர்த்து ந்யளிக்க வேண்டும்.

அथ வர்ணாநம् । ஬்ரஹ்ம - கृत्वा சैवाक्षरन्यास மशोषाधविनाशनम् । பश्चात् ஸமாचரेदध்யानं வर्णस्त्रूपसமन्वितम् ॥ தत்காரं சம்பகாபீतं ஬்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம् । ஶாந்த பத்ராஸனாரூப்யத்வா தத்து பாதகம் ॥ சகார சிந்தயேச்஛யாமமதஸீபுப்பஸ்நி஭ம் । பத்ராஸனஸ்திதம் ஸौம்யமுபபாதகநாஶனம் ॥ விகார பிங்கல் நித்ய கமலாஸனஸ்திதம் । ஧்யாயேச்஛ாந்த ஦ிஜஶ்ரேஷ்ட மஹாபாதகநாஶனம் ॥ து: கார சிந்தயேத் பிராஜா இந்஦ிநீலஸமப்ரभம் । நிர்஦ீத ஸர்வது: ஖: து ஗்ரஹரோಗஸமுஞ்சும் । வகார வஹ்஦ீஸ்தாம் சிந்தயேது விச்கஷணः । மூர்ணஹத்யாகृதம் பாபம் தத்கணாதேவ நஶயதி ॥ ரேகார விமல ஧்யாயேச்஛ுஞ்சுஸ்஫டிகஸ்நி஭ம் । அம்஭க்யமக்ஷஜம் பாபம் தத்கணாதேவ நஶயதி ॥ ணிகார சிந்தயேயோగி வி஦்யுத்ஸ்஫ுரிதஸப்ரभம் । ஗ுருதல்பகृதம் பாபம் தத்கணாதேவ நஶயதி ॥ யம்காரங்காவர்ணமிந்஦ுஶோகரமூர்ணம் । யோगினா வரர்ம் ஧்யாயேதே ஬்ரஹ்மஹத்யாவிநாஶனம் ॥

இனி, வர்ணங்களின் த்யானம் சொல்லப்படுகிறது.
ப்ரம்ஹா:- ஸகல பாபங்களையும் அகற்றும் அக்ஷர

न्यासूत्ततेश्च चेयतु, प्रिरु वर्णाङ्कलीं शुपत्तुटन्ते
 कृष्ण त्यागत्ततेश्च चेय्य वेण्टुम्. तत्त एन्पतेत्त
 सम्पक वर्णमायुम्, प्रम्लू विष्णु चिवल्लवरुपमायुम्,
 सान्तमायुम्, पत्तमासून्तत्तिल्ल इरुप्पत्तायुम् त्याणीत्ता॒ल
 पा॒पत्तते॒ एरीक्किण्ऱ॒रु॒न्. ल॒ एन्पतेत्तक्क॒रुप्पु निरुमायुम्,
 आ॒त्ति॒प्पु॒ष्प वर्णमायुम्, पत्तमासून्तत्तिल्ल
 इरुप्पत्तायुम्, ल॒ ए॒ल॒म्यमायुम्, उपातकत्तते॒
 अकृ॒रुवत्तायुम् त्याणीक्कवुम्. वि॒ एन्पतेत्तपि॒ प्रिंकल॒
 वर्णमायुम्, पत्तमासून्तत्तिल्ल इरुप्पत्तायुम्,
 सान्तमायुम्, म॒ह॒रा पा॒तक॒न्क॒ल॒ोप्प पो॒क्कुवत्तायुम्
 प्रम्लू॒ण्ण॒न्त॒ त्याणीक्कवुम्. तु॒ः एन्पतेत्त इ॒न्तर्न॒ल॒म्.
 पो॒न्ऱता॒य त्याणीप्पव॒न्त कर॒ह॒न्क॒ल॒ोल॒ुम्
 रो॒क॒न्क॒ल॒ोल॒ुम् उ॒ण्टा॒कु॒म ल॒क॒ल॒ तु॒क॒क॒त्त॒युम्
 पो॒क्कुवा॒न्त. व॒ एन्पतेत्त अ॒क॒न्नि पो॒ल॒ू॒ल॒ता॒य
 त्याणीक्क॒वेण्टु॒म. कर॒प्प॒ह॒त्या॒पा॒पम् अ॒प्प॒बो॒मु॒ते॒
 न॒शि॒क्कु॒म. रे॒ एन्पतेत्त॒ स॒त्त॒ ल॒प्प॒टि॒क॒म पो॒न्ऱतु॒म
 न॒र्म॒लमायुम् त्याणीक्कवुम्. अ॒प॒क्ष॒य प॒क्ष॒ण॒त्त॒त्ता॒ल॒
 उ॒ण्टा॒क्ष॒य पा॒पम् अ॒प्प॒बो॒मु॒ते॒ न॒शि॒क्किण्ऱ॒तु॒. णी॒
 एन्पतेत्त म॒िन्न॒ल॒ पो॒ल॒ उ॒ल॒ता॒य त्याणीक्कवुम्.
 आ॒चा॒र्य॒णी॒न्न॒ म॒ैन॒वी॒य॒श॒ च॒र्व॒त्ता॒ल॒ उ॒ण्टा॒कु॒म पा॒पम्
 अ॒प्प॒बो॒मु॒ते॒ न॒शि॒क्कु॒म. य॒ एन्पतेत्त न॒क्ष॒त्तर॒म पो॒न्ऱ
 वर्णमायुम् उ॒त्त॒यतु॒म स॒न्तर॒ण॒त त॒री॒त्त॒त्ता॒युम्,
 यो॒क्ष॒िक॒रु॒क्कु॒ वर॒ण॒ अ॒ली॒प्प॒त्ता॒युम् त्याणीक्कवुम्.
 प्रम्लू॒ह॒त्य॒य॒य॒म न॒शि॒क्कु॒म.

भकारं कृष्णवर्णं तु नीलमेघसमप्रभम्। ध्यात्वा पुरुष हत्यादिपापं
 नाशयति द्विजः। गोकारं रक्तवर्णं तु कमलासनसंस्थितम्। गोहत्या
 कृतं पापं नाशयन्तं विचिन्तयेत् ॥ देकारं मरकतश्यामं
 कमलासनसंस्थितम्। सततं चिन्तयेद्योगी खीहत्यादहनं परम्॥ वकारं
 शुक्लवर्णन्तु जातिपुष्पसमप्रभम्। गुरुहत्याकृतं पापं ध्यात्वा दहति
 पावनम्॥ स्यकारं चिन्तयेत् पीतं सुवर्णद्युतिसन्निभम्। मनसा यत्कृतं
 पापं तत्क्षणादेव नशयति ॥ धीकारं चिन्तयेदिन्दुकुन्दपुष्पसमप्रभम्।

பிதுமாதுவ஧ாத् பாபாநமுच்யதே நான் ஸ்ஶாயः ॥ மகார் பங்கராகாம் சிந்தயேதீஸ்தேஜஸம् । பூர்ஜனமார்ஜித் பாப் தத்கணாடேவ நஶ்யதி ॥ ஹிகார் ஶங்கவர்ண் து பூர்ச்சந்஦ஸமப்ரभம் । அஶோப பாபதஹந் ஧்யாயேநித்ய் விசக்ஷனः ।

॥ என்பதை நீலமேகம் போல் க்ருஷ்ண வர்ணமுள்ளதாய் த்யானித்தால் புருஷனைக் கொன்ற பாபத்தைப் போக்குகிறோன். ர்கோ என்பதைச் சிவந்த நிறமுள்ளதும், பத்மாஸனத்தில் இருப்பதும், பசு ஹத்யா பாபத்தைப் போக்குவதாயும் சிந்திக்கவும். தே என்பதை மரகத வர்ணமாயும், பத்மாஸனத்தில் இருப்பதாயும், ஸ்தரீ ஹத்யா பாபத்தை அகற்றுவதாயும் த்யானிக்கவும். வ என்பதை வெண்ணிறமாயும், ஜாதிபுஷ்பத்திற்குச் சமமாயும் த்யானித்தால், குருவை வதைத்த பாபத்தைப் போக்குகிறோன். ஸ்ய என்பதை மஞ்சள் நிறமுள்ளதும் ஸ்வர்ணத்திற்கு ஸமமாயும் சிந்திக்கவும். மனதால் செய்த பாபம் அப்பொழுதே நசிக்கும். தி என்பதைச் சந்தர்ன் குருக்கத்திப்பூ இவை போன்றதாய்ச் சிந்திக்கவும். பிதா மாதா இவர்களை வதைத்த பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான். இதில் ஸந்தேஹமில்லை. ம என்பதைப் பத்ம ராகம் போல் ஒளிவீசுவதாய் த்யானிக்கவும். முன் ஜன்மத்தில் சேர்ந்த பாபம் அப்பொழுதே நசிக்கும். ஹி என்பதைச் சங்கம் போன்றதும். பூர்ண சந்தர்ன் போன்ற காந்தியடையதும், ஸகல பாபங்களையும் எரிப்பதாயும் சிந்திக்கவும்.

ஹிகார் பாஷ்டர் ஧்யாயேத் பங்காயோபரி ஸ்஥ிதம் । ப்ராணிஹத்யாகृத் பாப் தத்கணாடேவ நஶ்யதி ॥ யோகார் ரக்தவர்ண் து இந்஦்ராபகஸநிமம் । ப்ரதி஗்ரஹகृத் பாப் ஧்யாத்வா ஦ஹதி தத்கணாத् ॥ டிதியஶ்வைய: போக்கோ யோகாரே ருக்மஸநி஭: । நி஦ஹத் ஸ்ர்வபாபானி நாந்யை: பாபைஶ லிப்யதே ॥ ந: காரந்து முख பூர்மாடித்வோடயஸநிமம் । ஸகுஞ்சாத்வா டிஜஶ்ரேஷ: ஸ ஗ஞ்சேவத் பதம் ॥ நிலோப்பல்லாத்வாம் ப்ரகார் தக்ஷணாமுகம் । ஸகு஦்஧்யாத்வா டிஜஶ்ரேஷ: ஸ ஗ஞ்சேந்வாத்வா: பதம் ॥ ஸௌம்ய ஗ோரோசனாபீத

चोकारं चोत्तराननम् । सकृदध्यात्वा द्विजश्रेष्ठः स गच्छेद्वैष्णवं पदम् ॥
शक्त्वान्देन्दुसङ्काशं दकारं पश्चिमाननम् । सकृदध्यात्वा द्विजश्रेष्ठः स
गच्छेदैश्वरं पदम् ॥ यात्कारस्तु शिरः प्रोक्तः चतुर्वदनसम्भवः ।
प्रत्यक्षफलदोब्रह्मा विष्णू रुद्र इति स्थितिः ॥

त्री एन्पते वेण्णिर्मायुम्, पत्तमासनत्तिल्
इरुप्पतायुम् त्याणीकवुम्. प्रराणीकौ वतेप्पताल्
उण्टाकुम् पापम् अप्पेपामु तेन किंकुम्. यो
एन्पते चिवप्पु निर्मायुम्, इन्तर कोपप्प पूच्चिककुस्
सम्मायुम् त्याणीत्ताल् प्रतिकर्हत्ताल् उण्टाकिय
पापत्ते अप्पेपामु तेनकिरुन्. इरण्टावतु यो
एन्पते लवर्णत्तिर्कुस् सम्माक त्याणीकवुम्. लकल
पापन्कौयुम् ऎरिप्पाण्, वेरु पापन्कौल्
पर्नप्पतमाट्टाण्. नः एन्पते लार्योत्यत्तिर्कुस्
सम्मायुम् पूर्ववृकमायुम् ओरुमुरै त्याणीत्तालुम्
तेवपत्तते अटेवाण्. प्र एन्पते नीलोत्पल
ताम् पोाणै निरमुलातुम्, तेऱ्कु मुकमाकवुम्,
ओरुमुरै त्याणीत्ताल् प्रम्हलोकत्ते अटेवाण्.
सेव एन्पते कोरोचै पोाणै मांसां
निरमुलातुम्, वटक्कु मुकमाकवुम् ओरुमुरै
त्याणीत्ताल् विष्णुलोकत्ते अटेकिरुन्. त
एन्पतेचंकम्, कुन्तम्, सन्तरन् इव पोाणैत्तायुम्
मेऱ्कु मुकमाकवुम् ओरुमुरै त्याणीत्ताल्
चिवलोकत्ते अटेकिरुन्. यात एन्पतु नांकु
मुकन्कारुक्कुम् लेतुवाकिय चिरस्व एन्पपट्टतु.
प्रत्यक्ष लवत्तेयाणीप्पतु. प्रम्हला, विष्णु, रुठरन्
एन्ऱु केकाळके.

एवं ध्यात्वा तु मेधावी जपं होमं करेति यः । न भवेत् सूतकं तस्य
मृतकं च न विद्यते ॥ साक्षात्कृत्यसौ ब्रह्मा स्वयंभूः परमेश्वरः । यस्त्वेवं न
विजानाति गायत्री तु यथाविधि । कथितं सूतकं तस्य मृतकं च सदैव हि ।
नैव दानफलं तस्य नैव यज्ञफलं भवेत् । न च तीर्थफलं प्रोक्तं तस्यैवं सूतके

ஸதி ॥ பாடாடி குக்ஷிபர்யந்த் ஶிரः பிற்மூதி வக்ஷஸி । கர்த்து:
காமிமிந்யாஸோ ஗ृहஸ்஥ைரிதி நிர்ணயः இதி ॥

இவ்விதம் தயானித்து, புத்திமானுகிய எவன், ஜபம் ஹோமம் இவைகளைச் செய்கின்றாலே அவனுக்கு ஸதகமும், ம்ருதகமும் (பிறப்புத் தீட்டும் மரணத்தீட்டும்) இல்லை. இவன் ஸாக்ஷாத் ப்ரம்ஹாவாகவும், பரமேச்வரனாகவும் ஆகிறான். எவன் இந்தக் காயத்ரியை விதிப்படி அறியவில்லையோ அவனுக்கு எப்பொழுதும் ஸதகமும், ம்ருதகமும் உண்டென்று சொல்லப் பட்டுள்ளது. அவனுக்குத் தானபலமில்லை. யக்ஞபல மில்லை. தீர்த்தபலமுமில்லை. ஸதகம் இருப்பதால். காமிகளான க்ருஹ ஸ்தர்கள் பாதம் முதல் வயிறுவரையிலும், தலை முதல் மார்பு வரையிலும் ந்யாஸம் செய்ய வேண்டும். என்பது ஸித்தாந்தம்.

பदந்யாஸமாஹ ஸ ஏவ – ஦க்ஷிணாஜுஷமாரம்ய யாவாமகனிஷிகா ।
தங்கை பதாந்யஸ்ய(அ:)க்ரமேஷை ந்யஸேத் ஸு஧ி: ॥ ஶிரோஸுமஷ்ய-
நயநவக்ஞகண்டேஷு வை க்ரமாத् । ஹநாமி஗ுஹைஷு ஜானுபாதாத்யை ந்யஸேத் இதி ॥

பத ந்யாஸத்தைச் சொல்லுகிறார். ப்ரம்ஹாவே:- வலது கையின் பெருவிரல் முதல், இடது கையின் சிறுவிரல் வரையில், காயத்ரியின் பத்துப் பதங்களையும் க்ரமமாய் ந்யளிக்கவும். சிரஸ், புருவங்களின்நடு, கண், முகம், கண்டம், மார்பு, நாபி, குற்றயம், முழங்கால், பாதம் இந்தப் பத்து ஸ்தானங்களிலும் ந்யளிக்க வேண்டும்.

சந்திகாயா் பிரதிபாதமுத்யாடிகமுக்தம் – தத்ஸிவிதுரித்யஸ்ய
விஶாமித்திரஷி: ஗ாயत்ரித்தந்த: ஬்ரஹா ஦ேவதா । ஭ர்஗ோ ஦ேவஸ்யேத்யஸ்ய
விஶாமித்திரஷி: ஗ாயத்ரித்தந்த: விஷ்ணுதேவதா । பியா யோ ந இத்யஸ்ய
விஶாமித்திரஷி: ஗ாயத்ரித்தந்த: ருத்ரோ ஦ேவதேதி ॥ பாதந்யாஸமாஹ
விஶாமித்தி: – ஏதைஞ்சிமி: பை: குர்யாத் கரஶுஞ் ஢ிஜோதம: ।
அனாமிகாத்யை ஧ீமாந்யஸேத்தப்஦மயந்த: ॥ கனிஷ்காத்யை ஭ர்஗:

पाण्योर्मध्ये धियः पदम् । शिरसि प्रथमं पादं द्वितीयं नाभिमध्यतः । तृतीयं पादयोन्यस्य सर्वं सर्वाङ्गके न्यसेत् इति ॥

चन्त्रीजेकायिलः :- ओवं वेवारु पातत्तिन्हं कुमं रुषी मुतलियतु चेऽल्लप्पट्टुं लातुः । 'तत्सलवितुः' एन्पत्तरं कु विच्वामित्तरां रुषी, कायत्तरीं सन्ततेस्त, प्ररम्भ्वा तेवतेत. 'परं को तेवस्य' एन्पत्तरं कु विच्वामित्तरां रुषी, कायत्तरीं सन्ततेस्त, विष्णु तेवतेत, 'त्रियो योनानः' एन्पत्तरं कु विच्वामित्तरां रुषी, कायत्तरीं सन्ततेस्त, रुत्तरां तेवतेत. पात नं यासत्तेतकं चेऽल्लुकिरुर. विच्वामित्तराः :- इन्त हुन्नु पात नं कलालुमं कर सत्त्वियस्त चेय्यवुमं. मुतलिल इरण्णु अनामिकाविरलं कलीलुमं 'तत्' एन्नं पातत्तेतयुमं, चिरुविरलं कलीं इरण्णिलुमं 'परं ककः' एन्नं पातत्तेतयुमं, केककलीनं नाविल 'त्रियः' एन्नं पातत्तेतयुमं, चिरस्लिल 1- आवतु पातत्तेतयुमं, नापील 2- आवतु पातत्तेतयुमं, पात नं कलील 3- आवतु पातत्तेतयुमं, हुन्नु पात नं कलीयुमं चेस्त्तु लर्वाङ्कत्तिलुमं नं यलीक्कवुमं.

चन्द्रिकायाम् - गायत्र्या व्यापकं कृत्वा करन्यासपूर्वकं षडग्न्यासं कुर्यात् इति । तत्र व्यासः - हृदि तत्सवितुन्यस्य न्यसेन्मूर्धि वरेण्यम् । भर्गोदेवस्येति खण्डं शिखायां तु ततो न्यसेत् । धीमहीति न्यसेद्वर्मं धियो यो नश्च नेत्रयोः । प्रचोदयादितिपदमस्त्रार्थं विनियोजयेत् ॥ अग्न्यासस्तु यैर्मन्त्रैः करन्यासोऽपि तैः स्मृतः इति ॥ गायत्रीसारे तु विशेषोऽभिहितः - तत्सवितुर्ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः । वरे(णिय)ण्यं विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा । भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट् । धीमहि ईश्वरात्मने कवचाय हुम् । धियोयोनः सदाशिवात्मने नेत्रयाय वौषट् । प्रचोदयात् सर्वात्मने अक्षायफट्टिति ॥

चन्त्रीजेकायिलः :- कायत्तरीयालं व्यापक नं यासमं चेय्तु कर नं यासत्तुटनं षट्टनंक नं यासमं चेय्यवुमं. अतिल, व्यापासः:- तत्सलवितुः एन्पतेत लं रुत्तरायत्तिलुमं, वरेण्यीयमं एन्पतेतकं चिरस्लिलुमं, परं को तेवस्य

என்பதை சிகையிலும், தீமஹி என்பதைக் கவசமாகவும், தியோயோ: என்பதை நேத்ரங்களிலும், ப்ரசோதயாத் என்பதை அஸ்த்ரத்திலும் விநியோகிக்கவும். எந்த மந்த்ரங்களால் அங்க ந்யாஸம் செய்யப்பட்டதோ அவைகளால் கரந்யாஸமும் செய்யப்பட வேண்டும். காயத்ரீஸாரத்திலோவெனில்:- விசேஷம் சொல்லப் பட்டுள்ளது. 'தத்ஸவிது: + அஸ்த்ராயபட்' என்று.

பிதாமஹ: — ஓ ஭ூர்விந்யஸ்ய ஹ௃தே ஓ முவ: ஶிரसि விந்யஸேத् । ஓ ஸ்வஶி஖ாயாஂ விந்யஸ்ய ஗ாயத்ரா: பிரथம் பदம् ॥ விந்யஸேத் கவचே ஧ீமான் டிதிய நேத்ரங்களிலும், விந்யஸேத் தூதியேநாக்கவிந்யாஸ் சதுர்஥ ஸ்வர்தோ ந்யஸேத் இதி । பரோரஜஸி ஸாவடோமிதி ஗ாயத்ராஶ்துர்஥ பாட் ஸ்வர்த: மூ஧ார்஦ிபாடபர்யந்த ந்யஸேதித்யர்஥: ॥

பிதாமஹர்: - ஒம்பூ: என்று ஹ்ருதயத்திலும், ஒம்புவ: என்று சிரஸ்லிலும், ஒம்ப்வ: என்று சிகையிலும் ந்யஸித்து, காயத்ரியின் 1-ஆவது பாதத்தைக் கவசத்திலும், 2- ஆவது பாதத்தை நேத்ரங்களிலும், 3-ஆவது பாதத்தால் அஸ்த்ரத்தையும், நான்காவது பாதத்தை எல்லா அங்கத்திலும் ந்யஸிக்கவும், 'பரோரஜஸிலோவதோம்' என்னும் காயத்ரியின் நான்காவது பாதத்தை எங்கும் = சிரஸ் முதல் பாதம் வரையில் ந்யஸிக்கவும் என்பது பொருள்.

ந்யாஸப்ரகாரமாஹ மர்஦ாஜ: — அஜ்ஞாதிகனிஷ்டாந்தமஜ்ஞாலீஷு ந்யஸேத்த: । பிரகோஷ்டாந்தர்஬हி: பாண்யோஸ்தலயோஸ்தலபृष்஠யो: । ஹந்மஸ்தக- ஶி஖ாபாஹுநேநப்ரஹரணானி ஷட் । அஜ்ஞாந்யமூரித்யுக்தானி பல்லானி ஷடேவ ஹி ॥ அஜ்ஞாலீமிஶ்வதஸுभி: ஹ்யாஹ்ரூதயशीர்ஷயो: । முஷேரஜ்ஞாதிரஸா பஶ்வமே தஸ்ய வர்ண: ॥ டாம்யா கராம்யா டக்காலம஧யே ம஧்யாஜ்ஞலைக்ஷிமி: । அஜ்ஞாதர்ஜந்யாம்யா ஸஶ஬்஦ ஦ிக்ஷு பாஶ்ர்யோ: ॥ ஷடஜ்ஞாஸமித்யுக்த மி஦மேதத் பிரகாரத: । ஏவ் விந்யஸ்ய ஗ாயத்ரீமாவாஹ ச யதாவி஧ி ॥ ஧்யாத்வோப்சார் ஸகல் குத்வாத்வோ ஜபமாசரேத் இதி ॥ ஏவ் மர்஦ாஜேந

षडङ्गन्यासमुक्त्वा अनन्तरं जपविधानात् नित्यजपे ऋष्यादि-
षडङ्गन्यासमात्रमावश्यकम् । फलाधिक्यापेक्षायां तु शक्तस्य
अक्षरन्यासादयः कार्याइत्याहुः ॥

नंयासप्रकारत्तेतच सेवाल्लुकिरुर्. प्रत्तवाज्ञारः-
पिऱकु बेप्रवीरल्ल मुतल चिरुवीरल्ल वरेरयिल वीरल्कवील
नंयलीक्कवुम्. ईककवील एरकोञ्चटंकवील उल्लपुरुम्
वेवलीप्पुरुम् इवेवकवीलुम् आक आरु. लंगुरुतयम्, चिरस्ल,
चिकेक, ईककल, नेत्ररन्ककल, अस्तरम् एन्पतु आरु
अंकन्कन्ककल. लंगुरुतयम्, ताले इवेवकवील नांकु
वीरल्कवालुम्, मुञ्चियिल बेप्रवीरवील तालेयाल
चिकेयीलुम्, कवसत्तिल इरण्णु ईककवालुम्,
कन्ककन्ककुम् नेत्ररिक्कुम् नालुवील नालुवीरल्कवील
मुन्नरिन्नलुम्, बेप्रवीरल तर्जुन्वीरल इवेवकवाल
सप्तत्तुटन्त्रिक्कुलुम् नंयलीप्पतु षट्टंक नंयासम
एन्पपट्टतु. इतेत इव्वितम् नंयलीत्तु, वित्तिप्पटि
कायत्रीये आवाहनम् चेय्तु, त्याणीत्तु, लकलमान
उपसारत्तेतयम् चेय्तु, पिऱकु ज्ञपत्तेतच चेय्य
वेण्णुम्. इव्वितम् प्रत्तवाज्ञराल षट्टंकनंयासत्तेतच
सेवाल्ल. पिऱकु ज्ञपम् वित्तिकप्पट्टिरुप्पत्ताल, नित्य
ज्ञपत्तिल षट्टंक नंयासम मट्टिल आवस्यकम्. अतिक
पलत्तिल अपेक्षेष्ठ इरुन्ताल, चक्ति उल्लवन्नुक्कु अक्षर
नंयासम मुतलीयवेव चेय्यप्पत्तलाम एन्किल्लनर.

अत एव गृह्यपरिशिष्टे – एषोऽङ्गन्यासः । एनं विधिमप्येके
नेच्छन्ति स हि विधिरौदिकः इति । चन्द्रिकायाम् – अङ्गुष्ठेचैव गोविन्दं
तर्जन्यां तु महीधरम् । मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमम् ॥
कनिष्ठायां न्यसेद्विष्णुं करमध्ये तु माधवम् । यत्कृतं च हुतं जसं दत्तगिष्ठं
विशेषतः ॥ हस्तन्यासप्रभावेण सर्वं भवति चाक्षयम् । ओमिति हृदये
भूरितिमुखे भुव इति शिरसि स्वरिति सवङ्गे न्यासेत् । एतद्रायत्रीकवचं
ततो यथाविधि गायत्रीमन्यसेत् इति ॥

க்ருஹ்ய பரிசிஷ்டத்தில்:- இது அங்க ந்யாஸம். இந்த விதியையும் சிலர் விரும்பவில்லை, இந்த விதி அவைதிகம் என்பதால். சந்தரிகையில்:- பெருவிரலில் கோவிந்தனையும், தர்ஜனியில் மஹீதரனையும், நடுவிரலில் ஹ்ருஷ்டேகசனையும், அநாமிகையில் த்ரிவிக்ரமனையும், கணிஷ்டிகையில் விஷ்ணுவையும், கை நடுவில் மாதவனையும், ந்யளிக்கவும். எந்தக் கர்மமும், ஹாமமும், ஜபமும், தானமும், யாகமும், ஸர்வமும் ஹஸ்த ந்யாஸப்ரபாவத்தால் அக்ஷயமாய் ஆகிறது. ஒம் என்று ஹ்ருதயத்தில், பூ: என்று முகத்திலும். புவ: என்று சிரல்ஸிலும், ஸவ: என்று ஸர்வாங்கத்திலும் ந்யளிக்கவும். இது காயத்ரீகவசம், பிறகு விதிப்படி காயத்ரீயை ஆவ்ருத்தி செய்யவும்.

எவ் குர்வதः ஫லமாஹ வ்யாஸः - விந்யஸ்யैवं ஜபேघஸ்து ஗ாயत்ரீ
வைதாதரம् । விதிலோகமவாப்நோதி வ்யாஸஸ்ய வசனं தथா ॥ ஸ்வரூப் ய: புனஸ்தஸ்யா ஜாத்வோபாஸ்தே யதாவி஧ி । ஗ூஹ்ந् ஦ோஷைந் லிப்யேத ரத்பூர்ணா
வஸுந்஧ராம् । யதாகத்துஞ்சிஜ்ஜஸா ஸா ஦ேவி பரமபாவநி । ஸர்வகாமப்ரदா ப்ரேக்தா
கிஂபுநர்வி஧ிநா நृப இதி ॥

இவ்விதம் செய்பவனுக்குப் பலனைச் சொல்லுகிறீர். வ்யாஸர்:- இவ்விதம் ந்யாஸம் செய்து, வேதமாதாவான காயத்ரீயை எவன் ஜபிக்கின்றானே அவன் ப்ரம்ஹூலோகத்தை அடைகிறான். வ்யாஸரின் வசனம் அவ்விதமுள்ளது. எவன், அந்த காயத்ரீயின் ஸ்வரூபத்தை அறிந்து விதிப்படி உபாஸிக்கின்றானே, அவன் ரத்னங்களால் நிறைந்த பூமியை ப்ரதிக்ரஹி த்தாலும் பாபங்களால் பற்றப்படான். அந்தக் காயத்ரீ தேவீ எவ்விதமாய் ஜபிக்கப்பட்டாலும், மிகவும் சுத்தியைச் செய்பவளாகின்றார்கள். ஸகல காமங்களையும் கொடுப்பவளாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். ஒ அரசனே! விதியுடன் ஜபிக்கப்பட்டால், கேட்க வேண்டுமா.

मुद्राविधिः

अथ मुद्राविधिः ॥ तत्र ब्रह्मा – अथातो दशयेन्मुद्राः संमुखं संपुटं तथा । ततो विततविस्तीर्णे द्विमुखत्रिमुखे ततः ॥ चतुर्मुखं पञ्चमुखं षण्मुखाधोमुखे ततः । व्यापकाञ्जलिकारूपं च शकटं तदनन्तरम् ॥ यमपाशं च ग्रथितं ततः स्यात् संमुखोन्मुखम् । विलम्बो मुष्टिको मीनस्ततः कूर्मवराहकौ ॥ सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं ततो मुद्ररप्लवौ इति ॥

मुत्तरावीति

இனி முத்ராவிதி செல்லப்படுகிறது. அதில், ப்ரம்ஹா:- இனி முத்ரைகளைக் காண்பிக்க வேண்டும். ஸம்முகம், ஸம்புடம், விததம், விஸ்தீர்ணம், த்விமுகம், த்ரிமுகம், சதுர்முகம், பஞ்சமுகம், ஷண்முகம், அதோமுகம், வ்யாபகாஞ்ஜலிகம், சகடம், யமபாசம், க்ரதிதம், ஸம்முகோன்முகம், விலம்பம், முஷ்டிகம், மீனம், கூர்மம், வராஹம், ஸிம்ஹாக்ராந்தம், மஹாக்ராந்தம், முத்கரம், பல்லவம் என்ற முத்ரைகள்.

एतासां लक्षणमाह स एव – संमुखं संहतौ हस्ताकुत्तानौ कुञ्चिताङ्गली ॥ कुञ्चिताः - वक्राः अङ्गुलयः ययोरुक्तलक्षणयोर्हस्तयोः तौ संमुखं नाम मुद्रा ॥ संपुटं पद्मकोशाभौ करावन्योन्यसंहतौ ॥ पद्ममुकुलाभौ करौ संपुटं नाम मुद्रा ॥ विततं संहतौ हस्ता कुत्तानावायताङ्गली ॥ आयताः - प्रसारिताः अङ्गुलयः ययोरुक्त-लक्षणयोः, तौ विततं नाम मुद्रा ॥

இவைகளுக்கு லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகின்றன. ப்ரம்ஹாவே:- வக்ரமான விரல்களை உடையதும் நிமிர்ந்ததுமான இரண்டு கைகளும் சேர்ந்தால் அது ‘ஸம்முகம்’ எனும் முத்ரையாம். தாமரையின் மொட்டுப் போன்று இருகைகளும் சேர்ந்தால் ‘ஸம்புடம்’ எனும் முத்ரையாம். விரிந்த விரல்களை உடைய கைகள் நிமிர்ந்து சேர்க்கப்பட்டால் ‘விததம்’ எனும் முத்ரையாம்.

விஸ்தீர்ண ஸங்ஹதை பாணி மி஥ோமுக்காஜுலி஦்யை ॥ முக்கு அஜுலி஦்ய யாத்யா பானித்யா தௌ மி஥ஸ்ஸங்ஹதை விஸ்தீர்ண நாம முடா ॥ ஸமுக்஖ாஸக்தயோ: பாண்யோ: கனிஷ்டாத்யயோगத: । ஶோஷாஜுலினாஂ வைரல்யே டிமுக்குதிமுக்காடய: ॥ மி஥ஸ்ஸமுக்஖ாஸக்தயோ: பாண்யோ: கனிஷ்டிகாத்யயோగேந ஶோஷாஜுலினாஂ வைரல்யே அஜுஷ்டாத்யமாரத்ய அநாமிகாந்த யாவது டிமுக்கு திமுக்கு சதுர்முக்கு பஞ்சமுக்கு நாம முடா மாந்தி । தற வகாரே டிமுக்கு ரேகாரே திமுக்கு பிகாரே சதுர்முக்கு யா காரே பஞ்சமுக்கும் ॥ ஶோஷாஜுலினாஂ ஸஂயோగாது பூர்வயோಗவினாஶத: । திர்யக்ஸஸ்யுஜ்யமாநாநாநை ஸஂயுக்காஜுலிம்ப்ளலை ॥ ஹஸ்தை ஷபுகுமித்யுக்கா முடா முடாவிஶாரதை: ॥ பூர்வயோக: = கனிஷ்டாத்யயஸ்யோக: । தட்டிநாஶேந இதராஜுலினாஸஸ்யோகாது திர்யக்ஸஸ்யுஜ்யமாநமங்கு யயோ:, தथா ஸஂயுக்க மஜுலிம்ப்ளல் ச யயோஸ்தை ஷபுக்கு நாம முடா ॥

இரண்டு கைகளும் சேர்ந்து, இரண்டு விரல்கள் மட்டும் சேராமல் இருந்தால் அது 'வில்தீர்ணம்' எனும் முத்தையாம். இரண்டு கைகளும் எதிராகச் சேர்ந்து, இரண்டு சிறுவிரல்கள் மட்டும் சேர்ந்தால், மற்ற விரல்கள் தனித்திருந்தால் இரண்டு பெருவிரல் முதல் அநாமிகை வரையில், த்விமுகம், த்ரிமுகம், சதுர்முகம், பஞ்சமுகம் என்ற முத்தைகள் ஆகின்றன. அதில் வகாரத்தில் 'த்விமுகம்' ரே என்பதில் 'த்ரிமுகம்' ணி என்பதில் 'சதுர்முகம்' யம் என்பதில் 'பஞ்சமுகம்'. இருசிறு விரல்களும் சேராமல், மற்ற விரல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து, குறுக்காய்ச் சேர்ந்துள்ள நுனியை உடையவகளும், விரல்களெல்லாம் சேர்ந்துள்ளதுமான இரண்டு கைகளும் இருப்பது 'ஷண்முகம்' எனும் முத்தையாம்.

ஆகுஞ்சிதாநை ஸஂயுக்கா ந்துஜை ஹஸ்தாவ்஧ோமுக்கும் ॥ ஈஷ்டக்ராநை அධ: கூதை ஹஸ்தை அ஧ோமுக்கு நாம முடா ॥ உதாநை தாடஶாவேஷ வ்யாபகை குஞ்சிதை கரை ॥ தாடஶை - ஸஂயுக்காதுக்கல்க்ஷணை கரை வ்யாபகாஜுலிக்காம முடா ॥ 'அ஧ோமுக்கை ஜஸ்முடிமுகாயாஜுஷ்டகை கரை । ஶகட்டாம கழிதம் ॥

मुक्ताग्रौ अङ्गुष्ठौ ययोः उत्तलक्षणयोः करयोः तौ शकटं नाम मुद्रा ॥
 यमपाशमतः परम् ॥ बद्धमुष्टिकयोः पाष्योरुत्ताना वामतर्जनी ।
 कुञ्चिताग्राऽन्यथा युक्ता तर्जन्या न्युञ्जवक्रया ॥ बद्धमुष्टिकरूपयोः
 पाष्योः या उत्ताना कुञ्चिताग्रा वामतर्जनी अन्यथा दक्षिणतर्जन्या
 न्युञ्जवक्रया युक्ता, सा यमपाशं नाम मुद्रा ॥
 उत्तानसन्धिसंलीनबद्धाङ्गुलितलौ करौ । संमुखा घटितौ दीर्घाङ्गुष्ठौ
 ग्रथितमुच्यते ॥ उत्तानानि सन्धिसंलीनानि बद्धानि अङ्गुलितलानि
 ययोस्तथोक्तौ । तावन्योन्यमुखघटितौ दीर्घौ अवक्रौ अङ्गुष्ठौ ययोस्तौ
 ग्रथितं नाम मुद्रा ॥

केऽनुचम्दं वजैनान्तु ऊळीये ऊळीवेकरुम्,
 कैँ नेंोक्कियवेवेकरुमाण केकल्ल इरुप्पतु,
 'अतेऽमुकम्' ऎन्ऱ मुत्तरेयाम्. अतेमात्रीयाण
 केकल्ल मेलं नेंोक्कियताय् इरुप्पतु
 'व्यापकाञ्जलिकम्' ऎन्ऱ मुत्तरेयाम्.
 मुञ्चियउटयतुम्, बेरुवीरलंकलीं नुनीमट्टिलं
 विटप्पट्टतुम्, कैँ नेंोक्कियवेवेकरुमाण केकल्ल
 इरुप्पतु 'कटम्' ऎनुम् मुत्तरेयाम्. मुञ्चियायप्प
 प्रियक्कप्पट्ट केकरुम्ल इटु तर्जुलीं वीरलं निमिर्नंतु
 वेकरमाण नुनीयउटयताय्, कविम्नंतुम् वेकर
 नुनीयउटयतुमाण वलतु तर्जुलीं वीरलुटनं
 कौटियिरुन्ताल, 'यमपाशम्' ऎन्ऱ मुत्तरेयाम्.
 निमिर्नंतवेवेकरुम् चन्तुकलील मरेन्तवेवेकरुम्
 चेरक्कप्पट्टवेवेकरुमाण वीरलंकलीं ऊळीपाकत्तत
 उटेयवेयाण केकल्ल एतिराकस्च चेरक्कप्पट्टपतु,
 बेरुवीरलंकल्ल निन्दिग्रुप्पतु 'क्रतितम्' ऎन्ऱ मुत्तरेयाम्.

सञ्चितोधर्वाङ्गुलिर्वामस्तादशा दक्षिणेन तु । अधोमुखेन
 संयुक्तसंमुखोन्मुख उच्यते ॥ सञ्चिताः - संबद्धाः ऊर्ध्वाङ्गुलयः यस्य स
 तथोक्तः तादशा दक्षिणेन अधोमुखेन संयुक्तः संमुखोन्मुखं नाम मुद्रा ॥

உத்தானோந்தகோடி து விலம்஬ः கथிதௌ கரை । உத்தானோந்த கோடி யயோ: கரயோ: தௌ விலம்஬ோ நாம முட्रா ॥

சேர்க்கப்பட்ட விரல்களை உடைய இடதுகை, அவ்விதமான கீழ் நோக்கிய வலது கையுடன் சேர்ந்திருந்தால் ஸம்முகோன்முகம்' என்ற முத்தையாம். நிமிர்ந்தும், உயர்ந்ததுமான நுனியை உடைய கைகள் உள்ளது 'விலம்பம்' என்ற முத்தையாம்.

முட்டி சாந்யோந்யஸंயுக்தாவுதானை முடிகோ ஭வேத् ॥ அந்யோந்யஸंயுக்தை உத்தானை முட்டி முடிகோ நாம முட்ரா ॥ மீனஸ்து ஸமுखி஭ूதை யுக்தா நாமிகனிஷ்டிகை । ஊர்வஸंயுக்தவக்ரா஗்ரஶோஷாஜுலி஦லை கரை ॥ யுக்தை ஸஂங்கே அனாமிகாகனிஷ்டிகேயயோ: கரயோ: தௌ தயோக்தை । தாவந்யோந்யஸமுखி஭ूதை । ததா ஊர்வஸंயுக்தானி வக்ராணி ஶோஷாஜுலி஦லானி யயோ: கரயோ: தௌ மீனோ நாம முட்ரா ॥

பரஸ்பரம் சேர்ந்ததும், நிமிர்ந்ததுமாய் உள்ள முஷ்டிகள் இரண்டுமூல்ளது 'முஷ்டிகம்' எனும் முத்தையாம். சேர்க்கப்பட்ட அநாமிகா, கநிஷ்டிகா என்ற இருவிரல்களை உடையதும், பரஸ்பரம் நேராக உள்ளதும், உயர்ந்து சேர்ந்து வக்ரங்களான மற்ற விரல்களை உடையதுமான கைகளை உடையது 'மீனம்' என்ற முத்தையாம்.

அधோமுக: கரோ வாமஸ்தாடஶா ஦க்ஷிணே து । பூஷ்டேஶோ ஸமாக்ராந்த: கூர்மோ நாமாமி஧ியதே ॥ அ஧ோமுக: - ந்யுஜ: வாமஹஸ்த: தாடஶா ஦க்ஷிணே பாணிநா பூஷ்டேஶே யுக்த: கூர்மோ நாம முட்ரா ॥ ஊர்வம஧்யோ வாமமுஜ: கக்ஷாம்யா ஜாஶ்ரயே கரே । வாராஹ: க஥்யதே ॥ கக்ஷஸமீபாஶ்ரயே கரே ஸதி உக்ளக்ஷண: வாமமுஜ: வாராஹோ நாம முட்ரா ॥

கீழ் நோக்கிய இடது கை அவ்விதமான வலது கையால் பின்புறத்தில் சேர்க்கப்பட்டால் 'கூர்மம்' என்ற

मुत्तरेरयाम्. कष्ठत्तिर्णु उमीपत्तिल वलतु केक इरुक्कुम्प
पेपामुतु, उयर्नंत नुप्पोकत्तत्त उलेय इटतु केकय
उलेयतु 'वराहम्' एन्न मुत्तरेरयाम्.

सिंहाक्रान्तं कणाश्रितौ करौ। तावायताङ्गुलीभूय ततः परमिहोच्यते।
कणाश्रितावायताङ्गुली करौ सिंहाक्रान्तं नाम मुद्रा ॥ किञ्चिदाकुञ्चिताग्रौ
चेन्महाक्रान्तं ततः परम् ॥ तावेव आकुञ्चिताग्रौ महाक्रान्तं नाम मुद्रा ॥
अर्धं किञ्चिद्रूर्धं गतयोः पाण्योः या वामतर्जनी दक्षिणहस्तेन गृहीता, सा
मुद्ररो नाम मुद्रा ॥ पल्लवो दक्षिणः करः । अधोमुखस्ततो मूर्धिन
मुद्राणामिति लक्षणम् इति ॥ उक्तलक्षणः मूर्धिन निहितः करः पल्लवो
नाम मुद्रा ॥

कातुकलील वेवक्कप्पपट्टुम्, वीरीन्त विरलं कैला
उलेयतुमाण केककैला उलेयतु 'लिम्हराकर्रान्तम्',
एन्न रुम्ह उलेयपटि उलंगा केककैला
केकाञ्चंसम वैलान्त नुनीकैला उलेयवेयाय इरुन्ताल
'महराकर्रान्तम्' एन्नुम मुत्तरेरयाम्. केकाञ्चंसम
उयर्नंतुला केककैला, इटतु केकयिं तरंजनी वीरल,
वलतु केकयाल पीटिक्कप्पपट्टिरुन्ताल 'मुत्तकरम्' एन्नुम
मुत्तरेरयाम्. वलतु केक कविम्हन्तताय. चिरल्लील
वेवक्कप्पपट्टाल 'पल्लवम्' एन्न रुम्ह मुत्तरेरयाम्.
इवंवितम मुत्तरेरकैला लक्षणम उलेयपट्टतु.

पितामहः - पद्ममुद्रा सौरभेयी शङ्खमुद्रावराहकौ ।
वासुदेवात्मसंविच सप्तव्याहतिमुद्रिकाः ॥ अथाङ्गुष्ठद्वयं मध्ये दत्वाऽथ
परितः करौ । मण्डलीकरणं सम्यगङ्गुलीनां च सर्वशः ॥ पद्ममुद्रा भवेदेषा
सौरभेयी ततः परम् । अनामिके कनिष्ठाभ्यां तर्जनीभ्यां च मध्यमे ॥
अन्योन्यामिमुखे लिष्टे, शङ्खमुद्रा ततः परम् । वामाङ्गुष्ठं तु सङ्घृत्य
दक्षिणेन तु मुष्टिना ॥ कृत्योत्तानं तथा मुष्टिमङ्गुष्ठे तु प्रसारयेत् ॥

வாமாஜுல்யஸ்தथா ஦ृष்டः ஸंயुक்தாः ஸंப்ரஸரிதாः । ஦க்ஷிணாஜுஷ்டஸஸ்பூஷ்டா முட्रா
ஶஸ்த்ரஸ்ய சோதிதா ॥ ஦க்ஷஸ்தஂ சோ஧்வமுखं வாமஹஸ்தம஧ோமுखம् । அஜுல்யங்
து ஸंயுக்தமுட்ரா வாராஹஸ்திதா ॥ அஜுல்யா சாத்மமுட்ரா ஸ்யாதாஸுதேவாமி஧ா
ச சா । ஦க்ஷிணாஜுஷ்டதர்ஜ்ஞை ஸंயுக்தாगே ஹடிஸ்஥ிதே । ப்ரஸரிதா-
ஸ்தாஜுல்யः ஸ்விந்முட்ரா ஸ்மृதா ஬ுதைः ।

பிதாயமஹர்:- பத்மம், ஸெளரபேயீ, சங்கம்,
வாராஹம், வாஸ-தேவம், ஆத்மா, ஸம்வித் என்று ஏழும்
வயாஹ்ருதிகளின் முத்ரைகளாம். இரண்டு
பெருவிரல்களையும் நடுவில் வைத்து, இரண்டு கைகளையும்
விரித்து மண்டலமாய் செய்வது ‘பத்மம்’ எனும்
முத்ரையாம். இரண்டு பவித்ர விரல்களும் இரண்டு
சிறுவிரல்களாலும், இரண்டு நடுவிரல்களும் இரண்டு
தர்ஜனீ விரல்களாலும், பரஸ்பரம் எதிராய்ச்
சேர்க்கப்பட்டால் ‘ஸெளரபேயீ’ (தேனு) எனும்
முத்ரையாம். இடது கையின் பெருவிரலை வலதுகை
முஷ்டியினால் பிடித்து, முஷ்டியை நிமிர்த்து விரிக்கவும்.
இடது கையின் விரல்கள் சேர்ந்து விரிக்கப்பட்டு வலதுகை
அங்குஷ்டத்துடன் சேர்ந்தால் ‘சங்கம்’ எனும் முத்ரையாம்.
வலதுகை மேல் நோக்கியதாயும், இடதுகை
அதோமுகமாயும், விரல்களின் நுனிகள் சேர்ந்திருந்தால்
‘வாராஹம்’ எனும் முத்ரையாம். அஞ்ஜலி செய்வது ‘ஆத்ம’
முத்ரையாம். அதுவே ‘வாஸ-தேவ’ முத்ரையாம்.
வலதுகையின் பெருவிரலும் தர்ஜனியும் சேர்ந்து மார்பில்
இருந்து, மற்ற விரல்கள் விரிக்கப்பட்டிருந்தால் ‘ஸம்வித்’
என்ற முத்ரையாம்.

முட்ரா து மோदயேஹ்வீ ஦்ராவயேஹ்ரிதம் ததா ॥ ந ஜாது ஦்ரயைந்முட்ரா
மஹாஜநஸமாగமே । க்ஷும்யந்தி ஦ேவதாஸ்தஸ்ய ஫ல்ச ந கூத் ஭வேத் ॥ அஞ்சை
ஜபகாலே து ஧்யானே காம்யே ச கர்மணி । தத்முட்ரா: ப்ரயோக்தவ்ய
தேவஸாநி஧்யகாரிகா: இதி ॥

मुत्तरे एन्पतु कायत्रीये लन्तेऽविक्कक्षं
चेयंकिरतु. तुरीतम् एनुम् पापत्तेत छट्चेयंकिरतु.
आकेयाल मुत्तरे एन्पपटुकिरतु. ज्ञनंकलं कूट्टत्तिलं
मुत्तरेरयेक काणपीक्कक्क कूटातु. अव्विटत्तिलं
काणपीत्ताल तेवतेकलं कोपीक्किन्ऱनर. पलनुम्
किटक्कातु. पूजेयिलुम्, जपत्तिलुम्, त्याणत्तिलुम्,
काम्यकर्मत्तिलुम् अन्तन्त मुत्तरकला प्रयोक्किक्क
वेण्णुम्. तेवलाण्णीत्यत्तेतक्षं चेयंकिन्ऱवेयाम्.



गायत्रीध्यानम् ॥

अथ गायत्रीध्यानम् ॥ तत्र गोभिलः - प्रातगायत्री रविमध्ये
स्थिता रक्तवर्णा कुमारी अक्षमालाहस्ता हंसासनसमारूढा ब्रह्मदेवत्या
क्रमेदमुदाहरन्ती ॥ मध्यन्दिने सावित्री रविमध्ये स्थिता श्वेतवर्णा
यौवनस्था त्रिनेत्रा शूलहस्ता वृषभासनसमारूढा रुद्रदेवत्या
यजुर्वेदमुदाहरन्ती । सायं सरस्वती रविमध्ये स्थिता श्यामवर्णा वृद्धा
चतुर्भुजा चक्रहस्ता सुपणासिनसमारूढा विष्णुदेवत्या
साम्रेदमुदाहरन्ती इति ॥

कायत्री त्याणम्

अिणी कायत्री त्याणम् चेऽवलप्पटुकिरतु. अतिलं,
कोपिलरः - कालैलयिल, कायत्री लार्य मत्यत्तिलं
अिरुप्पवलायुम्, चिवप्पु वर्णामृतेयवलायुम्,
कुमारीयायुम्, जपमालयेक केयिल उत्तेयवलायुम्,
लूम्लालनत्तिल अिरुप्पवलायुम्, प्रमलूलावेवत्
तेवतेयाय उत्तेयवलायुम्, गुक्वेवतत्तेतप्
प्रिप्पवलायुम् त्याणीक्कप्पत वेण्णुम्.
मत्यावर्णनत्तिल, लावीत्री लार्य मत्यत्तिलं
अिरुप्पवर्णम्, वेण्णीरमाणवर्णम्, येणावनत्तिलं
अिरुप्पवर्णम्, लुन्नरु कण्कर्णुतेयवर्णम्, कुलम्
तरीत्तवर्णम्, वरुषपा लनत्तिल अिरुप्पवर्णम्,

ரூத்ரனைத் தேவதையாய் உடையவளும், யஜார் வேதத்தைப் படிப்பவளுமாய், த்யானிக்கப்பட வேண்டும். மாலையில், ஸரஸ்வதி ஸஹர்ய மத்யத்துவிருப்பவளும், கறுப்பு நிறமுடையவளும், வருத்தையும், நான்கு புஜங்களுடையவளும், சக்ரத்தைக் கையிலுடையவளும்; கருடாஸனத்தில் இருப்பவளும், விஷ்ணுவைத் தேவதையாய் உடையவளும், ஸாம வேதத்தைப் படிப்பவளுமாய் த்யானிக்கப்பட வேண்டும்.

గृह्णपरिशिष्टे – அथ देवताध्यानम् – या सन्ध्योक्ता सैव मन्त्रदेवता खलूपास्यते । तां सर्वैकरूपां ध्यायेत् । अनुसन्ध्यमन्योन्यं भिन्नरूपां वा । यदैकरूपामृग्यजुस्सामन्त्रिपदां तिर्यगृध्वधिरां षट्कुक्षिं पञ्चशीषिमित्रिमुखीं विष्णुहृदयां ब्रह्मशिरसं रुद्रशिखां दण्डक-मण्डलवक्षसूत्राभयाङ्कं चतुर्भुजां शुभ्रवर्णां शुभ्राम्बरानुलेपनस्त्रगाभरणां शारचन्द्रसहस्रप्रभां सवदैवमयीमिमां देवीं गायत्रीमेकामिव तिसूலु सन्ध्यासु ध्यायेत् ॥

க்ஞஞ்யபரிசிஷ்டத்தில்:- இனி, தேவதா த்யானம் சொல்லப்படுகிறது. எவள் ஸந்த்யை என்று சொல்லப்பட்டவளோ. அவளே மந்த்ர தேவதையாய் உபாளிக்கப்படுகிறள். அவளை எப்பொழுதும் ஒரே ரூபமுடையவளாய் த்யானிக்கவும். ஒவ்வொரு ஸந்த்யையிலும் தனித்தனியாய் மாறிய ரூபமுடையவளாக வாவது த்யானிக்கவும். ஏக ரூபையாய் த்யானித்தால், ருக்கு, யஜாஸ், ஸாம இவைகளை மூன்று பாதங்களாய் உடையவளும், திர்யக், ஊர்த்வம், அதரம் என்று மூன்று விதமாயுள்ளவளும், ஆறு குக்கிகளை உடையவளும், ஐந்து சிரஸ்ஸ-களுடையவளும், அக்னியை முகமாகவும், விஷ்ணுவை ஹ்ருதயமாகவும், ப்ரம்ஹாவைச் சிரஸ்ஸாகவும், ருத்ரனைச் சிகையாக உடையவளும், தண்டம், கமண்டலு, ஜபமாலை, அபயம் இவைகளைத்தரித்த நான்கு கைகளுடையவளும், வெண்ணிறம் உடைய

வரும், வெண்ணிறமான வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணம் இவைகளை உடையவரும், சரத் காலத்திலுள்ள ஆயிரம் சந்தர்ன் போன்ற காங்ஞி உடையவரும், ஸகல தேவதா ரூபினியுமாக இந்தக் காயத்ரீ தேவியை ஒரு ப்ரகாரமாகவே, மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் தயானிக்கவும்.

अथ यदि भिन्नरूपां प्रातर्बालिं बालादित्यमण्डलमध्यस्थां
रक्तवर्णां रक्ताम्बरानुलेपनस्त्रगामरणां चतुर्वर्कत्रां दण्डकमण्डलवक्ष-
सूत्राभयाङ्कचतुर्भुजां हंसासनारूढां ब्रह्मदेवत्यां ऋग्वेदमुदाहरन्तीं
भूलोकाधिष्ठात्रीं गायत्रीं नाम देवतां ध्यायेत्।

அல்லது, பின்ன ரூபமுடையவளாய் த்யானிப்பதானால், காலையில், பாலையாயும், பால ஸ-மர்ய மண்டலத்தில் இருப்பவளாயும், சிவப்பு வர்ணம் உடையவரும், சிவந்த வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணம் இவைகளை உடையவரும், நான்கு முகங்களுடையவரும், தண்டம், கமண்டலு, ஜபமாலை, அபயம் இவைகளையுடைய நான்கு புஜங்களுடையவரும், ஹம்ஸாஸனத்தில் அமர்ந்தவரும், ப்ரம் ஹு தேவதையாயும், ருக்ஷேத்த்தைப் படிப்பவளாயும், பூலோகத்தில் இருப்பவளாயும், காயத்ரீ என்ற நாமம் உடையவருமான தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

अथ मध्यन्दिने तां युवर्तीं युवादित्यमण्डलस्थां श्रेतवर्णा
श्रेताम्बरानुलेपनस्तगाभरणां पञ्चवक्त्रां प्रतिवक्त्रं त्रिनेत्रां पञ्चदोखरां
शूलखड्गखद्वाङ्गमरुकाङ्गचतुर्मुजां वृषभासनारूढां रुद्रदेवत्यां
यजुर्वेदमुदाहरन्तीं भुवोलोकाधिष्ठात्रीं सावित्रीं नाम देवतां ध्यायेत्।

பிறகு, மத்யாஹ்னத்தில், அவளை யவதியாயும், யெளவனமுள்ள ஸ-அர்ய மண்டலத்தில் இருப்பவரும், வெண்ணிறம் உள்ளவரும், வெண்ணிறமான வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணம் இவைகளை உடையவரும், ஜிந்து முகமுடையவரும், ஓவ்வொரு முகத்திலும் மூன்று

கண்களுடையவரும், ஐந்து முடிகளுடையவரும், சூலம், கத்தி, கட்வாங்கம், டமருகம் இவைகளைத் தரிக்கும் நான்கு கைகளை உடையவரும், வருஷப வாகனத்தில் இருப்பவரும், ருத்ரனைத் தேவதையாய் உடையவரும், யஜூர் வேதத்தைப் படிப்பவரும், புவோலோகத்தில் இருப்பவரும், ஸாவித்ரீ எனும் நாமம் உடையவருமான தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

அथ ஸாய் வृத्तां வृத्तादित्यमण्डलस्थां இயामवर्णा
इयामाम्बरानुलेपनस्तगाभरणामेकवक्त्रां रात्रचक्रगदापभाक्षचतुर्भुजां
गरुडासनारूढां विष्णुदेवत्यां सामवेदमुदाहरन्तीं स्वलोकाधिष्ठात्रीतां
सरस्वतीं नाम देवतां ध्यायेत् इति ॥ व्यासः - न मिच्चां प्रतिपद्येत गायत्री
ब्रह्मणा सह । साऽहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केनचित् इति ॥
एतत्सर्वं सन्ध्यानिरूपणे दर्शितम् ॥

பிறகு, மாலையில், வருத்தையும், வருத்தமான ஸார்ய மண்டலத்தில் இருப்பவரும், கறுப்பு நிறம் உடையவரும், கறுத்த வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணம் இவைகளைத் தரித்த நான்கு புஜங்களை உடையவரும், கருடாஸனத்தில் இருப்பவரும், விஷ்ணுவைத் தேவதையாய் உடையவரும், ஸாமவேதத்தைப் படிப்பவரும், ஸ்வர்லோகத்தில் இருப்பவரும், ஸரஸ்வதி எனும் பெயருடையவருமாகிய தேவதையாய் த்யானிக்கவும். வ்யாஸர்:- காயத்ரியை, ப்ரம்ஹத்துடன் பேதமுள்ளதாக நினைக்கக் கூடாது. அவளாகவே நான் இருக்கின்றேன் என்று எந்த ப்ரகாரத்தாலாவது உபாலிக்க வேண்டும். இது முழுதும் ஸந்த்யா நிருபணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ततः गायत्र्यास्तुरीयं पादं जपित्वा तेन गायत्रीमभिमुखीकृत्य
जपेत् ॥ तदुक्तं व्यासेन - तुरीयं तु पदं तस्याः परे ब्रह्मणि संस्थितम् ।

उपस्थाय तुरीयेण जपेत्तां तु समाहितः इति ॥ पितामहः - गायत्र्यास्तु त्रयः पादाश्चतुष्पादपि सा स्मृता । जपे तु त्रिपदैवोक्ता ह्यचने तु चतुष्पदा इति । तुरीयपादस्वरूपमुक्तं चन्द्रिकायाम् - तुरीयं पादं परोरजसि सावदोमित्यष्टाक्षरं तस्य विमलक्रषिः तुरीयं छन्दः परमात्मा देवता मोक्षे विनियोगः इति ॥

पीरकु, कायत्तरीयिनं नानंकावतु पातत्तत्ते ज्ञपित्तु, अतालुलं कायत्तरीये अपिमुकमाक्कि ज्ञपिक्कवुम्. अतेतच्च चेऽल्लियूलार्व व्याख्यासारः:- कायत्तरीयिनं नानंकावतु पातम् परप्ररह्मत्तिलुलातु. अन्त नानंकावतु पातत्तालं कायत्तरीये उपस्तानम् चेय्तु कवनमुण्टयवण्ण्य ज्ञपिक्क वेण्णुम्. पीतामहारः:- कायत्तरीक्कुप्प पातन्कल्ल मून्ऱु, अवलं नानंकु पातन्कगुण्टयवलं एन्ऱुम् चेऽल्लप्पट्टिरुक्किरुलं. ज्ञपत्तिलं मून्ऱु पातन्क गुण्टयवले वित्तिक्कप्पट्टिलालां. अर्च्चनत्तिलं नानंकु पातन्कगुण्टयवलाय्च चेऽल्लप्पट्टिरुक्किरुलं. नानंकावतु पातत्तिलं लेवरुपम् चेऽल्लप्पट्टिलालातु चन्त्तरीयेलिः:- 'परोरजली लावतेओम्' एन्ऱु एट्टु अक्षरंकगुलातु नानंकावतु पातम्, अतर्कु विमलरुव्व, तुरीयम्, चन्त्तलं, परमात्मा तेवतेत, मेंक्षुत्तिलं विनियोगकम् एन्ऱु.

—★—

गायत्रीमहिमा ।

अथ गायत्रीमहिमा । तत्र मनुः - अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । वेदत्रयान्निरदुहत् भूर्बुः स्वरितीति च ॥ निरदुहत् - निश्चकर्ष ॥ तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः । त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादं मदूदुहत् ॥ एतदक्षरमेतां च जपन् व्याहृतिपूर्विकाम् । सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते इति ॥ अक्षरम् - प्रणवम् । एतां - सावित्रीम् । वेदत्रयार्थविदः वेदत्रयजापिनः यत्फलम्, तल्लभत इत्यर्थः ॥

කායත්රී මහ්‍රිමෙ

இனி කායත්රී යින් මහ්‍රිමෙ ජොල්ලප්පගූ කිරුතු. அதில் மனு:- ப்ரம்ஹதேவன், அகாரம், உகாரம், மகாரம் இம்மூன்றையும், பூ:, புவ:, ஸ்வ:, இம்மூன்றையும், மூன்று வேதங்களினின்றும் வெளியாக்கினார். ப்ரம்ஹதேவன், 'தத்' என்ற ஸ்வித்ரு தேவதாகமான ருக்கின் மூன்று பாதங்களையும், ருக், யஜாஸ், ஸாமம் என்ற மூன்று வேதங்களினின்றும் வெளியேற்றினார். ஆகையால், இந்த ப்ரணவாக்ஷரத்தையும், வ்யாஹ்ருதிகள் மூன்றுடைய இந்தக் கායත්රීயையும், இரு ஸந்த்தைகளிலும் ஐபிக்கும் வேதமறிந்த ப்ராம்ஹணன், வேதாத்யயன புண்யத்துடன் சேருகிறான். மூன்று வேதங்களின் அர்த்தத்தை அறிந்தவனும், அவைகளைப் படிப்பவனும் ஆகியவனுக்கு எந்தப் பல்லே அதை அடைகிறான், என்பது பொருள்.

स एव – एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ।
विप्रक्षत्रियविभौनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ सहस्रूल्यस्त्रभ्यस्य
बहिरेतत्त्विकं द्विजः । महतोऽप्येनसो मासात् त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षण्यतन्दितः । स ब्रह्म परमभ्येति
वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ अतन्दितः - शक्तौ सत्यां न
कदाचिदप्यन्यपरः । वायुभूतः - सर्वव्यापी । खमूर्तिमान् -
लेपरहितः ॥

மனுவே:- ஸந்த்தைகளில் இந்தக் கායත්රීயை ஐபிக்காமலும், மற்றக் காலத்தில் விஹ්‍யிதமான கர்மத்தைச் செய்யாமல் இருக்கும் ப்ராம்ஹணன், கஷ்த்ரியன், வைச்யன் யாராயினும், ஸாதுக்கள் நடுவில் நிந்தையை அடைகிறான். த்விஜன் வெளியில் நதீதீரம் அரண்யம் முதவிய இடத்தில், ப்ரணவம், வ்யாஹ்ருதிகள், கායත්ரී என்ற இம்மூன்றையும் ஆயிரம் முறை ஐபித்தால் ஒருமாஸத்தில், மஹாபாபத்தினின்றும் கூட, ஸர்ப்பம் சட்டையிடமிருந்து

पोाळ वीटुपटु किऱुन. नवं चक्तियूंला कालत्तुल
चेऽम्पलर्हवण्य, मुंरु वर्षकालम् प्ररक्षिणमुम्
कायत्रीये ज्ञपिक्किन्ऱुगेऽ, अवं, वायुपृथग्न्य (लर्व
व्यापियाय), कमुर्त्तियाय (पापत्तिनं पर्हर्हवण्य)
परप्रम्हर्त्तत अटेकिऱुन.

शास्त्रान्तरेषु ब्रह्मप्रासेरुपायः समाधिरित्युक्तम् । तस्मादपि
प्रणवादित्रिकजपो विशिष्टतर इत्याह स एव – एकाक्षरं परं ब्रह्म
प्राणायामः परं तपः । सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते
इति ॥ प्राणायामशब्देन व्याहृतयो लक्ष्यन्ते । मौनम् – समाधिः । सत्यम्
- जपः । प्रणवः - परब्रह्मस्वरूपम् । व्याहृतयः परमतपः साधनभूताः ।
सावित्र्या विशिष्टं न किंचिदस्ति । तस्मात्तेषां जपः समाधेरपि विशिष्यत
इत्यर्थः ॥ यमोऽपि – गायत्री चैव वेदांश्च तुलयाऽतुलयत् प्रभुः ।
एकतश्चतुरो वेदान् साज्जांश्च सपदक्रमान् ॥ एकतश्चैव गायत्रीतुल्यरूपा तु
सा स्मृता इति ॥

मर्हर्षं चास्तरंकर्णकर्णीलं, प्ररम्हप्राप्तिक्कु
उपायमाकियतु लमाति नंरु चेाल्लपपट्टुलालतु.
अतेवीट प्ररणवम् मुतवीय मुन्नरेयुम् ज्ञपिप्पतु
मिकक्षिरन्ततु नंकिऱुर. मनुवेः - प्ररणवम्
प्ररप्रम्हलस्वरूपम्. प्रराणुयाम चप्तत्तिर्कु
व्याहृतिकर्ण बेपारुल. अन्त व्याहृतिकर्ण चिरन्त
तपस्साक्कु लातनमाकियवे. कायत्रीये वीटच
चिरन्ततु ओन्ऱुमिल्लै. आकेयालं अवेकर्णीलं लत्यमं
(ज्ञपमानतु) मेलानत्तत (लमातिये) वीटचिरन्तताकिरतु. यमनुमः - प्रपुः = प्ररम्हतेवेन,
कायत्रीये युम्, वेतन्कर्णीयुम्, तराचालं निरुत्ततार,
अन्कन्कर्णीलं पतम् करमम् इवेकर्णीलं कृष्ण नान्कु
वेतन्कर्णीयुम् ओरु पक्कत्तिलुम् कायत्रीये ओरु
पक्कत्तिलुम् वेवत्तु निरुत्ततार. नान्कु वेतन्कर्णीलं कुम
लममाक अन्त कायत्री नंकन्नपपट्टतु.

शङ्कोऽपि – नाघर्मणित् परमन्तर्जले न व्याहतिभ्यः परं हुतं न
सावित्र्या: परं जप्यम् इति ॥ ब्रह्मोऽपि – गायत्र्या न परं जप्यं गायत्र्या न
परं तपः । गायत्र्या न परं ध्येयं गायत्र्या न परं हुतम् इति ॥ व्यासः –
दशकृत्वः प्रजापासा सा त्रियहाधत् कृतं लघु । तत्पापं प्रणुदत्याशु नात्र कार्या
विचारणा ॥ शतजसातु सा देवी पापौघशमना स्मृता । सह सजापा सा
देवी उपपातकनाशिनी ॥ कोटिजापेन गायत्र्या यदिच्छति तदाप्नुयात् ।
यक्षविद्याधरत्वं वा गन्धर्वत्वमथापि वा ॥ देवत्व मथवा राज्यं भूलोकं
वाऽप्यकण्टकम्' इति ॥

சங்கரும்:- ஜலத்தினுள் மூழ்கி ஜபிக்கும்
மந்த்ரங்களுள் அகமர்ஷணமந்த்ரத்தை விடச் சிறந்ததில்லை.
ஹோம மந்த்ரங்களுள் வ்யாஹ்ருதிகளைவிடச் சிறந்ததில்லை.
ஐபார்ஹமான மந்த்ரங்களுள் காயத்ரியைவிடச்
சிறந்ததில்லை. ப்ரமஹாவும்:- காயத்ரியைவிடச் சிறந்த
ஐப்ய மந்த்ரமில்லை. அதைவிடச் சிறந்த தபஸ் இல்லை.
அதைவிடச் சிறந்த தயேய வஸ்து இல்லை. அதைவிடச்
சிறந்த ஹோம மந்த்ரமில்லை. வ்யாஸர்:- பத்து முறை
ஐபிக்கப்பட்ட காயத்ரி, மூன்று நாட்களில் செய்யப்பட்ட
லகுவான பாபத்தைச் சீக்கிரம் அகற்றுகின்றார்கள். இதில்
ஸந்தேஹம் வேண்டாம். நூறுமுறை ஐபிக்கப்பட்டால்
அநேக பாபங்களை யகற்றுவதாய் சொல்லப்படுகிறார்கள்.
ஆயிரம் முறை ஐபிக்கப்பட்டால் உபபாதகங்களையும்
அகற்றுவார்கள். கோடி முறை ஐபிக்கப்பட்டால் எதை
விரும்புகின்றார்களே அதை அடைவான். யகுத்தன்மை.
வித்யாதரத் தன்மை, கந்தரவத்தன்மை, தேவத்தன்மை,
ராஜ்யம், சத்ருக்களற்ற பூலோகம் இவைகளில் எதை
விரும்பினாலும் அதை அடைவான்.

संवर्तः – ऐहिकामुष्मिकं पापं सर्वं निरवशेषतः । पञ्चरात्रेण
गायत्री जप्यमाना व्यपोहति । गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं
पापकर्मणाम् । गायत्रीमात्रसारोऽपि वरो विष्रः सुयन्त्रितः ।

नायन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशीं सर्वविक्रयी ॥ ब्रह्मचारी मिताहारः
सर्वभूतानुकम्पनः । गायत्र्या लक्षजापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
अयाज्ययाजनं कृत्वा भुक्त्वा चानं विगर्हितम् । गायत्र्यष्टसहस्रं तु जपं
कृत्वा विशुद्धयति इति ।

लम्बवार्त्त्तराः- ज्ञन्तु नांस ज्ञपिक्कप्पट्ट कायतर्ही
ज्ञव्विकमुम आमुष्मिकमुमाण लर्व पापत्तेत्युम
सेष्वमिन्नी अकर्त्रूकिरुन्. पापन्कलौ अकर्त्रूवत्तिल
कायतरीये वीट्स चिरन्तत्तिल्लै. नियमत्तुत्तन कृत्य
प्रराम्भून्नेन्न कायतरीये मट्टिल ज्ञपिप्पवन्नुय
इरुन्तालुम चिरन्तवनेन. नांकु वेतन्कलौक
कर्त्रवन्नयिन्नुम, नियममिल्लातवन्नय एल्लावर्त्तेयुम
पूज्यिप्पवन्नय, एल्लावर्त्तेयुम विर्पवन्नय इरुन्ताल
अवन्न चिरन्तवनल्ल. प्ररम्भूचारीयुम, मिताहारान्नुम,
लर्वप्रराणीकलीट्मुम तयेयुत्तेयवन्नमाय लक्ष्म
मुरै कायतरीये ज्ञपित्ताल लकल पापन्कलालुम
विउपदुकिरुन्. याज्ञन्तत्तिर्कु अन्नर्हर्कलूक्कु याज्ञन्म
सेय्वित्तालुम, निवित्तमाण अन्नन्तत्तेप्पुज्यित्तालुम,
कायतरीये आयिरत्तेत्तट्टु मुरै ज्ञपम चेय्ताल
सुत्तन्नकिरुन्.

विश्वामित्रः- प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । त्रिपदायां
च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित् ॥ गायत्र्यास्तु समो नास्ति मन्त्रो
वेदचतुष्ये ॥ सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । समानि
कलयाऽप्याहुः मुनयो न तदित्यृचः । परिहाप्यापि वेदांक्षीन् कर्माणि
विविधानि च । सावित्रीमात्र माप्तित्य द्विजो भवति निर्भयः इति ॥

विंश्वामित्तराः- प्रराणवम, एमु व्याहृतुक्तिकलौ
३ पातन्कलूत्तेय कायतर्ही इवेकलौ नित्यमुम
ज्ञपिप्पवन्नुक्कु औरुकालुम प्रयमिल्लै. कायतर्हीक्कु चममाण
मन्त्तरम, नांकु वेतन्कलौ इल्लै. लकल वेतन्कलौ,
यक्कुन्नकलौ, तान्नन्कलौ, तपस्सल्लकलौ इवेकलौयेलाम,

காயத்ரி யின் கலையோடு (பதினாறிலோருபங்கு) சமமாகக்கூட முளிவர் சொல்வதில்லை. ப்ராம்ஹணன் மூன்று வேதங்களை விட்டாலும், பலவித கர்மங்களை விட்டாலும், காயத்ரியை மட்டில் ஆச்சரியித்திருந்தால் பயமற்றவனும் ஆகின்றான்.

யோगயாஜவல்க்ய: – வாயுமக்ஷோ ஦ிநं ஸ்஥ித்வா ராत்ரி நீத்வா து
ஸ்ரூப்யக் । ஜஸ்வா ஸஹஸ்ர ஗ாயத்ரியா: ஶுचிர்஬ீதிவ஧ாத்தே ॥ ஸாய் பிராதஸ்து
யஸ்ஸந்஧்யாமஸ்கந்மாமுபதிஷ்டதே । ஜபந் வை பாவநீ ஦ேவீ பவித்ரா வேடமாதரம் ॥
ஸ தயா பாவிதோ ஦ேவ்யா பிராக்ஷணா ஧ूதகல்மஷ: । ந ஸீதேத் பிரதி஗ृதான: பூதிர்வீ
ச சுதாநாம் । ஗ாயத்ரியா லக்ஷ்ஜாபேந பாதகேம்யோ விமுஞ்யதே ।
ஸ்தாயாஞ்சதெந ஗ாயத்ரியா: ஶாதமந்தர்ஜலே ஜபேத் ॥ அப: ஶதெந பீத்வா ச
ஸ்ர்வபாபை: பிரமுஞ்யதே ॥ சுதுணர்மிபி வேடானாந் ஗ாயத்ரி ஜனநி ஭வேத் । தாமுபாஸ்தே
து யோ நித்யஂ ஸ விப்ர: பக்ளிபாவந: இதி ॥

யோகயாக்ஞவல்க்யர்: - ஒரு தினம் வாயுவை
ஆஹாரமாய்க் கொண்டிருந்து, ராத்ரியைப் போக்கி
மறுநாள் காலையில் ஸ அர்யாபிமுகங்கூய் காயத்ரியை ஆயிரம்
முறை ஜபித்தால், ப்ரம்மஹத்யை தவிர மற்ற
பாபங்களினின்றும் சுத்தங்கிறான். எவன் மாலையிலும்,
காலையிலும், தவரூது ஸந்த்யையை உபாஸிக்கின்றானே,
வேதமாதாவும், பாவனியுமான காயத்ரியை
ஜபிக்கின்றானே, அவன் அந்த காயத்ரீ தேவியினால்
சுத்தங்கக்கப்பட்டுப் பாபங்களற்றவனும் ஆகிறான்.
ஸமுத்ரங்களுடன் கூடிய பூமியை ப்ரதிக்ரஹித்தாலும்
தோழிமடைவதில்லை. ஸக்ஷம் முறை காயத்ரியை
ஜபித்தால் பாபங்களினின்றும் விடுபடுவான். நூறு முறை
ஜபித்து ஸ்நானம் செய்யவும். ஜலத்தினுள் மூழ்கி
நூறு முறை ஜபிக்கவும். நூறு முறை ஜபித்து ஜலத்தைப்
பருகவும். இவ்விதம் செய்யவன் ஸகல பாபங்களாலும்
விடுபடுவான். காயத்ரீ நாலு வேதங்களுக்கும் தாயாய்
ஆகின்றான். அவனை எவன் நித்யமும் உபாஸிக்கின்றானே,
அந்த ப்ராம்ஹணன் பங்க்திபாவனன் எனப்படுகிறான்.

मार्कण्डेयः - सर्वेषामपि पापानां सङ्करे समुपस्थिते । दशासाहस्रमध्यस्ता गायत्री शोधयेत्ततः इति ॥ चतुर्विंशतिमते - सावित्र्यास्तु जपन् कोटिं ब्रह्महत्यां व्यपोहति । लक्षाशीतिं जपेद्यस्तु सुरापानात् प्रमुच्यते । पुनाति हेमहतरं गायत्र्या लक्षसप्ततिः । गायत्र्याष्टष्ठिभिर्लक्षैर्मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ सावित्र्यष्टसहस्रं तु जपं कृत्वोत्थिते रक्षौ । मुच्यते सर्वपापेभ्यो यदि न ब्रह्महा भवेत् इति ॥

मार्कंकज्ञानेयारः - एल्लाप्ति पापान्कग्रुम् शेर्नंत्तालुम्, पञ्चाण्यिरम् मुरै ज्ञपिक्कप्पट्ट कायतर्गी, एल्लावन्नर्निनीन्ऱुम् विटुविप्पाळं. चतुर्विमस्ती मत्तत्त्विलः - कायतरीयेयकं कोटि मुरै ज्ञपित्तालं प्रमंहृत्येयपे प्रोक्कुकिरुन्. एन्नपतु लक्षम् मुरै ज्ञपिप्पवन्न शारापाण पापत्तिनीन्ऱुम् विटुपाटुकिरुन्. एमुपतु लक्षम् मुरै ज्ञपिप्पतु श्वरंजास्तेयम् शेयत्ववैनयम् सत्तमाकंकुकिन्ऱतु. अरुपतु लक्षम् मुरै ज्ञपिप्पवन्न, कुरुतलंपकमन पापत्तिनीन्ऱुम् सत्तमाकिरुन्. एन्नाण्यिरम् मुरै शारंयोत्यत्तिलं ज्ञपिप्पवन्न, प्रमंहृत्येय तवीर मर्त्र पापान्कग्रीनीन्ऱुम् विटुपाटुवाळं.

याज्ञवल्क्यः - यत्र यत्र च सङ्कीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तत्र तिलैर्होमो गायत्र्या वाचनं तथा इति ॥ योगयाज्ञवल्क्योऽपि - घृतयुक्तैस्तिलैर्वह्नौ हृत्वा तु सुसमाहितः । गायत्र्या प्रयतक्षुद्धः सर्वपापैः प्रमुच्यते इति ॥ वसिष्ठः - यदा यदा च सङ्कीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तदा तदा तिलैर्होमो गायत्र्या जप एव वा इति ॥ स्मृतिरत्ने - गायत्री मूल्यमादाय परस्मैयः प्रयच्छति । स जीवन्नन्त्यजातित्वं प्राप्नोतीह न संशयः इति ।

इति श्रीवैद्यनाथदीक्षितविरचिते स्मृतिमुक्ताफले

आहिककाण्डे पूर्वभागः समाप्तः

யாக்ஞவல்க்யரா:- எந்தெந்தப் பாபங்களில் தன்னை சிக்கியவனுடைய ப்ராம்ஹணன் எண்ணுகின்றானே அத்தில் காயத்ரியால் திலங்களால் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். அவ்விதமே திலதானமும் செய்ய வேண்டும். யோகயாக்ஞவல்க்யரும்:- கவனம் உடையவனுடைய, பாஹ்யாந்தர சுத்தனுடைய, நெய்யுடன் கூடிய திலங்களால் அக்னியில் ஹோமம் செய்தால், ஸகல பாபங்களாலும் விடுபடுகிறான். வலிஷ்டரா:- ப்ராம்ஹணன் எந்தெந்தக் காலத்தில் தன்னை பாபமுடையவனுடைய நினைக்கின்றானே, அந்தந்தக் காலத்தில், திலங்களால் காயத்ரியால் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். அல்லது காயத்ரியை ஜபிக்க வேண்டும். ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:- விலையைப் பெற்றுக் கொண்டு எவன் பிறநூக்கு காயத்ரியைக் கொடுக்கின்றானே, அவன் பிழைத்திருக்கும் போதே சண்டாளத் தன்மையை அடைகிறான், இதில் ஸம்சயமில்லை.

ஸ்ரீ வைத்யநாத தீச்விதர் இயற்றிய

ஸ்ம்ருதிமுக்தாபலத்தில்

ஆஹ்நிக காண்டத்தில்

பூர்வபாகம் முற்றிற்று.

॥ சுபம் ॥



வெளியிடுபவர் :

வேத தமிழ் ஈஸ்திர பரிபாலன ஸயை

(கும்பகோணம்) சார்பில்

ஸ்ரீ காஞ்சீ காமகோடி பீடம்

ஸ்ரீமடம் ஸம்ஸ்தானம்

1, சாலைத் தெரு, காஞ்சீபுரம் - 631 502.

விக்ருதி - 2010

Laser typeset & Printed at :

V.K.N. ENTERPRISES

164, R.H. ROAD, MYLAPORE, CHENNAI-4, 9840217036